


ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह



शंकरदानजी नाहटा

(ग्रन्थ प्रकाशक)



परम सहृदय, उदार एवं धर्मनिष्ठ
पूज्य ज्येष्ठ भ्राताजी

श्रीमान् दानमलजी नाहटा

की

स्वर्गस्थ आत्माको

सादर समर्पित ।

—शङ्करदान नाहटा

(ग्रन्थ प्रकाशक)

प्रक्कथन

—*—

जैनोंका प्राचीन इतिहास अस्तव्यस्त बिखरा हुआ है। ताम्र-पत्र और शिलालेखोंके अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत और लोकभाषाके काव्योंमें भी प्रचुर इतिहाससामग्री उपलब्ध होती है, उन सबको संग्रहकर प्रकाशित करना नितान्त आवश्यक है। आर्य्यसंस्कृतिमें गुरुका पद बहुत ऊंचा माना गया है उनकी भक्तिका महात्म्य अति विशाल है। धर्माचार्य्योंका इतिवृत्ति या जीवनचरित्र उनके भक्त शिष्यगुणानुवादरूप काव्योंमें लिखा करते हैं, ऐसे काव्य जैन-साहित्यमें हजारोंकी संख्यामें हैं परन्तु खेद है कि शोधके अभावसे अधिकांश (अमुद्रित काव्य) प्राचीन ज्ञानभण्डारोंमें पड़े-पड़े नष्ट हो रहे हैं और अद्यावधि जैसा चाहिए वैसा इस दिशामें प्रयत्न हुआ ज्ञात नहीं होता।

अद्यावधि प्रकाशित ऐ० काव्यसंग्रह

ऐतिहासिक भाषा काव्योंके संग्रहरूपसे अद्यावधि प्रकाशित ग्रन्थ हमारे समक्ष केवल ७ ही हैं। जिनमें “ऐतिहासिक राससंग्रह” नामक ४ भाग और “ऐतिहासिक सज्ञायमाला भा० १” श्रीविजय-धर्मसूरिजी और उनके शिष्य श्री विद्याविजयजी सम्पादित एवं श्री जिनविजयजी सम्पादित “जैन ऐतिहासिक गूर्जर काव्य संचय” और मोहनलालदलीचंददेसाई B. A. L. L. B. संशोधित “जैन ऐतिहासिक रासमाला” नामसे प्रकाशित हुए हैं।

इनके अतिरिक्त कई ऐतिहासिक काव्य स्वतन्त्र-ग्रन्थ १ रूपमें २ मासिकपत्रोंमें और कतिपय रास-संग्रहोंमें भी प्रकाशित हुए हैं।

ऐसे रास अभी तक बहुत अधिक प्रमाणमें अप्रकाशित हैं उन्हें शीघ्र प्रकाशित करना आवश्यक है जिससे ऐतिहासिक क्षेत्रमें नया प्रकाश पड़े। आचार्यों एवं विद्वानोंके अतिरिक्त कतिपय सुश्रावकोंके ऐ० काव्य भी उपरोक्त संग्रहोंमें प्रकाशित हुए हैं। तीर्थोंके सम्बन्धमें भी ऐसे अनेकों काव्य उपलब्ध हैं जिनका संग्रह भी मुनिराज श्रीविद्या-विजयजी सम्पादित “प्राचीन तीर्थमाला” और “पाटणचैत्य परि-पाटी” आदि पुस्तकोंमें छपा है एवं “जैनयुग” के अंकोंमें भी कई स्थानोंको चैत्यपरिपाटियाँ और तीर्थमालाएं प्रकाशित हुई हैं। हमारे संग्रहमें भी ऐसे अप्रकाशित अनेकों ऐतिहासिक काव्य हैं जिन्हें यथावकाश प्रकाशित किया जायगा।

आवश्यक्रीय स्पष्टोकरण

प्रस्तुत संग्रहमें अधिकांश काव्य खरतरगच्छीय ही हैं, इससे कोई यह समझनेको भूल न कर बैठे कि सम्पादकोंको अन्यगच्छीय काव्य प्रकाशित करना इष्ट नहीं था। हमने तपागच्छीय खोज-शोधप्रेमी विद्वान् मुनिवर्योंको तपागच्छीय अप्रकाशित काव्य भेजनेको विज्ञप्ति भी की थी, पर खेद है कि किसीकी ओरसे कोई सामग्री नहीं मिली। तब यथोपलब्ध सामग्रीको ही प्रकाशित करना पड़ा।

१ यशोविजयरस, कल्याणसागरसूरिरस, देवबिलास। २ जैनयुगके अङ्कोंमें। ३ प्राचीन गुर्जरकाव्यसंग्रहमें, रास संग्रहमें।

राजपूताना प्रान्त बीकानेरमें विशेषकर खरतरगच्छका ही प्रचार और प्रभाव रहा है। अतएव हमें अधिकांश काव्य इसी गच्छके प्राप्त हुए हैं। तपागच्छीय काव्य एकमात्र “श्रीविजय सिंह सूरि विजयप्रकाश रास” उपलब्ध हुआ था वह और तत्पश्चात् उपाध्यायजी श्रीसुखसागरजी महाराजने पालीतानेसे “शिवचूला गणिनी विज्ञप्तिगीत” भेजा था उन दोनोंको भी प्रस्तुत ग्रन्थमें प्रकाशित कर दिया है। हमारे संग्रहमें कतिपय पार्श्वचंद्रगच्छीय ऐ० काव्य हैं, जिन्हें प्रकाशनार्थ मुनिवर्य्य जगत्चंद्रजी कनकचंद्रजीने नकल करली है अतः हमने इस संग्रहमें देना अनावश्यक समझा।

प्रस्तुत ग्रन्थमें अधिकांश खरतरगच्छीय भिन्न-भिन्न शाखाओंके काव्योंका संग्रह है, एकही ग्रन्थमें एक विषयकी प्रचुर सामग्री मिलनेसे इतिहास लेखकको सामग्री जुटानेमें समय और परिश्रमकी बड़ी भारी बचत होती है। इस विशेषताकी ओर लक्ष्य देकर हमने अद्यावधि उपलब्ध सारे खरतरगच्छीय ऐ० काव्य प्रस्तुत संग्रहमें प्रकाशित कर दिये हैं, जिससे प्रत्युत विषयमें यह ग्रन्थ पूर्ण सहायक हो गया है। मूल पुस्तक छप जानेके पश्चात् श्रीजिनकूशलसूरि कृत श्रीजिनचन्द्रसूरि चतुःसप्ततिका और श्रीसूरचन्द्रगणि कृत श्रीजिनसिंहसूरिरास उपलब्ध हुए हैं, ग्रन्थके बड़े हो जानेके कारण उनको मूल प्रकाशित न करके ऐतिहासिकसार यथास्थान दे दिया है। संग्रहकी दृष्टिसे और शुद्ध प्रतियें मिल जानेसे पाठान्तर भेद सहित कतिपय अन्यत्र प्रकाशित काव्य भी इस ग्रन्थमें प्रकाशित किये हैं।*

* देखें प्रति-परिचय।

कई महत्वपूर्ण त्रुटक और अपूर्ण कृतिएं १ भी जो हमें उपलब्ध हुईं प्रकाशित कर दी गई हैं, यदि किसी सज्जनको उनकी पूर्ण प्रतियां मिलें तो हमें अवश्य सूचित करें।

ऐ० काव्योंकी प्रचुरता

जैसलमेर भण्डारकी सूची २ से ज्ञात होता है कि वहां भी एक त्रु० प्रति ३ में श्रीजिनपतिसूरि, जिनबल्लभसूरिके अपमंश गाहामें वर्णन, जिनप्रबोध मुनिवर्णन, जिनकुशलसूरि वर्णन (प्रति नं० ५२२ में) शेष श्रीजिनपतिसूरि स्तूपकलश (नं० ३५८ के अन्तमें) और श्रीजिनलब्धिसूरि गुरुगीत (पत्र २ नं० १५८६ में) विद्यमान हैं, परन्तु अद्यावधि हमें ये उपलब्ध नहीं हुए, सम्भव है कि कुछ कृतिएं वेही हों जो इस ग्रन्थमें प्रकाशित हैं* ।

खरतरगच्छका काव्य—साहित्य बहुत विशाल है। अपनी-अपनी शाखाका साहित्य उनके श्रीपूज्योंके पास है आद्यपक्षीय

१ श्रीजिनराजसूरिगास आदिकी गा० ९ (पृ० १५०), श्रीजिनदत्त-सूरि छप्पय आदि अन्त विद्धान (पृ० ३७३), श्रीकीर्तिरत्नसूरिफाग आदिकी गा० २७ (पृ० ४०१), श्रीजिनचन्द्रसूरिगीत अपूर्ण (पृ० १०१), विद्या-सिद्धिगीत आदि त्रुटक (पृ० २१४) ।

२ जैसलमेरके यतिवर्थ लक्ष्मीचंदजो प्रेषित ।

३ खरतरगच्छके आचार्योंके ऐतिहासिक—गुण वर्णनात्मक काव्योंकी अन्य एक महत्वपूर्ण प्रति अजीमगंजके भंडारमें थी, पर खेद है कि बहुत खोजनेपर भी वह उपलब्ध नहीं हुई ।

* देखें—“जैन साहित्यनो संक्षिप्त इतिहास” पृ० ९३७ से ९४६ ।

(पाली), लघु आचार्य, भावहर्षी और लखनऊ वालोंके पास खर-तरगच्छका बहुतसा ऐतिहासिक साहित्य प्राप्त होनेकी सम्भावना है।

हमारे संग्रहमें इधरमें और भी कई ऐतिहासिक काव्य उपलब्ध हुए हैं जो यथावकाश प्रकट किये जायँगे।

प्रस्तुत ग्रन्थकी उपयोगिता

यह ग्रन्थ दृष्टिकोणद्वयसे विशेष उपयोगी है। एक तो ऐतिहासिक और दूसरा भाषासाहित्य। कतिपय साधारण काव्योंके अतिरिक्त प्रायः सभी काव्य ऐतिहासिक दृष्टिसे संग्रह किये हैं, गुण वर्णनात्मक अनेक गीत, गहूलियें, अष्टक प्रभृति हमारे संग्रहमें है, परन्तु उनमेंसे ऐतिहासिक काव्योंको ही चुन चुनकर प्रस्तुत संग्रहमें स्थान दिया गया है। अद्यावधि प्रकाशित संग्रहोंसे भाषा साहित्यकी दृष्टिसे यह संग्रह सर्वाधिक उपयोगी है; क्योंकि इसमें बारहवीं शताब्दीसे लेकर बीसवीं शताब्दी तक लगभग ८०० वर्षोंके, प्रत्येक शताब्दीके थोड़े बहुत काव्य अवश्य संग्रहीत हैं।* जिनसे भाषा-विज्ञानके अभ्यासियोंको शताब्दीवार भाषाओंके अतिरिक्त कई प्रान्तीय भाषाओंका भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। कतिपय काव्य हिन्दी, कई राजस्थानी और कुछ गुजराती प्रभृति हैं। अपभ्रंश भाषाके लिये तो यह संग्रह विशेष महत्वका ही है, किन्तु नमूनेके तौरपर कुछ संस्कृत और प्राकृतके काव्य भी दे दिये गये हैं।

काव्यकी दृष्टिसे जिनेश्वरसूरि, जिनोदयसूरि, जिनकुशलसूरि, जिनपतिसूरि, जिनराजसूरि, विजयसिंहसूरि आदिके रास, विवाहला

* शताब्दीवार काव्योंका संक्षिप्त वर्गीकरण अन्य स्थानमें मुद्रित है।

बड़े सुन्दर और अलङ्कारिक भाषामें है। जिनको पढ़नेसे प्राचीन काव्योंके सज्जन, सौष्ठव, सुन्दर शब्द-विन्यास और फबती हुई उपमाओंके साथ साथ अनेक शब्दोंका अनुभव होता है।

इस संग्रहमें प्रकाशित प्रायः सभी काव्य समसामयिक लिपिबद्ध प्रतियोंसे ही सम्पादित किये गये हैं। इसका विशेष स्पष्टीकरण प्रति-परिचयमें कर दिया गया है।

शृङ्खलामें अव्यवस्थाका कारण

लगभग २॥ वर्ष पूर्व जब इस ग्रन्थको छपाना प्रारम्भ किया था तब जितने काव्य हमारे पास थे, सबको रचनाकालकी शृङ्खलानुसार ही प्रकाशित करना प्रारम्भ किया था, परन्तु उसके पश्चात् ज्यों-ज्यों नवीन सामग्री मिलती गई त्यों-त्यों इसमें शामिल करते गये। अतः जैसा चाहिये काव्योंका अनुक्रम ठीक न रह सका। फिर भी हमने पीछेसे ग्रन्थको चार विभागोंमें विभक्त कर चतुर्थ विभागमें अवशेष प्राचीन काव्योंको दे दिया है। रचना समयकी अपेक्षासे काव्य जिस शृङ्खलासे सम्पादन होने चाहिये उनकी स्वतन्त्र तालिका दे दी है, ताकि पाठकोंको शताब्दीवार भाषाओंका अम्यास करनेमें सुगमता और अनुकूलता मिले। ऐतिहासिक सार-लेखन (शाखा वार) क्रमिक पद्धतिसे ही हुआ है।

प्रस्तुत ग्रन्थको सर्वाङ्ग सुन्दर और विशेष उपयोगी बनानेका भरसक प्रयत्न किया गया है। जो लोग प्राचीन राजस्थानी और अपभ्रंश भाषासे अनभिज्ञ हों उनके लिये “कठिन शब्दकोश” और शृङ्खलाबद्ध ऐतिहासिकसार दे दिया है। इसके अतिरिक्त स्थान-

स्थानपर प्राचीन सुन्दर चित्र, विशेष नाम सूची, अनेक आवश्यक बातोंका स्पष्टीकरण (प्रति परिचय, कवि परिचय, चित्र परिचय आदि) कर दिया गया है ।

अशुद्धियोंका आधिक्य

काव्योंको यथाशक्ति संशोधन पूर्वक प्रकाशित करनेपर भी इस ग्रन्थमें अशुद्धियोंका आधिक्य है । इसका प्रधान कारण अधिकांश काव्योंकी एक-एक प्रतिका ही उपलब्ध होना है । जिनकी एकसे अधिक प्रतियें प्राप्त हुई हैं वे पाठान्तर भेदोंके साथ-साथ प्रायः शुद्ध ही छपे हैं । खेद है कि कतिपय अशुद्धियां प्रेस दोष और दृष्टि दोषसे भी रह गयी हैं । शुद्धिपत्र पीछे दे दिया गया है, पाठकोंसे अनुरोध है कि उससे सुधारकर पढ़ें । अधिकांश शुद्धिपत्र जालौरसे पुरातत्त्व-वेत्ता मुनिराज श्री कल्याणविजयजीने बनाकर भेजा था । अतएव हम पूज्यश्रीके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं ।

रास-सार

काव्योंका ऐतिहासिक सार अति संक्षिप्त और सारगर्भित लिखा गया है । पहले हमारा यह विचार था कि काव्योंके अतिरिक्त इतर सामग्रीका सम्पूर्ण उपयोग कर सार-परिचय विस्तृत लिखा जाय, परन्तु ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जानेके कारण ऐसा न करके संक्षेपसे ही लिखना पड़ा ।

अयोग्यता

यह ग्रन्थ किसी विद्वानके सम्पादकत्वमें प्रकट होता तो विशेष

सुन्दर होता, क्योंकि हमारेमें एतद् विषयक ज्ञान और अनुभवका अभाव है, परन्तु अनुभवी विद्वानका सहयोग प्राप्त न होनेपर हमने अपनी अत्यधिक साहित्यरुचि और अदम्य उत्साहसे प्रेरित हो यथासाध्य सम्पादन किया है। इस कार्यमें हमें कहां तक सफलता मिली है, यह निर्णय विद्वान पाठकों पर ही निर्भर है। हम विद्वान नहीं हैं, अभ्यासी हैं, अतः भूलोंका होना अनिवार्य है। अतएव अनुभवी विद्वानोंसे योग्य सूचना चाहते हुए क्षमा प्रार्थना करते हैं।

प्रकाशनमें विलम्ब

प्रस्तुत ग्रंथका “युगप्रधान जिनचंद्रसूरि” ग्रंथके साथ ही मुद्रण प्रारम्भ हुआ था परन्तु हमारे व्यापारिक कार्योंमें व्यस्त रहने व अन्यान्य असुविधाओंके कारण प्रकाशनमें विलम्ब हुआ है। अपने व्यवसायिक कार्योंसे समय कम मिलनेसे हम इसका सम्पादन मनोज्ञ और सुचारु नहीं कर सके। यदि इसकी द्वितीयावृत्तिका अवसर मिला तो ग्रंथकी सुसम्पादित व्यवस्थित आवृत्ति की जायगी।

आभार प्रदर्शन

इसकी प्रस्तावना श्रीयुक्त हीरालालजी जैन M. A. L. L. B. (प्रोफेसर एडवर्ड कालेज, अमरावती) महोदयने लिख भेजनेकी कृपा की है, अतएव हम आपके विशेष आभारी हैं।

इस ग्रन्थके “कठिन शब्द कोष” का निर्माण करनेमें माननीय ठाकुर साहेब रामसिंहजी M. A. विशारद और स्वामी नरोत्तम दासजी M. A. विशारदसे पूर्ण सहायता मिली है। सोलहवीं शताब्दीके पहलेके काव्योंका अन्तिम प्रूफ संशोधन श्रीमान् पं० हरगोविन्द

दासजी सेठ “न्याय व्याकरणतीर्थ” ने कर देनेकी कृपा की है ।
 श्रीयुक्त मिश्रीलालजी पालरेचा महोदयसे भी हमें संशोधनमें पूर्ण सहा-
 यता मिली है । श्रीयुक्त मोहनलाल दलीचन्द देसाई B.A.L.L.B.
 (वकील हाईकोर्ट, बम्बई) ने भी समय समयपर सत्परामर्श द्वारा
 सहायता पहुंचाई है । इसी प्रकार कतिपय काव्य उ० सुखसागर-
 जी, मुनिवर्य रत्नमुनिजी, लब्धिमुनिजी एवं जैसलमेरवाले यतिवर्य
 लक्ष्मीचन्दजीने और कतिपय चित्र-ब्लॉक विजयसिंहजी नाहर,
 साराभाइ नवाब, मुनि पुण्यविजयजी आदिकी कृपासे प्राप्त हुए हैं,
 एतदर्थ उन सभी, जिनके द्वारा यत्किञ्चित भी सहायता मिली हो,
 सहायक पूज्यों व मित्रोंके चिर कृतज्ञ हैं ।

निवेदक—

अगरचन्द नाहटा,

भंवरलाल नाहटा ।



काव्यरचनाकालका संक्षिप्त शताब्दी अनुक्रम *

१२ वींका शेषार्द्ध ।

कवि पालह कृत खरतर पट्टावली (पृष्ठ ३६५ से ३६८) ।

१३ वींका शेषार्द्ध ।

जिनवल्लभसूरिगुणवर्णन (पृष्ठ ३६६ से ३७२),

जिनपतिसूरिधवल गीतादि (पृष्ठ ६ से १०) ।

१४ वींका पूर्वार्द्ध ।

जिनेश्वरसूरिरास (पृष्ठ ३७७ से ३८३), गुरुगुणषट्पद (पृष्ठ १ से ३) ।

शेषार्द्ध :—

जिनकुशलसूरिरास (पृष्ठ १५ से १८), जिनपद्मसूरिरास (पृष्ठ २० से २३), जिनप्रभसूरि—जिनदेवसूरिगीत (पृष्ठ ११ से १४) ।

१५ वींका पूर्वार्द्ध ।

जिनोदयसूरिगुणवर्णन (पृष्ठ ३६ से ४०), जिनोदयसूरि रासद्वय (पृ० ३८४ से ३८६), जिनप्रभसूरि गुर्वावली (पृ० ४१-४२) ।

शेषार्द्ध :—

खरतरगुरुगुणलक्ष्य (पृ० २४ से ३८), खरतरगच्छगुर्वावली (पृ० ४३ से ४८), कोर्तिरत्नसूरि फाग (पृ० ४०१-२), भाव-

* कई कृतियोंका रचनाकाल अनुमानिक है ।

प्रभसूरिगीत (पृ० ४६-५०), शिवचूला विज्ञप्ति (पृ० ३३६),
वेगड़पट्टावली (पृ० ३१२) ।

१६ वींका पूर्वाद्ध^१ ।

क्षेमराजगीत (पृ० १३४) ।

१६ वीं का शेषाद्ध^१—

जिनदत्त स्तुति (पृ० ४), जिनचंद्र अष्टक (पृ० ५), कीर्ति-
रत्नसूरि चौ० (पृ० ५१), जिनहंससूरि गीत (पृ० ५३),
क्षेमहंस कृत गुर्वावली (पृ० २१५ से २१७)

१७ वीं का पूर्वाद्ध^१—

देवतिलक्रीपाध्याय चौ० (पृ० ५५), भावहर्ष गीत (पृ०
१३५), पुण्यसागर गीत (पृ० ६७), पूज्यवाहन गीतादि
(पृ० ८६, ६४, ११० से ११७), जयतपदवेलि आदि साधु-
कीर्ति गीत (पृ० ३७ से ४५), खरतर गुर्वावलि (पृ० २१८ से
२२७), कीर्तिरत्न सूरि गीत (पृ० ४०३), दयातिलक (पृ०
४१६), यशकुशल, करमसी गीतादि (पृ० १४६, २०४), आदि ।

शेषाद्ध^१—

जिनचंद्रसूरि, जिनसिंह, जिनराज, जिनसागर सूरि गीत
रासादि (पृ० ५८ से १३२, १५० से २३०, ३३४, ४१७),
खरतर गुर्वावलि (पृ० २२८), पि० खर० पट्टावली (पृ०
३१६), गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध (पृ० ४२३), विजयसिंह सूरि
रास (पृ० ३४१), पद्महेम (पृ० ४२), समयसुन्द गीत
(पृ० १४६), छप्पय (पृ० ३७३ आदि ।

१८ वीं का पूर्वाद्ध—

जिनरंग (पृ० २३१), जिनरत्नसूरि (२३४ से २४४, ४१८),
जिनचंद्रसूरि गीत (पृ० २४५), जिनेश्वर सूरि (पृ० ३१४),
कीर्तिरत्न सूरि छन्द (पृ० ४०७), जिनचंद्र (पृ० ४३०),
जिनधर्म (पृ० ३३५), भावप्रमोद (पृ० २५८), सुखसागर
(पृ० २५३), समयसुन्दर गीत (पृ० १४८) आदि ।

शेषाद्ध—

जिनसुख-जिनहर्षसूरि (पृ० २६१ से २६३), शिवचंद्रसूरि
रास (पृ० ३२१), जिनचंद्र (पृ० ३३७), कीर्तिरत्न सूरि
(पृ० ४१३) आदि ।

१६ वीं का पूर्वाद्ध—

देवविलास (पृ० २६४ से २६२), जिनल.भ-जिनचंद्र (पृ०
२६३ से २६६ तथा ४१४ से ४१६) जयमाणिक्य छंद (पृ०
३१०) आदि ।

शेषाद्ध—

जिनहर्ष, जिनसौभाग्य, जिनमहेन्द्रसूरि गीत (पृ० ३०० से
३०४), ज्ञानसार (पृ० ४३३) आदि ।



ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह

—की—

प्रस्तावना

—*—

जैन-धर्म भारतवर्षका एक प्राचीनतम धर्म है। इस धर्मके अनुयायियोंने देशके ज्ञान-विज्ञान, समाज, कला-कौशल आदि वैशिष्ट्यके विकासमें बड़ा भाग लिया है। मनुष्यमात्र, नहीं-नहीं प्राणीमात्र में परमात्मत्वकी योग्यता रखनेवाला जीव विद्यमान है। और प्रत्येक प्राणी, गिरते-उठते उसी परमात्मत्वकी ओर अप्रसर हो रहा है। इस उदार सिद्धान्तपर इस धर्मका विश्वप्रेम और विश्वबन्धुत्व स्थिर है। भिन्न-भिन्न धर्मोंके विरोधी मतों और सिद्धान्तोंके बीच यह धर्म अपने स्याद्वाद नयके द्वारा सामञ्जस्य उपस्थित कर देता है। यह भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिमें सब जीवोंके समान अधिकारका पक्षपाती है तथा सांसारिक लाभोंके लिये कलह और विद्वेषको उसने पारलौकिक सुखकी श्रेष्ठता द्वारा मिटानेका प्रयत्न किया है।

जैन-धर्मकी यह विशेषता केवल सिद्धान्तोंमें ही सीमित नहीं रही। जैन आचार्योंने उच्च-नीच, जाति-पातका भेद न करके अपना उदार उपदेश सब मनुष्योंको सुनाया और 'अहिंसा परमो

धर्मः' के मन्त्र द्वारा उन्हें इतर प्राणियोंकी भी रक्षाके लिये तत्पर बना दिया। स्याद्वाद नयकी उदारता द्वारा जैनियोंने सभिकी सहानुभूति प्राप्त कर ली। अनेक राजाओं और सम्राटोंने इस धर्मको स्वीकार किया और उसकी उदार नीतिको व्यवहारमें उतारकर चरितार्थ कर दिखाया। इन्हीं कारणोंसे अनेक संकट आनेपर भी यह धर्म आज भी प्रतिष्ठित है।

किन्तु दुखकी बात है कि धार्मिक विचारोंमें उदारता और धर्म प्रचारमें तत्परताके लिये जैनी कभी इतने प्रसिद्ध थे, वे ही आज इन बातोंमें सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। विश्वभरमें बन्धुत्व और प्रेम स्थापित करनेका दावा रखनेवाले जैनी आज अपने ही समाजके भीतर प्रेम और मेल नहीं रख सकते। मनुष्यमात्रको अपनेमें मिलाकर मोक्षका मार्ग दिखानेवाले जैनी आज जात-पातकी तंग कोठरियोंमें अलग-अलग बैठ गये हैं, एक दूसरेको अपनाना पाप समझते हैं। अन्य धर्मोंके विरोधोंको भी दूर कर उनमें सामञ्जस्य उपस्थित करनेवाले आज एक ही सिद्धान्तको मानते हुए भी छोटी-छोटी-सी बातोंमें परस्पर लड़-भिड़कर अपनी अपरिमित हानि करा रहे हैं।

ऐसी परिस्थितिमें यह स्वाभाविक है कि जैन-धर्मकी कुछ अनुपम निधियां भी दृष्टिके ओझल हो जावें और उनपर किसीका ध्यान न जावे। जैनियोंका प्राचीन साहित्य बहुत विशाल, अनेकांगपूर्ण और उत्तम है। दर्शन और सदाचारके अतिरिक्त, इतिहासकी दृष्टिसे भी जैन-साहित्य कम महत्वका नहीं है। भारतके न जाने

कितने अन्धकारपूर्ण ऐतिहासिक कालोंपर जैन-कथा साहित्य, पट्टावलियों आदि द्वारा प्रकाश पड़ता है। लोक-प्रचारकी दृष्टिसे जैन-साहित्य कभी किसी एक ही भाषामें सीमित नहीं रहा। भिन्न-भिन्न समयकी, भिन्न-भिन्न प्रान्तकी भिन्न-भिन्न भाषाओं-में यह साहित्य खूब प्रचुर प्रमाणमें मिलता है। अर्धमागधी, शौर-सेनी, महाराष्ट्री आदि प्राकृत भाषाओंका जैसा सजीव और विशाल रूप जैन-साहित्यमें मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं। किन्तु आज स्वयं जैनों भी इस बातको अच्छी तरह नहीं जानते कि उनका साहित्य कितना महत्वपूर्ण है। उसका पठन-पाठन व परिशीलन उतना नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिये। इस अज्ञान और उपेक्षाके फलस्वरूप उसका अधिकांश भाग अभीतक प्रकाशमें ही नहीं आया।

वर्तमान संग्रह जैन-गीति काव्यका है। इसमें सैकड़ों गीत-संग्रह हैं, जो किसी समय कहीं-कहीं अवश्य लोकप्रिय रहे हैं और शायद घर-घरमें या तीर्थ-यात्राओंके समय गाये जाते रहे हैं। विशेषता यह है कि इन गीतोंका विषय-शृङ्गार नहीं, भक्ति है; प्रिय-प्रेयसी-चिन्तन नहीं, महापुरुष-कीर्ति-स्मरण है और इसलिये पाप-बन्धका कारण नहीं, पुण्य-निबन्ध हेतु है। ये गीत भिन्न-भिन्न सरस मनोहर राग-रागणियोंके रसास्वादके साथ-साथ परमार्थ और सदाचारमें मनकी गतिको ले जानेवाले हैं। इस संग्रहको सम्पादकोंने 'ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह' नाम दिया है, जो सर्वथा सार्थक है, क्योंकि इन गीतोंमें जिन सत्पुरुषोंका स्मरण किया गया

हैं, वे सब ऐतिहासिक हैं। जो घटनायें वर्णन की गयी हैं, वे सत्य हैं और हमारी ऐतिहासिक दृष्टिके भीतरकी हैं। जैन गुरुओं और मुनियोंने समय-समयपर जो धर्म प्रभावना की, राजाओं-महाराजाओं और सम्राटोंपर अपने धर्मकी उत्तमताकी धाक बैठायी और समाजके लिये अनेक धार्मिक अधिकार प्राप्त किये उनके उल्लेख इन गीतोंमें पद-पदपर मिलते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य वे उल्लेख हैं, जिनमें मुसलमानी बादशाहोंपर प्रभाव पड़नेकी बात कही गयी है। उदाहरणार्थ—

जिनप्रभसूरिके विषयमें कहा गया है कि उन्होंने अश्वपति (असपति) कुतुबुद्दीनके चित्तको प्रसन्न किया था। कुतुबुद्दीनने उनसे जन-शासनके विषयमें अनेक प्रश्न किये थे और फिर सन्तुष्ट होकर सुल्तानने गांव और हाथियोंकी भेंट देकर उनका सम्मान करना चाहा था, पर सूरिजीने इन्हें स्वीकार नहीं किया। (पृष्ठ १२, पद्य ४, ५)।

इन्हीं सूरेश्वरने संवत् १३८५ (ईस्वी सन् १३२८) की पौष सुदी ८ शनिवारको दिल्लीमें अश्वपति मुहम्मद शाहसे भेंट की थी। सुल्तानने इन्हें अपने समीप आसन दिया और नमस्कार किया। इन्होंने अपने व्याख्यान द्वारा सुल्तानका मन मोह लिया। सुल्तानने भी ग्राम, हाथी, घोड़े व धन तथा यथेच्छ वस्तु देकर सूरेश्वरका सम्मान करना चाहा, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सुल्तानने उनको बड़ी भक्ति की, फरमान निकाला और जलूस निकाला तथा 'वसति' निर्माण कराई। (पृ० १३, पद्य २-६) ऐसे ही उल्लेख पृ० १४ पद्य २, व पृ० १६ पद्य ६, ७ में भी हैं।

उपर्युक्त दोनों बादशाह खिलजी वंशका कुतुबुद्दीन मुबारिकशाह और तुगलक वंशका मुहम्मद तुगलक होना चाहिये। जो क्रमशः सन् १३१६ और १३२५ ईस्वीमें गद्दीपर बैठे थे। इसी समयके बीच खिलजी वंशका पतन और तुगलक वंशका उत्थान हुआ था। सूरीश्वरके प्रभावसे दोनों राजवंशोंमें जैन-धर्मकी प्रभावना रही।

एक दूसरे गीतमें उल्लेख है कि जिनदत्तसूरिने बादशाह सिकन्दरशाहको अपनी करामात दिखाई और ५०० बन्दिनोंको मुक्त कराया (पृ० ५४, पद्य ११ आदि)। ये सम्भवतः बहलोल लोधीके उत्तराधिकारी पुत्र सिकन्दरशाह लोधी थे, जो सन् १४८६ ईस्वीमें दिल्लीके तख्तपर बैठे और जिन्होंने पहले-पहल आगराको राजधानी बनाया।

श्री जिनचंद्रसूरिके दर्शनकी सुप्रसिद्ध मुगल-सम्राट् अकबरको बड़ी अभिलाषा हुई। उन्होंने सूरीश्वरको गुजरातसे बड़े आग्रह और सन्मानसे बुलवाया। सूरीजीने आकर उन्हें उपदेश दिया और सम्राट्ने उनकी बड़ी आव-भगत की। (पृ० ५८) यह रास संवत् १६२८ में अहमदाबादमें लिखा गया।

बादशाह सलेमशाह 'दरसणिया' दीवानपर बहुत कुपित हो गये थे, तब फिर इन्हीं सूरीश्वरने गुजरातसे आकर बादशाहका क्रोध शान्त कराया और धर्मकी महिमा बढ़ाई। (पृ० ८१-८२) ये सूरीश्वर मुलतान भी गये और वहांके खान मलिकने उनका बड़ा सत्कार किया (पृ० ६६, पद्य ४)

XVIII

इस प्रकारके अनेक उल्लेख इन गीतोंमें पाये जाते हैं, जा इतिहासके लिये बहुत ही उपयोगी हैं।

पर इससे भी अधिक महत्व इस संग्रहका भाषाकी दृष्टिसे है। इन कविताओंसे हिन्दीकी उत्पत्ति और क्रमविकासके इतिहासमें बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है। इसमें बारहवीं-तेरहवीं शताब्दिसे लगाकर उन्नीसवीं सदीतक अर्थात् सात-आठ सौ वर्ष की रचनायें हैं, जो भिन्न-भिन्न समयके व्याकरणके रूपोंपर प्रकाश डालती हैं। प्राचीन हिन्दी साहित्य अभीतक बहुत कम प्रकाशित हुआ है। हिन्दीकी उत्पत्ति अपभ्रंश भाषासे मानी जाती है। इस अपभ्रंश भाषाका अबसे बीस वर्ष पूर्व कोई साहित्य ही उपलब्ध नहीं था। जब सन् १६१४ में जर्मनीके सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० हर्मन याकोबी इस देशमें आये, तब उन्होंने इस भाषाके ग्रंथ प्राप्त करनेका बहुत प्रयत्न किया। सुदैवसे उन्हें एक पूर्ण स्वतन्त्र ग्रन्थ मिल गया। वह था 'भविस्तकहा' (भविष्यदत्त कथा), जिसको उन्होंने बड़े परिश्रमसे सम्पादित करके १६१६ में जर्मनीमें ही छपाया। उसके पठन-पाठनसे हिन्दी और गुजराती आदि प्रचलित भाषाओंके पूर्व इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश पड़ा। यही एक स्वतंत्र और पूर्ण ग्रन्थ इस भाषाके प्रचारमें आ सका था। सन् १६२४ में मुझे मध्यप्रान्तीय संस्कृत प्राकृत और हस्तलिखित ग्रन्थोंकी सूची तैयार करनेके सम्बन्धमें बरार प्रांतान्तर्गत कारंजाके दिगम्बर जैनशास्त्र भण्डारोंको देखनेका अवसर मिला। यहां मुझे अपभ्रंश भाषा के लगभग एक दर्जन ग्रंथ बड़े और छोटे देखने

को मिले, जिनका सविस्तर वर्णन अवतरणों सहित मैंने उस सूची में दिया जो Catalogue of Sanskrit and Prakrit MSS. in C. P. & Berar के नाम से सन् १९२६ में मध्य प्रान्तीय सरकार द्वारा प्रकाशित हुई। उस परिचय से विद्वत् संसार की दृष्टि इस साहित्य की ओर विशेष रूपसे आकर्षित हुई। इससे प्रोत्साहित होकर मैंने इस साहित्यको प्रकाशित करने तथा और साहित्यकी खोज लगानेका खूब प्रयत्न किया। हर्षका विषय है कि उस प्रयत्नके फलस्वरूप कारंजा जैन सीरीज द्वारा इस साहित्यके अब तक पांच ग्रंथ दशवीं ग्यारहवीं शताब्दिके बने हुए उत्तम रीतिसे प्रकाशित हो चुके हैं। तथा जयपुर, दिल्ली, आगरा, जसवंतनगर आदि स्थानोंके शास्त्र-भण्डारोंसे इसी अपभ्रंश भाषाके कोई ४०-५० अन्य ग्रंथोंका पता चल गया है। यह साहित्य उसकी धार्मिक व ऐतिहासिक सामग्रीके अतिरिक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यह भाषा प्रचीन मागधी, अर्द्धमागधी, शौरसेनी आदि प्राकृतों तथा आधुनिक हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि प्रांतीय भाषाओंके बीचकी कड़ी है। यह साहित्य जैनियोंके शास्त्र-भण्डारोंमें बहुत संगृहीत है। यथार्थमें यह जैनियोंकी एक अनुपम निधि है, क्योंकि जैन साहित्यके अतिरिक्त अन्यत्र इस भाषाके ग्रंथ बहुत ही कम पाये जाते हैं। भाषा विज्ञानके अध्ये-ताओंको इन ग्रन्थोंका अवलोकन अनिवार्य है। पर जैनियोंका इस ओर अभी तक भी दुर्लक्ष्य है। यह साहित्य गुजरात, राज-

पूताना और मालवामें विशेष रूपसे पाया जाता है। इसमें हिन्दी और गुजराती दोनों भाषाओंका पूर्वरूप गुंथा हुआ है। इस भाषाके अध्ययनसे पता चल जाता है कि ये दोनों भाषायें तो मूलतः एक ही हैं।

प्रस्तुत संग्रहमें अपभ्रंशका और भी विकसित रूप पाया जाता है और उसका सिलसिला प्रायः वर्तमान कालकी भाषासे आ जुड़ता है। ये उदाहरण डिंगल भाषाके विकास पर बहुत प्रकाश डालते हैं। भाषाकी दृष्टिसे इन अवतरणोंका संशोधन और भी अधिक सावधानीसे हो सकता तो अच्छा था। किन्तु अधिकांश संग्रह शायद एक-एक ही मूल प्रति परसे किये गये हैं। अब इस ग्रंथकी ऐतिहासिक व भाषा सम्बन्धी सामग्रीका विशेष रूपसे अध्ययन किये जानेकी आवश्यकता है। आशा है नाहटाजीका यह संग्रह एक नये पथ-प्रदर्शकका काम देगा। ऐसे ऐसे अनेक संग्रह अब प्रकाशमें आवेंगे और उनके द्वारा देशके इतिहास और भाषा विकासका मुख उज्ज्वल होगा। यह प्रयत्न अत्यन्त स्तुत्य है।

किंग एडवर्ड कालेज,

अमरावती।

२१-४-३७

हीरालाल जैन

एम० ए०, एल० एल० बी०,

प्रोफेसर आफ संस्कृत।

प्रति परिचय

प्रस्तुत ग्रन्थमें प्रकाशित काव्योंकी मूल प्रतियां कबकी लिखी हुईं और कहांपर हैं ? इसका उल्लेख कई कृतियोंके अन्तमें यथा स्थान मुद्रित हो चुका है। अवशेष काव्योंके प्रतियोंका परिचय इस प्रकार है :—

(अ) १ गुरुगुण षट्पद, २ जिनपति सूरि धवलगीत, ३ जिनपति-सूरि स्तूप कलश, ४ जिनकुशलसूरि पट्टाभिषेकरास, ५ जिन-पद्मसूरिपट्टाभिषेकरास, ६ खरतर गुरुगुण वर्णन छप्पय, ७ जिनेश्वरसूरि विवाहलो, ८ जिनोदयसूरि विवाहलो, ९ जिनोदयसूरि पट्टाभिषेक रास, १० जिनोदयसूरि गुण वर्णन छप्पय, ये कृतियां हमारे संग्रहकी सं० १४६३ लि० शिव-कुञ्जरके स्वाध्याय पुस्तक* (पत्र ५२१) की प्रतिसे नकल की गयी है।

(आ) १ जिनपति सूरिणाम् गीतम्, २ भावप्रभसूरि गीत, ये दो कृतियें हमारे संग्रहकी १६ वीं शताब्दीके पूर्वार्द्धकी लिखित प्रतिसे नकल की गयी हैं।

(इ) जिनप्रभसूरि गीत नं० १, २, ३, जिनदेवसूरि गीत और

* ॥९०॥ संवत् १४९३ धर्षे वैशाख मासे प्रथम पक्षे ८ दिने सोमे श्री बृहत् खरतर गच्छे श्रीजिनभद्रसूरि गुरौ विजयमाने श्रीकीर्तिरत्नसूरीणां शिष्येण शिवकुञ्जर मुनिना निज पुण्यार्थं स्वाध्याय पुस्तिका लिखिता चिरनन्दतात् ॥ श्री योगिनीपुरे ॥ श्री ॥

जिनप्रभसूरि परम्परा गुर्वावलीकी मूल प्रति बीकानेर वृहत् ज्ञानभण्डारमें (१५ वीं शताब्दीके पूर्वार्धकी लि०) है ।


- (ई) खरतर-गुरु-गुण-वर्णन-छप्पयकी द्वितीय प्रति, १७ वीं शताब्दी लि० हमारे संग्रहमें है ।
- (उ) पृ० ४३ में मुद्रित खरतरगच्छ पट्टावलीकी मूलप्रति तत्कालीन लि०, पत्र १ हमारे संग्रहमें है । यह पत्र कहीं कहीं उदङ्ग भक्षित है, अतः कहीं कहीं पाठ त्रुटकथा, उसे जिनकृपाचन्द्र-सूरि ज्ञानभण्डारस्थ गुटकाकार प्रतिसे पूर्ण किया गया है । हमारे संग्रहका पत्र, सुन्दर और शुद्ध लिखा हुआ है ।
- (ऊ) देवतिलकोपाध्याय चौ०, क्षेमराजगीत; राजसोम, अमृत धर्म क्षमाकल्याण अष्टक-स्तव, जिनरंगसूरि युगप्रधान पद प्राप्ति गीतकी प्रतियें तत्कालीन लि० बीकानेर वृहत् ज्ञानभण्डारमें विद्यमान हैं ।
- (ए) अकबर प्रतिबोध रासकी प्रति जयचन्द्रजीके भण्डारमें सुरक्षित है ।
- (ऐ) कीर्तिरत्नसूरि गीत नं० २ से ६, कृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भण्डारस्थ गुटकाकार प्रतिसे नकल किये गये हैं ।
- (ओ) अन्य प्रेषित प्रतियोंकी नकलें :—
- (a) गुणप्रभसूरि प्रबन्ध, जिनचन्द्रसूरि, जिनसमुद्रसूरि गीत (४२३ से ४३२), जैसलमेरके भण्डारसे नकल-कर यतिवर्य लक्ष्मीचन्द्रजीने भेजी है ।
- (b) जिनहंससूरिगीत, समयसुन्दर कृत ३६ रागिणी गर्भित

जिनचन्द्रसूरिगीत, जिनमहेन्द्रसूरि और गणिनी शिव-
चूला विज्ञप्तिगीतकी नकल पालीताणेसे उ० सुखसागर
जीने भेजी थी ।

- (c) जिनवल्लभसूरि गुणवर्णनकी नकल रत्नमुनिजी,
शिवचन्द्र सूरिरासकी प्रति लब्धि मुनिजी (यह प्रति
अभी हमारे संग्रहमें है), रत्ननिधान कृत जिनचन्द्र-
सूरि गीतकी नकल (पृ० १०२), सूरत भण्डारसे पं०
केशर मुनिजीने भेजी है ।
- (d) जिनहर्ष गीतद्वय, पाटणसे साहित्य प्रेमी मुनि यश-
विजयजीसे प्राप्त हुए हैं ।
- (औ) नीचे लिखी हुई कृतियोंके सम्पादनमें भुद्रित ग्रन्थोंकी सहा-
यता ली गयी है ।
- (a) देवविलास तो अध्यात्म ज्ञानप्रसारक मण्डलकी ओर
से प्रकाशित ग्रन्थसे ही सम्पादन किया गया है ।
- (b) पल्ह कृत जिनदत्तसूरि स्तुति, अपभ्रंश काव्यत्रयी
और गणधर सार्द्धशतक भाषान्तर ग्रन्थ द्वयसे पाठा-
न्तर नौधकर प्रकाशित की गई है ।
- (c) बेगड़ गुर्वावली आदि (पृ० ३१२ से ३१८) की जैन
श्वेताम्बर काँन्फरेन्स हेरलडसे नकल की गई है ।
- (d) पिप्पलक खरतर पट्टावली, जै० गु० क० भा० २ और
देवकुल पाटक दोनों ग्रन्थोंसे मिलान कर प्रकाशित
की गई है ।

- (अं) “श्रीजिनोदयसूरि वीवाहलउ” की ४ प्रतियां प्राप्त हुई हैं ।
 जिनके समस्त पाठान्तर नीचे लिखे संकेतोंसे लिखे गये हैं ।
- (a) प्रति—जैन ऐतिहासिक गूर्जर काव्य सञ्चय (पृ० २३३)
- (b) प्रति—प्राचीन प्रति (सं० १४६३ लि० शिवकुञ्जर
 स्वाध्याय पुस्तकात्) हमारे संग्रहमें ।
- (c) प्रति—बीकानेर स्टेट लाइब्रेरी नं० ४६८७ पत्र ३,
 प्राचीन प्रति
- (d) प्रति—ऐतिहासिक रास संग्रह भा० ३ + (पृ० ७६)
- (e) प्रति—के अन्तमें निम्नोक्त श्लोक लिखा है :—
 वर्षे वाण मुनि त्रिचन्द्र गणिते, येषां प्रभूणां जनिः,
 पक्षाष्टे प्रमिते व्रतं गुरुपदं पंचैक वेदैकके
 स्वर्गं श्री चरणं च नेत्र शिवहृक् संख्ये बभूवाद्भुतं ।
 ते श्री सूरि जिनोदयाः सुगुरवः कुर्वतु मे मङ्गलम् ॥१॥
- श्रीजिनोदयसूरि पट्टाभिषेक रासकी २ प्रतियां—
- (a) प्रति—उपरोक्त (सं० १४६३ लि०)
- (b) प्रति—जैन ऐतिहासिक गूर्जर काव्य सञ्चय (पृ० २२८)
- श्रीजिनेश्वरसूरि वीवाहलउ की ३ प्रतें—
- (a) प्रति—उपरोक्त (सं० १४६३ लि०)
- (b) प्रति—प्राचीन प्रति (हमारे संग्रहमें)
- (c) प्रति—जैन ऐतिहासिक गूर्जर काव्य सञ्चय (पृ० २२४)
- (अः) इनके अतिरिक्त और सभी काव्योंकी प्रतियां जिनके अन्तमें
 अन्य स्थानका उल्लेख नहीं है, वे सब प्रतियां हमारे
 संग्रहमें (तत्कालीन लिखित) हैं ।

चित्र परिचय



- १—ग्रन्थ प्रकाशक श्री शंकरदानजी नाहटा—सम्पादकके पितामह हैं ।
- २—खरतरपट्टावली:—इसी संग्रहमें पृ० ३६५ से ६८में सं० ११७०-७१ के लि० प्रतिसे मुद्रित की गई है । इसमें सं० ११७१ लि० प्रतिके फोटु बड़ौदेसे उ० सुखसागरजीने भिजवाये थे उसमें खरतर विरुद्ध प्राप्ति सम्बन्धी उल्लेखवाले पत्रका ब्लोक बनवाकर प्रस्तुत संग्रहमें दिया गया है । खरतर विरुद्ध प्राप्तिके प्रश्नपर यह पट्टावली बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है ।
- ३-४-जिन बल्लभसूरी और जिनदत्तसूरीजीके प्रस्तुत चित्र, जैसलमेर भंडारके प्राचीन ताड़पत्रीय प्रतिके काष्ठफलक पर चित्रित थे, उसके ब्लोक बनवाकर (अपभ्रंश काव्यत्रयीमें मुद्रित) दिये गये हैं ।
- ५—जिनेश्वरसूरिजीका चित्र खंभातके शांतिनाथ भंडारकी ताड़पत्रीय पर्युसणाकल्प (पत्र ८७) की प्रति, जोकि लिपि आदिके देखनेसे १३ वीं शताब्दी लि० प्रतीत होती है, के आधारसे जैन चित्र कल्पद्रुम (चित्र नं० १०४) में मुद्रित हुआ है । श्री साराभाई नवाबके सौजन्यसे हमें इसको प्रकाशित करनेका सुअवसर मिला एतदर्थ उनके आभारी हैं । उक्त ग्रंथमें इस चित्रका परिचय पृ० १४३ में इस प्रकार दिया है :—

“प्रस्तुत चित्रसे बीजा जिनेश्वरसूरिके जेओ श्री जिनपति सूरिना शिष्य हता, तेओनो होय एम लागे छे । श्रीजिनेश्वरसूरि सिंहासन उपर बैठेलाछे तेओना जमणा हाथ मां मुहपति छे अने डाबो हाथ अभय मुद्राए छे । जमणी बाजुनो तेओश्रीनो खभो खुलो छे । उपरना छतनां भागमां चंद्रवो बांधेलो छे सिंहासन नी पाछल एक शिष्य उभो छे अने तेओनी सन्मुख एक शिष्य वाचना लेतो बेठो छे । चित्रनी जमणीबाजूए एक भक्त श्रावक बे हाथनी अंजलि जोड़ीने गुरुमहाराजनो उपदेश सांभलतो होय एम लागे छे ।

६—योगविधि पत्र १३ की प्रति (सं० १५११ लि०)के अन्तिम पत्रसे ब्लाक बनाया गया है । प्रशस्ति इस प्रकार है:—“५ वत् १५११ वर्ष अषाढ़ वदी १४ चतुर्दश्यां बुधे श्री खरतर गच्छेश श्री श्री जिनभद्र सूरिभिलिखितमिदं ॥१॥ वा० साधुतिलक गणिभ्यो वाचनाय प्रसादी कृतेयं प्रति ।

७ - जिनचन्द्रसूरि मूर्ति:—दीकानेरके ऋषभ जिनालयमें युगप्रधान आचार्यश्रीकी सं० १६८६ जिनराजसूरि प्रतिष्ठित मूर्ति है उसीका यह ब्लोक है, लेख नकल देखें—युग प्रधान जिन चन्द्रसूरि पृ० १५७।५८ ।

८—जिनचंद्रसूरि हस्तलिपि :—स्व० बाबू पूरणचन्द्रजी नाहरके संग्रह (गुलाब कुमारी लाइब्रेरी) की नः ११८ कर्मस्तववृत्तिकी प्रतिसे ब्लाक बनवाया गया है, पुस्तिका लेख इस प्रकार है:—
संवत् १६११ वर्षे श्री जेसलमेरू महादुर्गे । राउल श्री

मालदेवे विजयिनि । श्री बृहत् खरतर गच्छे । श्रीजिनमाक्यसूरि
पुरंदराणां विनेय सुमतिधीरेण* लेखि स्ववाचनाय ॥ श्रावण सुदि
त्रयोदश्यां । शनिवारे ॥ श्रीस्तात् ॥ ॥ कल्याणंबोभोतु ॥ छ० ॥

६—जिनराज सूरि-जिनरंगसूरिः—यतिवर्य्य श्री सूर्यमलजीके
संग्रह (कलकत्ते)में शालिभद्र चौपई पत्र २४ की सचित्र प्रतिके
अन्तिम पत्रमें यह चित्र है । लिपिलेखककी प्रशस्ति इस प्रकार है—

सं० १८५२ मि० फाल्गुण कृष्ण १२ रविवारे श्री बृहत्खर-
तर गच्छे उपाध्यायजी श्री विद्याधीरजी गणि शिष्य मुख्य वा०
मति कुमार ग० । शिष्य लि । पं० किस्तूरचन्द मु ।

प्रति यद्यपि समकालीन नहीं है तोभो इसकी मूल आधार
भूत प्रतिका समकालीन होना विशेष संभव है †

१०--जिनहर्ष हस्तलिपिः—पाटण भंडारमें कविवरके रचित एवं
स्वयं लि० स्तबनादिकी पत्र ८० की प्रतिके फोटु मुनिवर्यं पुण्य
विजयजीने भेजे थे उसीसे ब्लाक बनवाकर मुद्रित की गई है ।
मुनिश्रीने हमें उक्त प्रतिकी नकल करा भेजनेकी भी कृपा की है ।


११--ज्ञानसार हस्तलिपिः—हमारे संग्रहके एक पत्रका ब्लोक बन-
वाकर दिया गया है ।

खरतर गच्छके आचार्यों एवं विद्वानोंके और भी बहुत
चित्र उपलब्ध हैं, जिन्हें हो सका तो खरतरगच्छ इतिहासमें
प्रकट करनेकी इच्छा है ।

* आचार्य पद प्राप्तिके पूर्व मुनि अवस्थाका नाम । देखे यु० जिन-
चंद्रसूरि पृ० २३ ।

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

रास्य खार सूची ।




नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
खरतरगच्छ गुत्रावलिये	१	जिनराज सूरि	१८
बर्द्धमान सूरि	३	जिनभद्र सूरि	१८
जिनेश्वर सूरि	३	जिनचन्द्र सूरि	१८
अभयदेव सूरि	४	जिनसमुद्र सूरि	१८
जिनबल्लभ सूरि	४	गुरुगुणपटपद	१९
जिनदत्त सूरि	४	जिनहंन सूरि	२०
जिनचन्द्र सूरि	८	जिनमाणिक्य सूरि	२१
जिनपति सूरि	९	यु० जिनचन्द्र सूरि	२१
जिनेश्वर सूरि	१०	जिनसिंह सूरि	२१
जिनप्रबोध सूरि	११	जिनराज सूरि	२२
जिनचन्द्र सूरि	११	जिनरत्न सूरि	२७
जिनकुशल सूरि	१२	जिनचन्द्र सूरि	२९
जिनपद्म सूरि	१४	जिनसुखसूरि	३०
जिनचन्द्र सूरि	१५	जिनभक्ति सूरि	३१
जिनोदय सूरि	१५	जिनलाभ सूरि	३१

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
जिनचन्द्र सूरि	३३	चन्द्रकीर्त्ति	५१
जिनद्वर्ष सूरि	३४	काविवर जिनद्वर्ष	५१
जिनसौभाग्य सूरि	३४	कवि अमरविजय	५३
मंडलाचार्य व मुनिमण्डल		छगुरु वंशावली	५४
भावप्रभ सूरि	३६	श्रीमद् देवचन्द्रजी	५४
कीर्त्तिरत्न सूरि	३६	महो० राजसोमा	६३
उ० जयसागर	४०	वा० अमृतधर्म	६३
क्षेमराजोपाध्याय	४१	उ० क्षमाकल्याण	६४
देवति ङकोपाध्याय	४३	जयमाणिक्य	६५
दयातिलक	४४	श्रीमद् ज्ञानसारजी	६५
महो० पुण्यसागर	४४	खरतरगच्छ आर्यामण्डल	
उ० साधुकीर्त्ति	४४	लावन्यसिद्धि	६६
महो० समयछन्दर	४५	सोमसिद्धि	६६
यशकुशल	४७	विमलसिद्धि	६७
करमसी	४७	गुहणीगीत	६८
सुखनिधान	४८	जिनप्रभ सूरि परम्परा	
वा० पद्महेम	४८	जिनप्रभ सूरि	६८
लब्धिकल्लोल	४९	जिनदेवसूरि	७०
विमलकीर्त्ति	४९	वेगड़ खरतर शाखा	
बा० सुखसागर	५०	जिनेश्वर सूरि	७१
बा० हीरकीर्त्ति	५०	गुणप्रभसूरि	७२
उ० भावप्रमोद	५१	जिनचन्द्र सूरि	७४

III

नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
जिनसमुद्र सूरि	७५	जिनचन्द्र सूरि	९०
पिप्लक शाखा	७५	जिनचन्द्र सूरि	९०
जिनशिवचन्द्र सूरि	७६	रंगविजय शाखा	
आद्यपक्षीय शाखा		जिनरंग सूरि	९१
जिनहर्ष सूरि	८१	मंडोवरा शाखा	
भावहर्षीय शाखा		जिनमहेन्द्र सूरि	९२
भावहर्ष	८२	तपागच्छीय कान्यसार	
जिनसागर सूरि शाखा		शिवचूला गणिनी	९३
जिनसागर सूरि	८३	विजयसिंह सूरि	९३
जिनधर्म सूरि	९०	संक्षिप्त कविपरिचय	१०१



चित्र सूची ।

—*—

	पृष्ठ		पृष्ठ
शंकरदानजी नाइटा	१	जिनचन्द्र सूरि	२०
खरतरगच्छ पट्टावलि	३	जिनचन्द्र सूरि-हस्तलिपि	२१
जिनबल्लभ सूरि	४	} जिनराज सूरि	२२
जिनदत्त सूरि	५		
जिनेश्वर सूरि	१०	उ० क्षमाकल्याण	६४
जिनभद्र सूरि-हस्तलिपि	१८	ज्ञानसार-हस्तलिपि	६५

—

चित्र-सूचीमें परिवर्तन

चित्रोंको प्रथम रास-सारमें देनेका विचार था, पर फिर मूलमें देना उचित समझ वैसा किया गया है, तथा चित्रोंकी संख्या पूर्व १२ थी पर फिर कई अन्य आवश्यक चित्र प्राप्त हो जानेसे ६ और बढ़ा दिये गये हैं। कुल १८ चित्रोंकी सूची इस प्रकार है :—

१.	शङ्करदानजी नाहटा—समर्पण पत्रके सामने	
२.	खरतरगच्छ पट्टावली—रास सारके प्रारम्भमें	
३.	श्री जिनदत्तसूरि	मूल पृ० १
४.	जिनभद्रसूरि हस्तलिपि	३६
५.	जिनचन्द्रसूरि और सम्राट अकबर	५८
६.	जिनचन्द्र सूरिजीकी हस्तलिपि	५९
७.	जिनचन्द्रसूरि मूर्ति	७९
८.	जिनराजसूरि-जिनरंगसूरि	१५०
९.	जिनछखसूरि	२४९
१०.	जिनभक्तिसूरि	२५२
११.	कविवर जिनहर्ष-हस्तलिपि	२६१
१२.	जिनलाभसूरि	२९३
१३.	जिनहर्षसूरि	३००
१४.	क्षमाकल्याण	३०८
१५.	जिनवल्लभसूरि	३६९
१६.	जिनेवरसूरि	३७७
१७.	ज्ञानसारजी हस्तलिपि	४३२
१८.	ज्ञानसारजी और वा० जयकीर्ति	४३३

छ चित्रोंके बढ़ जानेसे मूल्यमें भी १।) के स्थानमें १।।) करना पड़ा पुस्तकके अन्तमें भी दो नीचे लिखी बातें और जोड़ दी गई हैं:—

१. सम्पादकोंकी साहित्य प्रगति पृष्ठ ४९९
२. अभयजैन ग्रन्थमालाकी प्रकाशित पुस्तकें ५०३

मूल काव्य-अनुक्रमणिका ।



	गाथा	कर्ता	पृष्ठ
१ श्री गुरुगुणपदपद	८	×	१
२ श्री जिणदत्त सूरि स्तुति	९	×	४
३ श्री जिनचन्द्र सूरि अष्टकम्	९	पुण्यसागर	५
४ श्री जिनपति सूरि धवल गीतम्	२०	शाह रयण	६
५ श्रीमज्जिनपति सूरिणीं गीतम्	२०	कवि भत्त	९
६ श्री जिनपति सूरि स्तूपकलशः	४	×	१०
७ श्री जिनप्रभ सूरि (परम्परा)			
गीतम्	६	×	११
८ श्री जिनप्रभ सूरि गीतम्	६	×	१२
९ श्री जिनप्रभ सूरिणीं गीतम्	१०	×	१३
१० श्री जिनदेव सूरिगीतम्	८	×	१४
११ जिनकुशल सूरि पट्टाभिषेकरास	३८	धर्मकलश	१५
१२ जिनपद्म सूरि पट्टाभिषेकरास	२९	सारमूर्ति	२०
१३ खरतरगुरु गुणवर्णन छप्पय	३२-१६	अभयतिक यती	२४
१४ जिनोदय सूरि गुणवर्णन	६	पहराज	३९
१५ जिनप्रभ सूरि परम्परा गुर्वा-			
वली, छप्पय	१४-१		४१

	गाथा	कर्ता	पृष्ठ
१६	खरतरगच्छ पट्टावली	३०	सोमकुंजर ४३
१७	श्री भावप्रभ सूरि गीतम्	१५	× ४९
१८	श्री कोत्तिरत्न सूरि चौपड्	१८	कल्याणचन्द्र ५१
१९	जिनहंससूरि गुहगीतम्	१८	भक्तिलाभ ५३
२०	श्री देवतिलकोपाध्याय चौपड्	१५	पद्ममंदिर ५५
२१	महो० श्री पुण्यसागर गुहगीतम्	६	द्वर्षकुल ५७
२२	श्री जिनचन्द्र सूरि अकबर प्रति- बोध रास	१३६	लब्धिकल्लोल रचना सं० १६५८ जे० ब० १३ अह- मदावाद ५८
२३	श्री युगप्रधान निर्वाण रास	६९	समयप्रमोद ७९
२४	युगप्रधान आलजागीतम्	१०	समयसुन्दर ८७
२५	श्री जिनचन्द्र सूरि गीतानि		कनकसोम सं० १६२८ लि०
		नं० १ ११	स्वयं ८९
२६	” ”	२ ५	श्री सुन्दर ९०
२७	” ”	३ ४	साधुकीर्ति ९१
२८	” ”	४ ५	गुणविनय ९२
२९	” ”	५ ११	श्री सुन्दर ९३
३०	” ”	६ ३	सुमतिकल्लोल ९४
३१	” ”	७ ५	समयप्रमोद सं० १६४९ चैत्र ९ ९४ ९७
३२	” ”	८ १५	पद्ममराज ९६
(पंचनदी साधन)			
३३	श्री जिनचन्द्र सूरि गीत नं०	९ ३	साधुकीर्ति ९७

VII

	गाथा	कर्त्ता	पृष्ठ
३४	श्रीजिनचन्द्रसूरि गीत नं० १०	९ लब्धिशेखर	९८
३५	” ” ” ” ११	८ गुणविनय	९८
३६	” ” ” ” १२	४ ” स्वयं लि०	९९
३७	” ” ” ” १३	८ कल्याणकमल	१००
३८	” ” ” ” १४ १३॥	अपूर्ण	१०१
३९	जिनचन्द्र सूरि गीतानि नं० १५	१७ रत्ननिधान	१०२
४०	” ” ” ” १६	१५ समयसुन्दर	१०४
(६ राग ३६ रागिणी गीतम्)			
४१	श्रीजिनचन्द्रसूरिगीतानि नं० १७	३ ”	१०७
४२	” ” ” ” १८	३ ”	११७
४३	” ” ” ” १९	३ ”	१०७
४४	” ” ” ” २०	४ ”	१०८
४५	” ” (आलजा) ” २१	१० ”	१०८
४६	श्रीशूल्य वाहण गीतम् नं० २२	६७ कुशललाभ	११०
४७	श्री जिनचन्द्र सूरि गीत नं० २३	४ जयसोम	११८
४८	” ” ” ” नं० २४	९	११८
४९	विधि स्थानक चौपई नं० २५	१७	११९
५०	श्रीजिनचन्द्रसूरि गीतम् नं० २६	३ लब्धि सुनि	१२१
५१	” ” ” ” नं० २७	४ ”	१२१
५२	” ” ” ” नं० २८	३ ”	१२२
५३	” ” ” ” नं० २९	२ लब्धि कल्लोल	१२२
५४	” ” ” ” नं० ३०	३ रत्ननिधान	१२३

VIII

	गाथा कर्ता	पृष्ठ
५५ श्रीजिनचन्द्रसूरिसुयश गीतनं० ३१	४ हर्षनन्दन	१२३
५६ श्रीजिनसिंहसूरि गीतम् नं० १	३ गुणविनय	१२५
५७ " " नं० २	५ समयसुन्दर	१२५
५८ " " नं० ३	३ "	१२७
५९ " " हिंडोलणानं० ४	५ "	१२७
६० जिनसिंह सूरि गीतम्	५ ९ समयसुन्दर	१२८
६१ " " बधावा	६ ६ "	"
६२ " " गीतम्	७ ३ "	१२९
६३ " " चौमासा	८ ४ "	१३०
६४ " " गीतम्	९ ५ "	१३१
६५ " " गुरुवाणीमहिमा१०	५ राज समुद्र	१३१
६६ " " गच्छनायकगीत११	५ हर्षनन्दन	१३२
६७ " " निर्वाणगीतम् १२	१२ "	१३२
६८ श्रीक्षेमराज उपाध्याय गीतम्	४ कनक	१३४
६९ श्रीभावहर्ष " "	१५	१३५
७० सुखनिधान गुरु गीतम्	२ गुणसेन	१३६
७१ श्रीसाधुकीर्तिजयपताकागी०नं०१	८ जलह	१३७
७२ " " " " २	७ खड्गपति	१३८
७३ " " गहूँली " " ३	४ देवकमल	१३९
७४ " " कवित्त " " ४	१	१३९
७५ जइत पद वेलि	४९ कनकसोम	१४०
७६ श्रीसाधुकीर्ति स्वर्गगमन गीत	१० जयनिधान	१४५

	गाथा	कर्ता	पृष्ठ
७७ श्रीसमयसुन्दरोपाध्यायगीतम् १	७	हर्ष नन्दन	१४६
७८ " " " २	७	देवीदास	१४७
७९ " " " ३	१२	राजसोम	१४८
८० श्री यशकुशल गीतम्	५	सुखरतन	१४९
८१ श्री जिनराज सूरि रास	२५४	श्रोसार	१५०
८२ " " " गीतम् (१)	८	गुण विनय	१७२
८३ " " " सवैया (२)	४		१७३
८४ " " " गीतम् (३)	९	सहजकीर्ति	१७४
८५ " " " " (४)	९	"	१७५
८६ " " " " (५)	७	आनन्द	१७६
८७ " " " " (६)	६	सुमति विजय	१७७
८८ श्रीजिनसागर सूरि रास	१०२	धर्मकीर्ति	१७८
८९ " " " सवैया	५		१८९
९० " " " निर्वाणरास	८	सुमति वल्लभ	१९१
		ढाल गाथा	
९१ " " " अष्टकम् (१)	८	समयसुन्दर	१९९
९२ " " " अवदात	५	हर्षनन्दन	२०१
		गीत (२)	
९३ " " " गीत (३)	५	"	२०१
९४ " " " गीत (४)	५	"	२०२
९५ " " " गीत (५)	६	"	२०३
९६ श्री करमसी संथारा गीतम्	६	सोम मुनि (?)	२०४

	गाथा	कर्ता	पृष्ठ
९७ लब्धिकलोल सुगुरु गीतम्	१२	ललित कीर्ति	२०६
९८ सुगुरु वंशावली	२	कुशलधोर	२०७
९९ श्रीविमल कीर्ति गुरु गीतम् (१)	८	विमलरत्न	२०८
१०० " " " (२)	६	आनन्द विजय	२०९
१०१ लावण्यसिद्धि पट्टणो गीतम्	१८	हेमसिद्धि	२१०
१०२ सोमसिद्धि साध्वीनिर्वाणगीतम्	१८	"	२१२
१०३ गुरुणी गीतम्	७	विद्यासिद्धी	२१४
१०४ श्री गुर्वावली फाग	१६	खेमहंस	२१५
१०५ " (२)	२१	चारित्र सिद्ध	२१८
१०६ " (३)	४	नयरंग	२२५
१०७ खरतर गुरु पट्टावली (४)	८	समयसुन्दर	२२७
१०८ खरतर गच्छ गुर्वावली (५)	३१	गुणविनय	२२८
१०९ श्रीजिनरंग सूरि गीतम् (१)	७	राजहंस	२३१
११० " " (२)	९	ज्ञानकुशल	२३२
१११ " " युगप्रधान			
गीतम् (३)	१२	कमल रत्न	२३२
११२ श्री जिनरतन सूरि निर्वाणरास	२५	कमल हर्ष	२३४
११३ श्रीजिनरतनसूरि गीतानि (१)	७	रूपहर्ष	२४१
११४ " " " (२)	७	क्षेमहर्ष	२४१
११५ " " " (३)	९	"	२४२
११६ " " " (४)	७	कनक सिंह	२४३
११७ " " निर्वाण (५)	९	विमलरत्न	२४४

	गाथा	कर्ता	पृष्ठ
११८ श्रीजिनचन्द्र सूरि गीतानि (१)	७	विद्याविलास	२४५
११९ " " " (२)	९	हर्षचन्द्र	२४५
१२० " " " (३)	७	करमसी	२४६
१२१ " " " (४)	५	कल्याणहर्ष	२४७
१२२ " " पंचनदीसा० (५)	१		२४८
१२३ वाचक अमरविजय कवित्त	१		२४८
१२४ श्रीजिनसुख सूरि गीतम् (१)	९	सुमतिविमल	२४९
१२५ " " " (२)	७	धरमसी	२५०
१२६ " " निर्वाण (३)	९	वेलजी	२५१
१२७ श्रीजिनभक्ति सूरि गीतम्	६	धरमसी	२५२
१२८ वाचनाचार्य सुगसागर गीतम्	९	समयहर्ष	२५३
१२९ वा० हीरकीर्त्ति परम्परा	२	राजलाम	२५५
१३० " स्वर्गगमन गीतम्	१७	"	२५६
१३१ उ० भावप्रमोद " "	१२		२५८
१३२ जैनयति गुण वर्णन	१	खेतसी	२६०
१३३ कविचर जिनहर्ष गीतम्	२३	कवियण	२६१
१३४ देवविलास		"	२६४
१३५ श्रीजिनलामसूरि गीतानि (१)	११	मुनिमाणक	२९३
१३६ " " (२)	८	देवचन्द्र	२९४
१३७ " " (३)	१०	वसतो	२९५
१३८ " " निर्वाण (४)	८	क्षमाकल्याण	२९६

	गाथा	कर्ता	पृष्ठ
१३९ जिनलाभसूरि पद्ये० जिनचन्द्र सूरि गीत (१)	९	चारित्रनन्दन १८५० वै० व० ८	२९७
१४० " " (२)	१६	कनकधर्म	२९८
१४१ जिनद्वर्ष सूरि गीतम्	११	महिमा हंस	३००
१४२ श्रीजिन सौभाग्य सूरि भास	१७		३०१
१४३ श्रीजिनमहेन्द्र सूरि भास (१)	१३	राजकरण	३०२
१४४ " " (२)	११	राज	३०३
१४५ महोपाध्याय राजसोमाष्टकम्	९	क्षमाकल्याण	३०५
१४६ वाचनाचार्य अमृतधर्माष्टकम्	८	"	३०७
१४७ उपाध्याय क्षमाकल्याणाष्टक	९		३०८
१४८ " " निर्वागस्तवः	६		३०९
१४९ " जयमाणिक्यजीरोछन्द	९	सेवगासरूपचन्द्र	३१०
१५० जैन न्यायग्रन्थ पठन सम्बन्धी सवैया	१		३११

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह (द्वितीय विभाग)

	गाथा	कर्त्ता	पृष्ठ
१५१	वेगड़ खरतरगच्छ गुर्वावली	७	३१२
१५२	श्री जिनेश्वर सूरि गीतम्	२०	३१४
१५३	श्री जिनचन्द्र सूरि गीतम्	७	श्री जिन समुद्र सूरि ३१६
१५४	श्री जिनसमुद्र सूरि गीतम्	८	माइदास ३१७
१५५	पिप्पलक खरतर पट्टावली	१९	राजछन्दर ३१९
१५६	श्री जिन शिवचन्द्र सूरि रास		शाहलाधा (१७९५) ३२१
१५७	आंघपक्षीय जिनचन्द्र पट्टे जिन हर्ष सूरि गीत	५	कीरतिवर्द्धन ३३३
१५८	श्री जिनसागर सूरि गीतम्	८	जयकीरति ३३४
१५९	श्री जिनधर्म सूरि गीतम् (१)	९	ज्ञानहर्ष ३३५
१६०	” ” (२)	७	” ३३६
१६१	” पट्टे जिनचन्द्र सूरिगीतम्	७	पुण्य ३३७
१६२	जिनयुक्ति सूरि पट्टे ” ”		भालम ३३७

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह (तृतीय विभाग)


१६३	शिवचूलागणिनी विज्ञप्ति	२०	राजलच्छि ३३९
१६४	विजयसिंह सूरि विजय	२१३	गुणविजय ३४१

प्रकाश रास

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह (चतुर्थ विभाग)

	गाथा	कर्ता	पृष्ठ
१६५ श्री जिनदत्त सूरि स्तुतिः	१०	कविपल्ह (११७०लि०)	
		ताड़पत्रीय	३६५
१६६ श्री जिनबल्लभ सूरि गुणवर्णन	३५	नेमिचन्द्र भांडारी	३६९
१६७ श्री जिनदत्त सूरि अवदात छप्पय (अपूर्ण)	२१-३४	ज्ञानहर्ष	३७३
१६८ श्री जिनेद्वर सूरि संयम श्री विवाह वर्णन रास	३३	सोमसूक्ति	३७७
१६९ श्री जिनोदय सूरि पट्टाभिषेक रास	३७	ज्ञानकलस	३८४
१७० ,, विवाहलट	४४	मेहनन्दन	३९०
१७१ श्रीजयसागरोपाध्याय प्रशस्ति	४		४००
१७२ श्री कीर्तिरत्नसूरि फागु (त्रुटक	२८।३६		४०१
१७३ ,, गीतम् (२)	१४	साधुकीर्ति	४०३
१७४ ,, ,, (३)	९	ललितकीर्ति	४०४
१७५ ,, ,, (४)	१२	चन्द्रकीर्ति	४०५
१७६ ,, उत्पत्तिछंद (५)		सुमतिरंग	४०७
१७७ ,, ,, (६)	७	जयकीर्ति	४११
१७८ ,, ,, (७)	१२	,,	४११
१७९ ,, ,, (८)	१५	अभयविलास	४१२
१८० ,, ,, (९)	१		४१३
१८१ श्रीजिनलाभसूरि विहारानुक्रम	३४		४१४

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह



खरतरगच्छ पट्टावली

(जैसलमेर भाण्डागारीय सं० ११७१
खि० ताडपत्रीय प्रतिका द्वितीय पृष्ठ)

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

काव्योंका ऐतिहासिक सार

प्रस्तुत ग्रन्थमें प्रकाशित (पृ० १२८ से २२६ में) खरतर गच्छ गुर्वावलियोंमें भगवान महावीरसे पट्ट—परम्परा इस प्रकार दी गयी है :—

गुर्वावलि नं० २	गुर्वावलि नं० ५	गुर्वावलि नं० २	गुर्वावलि नं० ५
÷	१ वृद्धमान १	आर्यशान्ति	११ सुस्थित
गौतम	२ गौतम	हरिभद्र	१२ इंद्र दिन्न
सुधर्मा	३ सुधर्मा	श्यामाचार्य	१३ दिन्न सूरि
जम्बू	४ जम्बू	आर्य संडिल्ल	१४ सिंहगिरि
प्रभव	५ प्रभव	रेवती मित्र	१५ वयर स्वामी
शय्यम्भव	६ शय्यम्भव	आर्य धर्म	१६ वज्रसेन
यशोभद्र	७ यशोभद्र	आर्य गुप्त	१७ चंद्र सूरि
संभूति विजय	८ संभूतिविजय	आर्य समुद्र	१८ समंतभद्रसूरि
भद्रबाहु	÷	आर्यमंगु	१९ वृद्धदेव सूरि
स्थूलिभद्र	९ स्थूलिभद्र	आर्य सोहम	२० प्रद्योतनसूरि
आर्यमहागिरि	÷	हरिबल	२१ मानदेवसूरि
आर्यसुहस्ति*	१० आर्यसुहस्ति	भद्रगुप्त	२२ देवेन्द्र सूरि

* यद्वांतक दोनों गुर्वावलियोंके नामोंमें साम्य है। नं० २में भद्रबाहु और आर्यमहागिरिके नाम अधिक है, इसका कारण नं० २ युगप्रधान परम्परा और नं० ५ गुरु शिष्य परम्पराकी दृष्टिसे रचित है। इससे आगेका क्रम दोनोंमें भिन्न २ है, इसका कारण सम्भवतः नं० २ के प्राचीन अव्यवस्थित पट्टावलियोंका अनुकरण, और नं० ५ के संशोधित होनेका है।

सिंहगिरि	२३	मानतुंग	नार्गाजुन	३३	रविप्रभ
वयर स्वामी	२४	वीर सूरि	गोविन्दवाचक	३४	यशोभद्र
आर्य रक्षित	२५	जयदेव सूरि	संभूतिदिन्न	३५	जिनभद्र
दुर्बलिकापुष्य	२६	देवानन्द	लोकहित	३६	हरिभद्र
आर्य नंदि	२७	विक्रमसूरि	दूष्यगणि	३७	देवचन्द्र
नागहस्ति	२८	नरसिंह सूरि	उमास्वाति	३८	नेमिचंद्र
रेवंत	२९	समुद्र सूरि	जिनभद्र	३९	उद्योतन
ब्रह्मदीपी	३०	मानदेव	हरिभद्र		
संडिल्ल	३१	बिबुधप्रभ	देवाचार्य *		
हेमवंत	३२	जयानन्द	नेमिचन्द्र		
			उद्योतन ÷		

* यहाँतकका क्रम भिन्न २ पट्टावलियोंमें भिन्न भिन्न प्रकारसे पाया जाता है। पर इसके पश्चात्का क्रम सभी खरतर गच्छकी पट्टावलियोंमें एक समान है। नं० ५ की पट्टावलीका (संशोधित) क्रम वज्रसेन तकका नंदिसूत्र स्थिरावली आदि प्राचीन प्रमाणोंसे प्रमाणित है, पीछेके क्रमको ऐतिहासिक दृष्टिसे परीक्षा करना परमावश्यक है पुरातत्वविद् विद्वानोंका हम इस भोर ध्यान आकर्षित करते हैं।

× यहां तकके आचार्योंका गुर्वावलियोंमें नाममात्र ही उल्लेख है। ऐतिहासिक परिचय नहीं। फिर भी इनके नामोंके साथ जो ऐ० विशेषण दिये गये हैं, वे ये हैं:—जम्बू:—९९ कोटि द्रव्य त्याग, संयम ग्रहण। स्थूलिभद्र:—कोश्या प्रतिबोधक, महागिरी -- जिन कल्प तुरुना कारक, सुहस्ति:--संप्रति नृपके गुरु, श्यामाचार्य:--पन्नब्रणा कर्ता, वज्रसेन:--१६वर्षायु व्रत ग्रहण, वृद्धदेव:—कुमदचन्द्र विजेता, मानदेव:--शान्ति स्तव कर्ता, मानतुंग:—भक्तामर, भयहर स्त्रोत्रकर्ता, वयर स्वामी:—१०पूर्वधर, उमास्वाति:--५०० प्रकरणकर्ता।

वर्द्धमान सूरि

(पृ० ४४)

उपरोक्त उद्योतन सूरिजीके आप मुख्य शिष्य थे। आपने आवू गिरिपर छः महीनेतक तपस्या करके सूरि मन्त्रकी साधना (शुद्धि) की, पातालवासी धरणेन्द्रदेव प्रगट हुआ, उसके सूचनानुसार वहाँ आदि-जिनकी वज्रमय प्रतिमा प्रगट हुई। इससे मंत्रीश्वर विमल दण्ड नायकको अतिशय आनन्द हुआ और गुरुश्रीके उपदेशसे उन्होंने वहाँ नंदीश्वर प्रसादके समान, चिरस्मरणीय यशःपुञ्ज स्वरूप 'विमल वसही' बनाई। पूज्य श्रीके अतिशय प्रभावसे मिथ्यात्वयोगो आदि हतप्रभाव हुए और जैन शासनका जयवाद फैला, आपका विशेष परिचय गणधर सार्द्धशतक बृहद् वृत्ति, पट्टावलियों और युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि (पृ० ६) में देखना चाहिये।

जिनेश्वर सूरि

(पृ० ४४)

श्री वर्द्धमान सूरिजीके आप सुशिष्य थे। आपने गुजरातके अणहिल्लपाटणके भूपति दुर्लभराजके सभामें ८४ मठपति (चैत्यवासी) आचार्योंको, जो कि मन्दिरोंमें रहा करते थे, परास्त कर चैत्य-वासका उत्थापन और वसतिवास-सुविहित मुनिमार्ग का स्थापन किया था। नृपति दुर्लभराज आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर कहने लगे कि:— इस कलिकालमें कठिन और खरे चारित्रधारक साधु आप ही हैं। नृपतिके वचनानुसार तभीसे खरतर विरुदकी प्रसिद्धि हुई।

विशेष चरित्र सामग्री और ग्रन्थ निर्माणकी सूचि देखें:—युग प्रधान जिनचन्द्र सूरि पृ० १०

अभय देवसूरि

(पृष्ठ ४५)

आप श्री जिनेश्वर सूरिजीके शिष्य थे। आपने ६ अंग-सूत्रों पर वृत्ति बनाई और जयतिहूअण स्त्रोत्रकी रचना कर स्तंभन-पार्श्वनाथजीकी प्रतिमा प्रकट की। श्रीमंधर स्वामीने आपके गुणोंकी प्रशंसा की और धरणेन्द, पद्मावती आपकी सेवा करते थे। विशेष देखें: यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १२

जिनवल्लभसूरि

पृ० १,४६

आप अभयदेवसूरिजीके पट्टधर थे। पिन्डविशुांद्रे प्रकरणकी आपने रचना की थी एवं बागड़ देशमें धर्म प्रचार कर १० हजार (नये) जैनश्रावक बनाये थे। चित्तौड़में चमुंडा देवीको आपने प्रतिबोध दिया था। सं० ११६७ के आषाढ़ शुक्ला षष्ठीको चित्तौड़के महावीर चैत्यमें आपको देवभद्र सूरिजीने आचार्य पद प्रदान कर श्रीजिन अभयदेव सूरिके पदपर स्थापित किया।

विशेष चरित्रके लिये गण० शा० वृत्ति और कृतियोंके लिये युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि पृष्ठ १२ देखना चाहिये।

जिनदत्त सूरि

(पृ० १४, ४६, ३७३)

वाछिग मन्त्री (धुन्धुका वास्तव्य) की धर्मपत्नी बाहड़ देवीकी कुक्षीसे सं० ११३२ में आपका जन्म हुआ। सं० ११४१ में दीक्षा ग्रहण की। सं० ११६६ वै० कृ० ६ चित्तौड़के वीर जिनालयमें

जिनवल्लभ सूरिजीके पदपर देवभद्राचार्यने (पद) स्थापना की। उज्जयन्त पर अम्बिका देवीने अंबड़ (नाग देव) श्रावकके आराधन करनेपर उसके हाथमें स्वर्णाक्षर लिख दिये और कहा कि जो इन्हें पढ़ सकेंगे उन्हींको युगप्रधान जानना। अंबड़ सर्वत्र घूमा, पर उन अक्षरोंको कोई भी आचार्य न पढ़ सके। आखिर पाटणमें जिनदत्त सूरिजीने अंबड़के हाथपर वासक्षेपका प्रक्षेपन कर उन अक्षरोंको शिष्य द्वारा पढ़ सुनाये, तभीसे आप युगप्रधान बिरुदसे प्रसिद्ध हुए।

आपने चौसठ योगिनी और बावन वीरों (क्षेत्रपाल) को जीता था और भूत-प्रेत आदि तो आपके नामस्मरण मात्रसे पास नहीं आ सकते, सूरि मन्त्रके प्रभावसे धरणेन्द्रको साधन किया था और एक लाख श्रावक श्राविकाओंको प्रतिबोध दिया था। विक्रमपुरमें सर्व संघको मारि रोग निवारण कर अभय दान दिया और ऋषभ जिनालयकी प्रतिष्ठा की। त्रिभुवन गिरिके नृपति कुमारपालको प्रतिबोध दिया। ५०० व्यक्तियोंको जैनमुनियोंको दीक्षा दी। उज्जैनीमें योगिनी (६४) चक्रको ध्यानबलसे प्रतिबोधा। आज भी आपके चमत्कार प्रत्यक्ष हैं और स्मरण मात्रसे मन-वाञ्छित फल प्रदान करते हैं। सांभर (अजमेर) नरेश (अणोराज) को जैन-धर्मका प्रतिबोध दिया था। आपके हस्त दीक्षित साधुओंकी संख्या १५०० थी (पृ: ४६)। इस प्रकार आप-अपने महान व्यक्तित्वसे यशस्वी जीवन द्वारा चिरस्मीरणीय होकर सं: १२११ के आषाढ़ शुक्ला ११ को अजमेर नगरमें स्वर्ग सिधारे।

पृ०३७३ से ३७६में प्रकाशित अवदात छप्पयोंके अपूर्ण× (आदि अंत त्रु०) होनेके कारण वर्णित विषयका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। अतः अन्य साधनोंके आधारसे इस विषयमें जो कछ जाना गया है, उसका अति संक्षिप्त सार यहां दिया जाता है:—

कनौजमें सीहोजी+ नामक भूपति राजा राज्य करते थे, एक बार उन्होंने यात्रार्थ द्वारिका जानेका विचार कर राज्यभार अपने छोटे भाईको देकर कुंअर आसथान (जो कि उनके यदुवंशी राणीके पुत्र थे) एवं ५०० सैनिकोंके साथ प्रस्थान किया। सिहांजी जब मारवाड़ पधारे तो राणीने एक स्वप्न देखा। × × ×

इधर मारवाड़ प्रान्तके पाली शहरमें ब्राह्मण यशोधर राज्य करते थे। उस समय खेड़ नगरके गुहलवंशी राजा महेशने पालीपर चढ़ाई कर दी, इससे भयभ्रान्त हो यशोधर नगर रक्षणका उपाय सोचने लगे कि किसी सिद्ध पुरुषकी शरण ली जाय। परामर्श करनेपर ज्ञात हुआ कि खरतर गच्छ नायक श्री जिनदत्त सूरिजीका यहीं चतुर्मास है और वे बड़े ही चमत्कारी हैं। उनके मुख्य कार्य कलाप ये हैं :—

×छप्पयोंकी पूर्ण प्रति किसी सज्जनको कहीं प्राप्त होतो हमें भेजनेकी कृपा करें। छप्पयोंकी आदि अन्तकी संख्या, सम्बन्ध व प्रतिके पत्रसंख्याके हिसाबसे यह वर्णन बहुत बड़ा होना सम्भव है।

+आधुनिक इतिहासकारोंके मतसे सीहोजीका जन्म सं० १२५१ कनौजसे आना १२६८ और स्वर्ग सं० १३३० है। अतः जिनदत्तसूरिका उनके साथ सम्बन्ध होना कहांतक ठीक है, नहीं कहा जा सकता।

- १ :—मुल्तानमें पांच नदीके पांचो पीर आपके सेवक बने ।
माणिभद्र यक्ष एवं बावन वीर भी आपकी सेवामें हाजिर
रहा करते थे ।
- २ :—मुल्तानमें प्रवेशोत्सव समय (भीड़में कुचलकर) मूगलपुत्र
मर गया था , उसे आपने पुनः जीवित कर सबको आश्चर्या-
न्वित कर दिया ।
- ३ :—चोसठ योगनियोंके स्त्री रूप धारण कर व्याख्यानमें छलनेको
आने पर उन्हें मन्त्रित पाटों पर बैठाकर, कीलित कर दिया ।
आखिर वे गुरुजीसे प्रार्थना कर मुक्त हो, जाते समय ७ बरदान
दे गईं, जो इस प्रकार हैं :—

- (१) प्रत्येक ग्राम और नगरमें एक श्रावक ऋद्धिवंत होगा ।
- (२) आपके नाम लेनेवाड़ेपर बिजली नहीं गिरेगी ।
- (३) सिन्धु देशमें आपके श्रावकोंको विशेष लाभ होगा ।
- (४) आपके नाम स्मरणसे भूत-प्रेत एवं चौरादिका भय,
ज्वरादि रोग दूर होंगे । एवं शाकिनी नहीं
छल सकेगी ।
- (५) खरतर श्रावक प्रायः निर्धन न होगा और कुमरणसे
नहीं मरेगा ।
- (६) आपके स्मरणसे जलसे पार उतर जायगा, पानीमें
नहीं डूबेगा ।
- (७) बालब्रह्मचारिणी साध्वीको ऋतुधर्म नहीं आयगा ।

४ :—उज्जैनीके स्तम्भमेंसे ध्यानबलसे विद्यामन्त्रकी पुस्तक ग्रहण की, उसमेंसे स्वर्गसिद्धि आदि विद्यायें ग्रहण कर चित्तौड़के भंडारमें स्थापित की। उस पुस्तकको हेमचन्द्राचार्यके कथनसे कुमारपाल नृपतिने मंगाई, पर उसे खोलनेका (ग्रन्थके ऊपर) निषेध लिखा हुआ होनेपर भी हेमचन्द्राचार्यकी बहिन-साध्वीके पुस्तकके बन्दलको खोलनेपर वे नेत्रहीन हो गयीं और पुस्तक उड़कर जेसलमेरके भण्डारमें जा गिरी। वहां चोसठ योग-नियां उनकी रक्षा करती हैं।

५ :—प्रतिक्रमणके समय पड़ती हुई बिजलीको रोक दी।

६ :—विक्रमपुरमें मृगीके उपद्रव होनेपर 'तंजयउ' स्त्रोत्र रचकर शांति की। वहां महेश्वरी, डागा, लुणिया आदि १५०० श्रावकोंको प्रतिबोध दिया।

इस प्रकार गुरुजीकी प्रशंसा सुनकर उनसे यशोधरने राज्य रक्षण की प्रार्थना की। गुरुजीने उपरोक्त सिंहोजीको वहांका राज्य दिलवाकर उस राज्यकी रक्षा की, तभीसे राठोड़, खरतर आचार्योंको अपना गुरु मानने लगे।

जिनचन्द्र सूरि

(पृ० ५)

सं० ११६७ भाद्र शुक्ला ८ को रासलकी पत्नी देहलणदेकी कुक्षिसे आप जन्मे थे। सं० १२०३ फाल्गुन शुक्ला ६ को ६ वर्षकी लघुवयमें ही जिनदत्त सूरिके समीप दीक्षा ग्रहण की। सं० १२०५ वैशाख शुक्ला षष्ठीको विक्रमपुरमें श्री जिनदत्त सूरजीने अपने पट्टे-

पर स्थापित किया था। कहा जाता है कि आपके भालस्थलपर मणि थी। अतः नरमणिमण्डित (भाल स्थल) नाम (संज्ञा) से आपकी सर्वत्र प्रसिद्धि है।

सं० १२२३ भाद्र कृष्ण चतुर्दशीको दिल्लीमें आपका स्वर्गवास हुआ।

जिनपति सूरि

(पृ० ६ से १०)

मरुस्थलके विक्रमपुर निवासी मालहू यशोवर्द्धनकी भार्या सूहव-देकी कुक्षिसे सं० १२१० चैत्र कृष्ण अष्टमीके दिन आपका जन्म हुआ था। आपका जन्मका शुभ नाम 'नरपति' रखा गया। सं० १२१८ फाल्गुन कृष्ण १० को जिनचन्द्र सूरिजीके पास भीम-पल्लीमें आपने दीक्षा ग्रहण कर सर्व सिद्धान्तोंका अध्ययन किया।

सं० १२२३ कार्तिक शुक्ला १३ बब्बेरकपुरमें जयदेवाचार्यने श्री जिनचन्द्र सूरिके पदपर स्थापन कर आपका नाम जिनपति सूरि रखा, इसके पश्चात् आपने अपनी अद्वितीय मेधा व प्रतिभासे ३६ वादोंमें अन्तिम हिन्दू सम्राट् पृथ्वीराज एवं जयसिंह आदिके राज्य-सभामें विजय प्राप्त की। वादो रूपी हस्तियोंके विदीर्णार्थ आप सिंहके समान थे। आपने बहुतसे शिष्योंको दीक्षा दी। अनेकों जिन विम्बों आदिकी प्रतिष्ठायें की। शासन देवी आपके पादपद्मोंकी सेवा करती थी और जालन्धरा देवीको आपने रञ्जित किया था। खरतर गच्छकी मर्यादा (विधि) आपने ही सुव्यवस्थित की थी।

मरुकोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रजी (षष्टि शतककर्त्ता) सद्गुरुके शोधमें १२ वर्ष तक पर्यटन करते हुए पाटण पधारे और आपके सद्गुणोंसे प्रतिबोधको प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, भण्डारीजीके पुत्रने आपके पास दीक्षा ग्रहण की थी। वास्तवमें आप युग-प्रधान आचार्य थे।

इस प्रकार स्वपर कल्याण करते हुए सं० १२७७ आषाढ़ शुक्ला १० को पालहणपुरमें स्वर्ग सिधारे। वहाँ संघने स्तूप बनवाया।

जिनेश्वर सूरि

(पृ० ३७७)

मरुस्थलके शिरोमणि मरोट कोट निवासी भण्डारी नेमचन्द्रकी भार्या लक्ष्मणीकी कुक्षिसे सं० १२४५ मार्गशीर्ष शुक्ला ११ को आपका जन्म हुआ था। अम्बिका देवीके स्वप्नानुसार आपका जन्म नाम 'अम्बड़' रखा गया।

श्री जिनपति सूरिजीके सदुपदेशसे वैराग्य वासित होकर आपने अपने माता-पितासे प्रवज्या ग्रहण करनेकी आज्ञा मांगी, माताश्रीने संयमकी दुर्द्धरता बतलाई पर उत्कट वैराग्यवानको वह असार ज्ञात हुई; क्योंकि आपका ज्ञान-गर्भित वैराग्य संसारके दुखोंसे विलग होनेके लिये ही हुआ था।

सं० १२५८ चैत्र कृष्णा २ खेड़ नगरके शान्ति जिनालयमें श्री जिनपति सूरिजीने दीक्षित कर आपका नाम वीरप्रभ रखा, आप सर्वसिद्धान्तोंका अवगाहन कर श्री जिनपति सूरिके पदपर सुशो-भित हुए। आचार्य पद प्राप्तिके पश्चात् आप जिनेश्वर सूरि नामसे

प्रसिद्ध हुए। आपने अनेक देशोंमें विहार कर बहुतेसे भव्यात्माओं-को प्रतिबोध दिया। इस प्रकार धर्म प्रचार करते हुए आप जालोर पधारे और अपने आयुष्यका अन्त निकट जानकर अपने सुशिष्य वाचनाचार्य प्रबोध मूर्तिको अपने पदपर स्थापित कर जिनप्रबोध सूरि नाम स्थापना की और वहीं अनशन आराधना कर सं० १३३१ के आश्विन कृष्णा ६ को स्वर्ग सिधारे।

जिन प्रबोध सूरि उल्लेख :—गुर्वावलियोंमें

जिनचन्द्र सूरि " "

श्री जिन कुशलसूरिजी विरचित 'जिनचन्द्र सूरि चतुःसप्ततिका' प्राप्त हुई है। ग्रन्थ विस्तार भयसे उसे प्रगट नहीं की गयी, मात्र उसका सार नीचे दिया जाता है।

मारवाड़ प्रान्तमें समीयाणा (सम्माणथणि) नगरके मन्त्री देवराजकी पत्नी कोमल देवीकी रत्नगर्भा कुक्षिसे सं० १३२४ मार्ग-शीर्ष शुक्ला ४ को आपका जन्म हुआ था। आपका जन्म नाम खंभराय रखा गया। खंभराय क्रमशः वयके साथ-साथ गुणोंसे भी बढ़ते हुए जब ६ वर्षके हुए तब श्री जिनप्रबोध सूरिकी देशना श्रवणका सुअवसर मिला। उनके उपदेशसे प्रतिबोध कर सं० १३३२ के जेठ शुक्ला ३ को गुरुश्रीके समीप प्रव्रज्या ग्रहण की। पूज्य श्रीने आपका नाम "क्षेमकीर्त्ति" रखा। दीक्षाके अनन्तर आपने व्याकरण, छंद, नाटक, सिद्धान्त आदिका अध्ययन कर विद्वता प्राप्त की।

विक्रमपुर स्थित महावीर प्रतिमाके ध्यान बलसे अपने आयुष्यका अन्त निकट जानकर श्री जिनप्रबोधसूरिजी जावालपुर पधारे और वहां क्षेमकीर्त्तिजीको स्वहस्त कमलसे सं० १३४१ वै० शु० ३ अक्षय तृतीयाको वीर चैत्यमें बड़े महोत्सवपूर्वक आचार्य पद प्रदान कर गच्छभार सौंपकर जिनप्रबोधसूरिजी स्वर्ग सिधारे । आचार्य पदके अनन्तर आपका शुभ नाम जिनचन्द्रसूरि प्रसिद्ध किया गया । आपके रूप लावण्य और गुण सचमुच सराहनीय थे । श्रीकर्णदेव जैत्रसिंह, और समरसिंहजी भूपति त्रय आपकी सेवा करनेमें अपना अहोभाग्य समझते थे । आपने बिम्ब प्रतिष्ठा, दीक्षा एवं पद प्रदानादि कर अनेकानेक धर्मप्रभावनाकी । शत्रुंजय, गिरनार आदि तीर्थोंकी यात्रा की । एवं गुजरात, सिन्ध, मारवाड़, सवालप्रदेश, बागड़, दिल्ली आदि देशोंमें विहार कर धर्म प्रचार किया । सं० १३७६ के आषाढ़ शुक्ल ६ को राजेन्द्रचन्द्र सूरिजीको अपने पदपर कुशल कीर्त्तिको स्थापन करने आदिकी शिक्षा देकर अनशन आराधना-पूर्वक स्वर्ग सिधारे ।

जिनकुशल सूरि

(पृ० १५ से १६)

अणहिल्ल पटनाधीश दुर्लभराज (की सभामें चैत्यवासियोंको परास्त कर) के समय बसतिमार्गप्रकाशक जिनेश्वर सूरि (प्रथम) के पट्टपर संवेगरंगशालाके कर्त्ता जिनचन्द्र सूरि, नवांगीवृत्तिकर्त्ता अभयदेव सूरि कि जिन्होंने (स्तम्भन) पार्श्वनाथके प्रसादसे धरणेन्द्र पद्मावती आदि देवोंको साधित किये, उनके पट्टपर संवेगीशिरोमणि

और चित्तौडस्थ चामुण्डा देवीको प्रतिबोध देनेवाले जिनवल्लभसूरि और उनके पट्टधर योगिराज जिनदत्त सूरि हुए कि जिन्होंने ज्ञानध्यानके प्रभावसे योगिनियां आदि दुष्ट देवोंको किंकर बना लिये थे। उनके पदपर सकल कला-सम्पन्न जिनचन्द्र सूरि और उनके पट्टधर-वादियों रूप गजोंके विदारणमें सिंह सादृश (वादी मानमर्दन) जिनपति सूरिजी हुए।

जिनपति सूरिके जिनेश्वर सूरि उनके पट्टधर जिनप्रबोध सूरि और उनके पट्टधर जिनचन्द्र सूरि हुए, जिन्होंने बहुत देशोंमें सुविहित विहारकर त्रिभुवनमें प्रसिद्धी प्राप्त की एवं सुरताण (सम्राट्) कुतबुद्दीनको रंजित किया था, उनके पट्टधर जिनकुशल सूरि हुए, जिनके पदस्थापनाका वृतान्त इस प्रकार है:—

दीनोद्धारक कल्पतरु और महान् राज्य प्रसादप्राप्त मन्त्री देवराजके पुत्र जेल्हेकी पत्नि जयत श्रीके पुत्ररत्न कि जिनका दीक्षित नाम वाचनाचार्य कुशलकीर्त्ति था, को राजेन्द्रचन्द्र सूरिने पाटणमें जिनचन्द्र सूरिके पदपर स्थापित किया। उस समय दिल्ली वास्तव्य महतीयाण ठक्कुर विजय सिंह एवं पाटणके ओसवाल तेजपाल व उनका लघुध्राता रूद्रपालने श्रीराजेन्द्रचन्द्र सूरि और विवेकसमुद्रोपाध्यायसे पद महोत्सव करनेका आदेश मांगा और उनकी आज्ञा प्राप्तकर सर्वत्र कुंकुम-पत्रीकाएं प्रेषित कर बड़ा महोत्सव प्रारम्भ किया। सं० १३७७ के ज्येष्ठ कृष्णा एकादशीके दिन जिनालयको देवविमानके सादृश सुशोभित कर जिनेश्वर प्रभुके समक्ष राजेन्द्रचन्द्र सूरिने वा० कुशलकीर्त्तिको जिनचन्द्र सूरिके पदपर स्थापित कर 'जिनकुशल

सूरि' नाम स्थापना की, उस समय अनेक देशोंके संघ आये थे, वाजित्रीके नादसे आकाशमण्डल व्याप्त हो गया था। महतीयाण विजय सिंहने खूब गुरुभक्ति की, देश-विदेश विख्यात सामलवंशी वीरदेवने स्वधर्मीवात्सल्य किया। उस समय ७०० साधु, २४०० साध्वियोंको तेजपाल, रुद्रपालने अपने घर आमंत्रित कर वस्त्र परि-
 धापन किया। अणहिल्ल पाटणकी शोभा उस समय बड़ी दर्शनीय और चित्ताकर्षक थी। महोत्सव करनेवाले तेजपालको सभी लोग बड़ी उत्सुकतासे देख रहे थे। इस प्रकार युगप्रधान पद महोत्सव कर सचमुच तेजपालने बड़ी ख्याति प्राप्त की।

आपका विशेष परिचय खरतरगच्छगुर्वावली और पट्टावलियोंमें पाया जाता है। उक्त गुर्वावली यथावसर हमारो ओरसे सानुवाद प्रकाशित होगे। आपकी रचित "चैत्यवंदन कुलक वृत्ति" प्रकाशित हो चुकी है।

जिनपद्मसूरि

(पृ० २० से २३)

उपरोक्त श्री जिनकुशल सूरिजी महिमंडलमें विचरते हुए देरावर पधारे। वहां व्रत ग्रहण, मालाग्रहण, पदस्थापन आदि अनेक धर्मकृत्य हुए। सूरिजीने अपना आयुष्यका अन्त निकट ज्ञातकर (तरुणप्रभ) आचार्यको अपने पद (स्थापन) आदि ही समस्त शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे। इसी समय सिन्धु देशके राणु नगर वास्तव्य रीहड श्रावक पुनचन्दके पुत्र हरिपाल देरावर पधारे और युगप्रधान पद-महोत्सव करनेकी आज्ञाके लिये तरुणप्रभाचार्यसे विनोत प्रार्थना की और आज्ञा प्राप्त

कर दशोंदिशाओंके संघोंको कुंकुम-पत्रीयों द्वारा आमंत्रित किये, संघ आये ।

प्रसिद्ध खीमड कुलके लक्ष्मीधरके पुत्र आंवाशाहकी पत्नीकी कुक्षि सरोवरसे उत्पन्न राजहंसके सादृश पद्मसूरिजी को सं०१३८६ ज्येष्ठ शुक्ला षष्ठी सोमवारको ध्वजा पताका, तोरण वंदनमालादिसे अलंकृत आदीश्वर जिनालयमें नान्दिस्थापन विधिसह श्री सरस्वती कंठाभरण तरुणप्रभाचार्य (षडावश्यक बालावबोधकर्ता) ने जिनकुशल सूरिजीके पदपर स्थापित कर जिनपद्म सूरि नाम प्रसिद्ध किया । उस समय चारों ओर जयजय शब्द हो रहा था । रमणियां हर्षसे नृत्य कर रहीं थीं । लोगोंके हृदयमें हर्षका पार न था । शाह हरिपालने संघभक्ति (स्वामिवात्सल्यादि) एवं गुरुभक्ति (वस्त्रदानादि) के साथ युगप्रधान पद महोत्सव बड़े समारोहके साथ किया ।

पाटण संघने आपको (बालधवल) कुर्चाल सरस्वती विरुद्ध दिया । (पृ० ४७)

जिनचन्द्र सूरि (३० गुर्वावल्लिमें)

जिनोदय सूरि (पृ० ३८४ से ३६४)

चन्द्रगच्छ और वज्रशाखामें श्री अभयदेवसूरिजी हुए उनके पट्टानुक्रममें सरस्वती कण्ठाभरण जिनवल्लभ सूरि, विधिमाग प्रकाशक जिनदत्तसूरि, कामदेव सादृश रूपवान् जिनचन्द्रसूरि, वादिगज केशरी जिनपत्ति सूरि, भक्तजन कल्पवृक्ष जिनेश्वर सूरि, सकलकला सम्पन्न जिनप्रबोध सूरि, भवोदधिपोत जिनचन्द्र सूरि, सिन्धुदेशमें विहित

विहार कर जिनधर्म प्रचारक जिनकुशल सूरि, सुरगुरु अवतार जिनपद्म सूरि, शासन शृङ्गार जिनलब्धि सूरिके पट्ट प्रभाकर तेजस्वी जिनचन्द्रसूरि ज्ञाननीर वर्षाते हुए खंभाते पधारे और (आयुष्यका अन्त जान, तरुण प्रभ) आचार्य को गच्छ और पद स्थापनादिकी समस्त शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे ।

इसी समय दिल्ली वास्तव्य श्रीमाल रुद्रपाल, नींबा सधराके पुत्र संघवी रतना पूनिग सदगुरुवर्यको वन्दनार्थ खंभात आये और उन्होंने श्रीतरुणप्रभाचार्यको वन्दनकर पद महोत्सवकी आज्ञा ले ली । सं० १४१५ के आषाढ कृष्ण १३ को हजारों लोगोंके समक्ष अजित-जिनालयमें आचार्यश्रीने वाचनाचार्य सोमप्रभको गच्छनायक पद देकर जिनोदय सूरि नाम स्थापनाकी । संघवी रतना, पूनाने उस समय बड़ा भारी उत्सव किया । लोगोंके जयजयारवसे गगन मण्डल व्याप्त हो गया । वाजित्र बजने लगे, याचक लोग कलरव (शोर) करने लगे, कहीं सुन्दर रास (खेल) हो रहे थे, कहीं मृदुभाषिणी कुलाङ्गनायें मङ्गल गीत गा रही थीं । इस प्रकार वह उत्सव अतिशय नयनाभिराम था । संघवी रतना पूना और शाह वस्तपालने याचकोंको वाञ्छित दान दिया , चतुर्विध संघकी बड़ी भक्ति और विनयसे पूजाकी, साधमीं वात्सल्यादि सत्कार्योंमें अपनी चपला लक्ष्मीको खुले हाथ व्ययकर जीवनको सार्थक बनाया, उस समय साहिहग और गुणराजने भी याचकोंको बहुत दान दिये । उपरोक्त वर्णन ज्ञानकलश कृत रासके अनुसार लिखा गया है ।

मेरुसदन कृत विवाहलेके अनुसार श्रीजिनोदयसूरिका विशेष परिचय इस प्रकार है—

गूर्जरधरा रूपी सुन्दरीके हृदयपर रत्नोंके हारके भांति पाल्हणपुर नगर है। उसमें व्यापारी मुख्य माल्हू शाखाके (शाह रतनिग कुल मण्डल) रुद्रपाल श्रेष्ठ निवास करते थे। सं० १३७५ में उनकी भार्या धारल देवीके कुक्षि सरोवरसे राजहंसके सदृश पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिताने उसका शुभ नाम समरा रखा। चन्द्रकलाके भांति समरा कुमर दिनोदिन वृद्धिको प्राप्त होने लगा।

इधर पाल्हणपुरमें किसी समय श्री जिनकुशलसूरिजी का शुभागमन हुआ। धर्म-प्रेमी रुद्रपालने सपरिवार गुरुजीको वन्दन कर धर्म श्रवण किया। सूरिजीने समरा कुमरके शुभ लक्षणोंको देख (आश्चर्यान्वित होकर) रुद्रपालको उसे दीक्षित करनेका उपदेश देकर आप भीमपल्ली पधारे। इधर माताके खोलेमें बैठे कुमरने सूरिजीके पास दिक्षा कुमारीसे विवाह करानेकी प्रार्थना की। माताने संयम पालनकी दुष्करता, उसकी लघु अवस्था आदि बतलाकर बहुत समझाया, पर वैरागी समराने अपना दृढ़ निश्चय प्रगट किया। अतः इच्छा नहीं होते हुए भी पुत्रके अत्याग्रहसे रुद्रपालने सपरिवार भीमपल्ली जाकर वीर जिनालयमें नादिस्थापन कर जिनकुशलसूरिके हस्तकमलसे समरा कुमरको सं० १३८२ में दीक्षा दिलाई। कालिकाचार्यके साथ सरस्वती बहनने दीक्षा ग्रहण की थी उसी प्रकार समराकुमरके साथ उसकी बहिन कीलहूने दीक्षा ग्रहण की। गुरुने समरेकुमरका नाम 'सोमप्रभ' रखा। सोमप्रभ मुनि अब बड़े

मनोयोगसे विद्याध्ययन करने लगे और समस्त शास्त्रोंके पारंगत बने । सोमप्रभकी योग्यतासे प्रसन्न हो गुरुश्रीने सं० १४०६ में जेसलमेरमें 'वाचनाचार्य' पद प्रदान किया । वाचनाचार्यजी सुविहित बिहार करते हुए धर्म प्रचार करने लगे ।

इस प्रकार धर्मोन्नति करते हुए सोमप्रभजीको सं० १४१५ आषाढ कृष्ण त्रयोदशीको खंभातमें श्री तरुणप्रभाचार्यने जिन चंद्र-सूरिके पदपर स्थापित किये । पदस्थापनका विशेष वर्णन ऊपर आ ही चुका है ।

आचार्यपद प्राप्तके अनन्तर श्री जिनोदय सूरिजीने सिंध, गुजरात, मेवाड़ आदि देशोंमें बिहार कर सुविहित मार्गका प्रचार किया । पांच स्थानोंमें बड़ी प्रतिष्ठायें की, २४ शिष्यों १४ शिष्यणियोंको दीक्षित किये, अनेकोंको संघवी, आचार्य, उपाध्याय, वाचनाचार्य महत्तरा आदि पदसे अलंकृत किये । इस प्रकार धर्म प्रभावना करते हुए सं० १४३२ के भाद्र कृष्णा एकादशीको पाटणमें लोकहिताचार्यको शिक्षा देकर स्वर्ग सिंधारे । संघने आपके अन्तक्रिया स्थलपर सुन्दर स्तूप बनाकर भक्ति प्रदर्शित की ।

जिनराज सूरि

उ० गुर्वावलियोंमें

जिनभद्र सूरि

”

जिनचन्द्र सूरि पृ० ४८

साहु शाखाके वच्छराजकी भार्या स्याणीके कुक्षिसे आप जन्मे थे ।

जिन समुद्रसूरि

उ० गुर्वावलियोंमें

खरतर गुरुगुण छप्पय और गुरुगुण षट्पदका सार

प० १ से ३ एवं २४ से ४०

नाम	पदस्थापनासंवत्	मिती	स्थान	जिनालय	पददाता
जिनवल्लभः—	सं० ११६७	आषाढ शुक्ला ६	चित्तौड़,	महावीर,	देवभद्रसूरि
जिनदत्तः—	सं० ११६९	वैशाख कृष्णा ६	”	”	”
जिनचन्द्रः—	सं० १२०५	वैशाख शुक्ला ६	विक्रमपुर,	”	जिनदत्तसूरि
जिनपतिः—	सं० १२२३	कार्तिक शुक्ला १३	बवैरेपुर,		जयदेवसूरि
जिनेश्वरः—	सं० १२७८	माह शुक्ला ६	जालौर,	”	सर्वदेवसूरि
जिनप्रबोध—	सं० १३३१	आश्विन (कृष्णा) ५	”		
जिनचन्द्रः—	सं० १३४१	वैशाख शुक्ला ३	”		
जिनकुशलः—	सं० १३७७	ज्येष्ठ कृष्णा ११	पाटण,		
जिनपद्मसूरिः—	सं० १३६०	ज्येष्ठ शु० ६	देरावर,		
जिनलब्धिः—	सं० १४००	आषाढ कृष्णा १			
जिनचन्द्रः—	सं० १४०६	माह शुक्ला १०	जैसलमेर,		
जिनोदयः—	सं० १४१५	आषाढ कृष्णा १३	खंभात,		अजित,
जिनराजः—	१४३३	फाल्गुण कृष्णा ६	पाटण,	शांति,	लोकहितार्थ
जिनभद्र—	सं० १४७५	माह (शु० १५)	भाणशह्नि,		
					अजित, सागरचंद्राचार्य

अन्य महत्त्वके उल्लेखः—(गा २०) सं० १०८० पाटण दुर्लभ सभा चौत्यवासी विजय, जिनेश्वर सूरिको खरतर विहद प्राप्ति,(गा० २१) गौतमके १५०० तापसोंका प्रतिबोध, (द्वि०गा २२)कालिकाचार्यका चतुर्थीको पर्युषण करता,(गा २३)में जिनदत्त सूरिका युगप्रधानपद,(गा० ३०)में दशारणभद्रका

जिनहंससूरि

पृ० ५३

जिनहंस सूरिजीका सूरिपद महोत्सव करमसिंहने एक लाख पीरोजी खरचकर बड़े समारोहसे किया। आचार्य पद प्राप्तिके अनन्तर अनेक देशोंमें विहार करते हुए आप आगरे पधारे। श्रीमाल डुंगरसी और उनके भ्राता पामदत्तने अतिशय हर्षोत्साहसे प्रवेशोत्सव बड़े धूमधामसे किया, सजावट बड़ी दर्शनीय की गई, लोगोंकी भीड़से मार्ग संकीर्ण हो गये, पातशाह स्वयं हाथीके होदे उम्बर खान, वजीर इत्यादि राज्यके अमलदारोंके साथ सामने आये, वाजित्र बज रहे थे। श्राविकायें मंगलकलश मस्तकपर धारण कर गुरुश्रीको मोतियोंसे बधा रहीं थीं। रजत मुद्रा (रूपये) के साथ पान (ताम्बूल) दिये गये, इससे बड़ा यश फैला और दिल्लीपति सिकन्दर पातशाहको यह जान बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने सूरिजीको राजसभा (दीवानखाना) में आमंत्रित कर करामात दिखाने को कहा, क्योंकि सम्राटके खरतर जिनप्रभसूरिजीके करामात (चमत्कार) की बातें, पहिले लोगोंसे सुनी हुई थी। पूज्यश्रीने तपस्याके साथ ध्यान करना प्रारम्भ किया, यथासमय जिनदत्तसूरिजीके प्रसाद एवं ६४ योगिनीयोंके सानिध्यसे किसी चमत्कार विशेषसे सिकन्दर

वीर चन्दन (गा० २३) पीछेकी १ गाथामें सं० १४१२ फा० व १४ अभय-तिलकके रचनाका लेख है, (द्वि० गा० २३) में जिनलड्डि सूरिको नवलक्ष गोत्रीय धर्णलिव्हेके भार्या खेताहोके कुक्षिसे उत्पन्न होना और बाल्यवयमें व्रत लेना, लिखा है।

पातशाहका चित्त चमत्कृत कर ५०० बन्दीजनोंको कारावास (वाखरसी) से छुड़ाकर महान सुयश प्राप्त किया ।

कवि भक्तिलाभने गुरुभक्तिसे प्रेरित होकर इस यशगीतकी रचना की । वि० आपके रचित आचाराङ्गदीपिका (सं० १५८२ बीकानेर) उपलब्ध है ।

जिनमाणिक्य सूरि (३० गुर्वावलियोंमें)

युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि (पृ० ५८ से १२४)

जिनसिंह सूरि (पृ० २२५ से १३३)

श्री जिनचन्द्र सूरिजी एवं जिनसिंह सूरिजीके सम्बन्धी गीत, रास आदि काव्योंका सर्व सारांश “युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि” में दिया है । अतः यहां दुहराकर ग्रन्थके कलेवरको बढ़ाना उचित नहीं समझा गया ।

जिनचन्द्र सूरि सम्बन्धी दो बड़े रास हैं, उनमेंसे “अकबर-प्रतिबोध रासका सार उक्त ग्रन्थके छठें, सातवें प्रकरणमें एवं निर्वाण रासका सार ११, १२ वें प्रकरणमें दे दिया गया है ।

श्री जिनसिंह सूरिजीका ऐतिहासिक परिचय उक्त ग्रन्थके पृ० १७४ से १८२ तकमें लिखा गया है । आपके सम्बन्धमें हमें सूरचन्द्र कृत एक रास अभी और नया उपलब्ध हुआ है, पर उसमें हमारे लि० चरित्रके अतिरिक्त कोई विशेष नवीनता नहीं, और ग्रन्थ बहुत बढ़ा हो जानेके कारण उसे प्रकाशित नहीं किया गया ।

सूरचन्द्र कृत रासमें नवीन बातें ये हैं :—

(१) जिनसिंह सूरिजीके पिताका निवास स्थान 'बीठावास' लिखा है ।

(२) पाटणमें धर्मसागर कृत ग्रन्थको अप्रमाणित सिद्ध किया । संघवी सोमजीके संघ सह शत्रुंजय यात्रा की ।

(३) इनके पदमहोत्सवपर श्रीमाल-टांक गोत्रीय राजपालने १८०० घोड़े दान किये थे ।

(४) अकबर सभामें ब्राह्मणोंको गंगा नदीके जलकी पवित्रता एवं सूर्यकी मान्यतापर प्रत्युत्तर देकर, विजय किया था ।

जिनराज सूरि

(पृ० १५० से १७७, ४१७)

राजस्थानमें बीकानेर एक सुसमृद्ध नगर है, वहां राजा रायसिंह जी राज्य करते थे, उनके मन्त्री करमचन्द्रजी वच्छावत थे । जिन्होंने सं० १६३५ के दुष्कालमें सत्रूकार (दानशाला) स्थापित कर डोलती हुई पृथ्वीको (दान देकर) स्थिर कर दी थी, एवं लाहौरमें जिनचन्द्र सूरिजीके युग प्रधान पद एवं जिनसिंह सूरिजीके आचार्य पदके महोत्सवपर क्रोड द्रव्य और नव ग्राम, नव हाथी आदिका महान दान किया था ।

उस समय बीकानेरमें बोथरा कुलोत्पन्न धर्मशी शाह निवास करते थे, उनकी धर्मपत्नीका शुभ नाम धारल देवी था । सांसारिक भोगोंको भोगते हुए दम्पति सुखसे काल निर्गमन करते थे ।

हमारे संग्रहके प्रबन्धमें आपके ७ भाइयोंके नाम इस प्रकार हैं :—
१ राम, २ गेहा, ३ खेतसी, ४ भौरव, ५ केशव, ६ कपूर, ७ सातड,

इस प्रकार विषय भोगोंको भोगते हुए धारल देवीकी कुक्षिमें सिंह स्वप्न सूचित एक पुण्यवान जीव अवतरित हुआ ।

ज्योतिषियोंको स्वप्न फल पूछनेपर उन्होंने सौभाग्यशाली पुत्र उत्पन्न होनेकी सूचना दी । यथा समय (गर्भ वृद्धि होनेके साथ-साथ अच्छे-अच्छे दोहद उत्पन्न होने लगे, अनुक्रमसे गर्भ स्थिति परिपूर्ण होनेसे) सं० १६४७ वैसाख सुदी ७ बुधवार, छत्र योग श्रवण नक्षत्रमें धारलदेवीने पुत्र जन्मा ।

दशूठण उत्सवके अनन्तर नवजात शिशुका नाम खेतसी रखा गया, वृद्धिमान होते हुए खेतसी * कलाभ्यास करने लगा अनुक्रमसे ६ भाषा, १८ लिपि, १४ विद्या, ७२ कला, ३६ राग और चाणक्यादि शास्त्रोंका अध्ययन कर प्रवीण हो गया । इसी समय अकबर बादशाह प्रशंसित जिन सिंह सूरिजी वीकानेर पधारे । लोक बड़े हर्षित हुए और सूरिजीका धर्मोपदेश श्रवणार्थ सभी लोग आने लगे, (अपने पिताके साथ) खेतसी कुमार भी व्याख्यानमें पधारे । और धर्म श्रवणकर वैराग्यप्राप्त होकर घर आकर अपनी माताजी से दीक्षा की अनुमति मांगी । पर पुत्रका स्नेह सहज कैसे छूट सकता था । माताने अनेक प्रकारसे समझाया पर खेतसी कुमार अपने दृढ़ निश्चयसे विचलित नहीं हुए और सं० १६५६ मार्गशीर्ष शुक्ल १३ को जिनसिंह सूरिजीके समीप दीक्षा ग्रहण की । इस समय धर्मसी शाहने दीक्षाका बड़ा उत्सव किया, नव दीक्षित मुनि अब गुरुश्री के प्रदत्त राजसिंहके नामसे परिचित होने लगे ।

* एक पट्टावलीमें लिखा है कि आपके लवु भ्राता भैरवने भी आपके साथ दीक्षा लो ।

स्वयं संथारा उच्चारण कर सं० १६७४ पौष शुक्ला १३ को प्रथम देवलोक सिधारे ।

संघने एकत्र हो पट्टधरके योग्य कौन है इसका विचारकर राज-समुद्रजीको योग्य विदित कर उन्हें गच्छनायक और सूरिजीके अन्य शिष्य सिद्धसेन मुनिको आचार्य पदसे विभूषित किये । ये दोनों जिनराज सूरि और जिनसागर सूरिजीके नामसे प्रसिद्ध हुए । पदमहोत्सवपर संघवी आसकरण चौपड़ेने बहुत द्रव्य व्यय किया । १६७४ फाल्गुन शुक्ला ७* को पदस्थापना बड़े समारोहसे हुई ।

गच्छनायक पद प्राप्तिके अनन्तर आपने अनेक जगह विहारकर अनेकानेक धर्म प्रभावनायें की, जिनमेंसे कुछ ये हैं:—(सं० १६७५ मिगसर सुदी १२ को) जेसलमेर (लोद्रवे) गढ़में (भणसाली थाहरू-कारित) सहस्त्रफणापाश्वर्नाथकी प्रतिष्ठा की । (सं० १६७५ वै० शु० १३ क) शत्रुंजय पर (सोमजी पुत्र रुपजीकारित) अष्टमोद्धारके ७०० प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा की । भाणवटमें बाफणा चांपशी कारित अमीझरा पाश्वर्नाथजीकी प्रतिष्ठाकी, मेड़तेमें चौपड़ा असकरण कारित शान्ति जिनालयकी (सं० १६७७ जे० कृ० ५) प्रतिष्ठाकी । अम्बिका देवी एवं ५२ वीर आपके प्रत्यक्ष थे, सिन्धमें विहारकर (पांच नदीके) पाँच पीरोंको आपने साधित किये । ठाणांग सूत्रकी विषम पदार्थ वृत्ति बनाई ।

* प्रबन्धमें उपाध्याय सोमविजयका नाम भी है ।

+ प्रबन्धमें द्वितीया लिखा है । सूरिमन्त्र पुनमीया हेमाचार्यने दिया लिखा है ।

इस प्रकार शासनका उद्योत करनेवाले गच्छ नायकके गुण-कीर्तन रूप यह रास श्रीसार कविने सं० १६८१ अथाढ़ कृष्ण १३ को सेत्रावामें रचा । क्षेमशाखाके रत्नहर्षके शिष्य हेमकीर्त्तिने यह प्रबन्ध बनवाया । गच्छ नायकके गुणगान करते समय (वर्षा) भी अच्छी हुई । उपरोक्त रास रचनाके पश्चात् (सं० १६८६ मार्गशीर्ष कृष्णा ४ रविवारको आगरेमें सम्राट शाहजहाँसे आप मिले थे और वहां ब्राह्मणोंको वादमें परास्त किये एवं दर्शनी लोगोंके विहारका जहां कहीं प्रतिषेध था वह खुला करवा कर शासनोन्नति की । राजा गजसिंहजी, सूरसिंहजी, असरपखान, आलमदीवान आदिने आपकी बड़ी प्रशंसा की ।

यह सबैये (पृ० १७३) से स्पष्ट है । गीत नं० ५ में लिखा है कि मुकरबखान ने आपके शुद्ध और कठिन साध्वाचारकी बड़ी प्रशंसा की ।

आपके रचित १ शालिभद्र चौ० २ गजसुकमाल चौ० ३ चौबीसी ४ बीशी ५ प्रश्नोत्तर-रत्नमाला बीशी ६ कर्म बतीसी ७ शील बतीसी बालावबोध ८ गुणस्थानस्त और अनेक पद उपलब्ध हैं । नैषध-काव्य पर भी आपके ३६ हजारी वृत्ति बनानेका उल्लेख है । डेकन कालेजमें इसकी दो प्रतियां विद्यमान हैं ।*

—* हमारे संग्रहके जिनराज सूरि प्रबंधमें विशेष बातें यह हैं :—

आपने ६ मुनियोंको उपाध्याय, ४१ को वाचक पद और १ साध्वीजी को प्रवर्तनी पद दिया, ८ बार शत्रुञ्जयकी यात्रा की, पाटणके संवके साथ गौडीपार्श्वनाथ, गिरनार, आवू, राणकपुरकी यात्रा की, नवानगरके

जिनरतन सूरि

(पृ० २३४ से २४७)

मरुधर देशके सेरुणा ग्राममें ओशवाल लुणिया गोत्रीय तिलोकसी शाहकी पत्नी तारा देवीकी* कुक्षिसे (सं० १६७०) में आपका जन्म हुआ था। आठ वर्षकी लघुवयमें ही आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ और जिनराज सूरिके पास अपने बान्धव और माताके साथ (सं० १६८४) में दीक्षा ग्रहण की। थोड़े दिनोंमें ही शास्त्रोंका अध्ययन कर देश-विदेशोंमें बिहार कर भव्य जनोंको प्रतिबोध देने लगे। ×आपके गुणोंसे योग्यताका निर्णय कर जिनराज सूरिजीने अहमदाबाद बुलाकर आपको उपाध्याय पदसे अलंकित किया। इस समय जयमल, तेजसीने बहुत-सा द्रव्य व्यय कर उत्सव किया था।

सं० १७०० में जिनराजसूरिजीका चतुर्मास पाटण था। उन्होंने स्वहस्तसे जिनरतन सूरिजीकी पद स्थापना की, और अषाढ़ शुक्ल ६ को वे स्वर्ग सिधारे।

चतुर्मासके समयमें दोसी माधवादि ने ३६००० जमसाइ व्यय की, आगरेमें १६ वर्षकी अवस्थामें चिन्तामणि शास्त्रका पूर्ण अध्ययन किया, पालीमें प्रतिष्ठा की, राउल कल्याणदास और राय कुंवर मनोहरदासके आमन्त्रणसे जैसलमेर पधारे, संघवी धाहरुने प्रवेशोत्सव किया। आपके शिष्य-प्रशिष्यों की संख्या ४१ थी।

× १ नाइटा थे (देखो पृ० २४६ में)

× गीत नं० ५ में तेजस हैं। देखो पृ० २४७ × गीत नीः ४ में सदामी लिखा है।

पाटणसे विहार कर जिनरतन सूरिजी पाल्हणपुर पधारे. वहां संघने हर्षित हो उत्सव किया। वहांसे स्वर्णगिरिके संघके आग्रहसे वहां पधारे। श्रेष्ठिपीथेने प्रवेशोत्सव किया, वहांसे मरुस्थलमें विहार करते संघके आग्रहसे बीकानेर पधारे, नथमल वेणेने बहुत-सा द्रव्य व्यय कर (प्रवेश-) उत्सव किया, वहांसे उग्र विहार विचरते वीरम-पुरमें (सं० १७०१) में संघाग्रहसे चतुर्मास किया।

चतुर्मास समाप्त होते ही बाहड़मेर (सं० १७०२) में आये, संघके आग्रहसे चतुर्मास वहीं किया। वहांसे विहार कर कोटडमें (सं० १७०३) चौमासा किया। चौमासा समाप्त होनेपर वहांसे जेसलमेरके श्रावकोंके आग्रहसे जैसलमेर पधारे, शाह गोपाने प्रवेशोत्सव किया एवं याचकों को दान दे अपनी चंचल लक्ष्मीको सार्थक की। जेसलमेरके संघका धर्मानुराग और आग्रह सविशेष देख आचार्य श्रीने चार चतुर्मास (सं० १७०४ से १७०७ तक) वहीं किये। इसके पश्चात् आगरे संघके अत्याग्रहसे वहां पधारे। संघ बड़ा हर्षित हुआ, मानसिंहने बेगमकी आज्ञा प्राप्त कर प्रवेशोत्सव बड़े समारोहसे किया। व्रत-ग्रहणादि धर्मध्यान अधिकाधिक होने लगे। तीन चौमासा (सं० १७०८ से १७१०) करनेके पश्चात् चौथे चतुर्मासको (सं० १७११) भी संघने आग्रह कर वहीं रखे। वहां अशुभ कर्मोदयसे असमाधि उत्पन्न हुई। अषाढ़ शुक्ला १० से तो वेदना क्रमशः वृद्धि होनेसे औषधोपचार कराया गया, पर निष्फल देख आपने अपने आयुष्यका अन्त ज्ञात कर अपने मुखसे अनशनोच्चार एवं ८४ लाख जीवयो-नियोंसे क्षमता क्षमणा कर समाधिपूर्वक श्रावण बदी ७ सोमवारको

हर्षलाभको पदस्थापन कर स्वर्गवासी हुए। संघमें शोक छा गया, पर भावोपर जोर भी नहीं चल सकता। आखिर अन्त्येष्टि क्रिया बड़ी धूमसे कर. दाहस्थलपर सुन्दर स्तूप निर्माण कर श्रावक संघने गुरुभक्तिका आदर्श परिचय दिया, भक्ति स्मृतिको चीरंजीवत की (जिनराज सूरि शि०) मानविजयके शिष्य कमलहर्षने भी सं० १७११ श्रावण शुक्ला ११ शनिवारको आगरेमें यह निर्वाण रास रचकर गुरु-भक्ति द्वारा कवित्व सफल किया।

जिनचन्द्र सूरि

(पृ० २४५ से २४८)

वीकानेर निवासी गणधर-चोपड़ा गोत्रीय सहस्रमल (सहसकरण) की पत्नी राजल दे (सुपीयार दे) के आप पुत्ररत्न थे। आपने १२ वर्षकी लघुवयमें वैराग्यवासित होकर जिनरत्न सूरिके हाथसे जेसलमेरमें दीक्षा ग्रहण की। श्रीसंघने उत्सव किया, १८ वर्षकी वयमें (सं० १७११) जिनरत्न सूरिजी आगरेमें थे और आप राजनगरमें थे, वहां) जिनरत्न सूरिके वचनानुसार पद प्राप्त हुआ और नाहटा जयमल, तेजसी (जिनरत्नपद महोत्सवकर्ता) की माता कस्तूराने पदोत्सव किया। (गीत नं० २)

नं० ५ कवित्तसे ज्ञात होता है कि आपने पंचनदी साधन की थी। आपके रचित कई स्तवनादि हमारे संग्रहमें हैं। सं० १७३५ आषाढ़ शुक्ला ८ खम्भातमें आपने २० स्थानक तप करना प्रारम्भ किया था। तत्कालीन गच्छके यतियोंमें प्रविष्ट शिथि-

लताको निवारणार्थ सं० १७१८ आसू सुदी १० सोमवार बीकानेरमें (१४ बोलोंकी) व्यवस्था की थी, प्रस्तुत व्यवस्थापत्र हमारे संग्रहमें है ।

जिनसुख सूरि

(पृ० २४६ से २५१)

बोहरा गोत्रीय (पीचानख) रूपचन्द शाहकी भार्या रतनादे (सरूप दे) की कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था । आपने लघुवयमें दीक्षा ग्रहण की थी । सं० १७६२ आषाढ़ शुक्ला ११ को सूरतमें जिनचन्द सूरिने आपको स्वहस्तसे श्री संघ समक्ष गच्छनायक पद प्रधान किया था । उस समय पारख सामीदास, सूरदासने पद महोत्सव बड़े धूमसे किया था । रात्रिजागरण श्रावकस्वामीवात्सल्य यति वस्त्र परिधापनादिमें उन्होंने बहुत-सा द्रव्य व्ययकर भक्ति प्रदर्शित की ।

सं० १७८० के ज्येष्ठ कृष्णाको अनशन आराधन कर रिणीमें जिनभक्ति सूरजीको अपने हाथसे गच्छनायक पद प्रदानकर स्वर्ग सिधारे । श्री संघने अन्त्येष्टि क्रियाके स्थानपर स्तूप बनाया और उसकी माघ शुक्ला षष्ठीको जिनभक्तिसूरिजीने प्रतिष्ठा की थी । आपके रचित जेसलमेर-चैत्यपरिपाटी स्तवनादि एवं गद्य (भाषा) में (सं० १७६७ में पाटणमें रचित) जेसलमेर श्रावकोंके प्रश्नोंके उत्तरमय सिद्धान्तीय विचार (पत्र ३५ जय० भं०) नामक ग्रन्थ उपलब्ध है ।

जिनभक्तिसूरि

(पृ० २५२)

सेठिया हरचन्द्रकी पत्नी हरसुखदे की कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था। आपने छोटी उम्रमें ही चारित्र लेकर सद्गुरुको प्रसन्न किया था। जिनसुख सूरिजीने आपको सं० १७७६ ज्येष्ठ कृष्णा तृतीयाको रिणीमें स्वहस्तसे गच्छनायक पद प्रदान किया था। उस समय रिणी संघने पद-महोत्सव किया। आपके रचित कई स्तव-नादि प्राप्त हैं।

जिनलाभसूरि

(पृ० २६३ से २६६ एवं ४१४ से ४१६)

विक्रमपुरनिवासी बोथरे पंचाननकी धर्मपत्नी पद्मा दे ने आपको जन्म दिया। आपने लघु वयमें जिनभक्ति सूरिजीके पास दीक्षा ग्रहण की। आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर सूरिजीने मांडवी बंदरमें आपको अपने पदपर स्थापन किया था।

सं० १८०४ भुज, वहांसे गुड़ होकर १८०५ में जैसलमेर पधारे, वहां १८०८।१० तक रहे। उसके पीछे बीकानेरमें (१८१० से १८१५ तक) ५ वर्ष रहकर सं० १८१५ को वहांसे विहारकर गारबदेसर शहरमें (१८१५) चोमासा किया। वहां ८ महीने विराजनेके पश्चात् (मि० वि० ३) विहारकर थली प्रदेशको बंदाते हुए जैसलमेरमें प्रवेश किया। वहां (१८१६-१७-१८-१९) ४ वर्ष अवस्थितकीकर लोद्रेवे तीर्थमें सहस्त्रफणा पार्श्वनाथजीकी यात्रा की। वहांसे पश्चिमकी ओर विहारकर गोडीपार्श्वनाथकी यात्रा कर

गुढे (सं० १८२०) में चौमासा किया । चतुर्मासके अनन्तर शीघ्र बिहारकर महेवा प्रदेशको वंदाकर महेवेमें नाकोड़े पार्श्वनाथकी यात्रा की, वहांसे बिहारकर जलोलमें (सं० १८२१) में चतुर्मास किया । वहांसे खेजडले, खारिया रह कर रोहीठ, मंडोवर, जोधपुर, तिमरी होकर मेड़ते (१८२३) पधारे । वहां ४ महीने रहकर जैपुर शहर पधारे, वह शहर क्या था मानो स्वर्ग ही पृथ्वीपर उतर आया हो, वहां वर्ष दिनकी भांति और दिन घड़ीकी भांति व्यतीत होते थे । जैपुरके संघका अत्याग्रह होनेपर भी पूज्यश्री वहां नहीं ठहरे और मेवाड़की ओर बिहारकर यश प्राप्त किया । उदयपुरसे १८ कोसपर स्थित धूलेवामें ऋषभेशकी यात्राकर उदयपुर (१८२४) पधारे और विशेष विनतीसे पालीवालै (१८२५) पाट विराजे नागौर (का संघ) बीचमें अवश्य आयगा, यह जानते हुए भी साचौर (अपने मनकी तीव्र इच्छासे (१८२६) पधारे । इस समय सूरतके धनाढ्योंने योग्य अवसर जानकर विनती पत्र भेजा और पूज्यश्री भी उस ओर बिहार करनेसे अधिक लाभ जान, (१८२७) सूरत पधारे ।

वहांके श्रावकोंको प्रसन्न कर आप पैदल विचरते हुए (१८२६) राजनगर पधारे । वहां तालेवरने बहुत उछव किये और २ वर्ष तक रात दिन सेवा की । वहांसे श्रावक संघके साथ शत्रुजय गिरनारकी यात्रा कर (१८३०) वेलाउलके संघको वंदाया । वहांसे मांडवी (१८३१) पधारे । वहां अनेकों कोट्याधीश और लक्षाधिपति व्यापारी निवास करते थे । समुद्रसे उनका व्यापार चलता

मार्गशीर्ष महिनेमें भाबगिरिकी यात्रा कर चतुर्मास बीलाड़े (१८२३) रहे ।

था। उन्होंने १ वर्ष तक खूब द्रव्य किया। वहांसे अच्छे महूर्तमें विहार कर भुज (१८३२) आये। वहांके संघने भी श्रेष्ठ भक्ति की। इस प्रकार १८ वर्ष नवीन नवीन देशोंमें विचरे। कवि कहता है कि अब तो बीकानेर शीघ्र पधारिये। अन्य साधनोंसे ज्ञात होता है, कि भुजसे विहार कर १८३३ का चौमासा मनरा-बन्दर कर सं० १८३४ का चौमासा गुड़ा किया और वहीं स्वर्ग सिधारे (गीत नं० ४)।

गहुंली नं० १ में पूज्यश्रीके पधारनेपर बीकानेरमें उत्सव हुआ, उसका वर्णन है।

गहुंली नं० २ में कवि कहता है कि कच्छसे आप यहां पधारते थे, पर जैसलमेरी संघने बीचमें ही रोक लिया। वहांके लोग बड़े मुंह मीठे होते हैं, अतः पूज्यश्रीको लुभा लिया। पर बीकानेर अब शीघ्र आवें।

आत्म-प्रबोध ग्रन्थ आपका रचित कहा जाता है। आपके रचित कइ स्तवनादि हमारे संग्रहमें हैं, और दो चोवीशीयें प्रकाशित भी हो चुकी हैं।

जिनचन्द्र सूरि

(पृ० २६७ से २६६)

रूपचन्द्रकी भार्या केशरदेके आप पुत्र थे। आपने मरुस्थलमें लघु वयमें ही दीक्षा ली थी और गुट्टेमें जिनलाभ सूरिजीने स्वहस्तसे आपको गच्छनायक पद प्रदान किया था, उस रमय श्रीसंघने उत्सव किया था।

गहुंली नं० १ सिन्धु देश—हालां नगर स्थित कनकधर्मने सं० १८३४ माघव मासमें बनाई है।

गहुंली नं० २ चारित्रनन्दनने सं० १८५० वैशाख वदी ८ गुरुवारको बीकानेरमें बनाई है। उस समय पूज्यश्री अजीमगंजमें थे, गहुंलीमें उसके पूर्व उनके सम्मेशिखर, पावापुरीकी यात्रा करनेका उल्लेख कियागया है, एवं बीकानेर पधारनेके लिये विज्ञप्ति की गयी है।

जिनहर्ष सूरि

(पृ० ३००)

बोहरा गोत्रीय श्रेष्ठि तिलोकचन्दकी भार्या तारादेके कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था। कवि महिमाहंसने आपके बीकानेर पधारनेके समयके उत्सव वर्णनात्मक यह गहुंली रची है। गहुंलीमें बीकानेरके प्रसिद्ध देवालय चिन्तामणि और आदीश्वरजीके दर्शन करनेको कहा गया है।

जिनसौभाग्य सूरि

(पृ० ३०१)

आप कोठारी कर्मचन्दकी पत्नी करणदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न हुए थे। सं० १८६२ मार्गशीर्ष शुक्ला ७ गुरुवारको जिनहर्षसूरिजीके पद पर नृपवर्ध रतनसिंहजी आदिके प्रयत्नसे विराजमान हुए थे। उस समय खजानची लालचन्दने पद स्थापनाका उत्सव किया था, और याचकोंको दान दिया था।

हमारे संग्रहके एक पत्रमें लिखा है कि जिनहर्षसूरिजीके स्वर्ग सिधारनेके पश्चात् पद किसको दिया जाय, इसपर विवाद हुआ। जिन-सौभाग्य सूरिजी उनके दीक्षित शिष्य थे और

महेन्द्र सूरिजी अन्य यतीके शिष्य थे, पर जिनहर्षसूरिजीने उन्हें अपने पास रख लिया था। अतः अन्तमें यह निर्णय किया गया कि दोनोंके नामकी चिट्ठियां डाल दी जाँय, जिसके नामसे चिट्ठी उठे उसे ही पद दिया जाय। यह बात निश्चित होनेपर सोभाग्य सूरिजी वयोवृद्ध और गच्छके मुख्य यतियोंको लेनेके लिये बीकानेर आये। पीछेसे चिट्ठी डालनेके निश्चित दिनके पूर्व ही कुछ यतीओं और श्रावकोंके पक्षपातसे जिनमहेन्द्र सूरिजीको पद दे दिया गया। इधर आप मुख्य यतियोंके साथ मंडोवर पहुंचे और वहांका वृत्तान्त ज्ञात कर बीकानेर वापिस पधारे। यहांके यतिवर्यो श्रावकों और राजा रत्नसिंहजीका पहलेसे ही इन्हें पद देनेका पक्ष था, अतः दे दिया गया। इन्हीं बातोंके संकेत इस गहुंलीमें पाये जाते हैं।

इनके पश्चात् पट्टधरोंका क्रम इस प्रकार है :—

जिनहंससूरि—जिनचंद्रसूरि—जिनकीर्तिसूरि, इनके पट्टधर जिनचारित्रसूरिजी अभी विद्यमान है।

भूल सुधार

जिनेश्वरसूरि (प्रथम) के शि० जिनचंद्रसूरिजीका नाम छूट गया है। उनका रचित 'संवेग-रंगशाला' ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है।

मंडलाचार्य और विद्वद् सुनि मंडल

भावप्रभसूरि

(पृ० ४६)

मालहू शाखाके लुण्णिग कुलमें सव्व शाहकी भार्या राजलदेके आप पुत्र रत्न थे । श्री जिनराज सूरि (प्रथम) के आप (दीक्षित) सुशिष्य तथा सागरचन्द्रसूरिजीके पट्टधर थे, आप साध्वाचारका प्रशंसनीय पालन करते थे और अनेक सदगुणोंके निवासस्थान थे ।

कीर्तिरत्न सूरि

(पृ० ५१-५२, पृ० ४०१-४१३)

आसवंशके संखवाल गोत्रमें शाह कोचर बड़े प्रसिद्ध पुरुष हो गये हैं, उनके सन्तानीय (वंशज) आपमल्ल और देपा हुए । इनमें देपाके देवलदे नामक धर्मपत्नी थी, जिसकी कुक्षिसे लक्खा, भादा, केलहा, देलहा ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । इनमें देलहा कुंवरका जन्म सं० १४४६ में हुआ था, १४ वर्षकी लघु वयमें (सं० १४६३ आषाढ़ वदी ११) में आपने दीक्षा ग्रहण की थी । श्री जिनवर्द्धन सूरिजीने आपका शुभ नाम 'कीर्तिराज' रखा और शास्त्रोंका अध्ययन भी स्वयं आचार्यश्रीने कराया । विद्वान होनेके पश्चात् सं० १४७० में वाचनाचार्य पद (जिनवर्द्धन सूरिजीने) और सं० १४८० में उपाध्याय पद महेवेमें जिनभद्र सूरिजीने प्रदान किया, अतः माता देवलदेको बड़ा हर्ष हुआ । सिन्धु और पूर्व देशोंकी तरफ विहार करते

हुए आप जैसलमेर पधारे । वहां गच्छनायक जिनभद्र सूरिजीने योग्य जानकर सं० १४६७ माघ शुक्ला १० को आचार्य पद प्रदान किया और “कीर्तिरत्न सूरि” के नामसे प्रसिद्धि की । उस समय आपके भ्राता लक्खा और केलहाने विस्तारसे पद महोत्सव किया ।

सं० १५२५ वैशाख बदी ५ को २५ दिनकी अनशन आराधना कर समाधि पूर्वक वीरमपुरमें आप स्वर्ग सिधारे । जिस समय आपका स्वर्गवास हुआ, आपके अतिशयसे वहांके वीर जिनालयमें देवोंने दीपक किये और मन्दिरके दरवाजे बन्द हो गये । वहां पूर्व दिशामें संघने स्तूप बनवाया जो अब भी विद्यमान है । वीरमपुर, महेवेके अतिरिक्त जोधपुर, आबू आदि स्थानोंमें भी आपकी चरणपादुकाएं स्थापित की गयीं । जयकीर्ति और अभैविलास कृत गीत नं० ७-८ से ज्ञात होता है कि सं० १८७६ वैशाख (आषाढ़) कृष्णा १० को गड़ाले (नाल-बीकानेरसे ४ कोस) में आपका प्रासाद बनवाया गया था ।

गीत नं० ५ (सुमतिरंग कृत छंद) और नं० ८ में कुछ नवीन बातोंके साथ विस्तारसे वर्णन हैं जिनका सार यह है:—

जालंधर देशके संखवाली नगरीमें कोचर शाह निवास करते थे, उनके दो भार्यायें थीं, जिनमें लघु पत्नीके रोलू नामक पुत्र हुआ, उसे एक दिन अर्द्ध रात्रिके समय काले सर्पने डंक मारा । विषसे अचेतन होनेसे कुटम्बीजन उसे दहनार्थ, स्मशान ले गये, इसी समय खरतर गच्छनायक जिनेश्वरसूरिजी वहीं थे उन्होंने अपने आत्मबलसे उसे निर्विष कर दिया । रोलू सचेत हो

घर आया, कुटम्बमें आनन्द छा गया और कोचर शाह तभीसे (सं० १३१३) खरतर गच्छानुयायी* श्रावक हो गये और उन्होंने जिनेश्वरसूरिजीके हस्तकमलसे जिनालयकी प्रतिष्ठा करवाई। इसके बाद कोचर शाह कोरटेमें जा बसे, वहां उनके कुलगुरु (पूर्वके गुरु, अन्य गच्छीय) के पुनः अपने गच्छमें आनेके लिये बहुत अनुरोध करनेपर भी आप विचलित न हुए।

वहां सत्तूकार-दानादि शुभ कृत्य करते हुए आनन्दपूर्वक रहने लगे। रोलूके आपमल्ल और देपमल्ल नामक दो पुत्र हुए। इनमें देप-मल्लकी भार्या देवलदेकी कुक्षिसे १ लक्खा, २ भादा, ३ केलहो, ४ देल्हा ये ४ पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें लक्खोको लक्ष्मीने प्रसन्न हो ७ पीढियोंतक रहनेका वरदान दिया और वे वीसलपुरमें रहने लगे भादा जैसलमेर, केलहा महेवा रहने लगा और चौथे लघु पुत्र देल्हेका वृतांत यह है:— सं० १४४६ में आपका जन्म हुआ, १३ वर्षकी अवस्थामें विवाह करनेके लिये आप बरात लेकर राड़्रह जाने लगे। मार्गमें खीमजथलके समीप जान (बरात) ठहरी वहां एक खेजड़ीका वृक्ष था उसे देखकर एक राजपूतने कहा कि इस वृक्षके ऊपरसे जो बरछी निकाल देगा मैं उससे अपनी पुत्रीका पाणिग्रहण कर दूंगा। देल्हे कुमारके इशारेसे उनके सेवक (नाई) ने राजपूतके कथनानुसार कर दिखाया पर इस कार्यको करनेमें अधिक परिश्रम लगनेसे उसका प्राणान्त हो गया, इस घटनासे

*अन्य प्रमाणोंमें इसका कारण और ही पाया जाता है पर उन सबका विचार स्वतंत्र निबंधमें करेंगे।

देल्ह-कुमारको वैराग्य उत्पन्न हो गया और (खरतर) श्री क्षेम-कीर्तिष्ठीको बंदनाकर (अपने) दीक्षा ग्रहण करनेके भाव प्रकट किये । एवं उनके कथनानुसार जिनवर्द्धन सूरिजीके पास सं० १४६३ में दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर आपने शास्त्रोंका अध्ययन कर गीतार्थता प्राप्त की । सं० १४७० में आपकी योग्यता देखकर जिनवर्द्धनसूरिजीने आपको वाचक पद प्रदान किया ।

इधर जैसलमेरके जिनालयसे क्षेत्रपालके स्थानान्तर करनेके कारण जिनवर्द्धनसूरिजीसे गच्छभेद हुआ और उनकी शाखा पींपलिया नामसे प्रसिद्ध हुई, नालहेने जिनभद्र सूरिजीको स्थापित किया जिनवर्द्धन सूरिजीने कीर्तिराजजी (देल्हकुमार) को अपने पास बुलाया, पर आपको अर्द्धरात्रिके समय वीर (देवता) ने कहा कि उनका आयुष्य तो मात्र ६ महीनेका ही है और जिनभद्र सूरिजीकी भावी उन्नति होने वाली है । इससे आपने जिनवर्द्धन सूरिजीके पास न जाकर चार चतुर्मास महेवेमें ही किये । इसके पश्चात् जिनभद्र सूरिजीके बुलानेपर आप उनके पास पधारे । उन्होंने सं० १४८० में आपको पाठक पद प्रदान किया । शाह लक्खा और केलहा महेवेसे जैसलमेर आये और गच्छनायकको आमंत्रित कर उन्होंने सं० १४६७ में कीर्तिराजजीको सूरि पद दिलवाया । लक्खा और केलहाने प्रचुर द्रव्य व्यय कर, महोत्सव किया । लक्खे केलहेने शंखेश्वर, गिरनार, गौडी-पार्श्वनाथ और सोरठ (शत्रुंजय आदि) के चैत्यालयोंकी यात्रा की, सर्वत्र लाहिण की एवं आचार्य श्रीको चातुर्मास कराया । कीर्ति-

रत्न सूरिजीके ५१ शिष्य थे, सं० १५२५ बै० शु० ५ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपने अपने कुटुम्बियोंको ७ शिक्षायें दी जो इस प्रकार हैं:—१ मालवा, थट्टा, सिंध और संखवाली नगरी न जाना, २ गच्छभेदमें शामिल न होना, ३ पाटभक्त होना, ४ दीक्षा न लेना, ५ कोरटे और जैसलमेरमें देहरे बनवाना, ६ जहां बसो, नगरके चौराहेसे दाहिनी ओर बसना ७.....। आपके रचित 'नेमिनाथ काव्य' प्रकाशित है एवं और भी कई स्तवनादि उपलब्ध हैं। आपकी शाखामें अभी जिनकृपाचन्द्र सूरिजी एवं कई यतिगण विद्यमान हैं।

७० जयसागर

(पृ० ४००)

उज्जयंत शिखर पर नरपाल संघपतिने 'लक्ष्मी तिलक' नामक विहार बनाना प्रारम्भ किया, तब अम्बा देवी, श्री देवी आपके प्रत्यक्ष हुईं और सरसा पार्श्व जिनालयमें श्रीशेष, पद्मावती सह प्रत्यक्ष हुआ था। मेदपाट-देशवर्ती नागद्रहके नवखण्डा-पार्श्वचैत्यालय में श्री सरस्वती देवी आप पर प्रसन्न हुई थी। श्री जिनकुशल सूरि जी आदि देवता भी आप पर प्रसन्न थे, आपने पूर्वमें राजगृह नगर (उईड) विहारादि, उत्तरमें नगरकोट्टादि, पश्चिममें नागद्रह आदि की राज सभाओंमें वादिवृन्दोंको परास्त कर विजय प्राप्त की थी आपने संदेहदोलावली वृत्ति, पृथ्वीचन्द्र चरित्र, पर्वरत्नावली, ऋषभ स्तव, भावारिवारण वृत्ति एवं संस्कृत प्राकृतके हजारों

स्तवनादि बनाये । अनेकों श्रावकोंको संघषति बनाये और अनेक शिष्योंको पढ़ाकर विद्वान बनाये ।

वि० आपके शिक्षागुरु श्री जिनराज सूरिजी और विद्यागुरु जिनवर्द्धन सूरिजी थे । सं० १४७५ के लगभग जिनभद्र सूरिजीने आपको उपाध्याय पद दिया था । आपने अनेकों देशोंमें विहार किया और अनेकों कृतियां रची थीं, जिनमें मुख्य ये हैं :—

(१) पर्वरत्नावली कथा (१४७८ पाटण, गा० ३२१) (२) विज्ञप्ति त्रिवेणी (सं० १४८४ सिन्धु देश मल्लिकवाहणपुरसे पाटण सूरिजीको प्रेषित), (३) पृथ्वीचन्द्र चरित्र (सं० १५०३ प्रल्हादनपुर शि० सत्यरुचिकी प्रार्थनासे रचित), (४) संदेहदौलावली लघुवृत्ति सं० १४६५, (५-६-७) गुरुपारतन्त्र वृत्ति, उपसर्गहर, भावारिवारणवृत्ति (८) भाषामें—वयरस्वामी रास (गा० ३६ सं० १४६०) (९), कुशल सूरि चौ० (१४८१ मल्लिकवाहणपुर) और संस्कृत भाषाके स्तवनादि (सं० १५०३ लि० पत्र १२ जय० भं०) भी अनेकों उपलब्ध हैं । आपके शिष्य परम्परादिके लिये देखें :—विज्ञप्ति त्रिवेणी, जैनसाहित्यनोसंक्षिप्तइतिहास और युगप्रधान—जिनचन्द्र मूरि (पृ० २०३), जैनस्त्रोत्रसन्दोह भा० २ । प्रस्तुत ग्रन्थके पृ० २३ में मुद्रित खरतर पट्टावली भी आपके आदेशसे रचित है ।

क्षेमराजोपाध्याय

(पृ० १३४)

छाजहड़ गोत्रीय शाह लीलाकी पत्नी लीलादेवीके आप पुत्र थे ।

सं० १५१६ में गच्छ नायक जिनचन्द्र सूरिजीने आपको दिक्षा दी थी। बा० सोमध्वजके आप सुशिष्य थे और उन्होंने ही आपको विद्याध्ययन कराया था। आपके रचित साहित्यकी संक्षिप्त सूची इस प्रकार है :—

(१) उपदेश सप्ततिका (सं० १५४७ हिसारकोट वास्तव्य श्रीमाली पट्टु पर्पट दौदाके आग्रहसे रचित, जैनधर्म प्रसारक सभासे प्रकाशित)।

(२) इक्षुकार चौ० गा० ५० (६५) हमारे संग्रहमें नं० २५०

(३) श्रावक विधि चौ० गा० ७० (सं० १५४६) हमारे संग्रहमें नं० ७६४।

(४) पार्श्वनाथ रास (गा० २५) ५ श्रीमंधरस्तवन, जीरा-वलास्त०, पार्श्व १०८ नाम स्तोत्र, वरकाणास्त०, ज्ञानपंचमीस्त०, वीरस्त०, समवसरण स्तवन, उत्तराध्ययन सज्ञायादि उपलब्ध हैं।

सं० १५६६ आश्विन सु० २ को इनके पास कोटड़ा वास्तव्य मं० लोला श्रावकने व्रत ग्रहण किये थे, जिसकी नोंध १ गुटकेमें है। अन्य साधनोंसे आपकी परम्परा इस प्रकार ज्ञात होती है :—

(१) जिनकुशल सूरि, (२) विनयप्रभ (३) विजय तिलक (४) क्षेमकीर्ति (इन्होंने जीरावला पार्श्वनाथके प्रसाद ११० शिष्य किये) इनके नामसे क्षेम शाखा प्रसिद्ध हुई, (५) क्षेमहंस, (६) सोमध्वजजीके (७) आप शिष्य थे। आपके मुख्य ३ शिष्य थे, जिनमेंसे प्रमोदमाणिक्य शि० जयसोम और उनके शि० गुणविनयके लिये देखें युगप्रधान जिनचन्द्र सूरि (पृ० १६७)

देवतिलकोपाध्याय

[पृ० ५५]

भरतक्षेत्रके अयोध्या-बाहड़ गिरि नामक प्रसिद्ध स्थानमें ओशवाल वंशीय भणशाली गोत्रके शाह करमचन्द्र निवास करते थे और उनकी सुहाणादे नामक पत्नीसे आपका जन्म हुआ था । ज्योतिषीने आपका जन्म नाम 'देदो' रखा । देदा कुमर अनुक्रमसे बड़े होने लगे और ८ वर्ष की वयमें सं० १५४१ में दीक्षा ग्रहण की एवं सिद्धान्तोंका अध्ययन कर सं० १५६२ में उपाध्याय पदसे विभूषित हुए ।

सं० १६०३ मार्गशीर्ष शुक्ला ५ को जैसलमेरमें अनशन आराधनापूर्वक आपकी सद्गति हुई । अग्नि-संस्कारके स्थलपर आपका स्तूप बनाया गया, जो कि बड़ा प्रभावशाली और रोगादि दुःखोंको विनाश करनेवाला है ।

सं० १५८३-८५ में आपने दो शिलालेख-प्रशस्तियें रची थी, देखें जै० ले० सं० नं० २१५४।५५

आपके लिखित एवं संशोधित अनेकों प्रतियां बीकानेरके कई भण्डारोंमें विद्यमान हैं । आपके हस्ताक्षर बड़े सुन्दर और सुवाच्य थे ।

आपके सुशिष्य हर्षप्रभ शि० हीरकलशकृत कृतियोंके लिये देखें यु० जिनचन्द्र सूरि चरित्र पृ० २०६ एवं आपके शि० विजयराज शि० पद्ममन्दिरकृत प्रवचनसारोद्धार वालावबोध (सं० १६५१) श्री पूज्यजीके संग्रहमें उपलब्ध है ।

श्री देवतिलकोपाध्यायजीकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी। सागर चन्द्र सूरि (१५ वीं) शि० महिमराज शि० दयासागरजी केशि० ज्ञान-मन्दिरजीके आप सुशिष्य थे। महिमराजके शि० सोमसुन्दरकी परम्परामें सुखनिधान हुए, जिनका परिचय आगे लिखा जायगा।

दयातिलकजी

[पृ० ४१६]

आप उपरोक्त क्षेमराजोपाध्यायजीके शिष्य थे। आपके पिताका नाम वच्छाशाह और माताका वाल्हादेवी था। आप नव-विध परिग्रहके त्यागी और निर्मल पंचमहाव्रतोंके पालनेमें शूरवीर थे।

महोपाध्याय पुण्यसागर

[पृ० ५७]

उदयसिंहजीकी भार्या उत्तम दे ने आपको जन्म दिया था। श्रीजिनहंस सूरिजीने स्वहस्तकमलसे आपको दीक्षा दी थी।

आप समर्थ विद्वान और गीतार्थ थे। आपके एवं आपके शिष्य पद्मराज कृत कृतियों आदि का परिचय युगप्रधान जिनचंद्र सूरि ग्रन्थके पृष्ठ १८६ में दिया गया है।

उपाध्याय साधुकीर्त्तिजी

[पृ० १३७]

ओशवाल वंशीय सचिंती गोत्रके शाह वस्तिगकी पत्नी खेमलदेके आप पुत्र थे। दयाकलशजीके शिष्य अमरमाणिक्यजीके आप

सुशिष्य थे। आप बड़े विद्वान थे। सं० १६२५ मि० व० १२ आगरेमें अकबर सभामें तपागच्छवालोंको पोषहकी चर्चामें निरुत्तर किया था और विद्वानोंने आपकी बड़ी प्रशंसाकी थी, संस्कृतमें आपका भाषण बड़ा मनोहर होता था।

सं० १६३२ माधव (वैशाख) शुक्ला १५ को जिनचन्द्र सूरिजीने आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था और अनेक स्थानोंमें विहार कर अनेक भव्यात्माओंको आपने सन्मार्गगामी बनाया था।

सं० १६४६ में आपका शुभागमन जालोर हुआ, वहां माह कृष्ण पक्षमें आयुष्यकी अल्पताको ज्ञातकर अनशन उच्चारण पूर्वक आराधना की और चतुर्दशीको स्वर्ग सिधारे। आपके पुनीत गुणोंकी स्मृतिमें वहां स्तूप निर्माण कराया गया उसे अनेकानेक जन समुदाय वन्दन करता है।

सं० १६२५ के शास्त्रार्थ विजयका विशेष वृतांत आपके सतीर्थ कनक सोम कृत जयतपदवेलिमें विस्तारसे है। सरल और विरोधी होनेसे इसका सार यहां नहीं दिया गया, जिज्ञासुओंको मूल वेलि पढ़ लेनी चाहिये।

आपके एवं आपके शिष्य प्रशिष्योंके कृतियोंकी सूची यु० जिनचन्द्र सूरि ग्रन्थके पृ० १६२ में दी गयी है। आपकी परम्परामे कविवर धर्मवर्धन अच्छे कवि हो गये हैं, जिनका परिचय “राज-स्थान” पत्र (वर्ष २ अंक २) में विस्तारसे दिया गया है।

महोपाध्याय समयसुन्दर

(पृ० १४६ से १४८)

पोरवाड़ ज्ञातीय रूपशी शाहकी भार्या लीलादेकी कुक्षिसे

साचौरमें आपका जन्म हुआ था। नवयौवनावस्थामें यु० जिनचन्द्र सूरिजीके हस्तकमलसे आप दीक्षित हुए थे। श्री सकलचन्द्रजीके आप शिष्य थे और तर्क व्याकरण एवं जैनागमोंका उच्चतम अभ्यास कर (गीतार्थता-पांडित्य प्राप्त किया था। सम्राट अकबरको एक पद (राजा नो ददते सौख्यम्) चमत्कृत ८ लाख अर्थ बतलाकर के (रञ्जित) किया था। विद्वद् समाज और श्री संघमें आपकी असाधारण ख्याति थी। लाहौरमें जिनचन्द्र सूरिजीने आपको वाचक पद प्रदान किया था। आपके महत्वपूर्ण कार्यकलाप ये हैं:—

(१) जैसलमेरके रावल भीमको प्रसन्न कर मयणों द्वारा मारे जानेवाले सांडा-जीवोंको छुड़ाया था।

(२) शीतपुर (सिद्धपुर) में मखनूम महमद शेखको प्रतिबोध देकर पांच नदीके (जलचर) जीवों—विशेषतया गायोंकी रक्षाका पटह बजवानेका प्रशंसनीय कार्य किया था।

(३) मंडोवराधिपतिको रञ्जित कर मेढतेमें बाजे बजवाने द्वारा शासन प्रभावना की थी।

(४) परोपकारार्थ अनेकों ग्रन्थों—भाषा काव्योंकी (वृत्तियों, गीत, छन्द) प्रचुर प्रमाणमें रचना की थी।

(५) गच्छके सभी मुनियोंको (गच्छ) पहिरामणी की थी।

(६) सं० १६६१ में क्रिया-उद्धारकर कठिन साध्वन्चार पालनका आदर्श उपस्थित किया था।

(७) आपका शिष्य-परिवार बड़ा विशाल और विद्वान् था। वादी हर्षःनन्दन जसे आपके उद्भट विद्वान् शिष्य थे। श्री जिनसिंह

सूरिजीने लवरेमें आपको उपाध्याय पद प्रदान किया था। सं० १७०२ के चैत्र शुक्ला त्रयोदशीको अहमदाबादमें अनशन आराधना-पूर्वक आप स्वर्ग सिधारे। आपके विस्तृत कृति-कलापकी संक्षिप्त सूची यु० जिनचन्द्र सूरि प्रन्थके पृ० १६८ में दी गयी है।

यश कुशल

(पृ० १४६)

श्री कनकसोमजीके आप शिष्य थे। हमारे संग्रहके (अन्य) गीत द्वयसे ज्ञात होता है कि हाजीखानड़ेरे (सिंध) में आपका स्वर्गवास हुआ था। वहां आपका स्मृति मंदिर है आपके शिष्य भुवनसोम शि० राजसागरके गीतानुसार आप बड़े चमत्कारी थे और आपके परचे (चमत्कार) प्रत्यक्ष और प्रसिद्ध हैं। राजसागरने सं० १७५६ फाल्गुन शुक्ला ११ को वहांकी यात्रा की। आपके गुरु कनकसोम-जीका परिचय देखें:—युग० जिनचन्द्र सूरि पृ० १६४।

करमसी

(पृ० २०४)

आपकी जन्मभूमि जेसलमेर है। आपके पिताका नाम चांपा शाह, माताका चांपल दे और गोत्र चोपड़ा था। आप बड़े तपस्वी थे। २५० बेले (छट्ठ भक्त याने २ उपवास) और निवी आम्बि-लादि तो अनेकों किये थे। बैशाख शुक्ला ७ को आपने संथारा किया था और आपका गच्छ खरतर था।

सुखनिधान

(पृ० २३६)

आप हुंबड गोत्रीय और श्री समयकलशजीके सुशिष्य थे । आपके लिखित अनेकों प्रतियां हमारे संग्रहमें हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि आप सागरचन्द्रसूरि-सन्तानीय थे । आपकी परम्पराके नाम ये हैं:—(१) सागरचन्द्रसूरि, (२) वा० महिमराज, (३) वा० सोम-सुन्दर, (४) वा० साधुलाभ, (५) वा० चारुधर्म, (६) वा० समय-कलशजीके आप शिष्य थे । आपके शिष्य गुणसेनजीके रचित भी कई स्तवनादि उपलब्ध हैं और उनके शिष्य यशोलाभजी तो अच्छे कवि हो गये हैं । उनके लिखित और रचित अनेकों कृतियां हमारे संग्रहमें हैं । विशेष परिचय यथावकाश स्वतन्त्र लेखमें दिया जायगा ।

वाचनाचार्य पद्महेम

(पृ० ४२०)

आप गोलछा गोत्रीय चोलगशाहकी पत्नी चांगादेकी कुक्षिसे अव-तरित हुए थे । आपको लघुवयमें युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरिजीने अपने कर-कमलोंसे दीक्षित कर श्री० तिलककमलजीके शिष्य बनाए । ३७ वर्ष पर्यन्त निर्मल चारित्र-रत्नका पालन करते हुए सं० १६६१ में वालसीसर पधारे, चातुर्मास वहींपर किया । ज्ञानबलसे अपना अन्त समय निकट जानकर विशेष रूपसे आराधना और पञ्च-परमेष्ठिका ध्यान करते हुए छः प्रहरका अनशन व्रत पालनकर मिति भाद्रव कृष्णा १५ को मध्याह्नके समय स्वर्गलोकको प्रयाण कर गए ।

लधिकल्लोल

(पृ० २०६)

श्रीकीर्तिरत्नसूरि शाखाके विमलरंगजीके आप शिष्य थे। आप श्रीमाली लाङ्गणशाहकी पत्नी लाडिमदेके पुत्र थे। सं० १६८१ में गच्छपतिके आदेशसे आप भुज पधारे। वहां कार्तिक कृष्णा षष्ठीको अनशन आराधनापूर्वक आपका स्वर्गवास हुआ। शाह पीथा-हाथी-रामसिंह मांडण आदि भुज नगरके भक्तियान श्रावकोंके उद्यमसे पूर्व दिशाकी ओर आपकी चरणपादुकाएं मार्गशीर्ष कृष्णा ७ को स्थापित की गयी।

आपका विशेष परिचय यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० २०६ में दिया गया है।

विमलकीर्ति

(पृ० २०८)

हुबड़ गोत्रीय श्रीचन्द्रशाहको पत्नी गवरादेवी आपकी जन्मदातृ थी। आपने सं० १६५४ माह शुक्ला ७ को साधुसुन्दरोपाध्यायके पास दीक्षा ग्रहण की। श्रीजिनराजसूरिजीने आपको वाचक पदसे अलंकृत किया था।

सं० १६६२ में (मुलताण चतुर्मास आये) किरहोर-सिन्धमें आप स्वर्ग सिधारे।

आपकी कृतियोंकी सूची युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि पृ० १६३ में दी गई है। सं० १६७६ मि० सु० ६ जिनराजसूरिजीके उपदेशसे बा० विमलकीर्तिजीके पास श्राविका पेमाने १२ व्रत ग्रहण किये।

वाचनाचार्यसुखसागर

(पृ० २५३)

वाचनाचार्यजी साध्वाचारकी कठिन क्रियाओंको पालन करनेमें बड़ा यत्न करते थे। सं० १७२५ में गच्छनायकके आदेशसे और स्तम्भ तीर्थकी यात्राके लिये खम्भातमें चतुर्मास किया। चतुर्मास सानन्द पूर्ण हुआ। सर्व नर-नारी आपके वचनकलासे प्रसन्न थे। चतुर्मासके अनन्तर ज्ञानबलसे अपना आयुष्य अल्प ज्ञातकर अनशन आराधना पूर्वक मार्गशीर्ष कृष्णा १४ सोमवारको स्वर्ग सिधारे। उस समय आप सावचेतीके साथ उत्तराध्ययन सूत्रका श्रवण कर रहे थे, श्रावक समुदाय आपके सन्मुख बैठा था। स्वर्गप्राप्तिके पश्चात् वहां आपकी पादुकाएँ स्थापित की गईं।

वा० हीरकीर्ति

(पृ० २५६)

युग० श्रीजिनचन्द्रसूरिके शिष्य वा० तिलककमल शि०पद्महेमके शिष्य दानराज, निलयसुन्दर, हर्षराजादि थे। इनमें दानराजजीके शिष्य हीरकीर्ति गोलछा गोत्रीय थे। सं० १७२६में जोधपुरमें आपका चतुर्मास था। वहीं श्रावण शुक्ला १४ को ८४ लाख जीवायोनिियोंसे क्षमतक्षामणाकी, दो प्रहरके अणशण आराधनापूर्वक आपका स्वर्गवास हुआ।

आपकी स्मृतिमें इसी संवतमें माघ कृष्णा १३ सोमवारको (१) पद्महेम, (२) दानराज, (३) निलयसुन्दर, (४) हर्षराजकी पादुकाओंके साथ आपकी पादुकाएँ भी स्थापित की गईं।

आपकी परम्परादिके विषयमें युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि ग्रन्थ (पृ० १७३) देखना चाहिये ।

उ० भावप्रमोद

(पृ० २५८)

श्रीजिनराजसूरि (द्वितीय) के शि० भावविजयके शिष्य भाव-विनयजीके आप सुशिष्य थे । बाल्यावस्थामें ही आपने चारित्रका ग्रहण किया था । श्रीजिनरत्नसूरिजीने आपके विमलमतिकी प्रशंसा की थी और उनके पट्टधर श्रीजिनचन्द्रसूरिजी तो आपको (विद्वतादि गुणोंके कारण) अपने साथ ही रखते थे । आप बड़े प्रभावशाली और उपाध्याय पदसे अलंकृत थे । सं० १७४४ माघ कृष्णा ५ गुरुवारके पिछले प्रहर, अनशन (भवचरिम-पचक्खाण) द्वारा समाधिपूर्वक आप स्वर्ग सिधारे ।

आपके शि० भावसागर रचित सप्तपदार्थी वृत्ति (१७३० भा० सु० बेनातट, पत्र ३७) कृपाचन्द्र सूरि भं० (बं० नं० ४६ नं० ६११) में उपलब्ध है ।

चंद्रकीर्ति

(पृ० ४२१)

सं० १७०७ पोष कृष्ण १ को बिलाड़ेमें आपका अनशन आरा-धन सह स्वर्गवास हुआ । यह कवित्त आपके शि० सुमतिरंगने रखा है , जो कि अच्छे कवि थे । देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० २०६, ३१५

कविवर जिनहर्ष

(पृ० २६१)

खरतर गच्छीय शान्तिहर्षजीके शिष्य कविवर जिनहर्ष अट्टा-

रहवीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध कवि थे। आपने मंद-बुद्धियोंके लाभार्थ शत्रुंजय-महात्म्य जैसे अनेकों विशाल ग्रंथोंकी भाषा चौपाई रचकर बहुत उपगार किया। आप साध्वाचार पालनेमें सदा उद्यम करते रहते थे, और आपके व्रत नियम अन्तिम अवस्था तक अखण्डित थे। आपके अनेकानेक सदगुणोंमें १ गच्छममत्वका त्याग (जिसके उदाहरण स्वरूप सत्यविजय पन्यास रास प्रकाशित ही है) २ जन समुदाय अनुवृत्तिका त्याग ३ ऋजुता ४ राग द्वेषका उपशम आदि मुख्य हैं। आप रास चौपाई आदि भाषा काव्योंके निर्माण करनेमें अप्रमत्त रह, ज्ञानका बड़ा विस्तार करते रहते थे।

आपके गच्छममत्व परित्यागके सदगुणसे तपागच्छीय वृद्धि-विजयजीने आपके व्याधि उत्पन्न होनेके समयसे बड़ी सेवा-भक्ति और वैयावचकी थी और अन्तिम आराधना भी उन्होंने ही कराई थी। पाटणमें आप बहुत वर्षों तक रहे थे, आपका स्वर्गवास भी वहीं हुआ, श्रावकोंने अंत-क्रिया (मांडवी रचनादि) बड़ी भक्तिसे की। आपके विशाल कृतियों नोंध जै० गु० क० भा० २ में देखनी चाहिये। उसके अतिरिक्त और भी कई रास आदि हमें उपलब्ध हैं, उनमें मुख्य ये हैं:—१ मृगापुत्रचौ० (१७१५ मा० व० १० सत्यपुर) (२) कुसम श्री रास (१७१७ मि० १३) (३) यशोधर रास (१७४७ वै० सु० ८ पाटण) (४) कनकावती रास (अपूर्ण) ५ श्रीमतीरास (१७६१ : मा० सु० १० पाटण, ढाल १४, रामलालजी यतिका संग्रह) और स्तवन सज्ञायादि अनेक उपलब्ध हैं।

कवि अमरविजय

(पृ० २४८)

आप वाचक उदय तिलक (जिनचंद्रसूरिशि०) के शिष्य थे । आप अच्छे विद्वान और सुकवि थे, आपके रचित कृतियोंकी संक्षिप्त नोंध इस प्रकार है :

१ रात्रि भोजन चौ० (सं० १७८७ द्वि० भा० सु० १ बु० नापासर, शांतिविजय आग्रह)

२ सुमंगलारास (प्रमाद विषये) सं० १७७१ ऋतुराय पूर्णतिथि ।

३ कालाशबेली चौ० (१७६७ आखातीज, राजपुर

४ धर्मदत्त चौ० (१८०३ धनतेरस राहसर, पत्र ६६)

५ सुदर्शनसेठ चौ० (१७६८ भा० सु० ५ नापासर)

६ मेताराज चौ० (१७८६ आ० सु० १३ सरसा) जय० भं०

७ सुकमाल चौ० (बृहत् ज्ञानभंडार-बीकानेर)

८ सम्यक्ख ६७ बोलसझाय (सं० १८००) जय० भं०

९ अरिहंत १२ गुणस्तवन (१७६५) गा० १३ जय० भं०

१० सिद्धाचल स्तवन (१७६६) गा० १५ जय० भं०

११ सुप्रतिष्ठ चौ० (१७६४ मि० मरोट) जौ० गु० कविओ

भा० २ पृ० ५८२

१२ केशी चौ० (१८०६ विजयदशमी गारबदेसर) रामलाल-जी संग्रह ।

१३ मुंच्छ माखड कथा पत्र ६ (सं० १७७५ विजयदशमी) हमारे संग्रहमें नं० २२८ ।

श्री अमर विजयजीके शि० लक्ष्मीचन्द्र कृत सुबोधिनीवैद्यकादि ग्रन्थ उपलब्ध है और द्वि० शि० उ० ज्ञानवर्द्धन शि० कुशलकल्याण शि० दयामेहकृत ब्रह्मसेन चौ० (सं० १८८० जेठ सु० १ बु, भावनगर) उपलब्ध है। आपकी परम्परामें यतिवर्य जयचंदजी अभी विद्यमान हैं।

सुगुरुवंशावली

(पृ० २०७)

जिनभद्र-जिनचन्द्र, जिनसमुद्र-जिनहंससूरिर्जाके पट्टधर जिन-माणिक्यसूरिजी थे। उनके पारखवंशीय वा० कल्याणधीर नामक शिष्य थे। उनके भणशाली गोत्रीय वा० कल्याण लाभ और कल्याणलाभके उ० कुशललाभ नामक विद्वान शिष्य थे। इनका विशेष परिचय यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० १६४ में देखना चाहिये।

श्रीमद् देवचन्द्रजी

(पृ० २६४)

बीकानेर नगरके समीपवर्ती एक रमणीय ग्राम था, वहां लुणिया शाह तुलसीदासजी निवास करते थे, उनके धनबाइ नामक शीलवती पत्नी थी। एक समय खरतर वा० राजसागरजी वहां पधारे। दम्पतिने भावसे उन्हें वंदना की और धनबाइने जो कि उस समय गर्भवती थी, कहा कि यदि मेरे पुत्र होगा तो आपको बहरा दूंगी। गर्भ दिनों-दिन बढ़ने लगा, उत्तम गर्भके प्रभावसे असाधारण स्वप्न और उत्तम दौहद् उत्पन्न होने लगे। इसी समय वहां जिनचन्द्र सूरिजी का शुभागमन हुआ इस समय धन बाइके एक पुत्र तो विद्यमान

था और गर्भवती थी। लक्षणोंसे गुरुश्रीने उनके फिर भी पुत्र होने का निश्चय किया और “इस द्वितीय पुत्रको हमें देना” कहा, पर धनबाई वाचकश्रीको इससे पूर्व ही वचन दे चुकी थी।

सं० १७४६ में पुत्र उत्पन्न हुआ, गर्भके समय स्वप्नें इन्द्र आदि देवों द्वारा मेरु पर्वतपर प्रभुका स्नात्र महोत्सव किये जानेका दृश्य देखा था। उसीके स्मृति सूचक नवजात बालकका शुभ नाम ‘देवचन्द्र’ रखा। अनुक्रमसे वृद्धि पाते हुए जब वह बालक ८ वर्षका हुआ, उस समय वा० राजसागरजीका फिर वहीं शुभागमन हुआ दम्पति (धनबाइ) ने अपने वचनानुसार अपने होनहार बालकको गुरु श्रीके समर्पण कर दिया। गुरु श्रीने शुभ मुहूर्त देख सं० १७५६ में लघु दीक्षा दी। यथासमय जिनचन्द्र सूरिजीके पास बड़ी दीक्षा दिलाई गई, सूरिजीने नव दीक्षित मुनिका नाम ‘राजविमल’ रखा। राजसागरजीने प्रसन्न होकर आपको सरस्वती मन्त्र प्रदान किया, श्रीदेवचन्द्रजीने बेनातट (बिलाड़ा) ग्रामके भूमिप्रहमें रहकर उस का साधन किया, देवी सरस्वती आपपर प्रसन्न हुई जिसके फल स्वरूप थोड़े ही समयमें आप गीतार्थ हो गये।

गुरुश्रीने स्वपरमतके सभी आवश्यक और उपयोगी शास्त्र पढ़ाकर आपके प्रतिभामें अभिवृद्धि की। उन शास्त्रोंमें उल्लेखनीय ये हैं—षडावश्यादि जैन आगम, व्याकरण, पञ्चकल्प, नैषध, नाटक, ज्योतिष, १८ कोष, कौमुदीमहाभाष्य, मनोरमा, पिङ्गल, स्वरोदय, तत्त्वार्थ, आवश्यक बृहद्वृत्ति, हेमचन्द्रसूरि, हरिभद्रसूरि और यशोविजयजी कृत ग्रन्थ समूह, ६ कर्म ग्रन्थ, कर्म प्रकृति इत्यादि।

सं० १७७४ में वाचक राजसागर और १७७५ में उपाध्याय ज्ञानधर्मजी स्वर्ग सिधारे । मरोटमें देवचन्द्रजीने विमलदासजी की पुत्री माइजी, अमाइजीके लिये 'आगमसार' ग्रन्थ बनाया ।

सं० १७७७ में आप गुजरात-पाटण पधारे, वहां तत्त्वज्ञानमय स्यादवाद युक्त आपके व्याख्यान श्रवणार्थ अनेकों लोग आने लगे । इसी समय श्रीमाली ज्ञातीय नगरसेठ तेजसी दोसीने जो कि पूर्णिमा गच्छीय श्रावक थे, अपने गुरु श्रीभावप्रभसूरि (जिनके पास विशाल ग्रन्थ भण्डार था, और अनेकों शिष्य पढ़ते थे) के उपदेशसे सहस्त्रकूट जिनालय निर्माण कराया था । एक बार देवचन्द्र जी उक्त नगरसेठ जीके घर पधारे और उनसे सहस्त्रकूटके १०००—जिनोंके नाम आपने अपने गुरुश्रोसे श्रवण किये होंगे ? पूछा । श्रेष्ठिने चमत्कृत होकर प्रत्युत्तर दिया कि भगवन् ! नहीं सुने । इसी अवसरपर ज्ञानविमल सूरिजी पधारे । श्रेष्ठिने उन्हें वन्दन कर सहस्त्रकूटके १००० नाम पूछे । उन्होंने नाम व उल्लेख-स्थान फिर कभी वतलानेका कहकर श्रेष्ठिकी जिज्ञासा शान्ति की । अन्यदा पाटण-साहीपोलके चौमुख वाड़ी पार्श्वनाथजीके मन्दिरमें सतरह भेदी पूजा पढ़ाई गई उसमें श्रीदेवचन्द्रजी और ज्ञानविमल सूरिजी भी सम्मिलित हुए । इसी समय सेठ भी दर्शनार्थ वहां पधारे और सूरिजीको देख फिर पूर्व जिज्ञासा जागृत हुई, अतः सूरिजीको सहस्रकूट जिन के नामोंकी पृच्छा की, उन्होंने उत्तरमें 'प्रायः सहस्त्रकूट जिन नामोंकी नास्ति (विच्छेद्) ज्ञात होती है, सम्भव है कोई शास्त्रमें हो, कहा' । इन बचनोंको श्रवण कर देवचन्द्रजीने उनसे कहा ।

कि आप तो श्रेष्ठ विद्वान कहलाते हैं फिर ऐसे अयथार्थ कैसे कहते हैं, और ऐसे बचनोंसे श्रावकोको प्रतीति भी कैसे हो सकती है।

यह सुनकर ज्ञानविमलसूरिजी कुछ तड़ककर बोले:—तुम मरुस्थलके वासी हो, शास्त्रके रहस्यको क्या जानो ! जिसने शास्त्रोंका अभ्यास किया है, वही जान सकता है। इसी समय श्रेष्ठिने कहा, सूरिजी मुझे इस बातका निर्णय करना है। तब सूरिजीने देवचन्द्रजीसे कहा कि तुम्हें व्यर्थका विवाद पसन्द ज्ञात होता है। (मारवाड़ी कहावत “बेंवती लड़ाइ मोल लेबे”) अन्यथा यदि तुम्हें सहस्त्रकूटके नाम ज्ञात हो तो बतलाओ। देवचन्द्रजीने शिष्यकी ओर देखा, तब विनयी शिष्य मनरूपजीने रजोहरणसे सहस्त्रकूटके नामोंका पत्र निकालकर गुरुश्रीके हाथमें दिया। ज्ञान-विमलसूरिजीने उसे पढ़कर आश्चर्यान्वित हो देवचन्द्रजीसे पूछा कि आपके गुरुश्रीका नाम शुभ नाम क्या है ? उत्तर:—उपाध्याय—राजसागरजी। तब सूरिजीने कहा, आपकी परम्परा (घराना) तो विद्वद् परम्परा है, तब भला आप विद्वान कैसे नहीं होंगे, इत्यादि मृदुवाक्यों द्वारा बहुमान किया। श्रेष्ठि तेजसीका मनोरथ पूर्ण हुआ, सहस्त्रकूट नामोंकी देवचन्द्रजीने प्रसिद्धि की। प्रतिष्ठादि अनेक उत्सव हुए।

इसके बाद देवचन्द्रजीने परिग्रहका सर्वथा परित्याग कर क्रिया-उद्धार किया। सं० १७७७ में आप अहमदाबाद पधारे, नागौरी सरायमें अवस्थिति की। आपकी अध्यात्म रसमय देशना श्रवण कर श्रोताओंको अपूर्व आल्हाद उत्पन्न हुआ। श्रीमद् देवचन्द्रजी

भगवती सूत्रके गम्भीर रहस्योंको उद्घाटन करने लगे। आपके उपदेशसे माणिकलालजी ढूँढ़ियेने मूर्ति पूजा स्वीकार की, इतना ही नहीं उन्होंने नवीन चैत्य कराके गुरुश्रीके हाथसे प्रतिष्ठा भी करवाई। श्रीमद्ने शान्तिनाथ पोलके भूमिगृहमें सहस्रत्रफणादि अनेकों विम्बों की प्रतिष्ठा की, इन प्रतिष्ठादि कार्योंमें प्रचुर द्रव्य खर्च किया गया और जैन धर्मकी महती महिमा हुई।

सं० १७७६ में आपने खम्भातमें चौमासा कर अनेक भव्योंको प्रतिबोध दिया। व्याख्यानमें आपने शत्रुञ्जय तीर्थकी महिमा बतलाई, इससे श्रावकोंने शत्रुञ्जयपर कारखाना स्थापित कर नवीन चैत्य और जीर्णोद्धार करवाना आरम्भ किया। सं० १७८१-८२-८३ में कारीगरोंने वहां चित्रकारी आदिका बड़ा ही सुन्दर काम किया। (वहांसे विहार कर) राजनगर आये, चातुर्मासके लिये सूरतकी विशेष आग्रहपूर्वक विनती होनेसे आप सूरत पधारे। सं० १७८५-८६-८७ में पालीताने एवं शत्रुञ्जयमें वधुशाह कारित चैत्योंकी देवचन्द्रजीने प्रतिष्ठा की और पुनः राजनगर आकर सं० १७८८ का चतुर्मास वहां किया। इस समय वाचक दीपचंदजीके व्याधि उत्पन्न हुई और आषाढ़ शुक्ला २ को वे स्वर्ग सिधारे। तपागच्छीय विनयी विवेकविजयजीको आप विद्याध्ययन कराने लगे और उन्होंने भी आपकी बैयावच्च-सेवा-भक्ति कर गुरु-कृपा प्राप्त की।

अहमदाबादमें शाह आणन्दरामजी जो कि रतन भंडारीके अग्रेश्वरी थे, गुरुश्रीसे नित्य धर्म-चर्चा किया करते थे और गुरुश्रीके ज्ञानकी गरिमासे चमत्कृत हो उन्होंने रतन भंडारीके आगे आप-

की प्रशंसा की, कि मरुस्थलीके ज्ञानी साधु पधारे हैं। उनके बचनोंसे रत्नसिंह भी आपको बंदनार्थ पधारे और गुरुश्रीसे ज्ञान सुधाका सेवन कर बड़े प्रसन्न हुए। देवचन्द्रजीके उपदेशसे रतन भंडारी नित्य जिन पूजनादि करने लगे, एवं वहां बिम्ब प्रतिष्ठा, १७ भेदी पूजा आदि अनेकानेक धर्मकृत्य हुआ करते, उनमें भी भंडारीजी सम्मिलित होने लगे।

एक बार राजनगरमें मृगीका उपद्रव हुआ, तब भंडारीजीने उसे निवारणार्थ गुरुश्रीसे विनयपूर्वक विज्ञप्ति की। आपने शासन प्रभावनादि लाभ जानकर जैन मंत्राम्नायसे उसे निवारण कर मनुष्यों का कष्ट दूर किया। इससे जिन-शासन और देवचन्द्रजीकी सर्वत्र सविशेष प्रशंसा होने लगी।

इसी समय रणकुजी बहुत सेना लेकर रत्नभंडारीसे युद्ध करने आये। भंडारीजी तत्काल गुरुजीके पास आये, क्योंकि उन्हें गुरुश्रीका पूरा विश्वास था, वे अपने सहायक और सर्वस्व एकमात्र आपको ही मानते थे। अतः गुरुश्रीसे निवेदन किया कि सैन्य बहुत आया है, युद्धमें विजय अब आपके ही हाथ है। गुरुश्रीने आश्वासन देकर जैनमन्त्राम्नायका प्रयोग किया, अतः युद्धमें रणकुजी हारे और भंडारीजीकी विजय हुई।

धोलका बास्तव्य श्रेष्ठि जयचंदने पुरुषोत्तम योगीको गुरुश्रीके चरण कमलोंमें नमन कराया। गुरुश्रीने योगीके मिथ्यात्व शल्यको निवारणकर उसे जैनशासनानुरागी बनाया। सं० १७६५ पालीताने और १७६६-६७ में नवानगरमें चतुर्मास किया। वहां आपने ढुढकोंके

टोलोंको विजय कर नवानगरके चैत्योंकी पूजा, जिसे दुदकोने बन्ध करा दी थी पुनः सञ्चालित की। परधरी ग्रामके ठाकुरको आपने प्रतिबोध दिया और वे गुरु आज्ञामें चलने लगे। फिर पालीताना और पुनः नवानगर चतुर्मास कर १८०२-३ में राणाबाबमें पधारे। वहाँके अधिपतिके भंगदर रोगको नष्ट किया, अतः वह भी आपका भक्त हो गया।

सं० १८०४ में भावनगर पधारे, वहाँ मेहता ठाकुरसी कट्टर दुदकानुयायी थे, उन्हें प्रतिबोध दिया एवं वहाँके ठाकुरको भी जैन-मतानुरागी बनाया। सं० १८०४ में पालीतानेके मृगी उपद्रवको भी आपने नष्ट किया। सं० १८०५ में लीबड़ी पधारे और वहाँके श्रावक डोसो बोहरा, शाह धारसी, शाह जयचन्द्र, जेठा, रहीकपासी आदिको विद्याध्ययन कराया। लीबड़ी, धागंदा, चूडा इन तीन गावोंमें ३ प्रतिष्ठाएँ की। धागंदामें प्रतिष्ठाके समय सुखानन्दजी आपसे मिले थे।

आपके उपदेशसे सं० १८०८ में गुजरातसे शत्रुजंय सङ्घ निकला। गिरिराजपर बड़े उत्सव हुए। बहुतसे ऽव्यका सद्रव्यय हुआ। सं० १८०८-९ का चतुर्मास गुजरातमें किया।

१८१० में कचराशाहने शत्रुजंयका सङ्घ निकाला, श्रीदेवचन्द्रजी भो उसके साथ पधारे थे। शाह मोतीया और लालचन्द्र जैन धर्म में प्रवीण और दानेश्वरी थे। शत्रुञ्जयपर गुरु श्रीने प्रतिष्ठायें की। शाह कचरा, कीकाने ६० हजार रुपये व्यय किये।

सं० १८११ में लीबड़ीमें प्रतिष्ठा की। बड़वाणके दुदक श्रावकों

को प्रतिबोध देकर मूर्तिपूजक बनायें। उन्होंने सुन्दर चैत्य निर्माण कराये और उनमें अनेकानेक पूजायें होने लगीं।

श्री देवचन्द्रजीके पास विचक्षण शिष्य मनरूपजी, वादी-विजेता विजयचन्द्रजी (एवं अन्य गच्छीय साधु भी आपके पास विद्याध्ययन करते थे) एवं मनरूपजीके वक्तुजी और रायचंदजी नामक शिष्यद्वय रहते थे, एवं गुरु आज्ञामें रहकर गुरुश्रीकी सेवाभक्ति किया करते थे।

सं० १८१२ में श्रीमद् देवचन्द्रजी राजनगर पधारे, वहां गच्छ-नायक श्रीपूज्यजीको आमन्त्रित कर उनके द्वारा श्रावक समुदायने बड़े उत्सवसे आपको बाचक पदसे अलंकृत किया।

बा० श्री देवचन्द्रजीकी देशना अमृतके समान थी। आप हरि-भद्रसूरि, यशोविजयजीके एवं दिगम्बर गोमटसारादि तत्व-ज्ञानके ग्रन्थोंका उपदेश देते थे, श्रोताओंकी उपस्थित दिनोंदिन बढ़ने लगी। श्रीमद्ने मुलताण, बीकानेर आदि स्थानोंमें चतुर्मास किये एवं अनेकों नये ग्रन्थोंकी रचना की, जिनमें देशनासार, नयचक्र, ज्ञानसार अष्टक-टीका कर्मग्रन्थ टीका, आदि मुख्य हैं।

इस प्रकार शासन उद्योत करते हुए राजनगरके दोसी बाड़ेमें आप विराज रहे थे, उस समय अकरमात् वायु कोपसे वमनादिकी व्याधि उत्पन्न हुई। श्रीमद्ने अपना आयुष्य निकट ज्ञातकर विनयी शिष्य मनरूपजी और उनके विद्यमान सुशिष्य श्री रायचन्द्रजी (रूपचन्द्रजी) एवं द्वितीय शिष्य वादी विजयचन्द्रजी उनके शिष्य द्वय सभाचंद और विवेकचंद्रको योग्य शिक्षा देके उत्तराध्ययन, दशवै-

महोपाध्याय राजसोम

(पृ० ३०५)

१६ वीं शताब्दीके सुप्रसिद्ध विद्वान क्षमाकल्याणजीके आप विद्यागुरु थे, अतः उन्होंने आपके गुण-गर्भित यह अष्टक बनाया है। प्रस्तुत अष्टकमें गुणोंकी प्रशंसाके अतिरिक्त इतिवृत्त कुछ भी नहीं है।

अन्य साधनोंके आधारसे आपका ज्ञातव्य परिचय इस प्रकार है—आपके रचित (१) ज्ञान पंचमी पूजा सं० (२) सिद्धाचलस्तवन सं० १७६७ फा० व० ७ (३) नवकरवाली १०८ गुणस्तवन आदि उपलब्ध हैं, और आपके लि० कई प्रतियें भी प्राप्त हैं।

आप क्षेमकीर्ति शाखाके विद्वान थे, परम्पराका नामानुक्रम इस प्रकार है :—

(१) जिन कुशल सूरि (२) विनय प्रभ (३) उ० विजय तिलक (४) उ० क्षेमकीर्ति (५) तपोरत्न (६) तेजराज (७) वा० भुवनकीर्ति (८) हर्ष कुंजर (९) वा० लब्धिमंडण (१०) उ० लक्ष्मीकीर्ति ११ सोमहर्ष (गुरु भ्राता, प्रसिद्ध विद्वान लक्ष्मीवल्लभ) १२ वा० लक्ष्मी समुद्र (१३) कपूर प्रियजीके १४ शि० आप थे। आपकी परम्परामें (१५) वा० तत्व वल्लभ (१६) प्रीतिविलास (१७) पं० धर्म सुन्दर (१८) वा० लाभ समुद्र (१९) मुनिसिंह (२०) अमृत रंग (अबीरचन्द्र) हुए, जोकि सं० १६७१ में स्वर्ग सिधारे।

वा० अमृत धर्म

(पृ० ३०७)

उपाध्याय क्षमाकल्याणजीके आप गुरुवर्य थे, अतः पाठकजीने

अपने गुरुजीकी भक्ति सूचक इस अष्टककी रचना की है। इसका ऐतिहासिक सार इस प्रकार है :—

कच्छ देशमें उपकेश वंशकी वृद्ध शाखामें आपका जन्म हुआ था, श्री जिनभक्तिसूरिजीके शिष्य प्रीतसागरजी (जिनलाभ सूरिके सतीर्थ-गुरु भ्राता) के आप शिष्य थे। आपने शत्रुंजयादितीर्थोंकी यात्रा थी एवं सिद्धांतोंका योगोद्भवहन किया था। संवेगेरगसे आपकी आत्मा ओतप्रोत थी (इसीसे आपने परिग्रहका त्याग कर दिया था)। पूर्व देशमें आपके उपदेशसे स्वर्णदंडध्वज कलशवाले जिनालय निर्माण हुए थे। अनेक भव्यात्माओंको प्रतिबोध देते हुए आप जैसलमेर पधारे, और वहीं सं० १८५१ माघ शुक्ला ८ को समाधिसे आपकी मृत्यु हुई। स्थानांग सूत्रके अनुसार आपकी आत्मा मुखसे निर्गत होनेके कारण, आप देवगतिको प्राप्त हुए ज्ञात होते हैं। आप आप वाचनाचार्य पदसे विभूषित थे। विशेष परिचय उ० क्षमाकल्याणजीके स्वतंत्र चरित्रमें दिया जायगा।

उ० क्षमाकल्याण

(पृ० ३०८)

गुरुभक्त शिष्यने आपके परलोकवासी होनेपर विरहात्मक और गुणवर्णनात्मक इस अष्टक और स्तवको रचा है। स्तवका ऐतिहासिक सार यही है, कि सं० १८७३ पोष कृष्णा १४ को बीकानेरमें आप स्वर्ग सिधारे थे।

१६ वीं शताब्दीके खरतर विद्वानोंमें आप अग्रगण्य थे। आपका ऐ० चरित्र हम स्वतंत्र पुस्तकाकार प्रकाशित करनेवाले हैं, अतः यहां विशेष नहीं लिखा गया।

उ० जयमाणिक्य

(पृ० ३१०)

यति हरखचन्दजीके शिष्य जीवणदासजीके आप सुशिष्य थे । १६ वीं शताब्दीके पूर्वार्धमें आपकी अच्छी ख्याति थी । सेवक स्वरूपचन्दने छंदमें सं० १८२५ वैसाखके शुक्ला ६ को आपने (!) जिनचैत्यकी प्रतिष्ठा करवाई, उसका उल्लेख किया है । आपके सुन्दरदास, वस्तपाल, दोपचन्द अरजुनादि कई शिष्य थे, आपका बाल्यावस्थाका नाम 'घमडा' था । आप कीर्तिरत्न सूरि शाखाके थे ।

हमारे संग्रहमें आपके (सं० १८५५ मिगसर वदी ३ बीकानेरमें) जीवराशि क्षमापनाको टीप है । अतः यथा संभव इसके कुछ दिनों बाद ही बीकानेरमें आपका स्वर्गवास हुआ होगा । आपको दिये हुए आदेशपत्र और अन्य यतियोंके दिये हुए अनेकों पत्र हमारे संग्रहमें हैं ।

श्रीमद् ज्ञानसार जी

(पृ० ४३३)

जैगलेवास वास्तव्य सांड ज्ञातीय उदैचन्दजीकी पत्नी जीवणदेने सं० १८०१ में आपको जन्म दिया था, सं० १८१२ बीकानेरमें श्री जिनलाम सूरिजीके शिष्य रायचन्द (रत्नराज) जीके आप शिष्य हुए । बीकानेर नरेश सूरतसिंहजी आपके परम भक्त थे । राजा रत्नसिंहजी भी आपको बड़ी श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते थे । आपके सदासुखजी नामक सुशिष्य थे ।

आप मस्तयोगी, उत्तमकवि और राजमान्य महापुरुष थे । आपके रचित समस्त ग्रन्थोंकी हमने नकलें कर ली हैं जिसे विस्तृत ऐतिहासिक जीवन चरित्रके साथ यथावकाश प्रकाशित करेंगे ।

खरतरगच्छ आर्यामण्डल

लावण्य सिद्धी

(पृ० २१०)

वीकराज शाहकी पत्नी गुजरदेकी आप पुत्री थीं । पट्टणी रत्न-सिद्धिकी आप पट्टधर थीं, साध्वाचारको सुचारुरूपसे पालन करती हुई यु० जिनचन्द्रसूरजीके आदेशसे आप वीकानेर पधारी और वहीं अनशन आराधना कर सं० १६६२ में स्वर्ग सिधारी । वहां आपके स्मृतिमें थुंभ (स्तूप) बनाया गया । हेमसिद्धि साध्वीने यह गुणगर्भित गीत बनाया है ।

सोमसिद्धि

(पृ० २१२)

नाहर गोत्रीय नरपालकी पत्नी सिंघादेकी आप पुत्री थी, आपका जन्म नाम 'संगारी' था, यौवनावस्था आनेपर पिताश्रीने बोथरा जेठाशाहके पुत्र राजसीसे आपका पाणिग्रहण कर दिया । १८ वर्षकी अवस्थामें धर्म-उपदेशके श्रवण करते हुए आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ और श्वास-श्वसुरसे अनुमति ले दीक्षा ग्रहण की । दीक्षित होनेपर आपका नाम 'सोमसिद्धि' रखा गया, आपने आर्या लावन्यसिद्धिके समीप सूत्र-सिद्धान्तोंका अध्ययन किया था और उनने आपको अपने पदपर स्थापित की थी । शत्रुंजय आदि तीर्थोंकी आपने यात्रा की थी । श्रावण कृष्णा १४ बृहस्पतिवारको अनशनकर आप स्वर्ग

सिधारी । पहुत्तणी (संभवतः आपकी पदस्थ) हेमसिद्धिने आपकी स्मृतिमें यह गीत बनाया ।

गुरुणी विमलसिद्धि

(पृ० ४२२)

आप मुलतान निवासो माल्हु गोत्रीय शाह जयतसीकी पत्नी जुगतादे की पुत्री-रत्न थीं । लघुवयमें ब्रह्मचर्य व्रतके धारक अपने पितृव्य गोपाशाहके प्रयत्नसे प्रतिबोध पाकर आपने साध्वी श्री लावण्यसिद्धिके समीप प्रब्रज्या स्वीकार की थी । निर्मल चारित्रको पालन कर अनशन करते हुए बीकानेरमें स्वर्ग सिधारी । उपाध्याय श्रीललितकीर्त्तिजीने स्तूपके अन्दर आपके सुन्दर चरणोंकी स्थापना कर प्रतिष्ठा की । साध्वी विवेकसिद्धिने यह गीत रचा ।

गुरुणी गीत

(पृ० २१४)

आदिकी १॥ गाथा नहीं मिलनेसे आर्याश्रीका नाम अज्ञात है । साउंसुखा गोत्रीय कर्मचन्दकी ये पुत्री थीं । श्री जिनसिंह सूरिजीने आपको पहुत्तणी पद दिया था और सं० १६६६ भाद्रकृष्ण २ को विद्यासिद्धि साध्वीने यह गुरुणीगीत बनाया है ।



खरतर गच्छ शाखायें

जिनप्रभसूरि परम्परा

(पृ० ११, १३, १४, ४१, ४२,)

वीर—सुधर्म—जम्बू—प्रभव—शय्यभद्र यशोभद्र—आर्यसंभूति—भद्र—
बाहु स्थूलिभद्र—आर्यमहागिरि—आर्यसुहस्ती—शांतिसूरि—हरिभद्रसूरि
संडिलसूरि—आर्यसमुद्र, —आर्यमंगू—आर्यधर्म—भद्रगुप्त—वज्रस्वामी—आर्य—
रक्षित—आर्यनन्दि—आर्यनागहस्ति—रेवंत—खण्डिल—हिमवन्त नागा—
जुन—गोविन्द—भूतदिन्न लोहदित्य—दूष्यसूरि—उमास्वातिवाचक—जिन—
भद्रसूरि—हरिभद्रसूरि—देवसूरि—नेमिचन्द्रसूरि—उद्योतनसूरि—वर्द्धमान—
सूरि—जिनेश्वरसूरि—जिनचन्द्रसूरि—अभयदेवसूरि—जिनवल्लभसूरि—जि—
नदत्तसूरि— जिनचन्द्रसूरि—जिनपतिसूरि—जिनेश्वरसूरि—यहां तक तो
अनुक्रम सादृश ही है ।

इसके पश्चात् जिनेश्वरसूरिके पट्टधर जिनसिंहसूरि—जिनप्रभसूरि
जिनदेवसूरि—जिनमेरूसूरि (पृ० ११) अनुक्रमसे उनके पट्टधर जिनहित—
सूरि तकका नाम आता है (पृ० ४२) इनमें जिनप्रभसूरि जिनदेव—
सूरिका विशेष परिचय गीतोंमें इस प्रकार है :—

जिनप्रभसूरि

जिनप्रभसूरिजीने महम्मद पतिशाहको दिल्लीमें अपने गुण
समूहसे रंजित किया ।

अट्टाही, अष्टमी चतुर्थीको सम्राट उन्हें सभामें आमन्त्रित करते
थे, कुतुबुद्दीन भी आपके दर्शनसे बड़े प्रसन्न हुए थे ।

पतिशाह महम्मद शाह आपसे दिल्लीमें सं० १३८५ पौष शुक्ला ८

शनिवारको मिले थे, सुरत्राणने आदरसहित नमनकर आपको अपने पास बिठाया, और उनके मृदु भाषणोंसे प्रसन्न होकर हाथी, घोड़े, राज, धन, देश ग्रामादि जो कुछ इच्छा हो, लेनेके लिये विनती करने लगा। पर साध्वाचारके विपरीत होनेसे आपने किसी भी वस्तुके लेनेसे इनकार कर दिया।

आपके निरीहताकी सुलतानने बड़ी प्रशंसाकी और वस्त्रादिसे पूजा की। अपने हाथकी निशानी (मोहर छाप) वाला फरमान देकर नवीन वसति-उपाश्रय बनवा दिया और अपने पट्टहस्ति (जिसपर बादशाह स्वयं बैठता है) पर आरोहन कराके मीर मालिकोंसे साथ पोषध-शाला बड़े उत्सवके साथ पहुंचाया। वाजित्र बाजते और युवतियोंके नृत्य करते हुए बड़े उत्सवसे पूज्यश्री वसतीमें पधारे। पद्मावती देवीके सानिध्यसे आपकी धवल कीर्ति दशोदिश व्याप्त हो गई।

आप बड़े चमत्कारी और प्रभावक आचार्य थे। आपके चमत्कारों में १ आकाशसे कुलह (टोपी-घड़ा) को ओघे (रजोहरण) के द्वारा नीचे लाना २ महिष (भैंस) के मुखसे वाद करना ३ पतिशाहके साथ बड़ (बट) वृक्षको चलाना ४ शत्रुंजयके रायण वृक्षसे दुग्ध बरसाना ५ दोरड़ेसे मुद्रिका प्रगट करना ६ जिन प्रतिमासे बचन बुलवाने आदि मुख्य हैं।

आपके विषयमें स्वतन्त्र निबन्ध (ला० म० गांधी लिखित) प्रकाशित होनेवाला है उसे, और जैनस्तोत्र सन्दोह भा० २ प्रस्तावना पृ० ४४ से ५२ एवं ही० रसिक० सम्पादित ग्रन्थ देखना चाहिये।

जिनदेवसूरि

(पृ० १४)

जिनप्रभसूरिजीके पट्टपर आप सूर्यके समान तेजस्वी थे। मेड़ मंडल-दिल्लीमें आपके बचनामृतसे महम्मद शाहने कन्नाणापुर (कन्यायनीय) मंडण वीर प्रभुको शुभलग्नमें स्थापित किया था। ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशलके आप भण्डार थे एवं लक्षण, छन्द, नाटक आदिके आय वेत्ता थे।

कुलधर (शाह) के कुलमें वीरणी नामक नारि-रत्नके कुक्षिसे आपका जन्म हुवा था, जिनसिंहसूरिजीके पास आपने दीक्षा ग्रहण की थी। आपके पीछेके आचार्योंकी नामावलीका पता (१६ वीं शताब्दीके पूर्वार्द्ध तकका) हमारे संग्रहके एक पत्र एवं ग्रन्थ प्रशस्तियों से लगा है। जिसका विवरण इस प्रकार है :—

जिनप्रभसूरि—जिनदेवसूरि—पट्टधरद्वय १ जिनमेरुसूरि २ जिनचन्द्रसूरि, इनमें जिनमेरुसूरिके पट्टधर—जिनहितसूरि—जिनसर्वसूरि—जिनचन्द्रसूरि—जिनसमुद्रसूरि—जिनतिलकसूरि (सं० १५११)—जिनराजसूरि—जिनचंद्रसूरि (सं० १५८५)—पट्टधर-द्वय १ जिनमेरुसूरि और २ जिनभद्रसूरि—(सं० १६००)—जिनभानुसूरि (सं० १६४१)



बेगड़ खरतरशाखा

(पृ० ३१२ से ३१८)

गुर्वाबलीमें जिनलब्धिसूरि पट्टधर जिनचन्द्रसूरि तक क्रम एक समान ही हैं, जिनचन्द्रसूरिके पट्टापर भट्टारक शाखाकी ओर जिन-राजसूरि पट्टधर हुए। वे माल्हू गोत्रीय थे, इसीसे बेगड़ गच्छवाले उनकी परम्पराको माल्हूशाखा कहते हैं। उधर द्वितीय पट्टधर जिनेश्वरसूरि हुए, जो इस शाखाके आदि पुरुष हैं। जिनेश्वरसूरिजी आदिका विशेष परिचय गीतोंमें इस प्रकार है :—

जिनेश्वरसूरिजी

छाजहड़ गोत्रीय ज्ञांज्ञणके आप पुत्र थे, आपकी माताका नाम झबकु था, और बेगड़ विरुद्धसे आपकी प्रसिद्ध थी। माल्हू गोत्रीय गुरु भ्राताके मानको चूर्ण कर अपने गुरु श्री जिनचन्द्र-सूरिका पाट आपने लिया। आपने वाराही त्रिरायको आराधना किया था और धरणेन्द्र भी आपके प्रत्यक्ष था, अणहिल्लवाडे (पाटण) में खानका परचा पूर्ण कर महाजन वन्द (वन्दियों) को छुड़ाया था। राजनगरमें विहार कर महम्मद बादशाहको प्रतिबोध दिया था और उसने आपका पदस्थापना महोत्सव किया था। आपके भ्राताने ५०० घोड़ोंका (आपके दर्शनपर) दान किया और १ करोड़ द्रव्य व्यय किया था इससे महम्मद शाहने हर्षित हो “बेगड़ा” विरुद्ध प्रदान किया था, (या उसने कहा आपके श्रावक भी बेगड़ और आप भी बेगड़ हैं)। एक बार आप साचौर पधारे, बेगड़ और थूलग दोनों गोत्र परस्पर मिले, (वहां) राडद्रहसे लखमीसिंह मन्त्रोने सङ्घ सहित आकर गुरु श्री को वन्दन किया।

लक्ष्मीसिंहने भरम नामक अपने पुत्रको गुरुश्रीको वहराया और चार चौमासे वही रखे। सं० १४३० में संथारा कर शक्तिपुर (जोधपुर) में आप स्वर्ग पधारें और वहाँ आपका स्तूप (थुम्भ) बनाया गया, वह बड़ा चमत्कारी है, हजारों मनुष्य वहाँ दर्शनार्थ आते हैं। स्वर्गगमन पश्चात् भी आपने तिलोकसी शाहको ६ पुत्रियोंके ऊपर (पश्चात्) १ पुत्र देकर उसके वंशकी वृद्धि की। पौष शुक्ला १३ को जिनसमुद्रसूरिने स्तूपकी यात्राकर यह गीत बनाया।

गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध

(पृ० ४२३)

गुणप्रभसूरि प्रबन्ध और हमारे संग्रहकी पट्टावलीके अनुसार श्री जिनेश्वरसूरिजीका पट्टानुक्रम इस प्रकार है :—

१—श्री जिनशेखरसूरि २—श्री जिनधर्मसूरि ३—श्री जिन-चन्द्रसूरि ४—श्री जिनमेरुसूरि ५—श्री गुणप्रभसूरि हुए। इनका विशेष परिचय इस प्रकार है :—

सं० १५७२ में श्री जिनमेरुसूरिजीका स्वर्गवास हो जानेपर मण्डलाचार्य श्री जयसिंहसूरिने भट्टारक पदपर स्थापित करनेके लिए छाजहड़ गोत्रीय व्यक्तिकी गवेषणा की। अन्तमें जूठिल शाखा के मंत्री भोदेवरुके बुद्धिशाली पुत्र नगराज श्रावककी गृहिणी गण-पति शाहकी पुत्री नागिलदेके पुत्र वच्छराजने धर्मका लाभ जानकर अपने पुत्र भोजको समर्पण किया। उनका जन्म सं० १५६५ (शाके १४३१) मिंगसर शुक्ला ४ गुरुवारके रात्रिमें उत्तराषाढा नक्षत्र, ऋषियोग, कर्क लग्न, गण वर्गमें हुआ, सं० १५७५में सूरिजीने

दीक्षा दी। दीक्षित होनेके अनन्तर भोजकुमार गुरुश्रीसे विद्याभ्यास करते हुए संयम मार्गमें विशेष रूपसे प्रवृत्त हुए।

इधर जोधपुरमें राठौर राजा गंगराज राज्य करते थे, वहां छाजहड़ गोत्रीय गांगावत राजसिंह, सत्ता, पत्ता, नेतागर आदि निवास करते थे। सत्ताके पुत्र दुल्हन और सहजपाल थे, सहजपाल के पुत्र मानसिंह, पृथ्वीराज, सुरताण थे। जिनकी माताका नाम कस्तूरदे था। सुरताणकी भार्या लीलादेकी कुक्षिसे जेत, प्रताप और चांपसिंह तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। उपरोक्त कुटुम्बने विचारकर गंग नरेशसे (नेतागरने) प्रार्थना की, कि हम लोगोंको गुरु महाराजके मट्टोत्सव करनेके लिए आज्ञा प्रदान करें। नृपवर्यका आदेश पाकर देश-विदेशमें चारों तरफ आमन्त्रण पत्रिका भेजी गई, बहुत जगहका संघ एकत्र हुआ और खूब उत्सवपूर्वक सं० १५८२ फाल्गुन शु० ४ श्रीजिनमेरुसूरिके पट्टपर श्री जिनगुणप्रभ सूरिजीको स्थापित किया गया। उन्हें बड़ गच्छीय श्रीपुण्यप्रभ सूरिने सूरि मंत्र दिया संघने गंगरायको सन्मानित किया और राजाने भी संघ और पूज्यश्रीको बहुमान दिया।

सं० १५८५ में सूरिवर्यने संघके साथ तीर्थाधिराज सिद्धाचल जीकी यात्रा की, जोधपुरमें बहुतसे भव्योंको प्रतिबोध दिया। इस प्रकार क्रमशः १२ चतुर्मास होनेके पश्चात् जेशलमेरके श्रावक देवपाल, सदारंग, जीया, वस्ता, रायमल्ल, श्रीरंग, हुटा, भोजा आदि संघने एकत्र होकर गुरु दर्शनकी उत्कंठासे पांच प्रधान पुरुषोंके साथ वीनति-पत्र भेजा, उनके विशेष आग्रहसे सूरिजी विहारकर जैसलमेर

आये, सं० १५८७ आषाढ बदी १३ को समारोहके साथ पुर प्रवेश कर पौषघशालामें पधारे । व्याख्यानादि धर्म कृत्य होने लगे । सं० १५६४ में राउल श्री लूणकर्णने जलके अभावमें अपनी प्रजाको महान कष्ट पाते देखकर दुष्कालकी सम्भावनासे गच्छनायकको वर्षा होनेके उपाय करनेकी नम्र विज्ञप्ति की । राउलजीकी प्रार्थना से सूरिजीने उपाश्रयमें अष्टम तप पूर्वक मंत्र साधना प्रारम्भ की, उसके प्रभावसे मेघमाली देवने घनघोर वर्षा वर्षाई, जिससे भादवा सुदि १ को प्रथम प्रहरमें सारे तालाव-जलाशय भर गए । सुकाल हो जानेसे लोगोंके दिलमें परमानंद छा गया, सूरि महाराजकी सर्वत्र भूरि-भूरि प्रशंसा हुई, राउलजीने गुरु महाराजके उपदेशसे वणिक वन्दियोंको मुक्त कर दिया और पंच शब्द, वाजित्र आदिके वजवाते हुए बड़े समारोह पूर्वक उपाश्रयमें पहुंचाये ।

इस प्रकार सूरिजीने शासनकी बड़ी प्रभावनाकी थी, सं० १६५५ में ज्ञानबलसे अपने आयुष्यका अन्त निकट जानकर राधा (वैशाख) कृष्णा ८ को तीन आहारके त्यागरूप अनशन ग्रहण किया, एकादशीको संघके समक्ष प्रत्याख्यानादि कर डामके संथारेपर संलेखना कर दी, शत्रु और मित्रपर समभाव रखते हुए, अर्हन्तादि पदोंका ध्याय करते हुए, १५ दिनकी संलेखना पूर्णकर वैशाख सुदि ६ को ६० वर्ष ५ मास और ५ दिनका आयुष्य पूर्ण कर स्वर्ग सिधारे । श्री जिनेश्वर सूरिजी ने इनका प्रबन्ध बनाया ।

जिनचन्द्रसूरि

(पृ० ४३०, ३१६)

श्री गुणप्रभसूरिजीके शिष्य श्री जिनेश्वर सूरिजीके पट्टधर श्री जिनचन्द्रसूरि हुए जिनका परिचय इस प्रकार है ।—

बीकानेर निवासी बाफणा गोत्रीय रूपजी शाहकी भार्या रूपदे की कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था, आपका जन्म नाम वीरजी था, लघु वयमें समता रसमें लयलीन देखकर जैसलमेरमें श्री जिनेश्वर सूरि जीने आपको दीक्षितकर, वीर विजय अभिधान दिया। आपपढ़-लिख खूब विद्वान् और प्रतापी हुए, आपको श्रीजिनेश्वर सूरिजीने स्वयं अपने पट्टपर स्थापित किये। जैन शासनकी प्रभावनाकरके सं० १७१३ षोष मासकी ११ भृगुवारको अनशन पूर्वक आपस्वर्ग सिधारे। महिमा-समुद्रजीने आपके दो गीत रचे, अन्य एक गीतमें समुद्रसूरिजीने आपके साचोर पधारनेपर उत्सव हुआ, उसका संक्षिप्त वर्णन किया है।

जिनसमुद्रसूरि

(पृ० ३१७, ४३२)

आप श्रीश्रीमाल हरराजकी भार्या लखमादेवीके पुत्र थे, श्री जिनचन्द्रसूरिजीके पट्टपर स्थापित होनेके पश्चात आप सूरत और सांस नगरमें पधारे, जिनका वर्णन माईदास और महिमाहर्षके गीतमें है। सूरतमें छत्तराज शाहने महोत्सव आदि किया था।

जिनसमुद्रसूरिके पश्चात पट्टधरोंके नाम ये हैं :—जिनसुन्दर सूरि—जिनउदयसूरि—जिनचन्द्रसूरि—जिनेश्वरसूरि (सं० १८६१) इनके पट्टधरका नाम नहीं मिलता। अन्तिम आचार्य जिनक्षेमचंद्र सूरि सं० १६०२ में स्वर्ग सिधारे।

पिप्पलक शाखा

(पृ० ३१६)

गुर्वावली* में जिनराजसूरि (प्रथम) तक तो क्रम एक-सा ही

*गुर्वावलीमें नवीन ज्ञातव्य यह है कि:—जिन वर्द्धमान सूरिजीने श्री-

हैं। उनके पट्टधर जिनवर्द्धनसूरिजीसे यह शाखा भिन्न हुई थी, उनके पट्टधर आचार्योंका नामानुक्रम इस प्रकार है :—

जिनवर्द्धन सूरि--जिनचन्द्रसूरि—जिन सागर सूरि—(जिन्होंने ८४ प्रतिष्ठायें की थीं और उनका थुंभ अहमदाबादमें प्रसिद्ध है)। जिन सुन्दर सूरि—जिनहर्षसूरि—जिनचन्द्र सूरि—जिनशील सूरि—जिनकीर्तिसूरि—जिनसिंहसूरि—जिनचन्द्रसूरि (सं० १६६६ विद्यमान) तकका राजसुन्दरने उल्लेख किया है हमारे संग्रह की पट्टावली आदिसे इस शाखाके पञ्चानुवर्ती पट्टधरोंका अनुक्रम यह ज्ञात होता है:—जिनरत्नसूरि—जिनवद्वमानसूरि—जिनधर्म सूरि—जिनचन्द्र सूरि—(अपर नाम शिवचन्द्र सूरि) इनमें जिनरत्न सूरिके पीछेके नाम प्रस्तुत शिवचन्द्र सूरि रासमें भी पाये जाते हैं। अब रासके अनुसार जिन (शिव) चन्द्र सूरिजीका विशेष परिचय नीचे दिया जाता है :—

जिन शिवचन्द्रसूरि ×

(पृ० ३२१)

मरुधर देशके भिन्नमाल नगरमें अजीतसिंह भूपतिके राज्यमें ओसवाल रांका गोत्रीय शाह पदमसी रहते थे। उनकी धर्मपत्नीका नाम पदमा था। उसके शुभ मुहूर्तमें एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और

मंघर स्वामीसे सूरि मंत्र संशोधन कराया। श्रीमंघर स्वामीने आचार्योंके नामकी आदिमें जिन विशेषण लगानेकी सूचना दी, इसीसे पट्टधर आचार्यों ने नामके आगे जिन विशेषण दिया जाता है।

×गृहे १३ साधुपर्याय १३ गच्छ नायक १८ इस प्रकार कुल ४४ वर्ष का आयुष्य पाया।

उसका नाम शिवचन्द्र रखा गया। कुंवर दिनोंदिन वृद्धि प्राप्त होने लगा और जब उसकी अवस्था १३ वर्षकी हुई, उस समय उसी नगरमें गच्छनायक जिनधर्मसूरिका शुभागमन हुआ। संघने प्रवेशोत्सव किया, और अनेक लोग गुरुश्रीके व्याख्यानमें नित्य आने लगे। सूरिजीके व्याख्यान श्रवणार्थ पदमसी और शिवचन्द्र कुमार भी जाने लगे और संसारकी अनित्यताके उपदेशसे कुमारको वैराग्य उत्पन्न हो गया, यावत् माता पित्तके पास आग्रह पूर्वक अनुमति लेकर सं० १७६३ में गुरु श्रीकेपास दीक्षा ग्रहण की। मासकल्पके परिपूर्ण हो जानेसे सूरिजी नवदीक्षित शिवचन्द्रके साथ विहार कर गये। ज्ञानावर्णी कर्मके क्षयोपशमसे नवदीक्षित मुनिने व्याकरण, न्याय, तर्क और आगम ग्रन्थोंका शीघ्र अध्ययन कर विद्वता प्राप्त की।

जिनधर्म सूरिजी उदयपुर पधारे और वहां शारीरिक वेदना उत्पन्न होनेसे आयुष्यकी पूर्णाहुतिका समय ज्ञातकर सं० १७७६ वैसाख शुक्ला ७ का शिवचन्द्रजीको गच्छनायक पद देकर (वहीं) स्वर्ग सिधारे। आचार्यपदका नाम नियमानुसार जिनचन्द्रसूरि रखा गया। उस समय (राणा संग्राम राज्ये) उदयपुरके श्रावक दोसी भीखा सुत कुशलने पद महोत्सव किया और पहरावणी, याचकोंको दान आदि कार्योंमें बहुतसा द्रव्यका व्यय कर सुयश प्राप्त किया। आचार्य पद प्राप्तिके पश्चात् आपने, शिष्य हरिसागरके आग्रहसे वहीं चतुमास किया, धर्मप्रभावना अच्छी हुई। चौमासा पूर्ण होने पर आपने गुजरातकी ओर विहार कर दिया। सं० १७७८ में (गच्छनायकके) परिग्रहका त्यागकर विशेष वैराग्य भावसे क्रियोद्धार किया और

आत्म गुणोंकी साधना करते हुए भव्योंको उपदेश प्रदान आदि द्वारा स्वपर हित साधनमें तत्पर हुए ।

गुजरातमें विचरते हुए शत्रुंजय तीर्थ पधारे और वहां ४ महीने की अवस्थित कर ६६ यात्राएं कीं । वहांसे गिरनारमें नेमनाथकी यात्राकर जूनागढ़की यात्रा करते हुए खंभात पधारे, वहांकी यात्रा कर चतुर्मास भी वहीं किया । वहां धरम-ध्यान सविशेष हुआ । वहांसे मारवाड़की ओर विहारकर आवू तीर्थकी यात्रा करके तीर्थाधि राज सम्मेशिखर पधारे । वहां वीश तीर्थकरोंके निर्वाण स्थानों की यात्रा करके, विचरते हुए बनारसमें पार्श्वनाथजी की यात्राकी । रास्तेमें पावापुरी, चम्पापुरी, राजग्रही, वैभारगिरिकी भी संघके साथ यात्राकी और हस्तिनापुरमें शान्ति, कुन्धु और अरिनाथप्रभु की यात्रा कर दिल्ली पधारे, वहां चतुर्मास करके विहार करते हुए पुनः गुजरातमें पदार्पण किया । वहां भणशाली कपूरके पास एक चतुर्मास किया और पंचमाङ्ग भगवतीसूत्रका व्याख्यान देने लगे, इति उपद्रव दूरकर सुयश प्राप्त किया । ज्ञान-भक्ति और धर्म प्रभावना अच्छी हुई, शत्रुंजयतीर्थकी यात्रा की, यात्राकी भावना पुनः उत्पन्न होनेसे राजनगरसे विहारकर शत्रुंजय और गिरनाथतीर्थकी यात्राकर दीवबंदरमें चौमासे रहे । वहांसे फिर शत्रुंजयकी यात्रा करके घोघा-बंदर, भावनगर आदिकी यात्रा करते हुए भी १७६४ के माह महीनेमें खम्भात पधारे । वहांके गुणानुरागी श्रावकोंने आपका अतिशय बहुमान किया, उनके उपकारार्थ आप भी धर्मदेशना देने लगे ।

इसी समय किसी दुष्ट प्रकृति पुरुषने वहांके यवनाधिपके समक्ष

कोई चुगली खाई, अतः उसने अपने सेवकोंको आचार्यजीके पास भेजे । राज्य सेवकोंने पूज्यश्रीको बुलाकर “आपके पास धन है वह हमें देदे” कहा, पर सूरिजी तो बहुत पहलेही परिग्रहका सर्वथा त्याग कर चुके थे, अतः स्पष्ट शब्दोंमें प्रत्युत्तर दिया कि भाई हमारे पास तो भगवत् नाम स्मरणके अतिरिक्त कोई धन माल नहीं है, पर वे अर्थ लोभी भला कब मानने वाले थे । उन्होंने सूरिजीको तंग करना शुरू किया । इतनाही नहीं राज्यसत्ताके बलपर अंधे होकर यवनाधिपतिने सूरिजीकी खाल उतारनेकी आज्ञा दे दी । सूरिजीने यह सब अपने पूर्व संचित अशुभ कर्मोंके उदयका ही फल है, विचारकर मरणान्त कष्ट देनेवाले दुष्टोंपर तनिक भी क्रोध नहीं किया । धन्य है ! ऐसे समभावी उच्च आत्म-साधक महापुरुषोंको !! रात्रिके समय दुष्ट यवनने क्रोधित होकर बड़े दुःख देने आरम्भ किये । मार्मिक स्थानोंमें बड़े जोरोंसे मारने (दंड-प्रहार करने) लगा और उस पापीष्टने इतनेमें ही न रुककर सूरिजीके हाथ पैरके जीवित नखोंको उतार असह्य वेदना उत्पन्न की । वेदना क्रमशः बढ़ने लगी और मरणान्त अवस्था आ पहुँची, पर उन महापुरुषने समभाव के निर्मल सरोवरमें पैठ आत्मरमणतामें तलीन्नता कर दी । अपने पूर्वके खंदग-गजसुकमाल-इवदन्त आदि महापुरुषोंके चरित्रोंका स्मृति चित्र अपने आँखोंके सामने खड़ाकर पुद्गल और आत्माके भिन्नत्व विचाररूप, भेद ज्ञानसे उस असह्य वेदनाका अनुभव करने लगे ।

यह वृतांत ज्ञात होते ही प्रातःकाल श्रावकगण सूरिजीके पास आये, तब यवन भी सरिजीका धैर्य देख और अपनी सारी दुष्टवृत्ति

की इतिश्री होनेसे उकता गया । और श्रावकोंको उन्हें अपने स्थान ले जानेको कहा । रूपा बोहरा उन्हें अपने घर लाया । नगरमें सर्वत्र हाहाकार मच गया ।

इस समय नाय (न्याय !) सागरजीने सूरिजीका अन्तिम समय ज्ञातकर उत्तराध्ययन आदि सूत्रोंका श्रवण कराके अनशन आराधना करवाई । श्रावकोंने यथाशक्ति चतुर्थ व्रत, हरित त्याग, १२ व्रतादि के यथाशक्ति नियम लिये । आचार्यजीने गच्छकी शिक्षा अपने शिष्य हीरसागरको देकर, सं० १७६४ वैशाख ६ कविवार सिद्धयोग के प्रथम प्रहरमें जिनेश्वरका ध्यान करते इस नश्वर देहका परि-त्यागकर (प्रायः) देवके दिव्य रूपको धारण किया । श्रावकोंने उत्सवके साथ अन्त क्रिया की, और रूपा बोहरेने वहां स्तूप कराया । इसी तरह राजनगरके बहिरामपुरमें भी स्तूप बनवाया गया । हीरसागरके आग्रहसे कडुआमती शाह लाधाने सं० १७६५ के आश्विन शुक्ला ५ बृहस्पतिवारको राजनगरमें इस रासकी रचना की ।



आद्यपक्षीय शाखा

जिनहर्षसूरि

(पृ० ३३३)

आद्य पक्षीय खरतर शाखा (भेद) सं० १५६६ में जिनदेव सूरिजीसे निर्गत हुई थी। हमें प्राप्त पट्टावलीके अनुसार इन शाखा की पट्ट-परम्परा इस प्रकार है :—

जिनवर्द्धनसूरि—जिनचन्द्रसूरि—जिनसमुद्रसूरि—पट्टधर जिन देवसूरि (इस शाखाके आदि पुरुष) जिनसिंहसूरि—जिनचन्द्रसूरि (पंचायण भट्टारक) के शिष्य जिनहर्षसूरिजी थे। गीतके अनुसार आप दोसी वंशके भादाजीकी भार्या भगतादेके पुत्र थे।

अन्य साधनोंसे आपका विशेष वृत्तान्त निम्नोक्त ज्ञात हुआ है:— सं० १६६३ में जैतारणमें जिनचन्द्रसूरिका स्वर्गवास हुआ। भंडारी गोत्रीय नारायणने पद महोत्सवकर आपको उनके पट्टपर स्थापित किये, जैतारणमें आपने हाथीको कीलित किया, जिसका वृत्तान्त इस प्रकार है :—सं० १७१२ वर्षे खरतर गच्छ वृद्धाआचार्य क्षेमधाड़ शाखा पंचायण भट्टारक रे पाट सांप्रत विजयमान भ० श्रीजिनहर्षसूरि जी सोजत शहरमें हाथी कील्यो, तपा गच्छ हुंती बोल उपर आण्यों इण बातरो सोजत शहर सिगलो साक्षीभूत थे। हाथी रे ठिकाने अजे सगिड़ो पूजीजे छै कोटवाली चोतरा कने मांडी बिचमें × × × (इनके शिष्य सुमतिहंशकृत कालिकाचार्य कथा बालाबबोध पत्र १४, यतिवर्य सूर्यमलजी के संग्रहमें)।

१७२५ चैत्र कृष्णा ११ को जेतारणमें आपका स्वर्गवास हुआ । इनके पश्चातके पट्टधरोंका क्रम यह है :—१ जिनलब्धि-जिनमाणिक्य-जिनचन्द्र-जिनोदय-जिनसंभव-जिनधर्म-जिनचन्द्र-जिनकीर्ति-जिन बुद्धिवल्लभ-जिनक्षमारत्नसूरिके पट्टधर जिनचन्द्रसूरिजी पालीमें अभी विद्यमान हैं ।

भावहर्षीय शाखा

भावहर्षजी उपाध्याय

(पृ० १३५)

शाह कोड़ाकी पत्नी कोड़मदेके आप पुत्र थे । श्रीकुलतिलकजीके आप सुशिष्य थे । संयमके प्रतिपालनमें आप विशेष सावधान रहा करते थे, और सरस्वती देवीने प्रसन्न होकर आपको शुभाशीष दी थी । माह शुक्ला १० को जैसलमेरमें गच्छनायक जिनमाणिक्य-सूरिजीने (सं० १५६३ और १६१२ के मध्यमें) आपको उपाध्याय पद दिया था ।

अन्य साधनोंसे ज्ञात होता है कि आप सागरचन्द्रसूरि शाखाके वा० साधुचन्द्रके शिष्य कुलतिलकजीके शिष्य थे । आप स्वयं अच्छे कवि थे । आपके रचित स्तवनादि बहुतसे मिलते हैं । सं० १६०६ में आपने ७० कनकतिलकादिके साथ कठिन क्रिया-उद्धार किया था । आपके हेमसार आदि कई विद्वान् और कवि शिष्य थे, आपके द्वारा खरतर गच्छ में ७ वां गच्छ भेद हुआ । और आपके नामसे वह शाखा भावहर्षीय कहलाई । बालोतरेमें इस शाखाकी गद्दी अब भी विद्यमान है । आपके शाखाकी पट्ट-परम्परा इस प्रकार

है :—भावहर्षसूरि—जिनतिलक—जिनोदय—जिनचन्द्र—जिनस-
मुद्र—जिनरत्न—जिनप्रमोद—जिनचन्द्र—जिनसुख—जिनक्षमा-
जिनपद्म—जिनचन्द्र—जिनफतेन्द्रसूरि हुए, आपकी शाखामें अभी
यतिवर्य नेमिचन्द्रजी वालोतरेमें विद्यमान है।—विशेष विचार
खरतर गच्छ इतिहासमें करेंगे।

जिनसागर सूरि शाखा [लघु आचार्य]

जिनसागरसूरि

(पृ० १७८-२०३-३३४)

मरुधर जंगल देशके बीकानेर नगरमें राजा रायसिंहजी राज्य करते थे। उस नगरमें बोथरा गोत्रीय शाह बच्छा निवास करते थे, उनकी भार्या मृगादेकी कुक्षिसे सं० १६५२ कार्तिक शुक्ला १४ रविवारको अश्विन नक्षत्रमें आपका जन्म हुआ था। आप जब गर्भमें अवतरित हुए थे, तब माताको रक्त चोल रत्नावलीका स्वप्न आया था, उसीके अनुसार आपका नाम “चोला” रक्खा गया, पर लाड (अतिशय प्रेम) के नाम सामलसे ही आपकी प्रसिद्धि हुई।

एकबार श्रीजिनसिंहसूरिजीका वहां शुभागमन हुआ और उनके उपदेशसे सामल कुमारको वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने अपनी मातुश्रीसे दीक्षाकी अनुमति मांगी। इसपर माताने भी साथ ही दीक्षा लेनेका निश्चय प्रकट किया। इधर श्री जिनसिंह सूरिजी विहारकर अमरसर पधारे। तब वहां जाकर सामलकुमार ने अपने बड़े भाई विक्रम और माताके साथ सं० १६६१ माह सुदी

७ को सूरिजीसे दीक्षा ग्रहण की* । उस समय अमरसरके श्रीमाली थानसिंहने दीक्षा महोत्सव किया ।

नवदीक्षित मुनिके साथ जिनसिंहसूरिजी ग्रामानु-ग्राम विहार करते हुए राजनगर पधारे । वहां युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिजी को बंदना की, सूरिजीने नवदीक्षित सांमल मुनिको (मांडलके तप वहन कर लिये, ज्ञातकर) बड़ी दीक्षा देकर नाम स्थापना “सिद्धसेन” की । इसके पश्चात सिद्धसेन मुनि आगमके उपधान (तपादि) वहन करने लगे और बीकानेरमें छः मासी तप किया । विनय सहित आगमादिका अध्ययन करने लगे । युगप्रधान पूज्यश्री आपके गुणोंसे बड़े प्रसन्न थे । कविवर समयसुन्दरके सुप्रसिद्ध शिष्य वादी हर्षनन्दनने आपको विद्याध्ययन बड़े मनोयोगसे कराया ।

इस प्रकार विद्याध्ययन और संयम पालन करते हुए श्री जिनसिंहसूरिजीके साथ संघवी आसकरणके संघ सह शत्रुंजयतीर्थकी यात्रा की । वहांसे विहारकर खंभात, अहमदाबाद, पाटण होते हुए वडलीमें जिनदत्तसूरिजीकी यात्रा की । वहांसे विहारकर सिरोही पधारे । वहांके राजा राजसिंहने बहुत सम्मान किया और संघने प्रवेशोत्सव किया । वहांसे जालोर, खंडप, द्रूणाड़ा होते हुए बंधाणी के प्राचीन जिन बिम्बोंके दर्शन कर बीकानेर पधारे । शा० बाघमलने प्रवेशोत्सव किया । जिनसिंहसूरिजीने चतुर्मास वहीं किया । इसी चतुर्मासके समय उन्हें सम्राट् सलेमने मेवड़े दूत भेजकर आमन्त्रित

* निर्वाण रासमें शृगादेका दीक्षित नाम माणिक्यमाला और वीकेका नाम विवेक कल्याण लिखा ।

किये । सम्राट्की विज्ञप्तिके अनुसार वहांसे बिहारकर वे मेड़ते पधारे, वहां शारीरिक व्याधि उत्पन्न होनेसे आराधना पूर्वक स्वर्ग सिधारे ।

इस प्रकार जिनसिंहसूरिजीकी अचानक मृत्यु होनेसे संघको बड़ा शोक हुआ । पर कालके आगे कर भी क्या सकते थे, आखिर शोक निर्वतन करके संघने राजसी (राज समुद्र) जी को भट्टारक (गच्छ नायक) पद और सिद्ध सेन (सामल) जीको *आचार्य पदसे अलंकृत किये ।

संघपति (चोपड़ा) आसकरण, अमीपाल, कपूरचन्द, ऋषभदास और सूरदासने पद महोत्सव बड़े समारोहसे किया । (पूनमीया गच्छीय)हेमसूरिजीने सूरिमंत्र देकर सं० १६७४ फाल्गुन शुक्ला ७को शुभ मुहूर्तमें जिनराजसूरि और जिनसागरसूरि नाम स्थापना की ।

आचार्य पद प्राप्तिके अनन्तर आपने मेड़तेसे बिहार कर राणकपुर, वरकाणा, तिमरी (पार्श्वनाथजीकी), ओसियां और घंघाणीकी यात्राकर चतुर्मास मेड़ते किया । वहांसे जैसलमेर पधारे । वहां राजल कल्याण और श्रीसंघने वंदन किया और भणसाली जीवराजने (प्रवेश) उत्सव किया । वहां श्रीसंघको ११ अंगोंका श्रवण कराया । शाह कुशलेने मिश्री सहित रुपयोंकी लाहण की । वहांसे संघके साथ लोद्रवा पधारे । (भणसाली) श्रीमल सुत थाहरूशाहने स्वामी—वात्सल्यादिमें प्रचुर द्रव्य व्यय किया । वहांसे आचार्य जिनसागरसूरि फलवधी पधारे । झाबक मानेने प्रवेशोत्सव किया और

* निर्वाण रास गा० ९ और जपकोर्ति कृत गीतके कथनानुसार आपको आचार्य पद, युग प्रधान जिनचन्द्रसूरिजीके वचनानुसार मिला था ।

याचकोंको दान दिया । संघने बड़ी भक्ति की । वहांसे विहारकर करणु-अइं पधारे, वहां संघने भक्तिसे वंदना की । इस प्रकार विहार करते हुए बीकानेर पधारे, वहां पासाणीने संघके साथ प्रवेशोत्सव किया एवं (मंत्रीश्वर कर्मचन्दके पुत्र) भागचन्दके पुत्र मनोहरदास आदि सामहीयेमें पधारे ।

बीकानेरसे विहारकर (लूनकरण) सर चतुर्मास कर जालय-सर पधारे । वहां मंत्री भगवन्तदासने बड़े उत्सवके साथ पूज्यश्रीको वंदन किया, वहांसे डीडवाणेके संघको वंदाते हुए सुरपुर एवं मालपुर आये, वहां भी धर्म-ध्यान सविशेष हुआ । इस प्रकार विहार करते हुए बीलाड़ेमें चौमासा किया । वहांके कटारिये श्रावक खरतर गच्छ के अनन्य अनुरागी थे, उन्होंने उत्सव किया ।

बीलाड़ेसे विहार कर मेड़ते आये वहां गोलछा रायमलके पुत्र अमीपालके भ्राता नेतसिंह भ्रातृपुत्र-राजसिंहने बड़े समारोहसे नान्दि स्थापन कर व्रतोच्चारण किये, श्रीफल नालेरादिके साथ रूपयोंकी लाहण (प्रभावना) की । वहांके रेखाउत श्रीमल, वीरदास मांडण, तेजा, रीहड़ दरड़ाने भी धार्मिक कार्योंमें बहुतसा द्रव्यका सद-व्यय किया । आचार्य श्री वहांसे विहारकर राणपुर और कुम्भलमेरके जिनालयोंको वंदन कर मेवाड़ प्रदेश होते हुए उदयपुर पधारे । वहांके राजा करणने आपका सम्मान किया । और मंत्रीश्वर कर्मचन्द्र पुत्र लक्ष्मीचन्द्रके पुत्र रामचन्द्र और रुघनाथके साथ अजायबदेने वन्दन किया । वहांसे विहार कर स्वर्णगिरि पधारे, वहां संघने बड़ा उत्सव किया । साचोर संघने एवं हाथीशाहने बहुत आग्रह कर चतुर्मास साचोरमें कराया ।

इस प्रकार उपरोक्त सारे वर्णनात्मक इस रासको कवि धर्मकीर्ति (यु० जिनचन्द्रसूरि उपाध्याय धर्मनिधानके शि०) ने स० १६८१ के पौष कृष्णा ५ को बनाया ।

उपरोक्त रास रचनेके पश्चात् स० १६८६ में गच्छ नायक जिनराजसूरि और आचार्य जिनसागरसूरिके किसी अज्ञात कारण विशेषसे मनोमालिन्य या वैमनस्य* उत्पन्न हुआ ।

फलस्वरूप दोनोंकी शाखायें (शिष्यपरिवार आदि) भिन्न २ हो गईं । और तभीसे जिनराजसूरिजीकी परम्परा भट्टारकीया एवं जिनसागरसूरिजीकी परम्परा आचारजीया नामसे प्रसिद्ध हुई, जो आज भी उन्हीं नामोंसे प्रख्यात हैं ।

शाखा भेद होने पर जिनसागरसूरिजीके पक्षमें कौनसे विद्वान और कहांका संघ आज्ञानुयायी रहा । इसका वर्णन निर्वाण रासमें इस प्रकार है :—

श्रीजिनसागरजीके आज्ञानुवर्ती साधु संघमें उपाध्याय समय-सुन्दरजी (की सम्पूर्ण शिष्य परम्परा), पुण्य-प्रधानादि युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजीके सभी शिष्य, और श्रावक समुदायमें अहमदाबाद, बीकानेर, पाटण, खम्भात, मुल्तान, जैसलमेरके संघ नायक संख-वालादि, मेड़तेके गोलछे, आगरेके ओशवाल, बीलाड़ेके संघवी कटारिये एवं जयतारण, जालौर, पचियाख, पालहनपुर, मुञ्ज, सूरत, दिल्ली, लाहोर, लुणकरणसर, सिन्ध प्रान्तोंमें मरोट, थट्टा, डेरा, मारवाडमें फलोधी, पोकरण आदिके (ओशवाल-अच्छे २

*जयकीर्तिके गीतके अनुसार यह कारण अहमदाबादमें हुआ था ।

पदाधिकारी) थे ।* उनमेंसे मुख्य श्रावकोंके धर्मकृत्य इस प्रकार है :—

करमसी शाह संवत्सरीको महम्मदी (मुद्रा) देते और उनके पुत्र लालचन्द प्रत्येक वर्ष संवत्सरीको संधमें श्रीफलोंकी प्रभावना किया करते थे । लालचन्दकी विद्यमान माता धनादेने पूठियेके उपर के खण्डकी पीटणीको समराइ (जीर्णोद्धारित की) और उसकी भार्या कपूरदेने जो कि उग्रसेनकी माता थी, धर्मकार्यमें प्रचुर द्रव्य व्यय किया ।

शाह शान्तिदासने भ्राता कपूरचन्दके साथ आचार्यश्रीकी स्वर्णके वेलिये दिये थे, एवं २॥ हजार रुपयोंका खर्च कर सुयश प्राप्त किया था । उनकी माता मानबाइने उपाश्रयके १ खण्डकी पीटणी करा दी थी और प्रत्येक वर्ष आषाढ़ चतुर्मासीके पोषधोपवासी श्रावकोंको पोषण करनेका वचन दिया था ।

शाहमनजीके दीप्तमान कुटुम्बमें शाह उदयकरण, हाथी, जेठमल और सोमजी मुख्य थे । उनमें हाथीशाहने तो रायबन्दी-छोड़ का विरुद्ध प्राप्त किया था । उनके सुपुत्र पनजी भी सुयशके पात्र थे । मूलजी, संधजी पुत्र वीरजी एवं परीख सोनपाल सूरजीने २४ पाक्षिकोंको भोजन कराया था । आचार्य श्रीकी आज्ञामें परीख चन्द्रभाण, लालू,

*समयछन्दरजी कृत अष्टकमें आपके आज्ञानुयायिओंकी सूची मैं इनके अतिरिक्त भटनेर, मेवाड़, जोधपुर, नागौर, बीरमपुर, साचोर, किर-होर, सिद्धपुर, महाजन, रिणी, सांगानेर, मालपुर, सरसा, धौंगोटक, भरुच, राधनपुर वाराणपुर आदिके संघोंके भी नाम भी आते हैं ।

अमरसी शाह, संघवी कचरमल्ल, परीख अखा, बाछड़ा देवकर्ण, शाह गुणराजके पुत्र रायचन्द गुलालचन्द, इस प्रकार राजनगरका प्रशंसनीय संघ था और धर्मकृत्य करनेमें खंभातके भण्डशाली बधुका पुत्र ऋषभदास भी उल्लेखनीय था ।

हर्षनन्दनके गीतानुसार मुकरबखान (नबाब) भी आपको सन्मान देता था । इस प्रकार आचार्य श्रीका परिवार उदयवन्त था, गीतार्थ शिष्योंको आचार्यश्रीने यथायोग्य वाचक उपाध्यायादि पद प्रदान किये थे और अपने पदपर स्वहस्तसे अहमदाबादमें जिनधर्मसूरिजीको (प्रथम पछेवड़ी ओढ़ाकर) स्थापन किया । उस समय भणशाली बधुकी भार्या विमलादे, भणशाली सधुआकी पत्नी सहिजलदे (जिसने पूर्व भी शत्रुंजय संघ निकाला और बहुतसे धर्मकृत्य किये थे) और श्री० देवकीने पदमहोत्सव बड़े समारोहसे किया ।

पद स्थापनाके अनन्तर जिनसागरसूरिके रोगोत्पत्ति होनेके कारण आपने बैशाख शुक्ला ३ को शिष्यादिको गच्छकी शिखामण दे, गच्छ भार छोड़ा । बैशाख सुदी ८ को अनशन उच्चारण किया । उस समय आपके पास उपाध्याय राजसोम, राजसार, सुमतिगणि, दयाकुशल वाचक, धर्ममंदिर, समयनिधान, ज्ञानधर्म, सुमतिबल्लभ आदि थे । सं०१७१६ जेष्ठ कृष्णा ३ शुक्रवारको आप स्वर्ग सिधारे और हाथीशाहने अग्नि संस्कारादि अन्त-क्रिया धूमसे की । इसके पश्चात् संघने एकत्र होकर गाथें, पाड़े, बकरीयें आदि जीवोंकी २००) रूपये खर्चा कर रक्षा की और शान्ति जिनालयमें देववन्दन कर शोकका परित्याग किया ।

उपरोक्त (वर्णनवाले) रासकी रचना सुमतिवल्लभने (सुमति-समुद्र शिष्यके साथ) सं १७२० श्रावण शुक्ला १५ को की । आचार्य श्रीके रचित वीशी एवं स्तवनादि उपलब्ध हैं ।

जिनधर्मसूरि

(पृ० ३३५-३६)

आप भणशाली गोत्रीय (रिणमल्ल) की पत्नी मृगादेके पुत्र थे । पद स्थापनाका उल्लेख ऊपर आही चका है । ज्ञानहर्षके गीतानुसार आप बीकानेर पधारे, उस समय गिरधरशाहने प्रवेशोत्सव बड़े समारोहसे किया था । विशेष ज्ञातव्य देखें :—खरतरगच्छपट्टावली संग्रह ।

जिनचन्द्रसूरि

(पृ० ३३७)

आप जिनधर्मसूरिजीके पट्टधर थे । बुहरा वंशीय सांवलशाह आपके पिता और साहिबदे आपकी माता थी । विशेष ज्ञातव्य देखें—खरतरगच्छपट्टावलीसंग्रह ।

जिनयुक्ति सूरि पट्टधर जिनचन्द्रसूरि

(पृ० ३३७-३८)

उपरोक्त जिनचन्द्रसूरिके (पश्चात् पट्टावलीके अनुसार) पट्टधर जिनविजयसूरिके पट्टधर जिनकीर्तिसूरिके पट्टधर जिनयुक्तिसूरिजी हुए, उनके पट्टधर आप थे । रीहड़ गोत्रीय शा० भागचन्दकी भार्या यशोदाकी कुक्षिसे आप अवतरित हुए । बीलाड़े चतुर्मासके समय कवि आलमने यह गीत रचा था । गीतमें प्रवेशोत्सवके समयकी भक्तिका संक्षिप्त वर्णन है ।

जिनचंद्रसूरिजीके पट्टधर जिनउदय-जिनहेम-जिनसिद्धसूरिके पट्टधर जिनचंद्रसूरि अभी विद्यमान हैं। विशेष ज्ञातव्य देखें:— (खरतरगच्छपट्टावलीसंग्रह) ।

रंगविजयशाखा

जिनरंगसूरि

(पृ० २३१-३३)

श्रीजिनराजसूरि (द्वि०) के आप शिष्य थे। श्रीमाली, सिन्धुड गोत्रीय सांकरसिंहकी भार्या सिन्दुरदेकी कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था। सं० १६७८ फाल्गुन कृष्णा ७ को जैसलमेरमें आपने दीक्षा ली थी, दीक्षितावस्थाका नाम रंगविजय रखा गया। श्रीजिनराजसूरिजीने आपको उपाध्याय पद दिया था। ज्ञानकुशलकृत गीत और जिनराजसूरि गीत नं० ६ में आपको युवराज पदसे संबोधन किया गया है जोकि महत्वका है।

कमलरत्नके गीतानुसार पातिशाह (शाहजहां !) ने आपकी परीक्षाकी थी और ७ सूबोंमें (इनका) वचन प्रमाण करनेका फरमान दिया था। उसके पाटवीपुत्र दारासको सुलतानने आपको 'युगप्रधान' पदका निसाण दिया था। सिन्धुड नेमीदास-पंचायणने प्रवेशोत्सव (शाही निसाणके साथ !) बड़े समारोहसे किया, सर्व महाजन संघको नालेरकी प्रभावना दी गई। सं० १७१० मालपुरेमें महोत्सवके साथ 'युगप्रधान' पद-स्थापन हुआ था।

आपके रचित अनेकों स्तवनादि उपलब्ध हैं। उनमेंसे कई दिल्लीसे (१ छोटासे ग्रन्थमें) यतिरामपालजीने प्रकाशित किये हैं।

आपके रचित कृतियोंमें १—सौभाग्यपंचमी चौ०, २—नवतत्ववाला० (श्राविका कनकादेवीके लिये रचित श्रीपूजजी सं० नं० ४११), ३—बहुत्तरी आदि मुख्य हैं। आपके लि० एक प्रति अजीमगंज भंडारमें है।

जिनरंगसूरिजीके पट्टधर आचार्योंकी नामावलीका क्रम इस प्रकार है :—जिनरंगसूरि-जिनचंद्रसूरि-जिनविमलसूरि-जिनललित-सूरि-जिनअक्षयसूरि-जिनचंद्रसूरि-जिननन्दिवर्द्धनसूरि-जिनजयशे-खरसूरि-जिनकल्याणसूरि-जिनचंद्रसूरिजीके पट्टधर जिनरत्नसूरि सं० १६६२ बै० व० १५ को लखनऊमें स्वर्ग सिधारे। इस शाखाकी गद्दी लखनऊमें है।

मंडोवरा शाखा

जिनमहेन्द्रसूरि

(पृ ३०२ से ३०४)

शाह रुघनाथकी पत्नी सुन्दरा देवीकी कुक्षिसे आपका जन्म हुआ था, श्रीजिनहर्षसूरिजीके आप पट्टधर थे। गीतमें कवि राजकरणने पूज्यश्रीके मरुदेश पधारने पर जो हर्ष हुआ और प्रवशोत्सवकी भक्ति की गई, उसका सुन्दर चित्र अंकित किया है। गहुंली नं० १में उदयपुर नरेशने आपको वहां पधारनेके लिये विनती स्वरूप परवाना भेजने और मेड़ते, अम्बेरगढ़, बीकानेर जैसलमेर संघकी भी विज्ञप्तियों जानेका सूचित किया है। एवं कविने अपनी ओरसे एक बार जोध-पुर पधारनेकी विनती की है।

आपके चरित्रके विषयमें विशेष विचार फिर कभी करेंगे। आपके पट्टधर जिनमुक्तिसूरिजीके पट्टधर जिनचंद्रसूरिजी अभी जयपुरमें विह मान हैं। उनके पट्टधर युवराज धरणेन्द्रसूरि विचरते हैं।

तपागच्छीयकाव्यसार

शिवचूला गणिनी

(पृ० ३३६)

पोरवाड़ गेहाकी पत्नी विल्हणदेकी कुक्षिसे जिनकीर्त्तिसूरि उत्पन्न हुए, उनकी बहिन प्रवर्तिनी राजलक्ष्मी थी ।

सं० १४६३ बैशाख कृष्णा १४ को मेवाड़के देवलवाड़ेमें शिवचूला साध्वीको महत्तरा पद दिया गया, उस समय महादेव संघवीने महोत्सव किया, सोमसुन्दरसूरिने वासक्षेप दिया । रत्नशेखरको वाचक पद दिया गया । और भी पन्थास गणीश स्थापित किए एवं दीक्षा महोत्सव हुए । याचकोंको दान दिया गया, पताकाओंसे नगर सजाया गया और वाजित्र बजने लगे ।

श्रीविजयसिंहसूरि

(पृ० ३४१ से ३६४)

कवि गुणविजयने सर्व प्रथम सिरोही मण्डण आदिनाथ, ओस-वालोकें जिनालयमें श्रीहीरविजयसूरि प्रतिष्ठित श्रीअजितनाथ, शिवपुरीके स्वामी शान्तिनाथ, जीराडला तीर्थपति पार्श्वनाथ, बंभण-वाड़ व वीरवाड़के मण्डनश्रीमहावीर एवं सरस्वती और गुरुश्रीकमल-विजयके चरणोंमें नमस्कार करके श्रीहीरविजयसूरिके पट्टधर जेसिंघजी (विजयसेनसूरि) के पट्टाधीश विजयदेवसूरिके शिष्य विजयसिंहसूरिके विजयप्रकाश रासकी रचना प्रारम्भकी हैं, जिन्हें विजयदेवसूरिने अपने पट्टधर स्थापित किया था ।

श्रीआदिनाथके पुत्र मरुदेवके बसाया हुआ मरु नामक देश है जहां ईति, भीति, अनीति, चोरी-चकारी और डकायतीका नामो-निशान भी नहीं है, बड़े-बड़े व्यापारी निवास करते हैं और बेरोक-टोक सत्राकार खोल रखे हैं। राजा लोग भी धर्मिष्ठ हैं, परमेश्वर की पूजा कराते हैं, जीवोंका “अमारि” नियम पलाते हैं एवं शिकार भी नहीं खेलते। वहांके सुभट शूर-वीर, लम्बी मूंछोंवाले हैं उनके हाथमें कृपाणी चमकतो है, व्यापारी प्रसन्न वदन रहते हैं और घर-घरमें सुभिक्ष सुकाल है।

जिस प्रकार मारवाड़ मोटा देश है वैसे वहांके कोश भी लम्बे हैं, निवासी भद्र प्रकृतिके हैं मनमें रोष नहीं रखते, कमरमें कटारी बांधते हैं। बणिज लोग भी जबरे योद्धा हैं हथियार धारण किये रहते हैं। रणभूमिमें पैर पीछा नहीं फेरते स्वधर्मियोंको धर्ममें स्थिर करते हैं। निष्कपट वृद्धाएं भी लम्बा घूंघट रखती हैं, सादगी जीवन और रसोईमें राबकी प्रधानता है, विधवाएं भी हाथमें चूड़ियां रखती हैं। वाहणमें ऊंठकी प्रधानता है, पथिक लोग जहां थकते हैं वही विश्राम लेते हैं परन्तु चोरीका भय नहीं है। शत्रुओंसे अमेद्य मारवाड़के ये ६ कोट हैं :—१ मण्डोवर (जोधपुर) २ आवू ३ जालोर ४ बाहड़मेर ५ पारकर ६ जैसलमेर ७ कोटड़ा ८ अजमेर ९ पुष्कर या फलौदी ।

धन्य है मंडोवर देश जहां मंडोवरा पार्श्वनाथ और फलवर्द्धि पार्श्वनाथका तीर्थ है, कवि कहता है कि उनके दर्शनोंसे मैं सफल और सनाथ हो गया ।

मरु मंडलमें यशस्वी मेड़ता नगर है इसकी उत्पत्तिके लिये यह लोककथा प्रसिद्ध है कि जैसे जैनशासनमें भरतादि चक्रवर्ती हुए वैसे शिवशासनमें मान्धाता नामक प्रथम चक्री हुआ उसकी माताका देहान्त हो जानेसे वह इन्द्रकी देखरेखमें बड़ा होकर महाप्रतापी चक्रवर्ती हुआ उसका आयुष्य कोड़ा कोड़ी वर्षोंका था। उसके लिये कृत युगमें इन्द्रने राज्य स्थापना करके मेड़ता नगर बसाया।

मेड़ता नगर अति समृद्धिशाली था, सरोवरादिका वर्णन कविने रासमें अच्छा किया है। निकटवर्ती फलवर्द्धि पार्श्वनाथका तीर्थ महामहिमाशाली है, पोष दसमीको मेलेमें जहां एक लाख जनता एकत्र होती है—दूर-दूर देशोंसे यात्री आते हैं।

उस मेड़तेमें ओसवाल जातिके चोरड़िया गोत्रीय शाह मांडण का पुत्र नथमल निवास करता था, उसकी पत्नीका नाम नायकदे था। उसके घरमें लक्ष्मीका निवास था सामग्री भरपूर थी, (उसकी) दादी फूलां धर्म कार्योंमें धनका अच्छा सदुपयोग किया करती थी। नथमलके १ जेसो २ केसो ३ कर्मचन्द ४ कपूरचन्द और ५ पंचायण नामक पांच पुत्र थे, पांचो पुत्रोंमें तृतीय कर्मचन्द हमारे चरित्र नायक हैं उनका जन्म वि० सं० १६४४ (शक १५०६) फाल्गुन शुक्ला २ रविवारको उत्तरभद्रपदाके चतुर्थ चरण और राजयोगमें हुआ था।

एकबार रात्रिमें सेठ नथमल सुख शय्यापर सोये हुए थे, जागृत होकर संसारके सुखोंके मिलनेका कारण विचार करते हुए वैराग्य वासित होकर सुगुरुका संयोग प्राप्त होनेपर कृत पापोंकी-आलोचना लेनेका विचार किया। दैवयोगसे तपा-गच्छके श्रीकमलविजयजी म०

५५ ठाणोंसे विचरते हुए मेड़ता पधारे, उनके समक्ष श्रेष्ठिने आकर आलोचना लेनेकी इच्छा प्रगट करनेपर मुनिवरने गच्छनायकसे आलोचना लेनेकी राय दी परन्तु आखिर नथमलजीका अत्याग्रह देखकर २१ अष्टम तप और बहुतसे बेले और उपवासोंकी आलोचना दी ।

आलोचनाके अनन्तर विशेष वैराग्य वासित होकर अपनी स्त्री नायकदे और भ्राता सुरताणको भी महाव्रत लेनेके लिए उपदेश देकर, दीक्षाका परामर्श किया, सबके साथर कर्मचन्द्र आदि पुत्रोंने भी स्वीकृति दी । सेठने गच्छनायकके मिलनेपर दीक्षा लेना निश्चित किया ।

इसी अवसरपर लाहोरमें दो चातुर्मास करके विजयसेनसूरि मेड़ता पधारे । नाथू शाह पांचो पुत्रोंके साथ गुरुश्रीको वन्दनार्थ आया । शुभ लक्षणवाले कर्मचन्द्रको देखकर गच्छनायकने सोचा कि अगर यह चरित्र ले, तो बड़ा विचक्षण होगा । गुरुश्रीने नाथू शाहसे कहा कि अभी हम हीरविजयसूरिजीके दर्शनार्थ जा रहे हैं तुम यथा-वसर कर्मचन्द्रादिके साथ आ जाना, ऐसा कहकर मेड़तासे सादड़ी, पर्युषणाके पारणेपर राणकपुर, वरकाणा तीर्थकी यात्रा करते हुए जालोर पधारे वहां कमलविजयजीने उन्हें वन्दना की, बीजोवाका संघ भी आया । वहांसे विहारकर श्री विजयसेनसूरि सिरोही होकर पाटण पधारे और हीरविजयसूरिजीका निर्वाण हुआ जानकर वहीं ठहरे ।

इधर मेड़तेमें कर्मचन्द्र आदि दीक्षाकी तैयारियां करने लगे, बहुतसे धर्मकृत्योंको करते हुए जेसा और पञ्चायणको गृह भार संभलाकर १ नाथू २ सुरताण ३ कर्मचन्द्र ४ केसा ५ कपूरचन्द्र

(६ नायकदे) ६ व्यक्तियोंने सं० १६५२ माघ (शुक्ला) २ को पाटणमें विजयसेनसूरिके पास दीक्षा ग्रहण की। उनके दीक्षाके नाम इस प्रकार रखे गए—नाथू = नेमविजय, सुरताण = सूरविजय, कर्मचन्द्र = कनकविजय, केशा = कीर्तिविजय, कपूरचन्द्र = कुंवर-विजय, इनमें कनकविजयको सुयोग्य समझकर विजयसेनसूरिने स्वशिष्य विजयदेवसूरिको सौंप दिया, उन्होंने इनको विद्याध्ययन कराया, श्रीविजयसेनसूरिने अहमदाबादमें सं० १६७० में पंडितपद से विभूषित किया। वीसा और वदाने महोत्सव किया। खंभातमें श्रीविजयसेनसूरिका स्वर्गवास हो जानेसे उनके पट्टधर विजयदेव-सूरि हुए, उन्होंने सं० १६७३ में पाटणमें चौमासा किया, पोष वदी ६ को लाली आबिकाने इनके हाथसे प्रतिष्ठा करवाई, इसी समय कनकविजयको उपाध्याय पद भी दिया गया।

सम्राट जहांगीर विजयदेवसूरिसे माण्डवगढ़में मिले और प्रसन्न होकर “महातपा” पद दिया। विजयदेवसूरिने गुर्जर देशमें विहार करते हुए श्री शत्रुंजयकी यात्रा की, उसके पश्चात् दो चौ-मासे दीवमें करके गिरनारकी यात्रा कर नवानगर पधारे, वहां संघने २०००) जामी व्ययकर साम्हेला किया। तत्पश्चात् उन्होंने पुनः शत्रुंजयकी यात्राकर खंभात चातुर्मास किया, वहां तीन प्रतिष्ठाओंमें चौदह हजार खर्च हुए। वहांसे माघ शुक्ला ६ को सावली पधारे। ३ मास तक मौन रहे, वहां सोनी रतनजीने अमारि पालन कराई, उस समय उ० कनकविजयजी ही व्याख्यान देते थे। गुरुने बहुतसे छद्म अट्टमादि किए और वे आंबिल करके पूर्वदिशिकी ओर ध्यान

क्रिया करते थे। सूरि मंत्रके आराधनसे वैशाखमें स्वप्नमें देवने कनकविजयजीको पद स्थापनका निर्देश किया, उसके बाद पूज्य सावली और ईडर पधारे। वहां दो चौमासे किये, प्रासाद प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद राजनगर चातुर्मास करके एक चातुर्मास बीबीपुरमें किया। चातुर्मासके अनन्तर सीरोहीके पंजावत तेजपाल और राय अखैराजके पोरवाड़-मंत्री तेजपालने गुरु वन्दना की, गुरुश्री पुनः श्री सिद्धाचलजीकी यात्राकर कमीपुर पधारे। तेजपालने पारस्परिक झगड़ा मिटाकर मेल कर लेनेकी विज्ञप्ति की उन्होंने भी स्वीकार कर समझौतेका पत्र लिखा, आचार्य विजयानन्दसूरि ७० नन्दि-विजय वा० धनविजय, धर्मविजय आदिने विजयदेवसूरिकी पुनः आज्ञा शिरोधार्य की, तेजपाल पूज्यश्रीको सिरोही पधारनेकी विज्ञप्तिकर वापिस आ गया। पूज्यश्री राजनगरसे विहारकर ईडर आये, वहां तपागच्छीय संघके आग्रहसे श्री ७० कनकविजयजीको वै० शु० ६ सोमवारको पुष्य नक्षत्रके दिन सूरिपद देकर स्वपट्ट पर स्थापन किया। उस समय ईडर संघ मुख्य सोनपाल, सोमचन्द्र, सूरजीके पुत्र सार्दूल, सहसमल, सुन्दर, सहजू, सोमा, धनजी मन-जी, इन्दुजी और अमीचंद, राजनगरके संघवी कमलसिंह, अहमद-पुरके पारख बेलाके पुत्र चांपसी, पारख देवजी, सूरजी, थानसिंह, रायसिंह, सा०भामा, तोला, चतुर्भुज, सिंह, जागा, जसु, जेठा—जो गुरुश्रीके भाई थे, कोठारी वच्छराज, रहीआ, कर्मसिंह, धर्मसी, तेजपाल, अखैराज मंत्री समरथ मं० लखू भीमजी, भामा, भोजा, फड़िया मालजी भाणजी लखा चौथिया, गांधी वीरजी, मेघजी

सा० वीरजी, देवकरण, पारख जस्सू, भाणजी, सूरजी, तेजपाल इत्यादि ईडरका संघ सम्मिलित हुआ इसी प्रकार द्यावडु और अहिमनगरका संघ एवं सावलीका संघ पदमसी, चांदसी आदि एकत्र हुए, सा० नाकर पुत्र सहजूने चतुर्विध संघके साथ पद प्रदानके लिये तपागच्छ नायकको एवं उ० धर्मविजय वा० लावण्यविजय वा० चारित्रविजय पं० कुशलविजय इन चारोंको बुलाया गया। पदस्थापनाके अनन्तर कनकविजयका नाम विजयसिंहसूरि रखा गया, पं० कीर्तिविजय, लावण्यविजयको वाचकपद और अन्य ८ साधुओंको पंडित पद दिया गया। इस उत्सवमें सहजूने पांच हजार महम्मदी व्यय किये, ईडर नरेश कल्याणमल प्रसन्न हुए। ज्येष्ठ मासमें बिम्ब प्रतिष्ठा हुई, शाह रइयाने उत्सव किया, दूसरे पक्षमें अमराउतने सुयश लिया, पारख देवजीके घर पूज्यश्रीने प्रतिष्ठा की, इस प्रकार सं० १६८१में बड़े ही आनन्दोत्सव हुए। राय कल्याणने दोनों आचार्योंको ईडरमें चौमासेके लिए रखा।

सीरोहीके शाह तेजपालकी विज्ञप्तिसे चैत्र मासमें सूरिजी आवू पधारे, सं० मेहाजल दोसी, जोधा सन्मुख आए। आवूकी यात्राकी। बंभणवाड़के वीर प्रमुकी यात्रा कर चातुर्मासार्थ सीरोही पधारे। सा० तेजपालादिने बहुतसे सुकृत किये। इसी समय विजयादशमी सं० १६८३ को यह विजयप्रकाश रास कमलविजयके शिष्य विद्या-विजयके शिष्य गुणविजयने रचा।

ऐतिहासिक सझायमाला भा० १ पृ० २७ (सझाय नं० ३४ लालकुशलकृत) में कई बातोंका अन्तर व विशेषताएं हैं।

संक्षिप्त कविपरिचय

अक्षरानुक्रमसे कवियोंके नामोंकी सूची



अभयतिलक (३०) जिनपतिसूरि पट्टधर जिनेश्वरसूरिके शिष्य थे, आपके रचित १ सं० १३१२ पालणपुरमें हेमचंद्रसूरिकृत द्वायाश्रय (२० सर्ग) काव्यवृत्ति २ न्यायालङ्कार टिप्पन (पंचप्रस्थ न्यायतर्क व्याख्या) ३ वीररास (सं० १३१७) विशेष परिचय देखें :—जैनयुग वर्ष २ पृ० १५६ ला० भ० का लेख ।

१ अभैविलास (४१३) श्रीपालचरित्र कर्ता जयकीर्त्तिजीके शिष्य प्रतापसौभाग्यजीके आप शिष्य थे । आपकी परम्परामें अभी कृपाचंद्रसूरि विद्यमान हैं ।

२ आनन्द (१७७) ।

३ आनन्दविजय (२०६) ।

४ आलम (३३८) कविवर समयसुन्दरकी परम्परामें आस-करणजीके शिष्य थे, आप अच्छे कवि थे, आपके रचित १ मौन एकादशी चौ० (१८१४ मकसूदाबाद) २ सम्यक्त्व कौमुदी चौ० ३ जीवविचारस्तवन आदि उपलब्ध हैं ।

५ कनक (१३४) आप सम्भवतः उ० क्षेमराजजीके शिष्य थे, आपका पूरा नाम 'कनकतिलक' होगा ।

६ कल्याणकमल (१००)—देखें :—युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि पृ० १७२ ।

७ कल्याणचंद्र (५२) कीर्तिरत्नसूरिजीके शिष्य थे । सं० १५१७में सूरिजीसे आपने आचारांगकी वाचना ली जिसकी प्रति जे० भं० में (नं० २) अब भी विद्यमान हैं ।

८ कल्याणहर्ष (२४७)

९ कविदास (१७४)

१० कवीयण (२६३-२६२) ।

११ कनकसिंह (२४३) शिवनिधान शिष्य, देखें यु० जि० सू० पृ० ३१३ ।

१२ कमलरत्न (२३३) देखें यु० जि० सू० पृ० ३१५ ।

१३ कमलहर्ष (२४०) श्रीजिनराजसूरि शिष्य मानविजयजी के आप शिष्य थे, आपके रचित :—१ पांडवरास (१७२८ आ० व० २ र० मेड़ता) २ धना चौ० (१७२५ आ० सु० ६ सोजत) ३ अंजना चौ० (१७३३ भा० सु० २) ४ रात्रि भोजन चौ० (१७५० मि० लूणकरणसर) ५ आदिनाथ चौड़ा० ६ दशवैकालिक सझायें इत्यादि उपलब्ध हैं ।

१४ कनकधर्म (२६६) ।

१५ कनकसोम (६०-१४४) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १६४

१६ करमसी (२४७)

१७ कीर्तिवर्द्धन (३३३) जिनहर्ष (आद्यपक्षी) सूरिजीके शिष्य दयारत्न (कापरहेडारास कर्ता १६६५) के आप शिष्य थे, आपके रचित सदयवछसावलिंगा चौ० (१६६७ विजयदशमी) प्राप्त है ।

१८ कुशलधीर (२०७) देखें युगप्रधान जिनचंद्रसूरि पृ० १६४ ।

१९ कुशललाम (११७) " " " " १६६ ।

२० खड्गपति (१३८)

२१ खेमहंस (२१७) क्षेमकीर्ति (शाखाके आदि पुरुष) जीके शिष्य थे, आपकी रचित मेघदूत दीपिका उपलब्ध है। जयसोम, गुण-विनय आपहीकी परम्परामें थे ।

२२ खेमहर्ष (२४२-४३) आपके रचित कई स्तवन हमारे संग्रहमें हैं।

२३ गुणविजय (३६४) आपके रचित १ विजयप्रशस्ति काव्यके अन्तिम ५ सर्गमूल और समग्रग्रन्थपर टीका २ कल्प कल्पलता टीका ३ सातसौ बीस जिन स्त० आदि उपलब्ध हैं ।

२४ गुणविनय (६३-६६-१००-१२५-१७२-२३०) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० २०० ।

२५ गुणसेन (१३६) सागरचंद्रसूरि शाखाके वा० सुखनिधानजी के आप शिष्य थे आपके रचित कई स्तवन हमारे संग्रहमें हैं। आपके यशोलाभ नामक शिष्य थे जो अच्छे कवि थे ।

२६ चारित्रनंदन (२६७) ।

२७ चारित्रसिंह (२२५) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १६७ ।

- २८ चन्द्रकीर्ति (४०६) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० २०८ ।
- २९ जयकीर्ति (३३४) कविवर समयसुन्दरजीके शि० वादी हर्षनंदनजीके शिष्य थे ।
- ३० जयकीर्ति द्वि० (४११-१२) आप कीर्तिरत्नसूरि शाखाके अमरविमल शि० अमृत सुन्दरजीके शिष्य थे, आपके रचित १ श्रीपाल चारित्र (१८६८ जेसलमेर) २ चैत्रीपूनम व्याख्यान आदि उपलब्ध हैं ।
- ३१ जयनिधान (१४५) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० २०६ ।
- ३२ जयसोम (११८) देखें यु० ,, पृ० १६७ ।
- ३३ जल्ह (१३८) ।
- ३४ जिनचन्द्रसूरि (४१८) उसी ग्रन्थमें राससार पृ० २६६ ।
- ३५ जिनसमुद्रसूरि (३१५-१६) देखें इसी ग्रन्थमें राससार पृ० ७५ ।
- ३६ जिनेश्वरसूरि (४३०) बेगड़ गुणप्रभसूरि शि०
- ३७ देवकमल (१३६) इनका नाम जइतपदबेलिमें आता है अतः साधुकीर्तिजीके गुरु-भ्राता होना सम्भव है ।
- ३८ देवचंद्र (२६४) ।
- ३९ देवीदास (१४७) ।
- ४० धर्मकलश (१६) ।
- ४१ धर्मकीर्ति (१८६) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १८३ ।
- ४२ धर्मसी (२५०-५२) देखें राजस्थान पत्र वर्ष २ अंक २ में पृ० मेरा लेख ।
- ४३ नयरंग (२२६) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १६५ ।

४४ नेमिचंद्र भंडारी (३७२) षष्ठीशतक कर्त्ता, जिनपति शिष्य जिनेश्वरसूरिके पिता ।

४५ पुण्यसागर (५) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १८८ ।

४६ पुण्य (३३७) यथासम्भव आप समयसुन्दरजीके परम्परामें (कविवर विनयचंद्रके प्रगुरु) होंगे और पूरा नाम (पुण्यचंद्र शि०) पुण्यविलास होगा ।

४७ पदमराज (६७) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १६० ।

४८ पद्ममन्दिर (५६) आपके रचित १ प्रवचनसारोद्धार बाला० (१५६३) उपलब्ध है ।

४९ पहराज (४०)

५० पल्ह (३६८) इनका नामोल्लेख चर्चरी टीका (अपभ्रंश काव्यत्रयी पृ० १२) में आता है, आप दिगम्बर भक्त और (जिन दत्तसूरिके) अभिनवप्रबुद्ध श्राद्ध थे, लिखा है ।

५१ भत्तउ (६) ।

५२ भक्तिलाभ (५४) उ० जयसागरजीके शि० रत्नचंद्रजीके आप सुशिष्य थे, आपके रचित १ कलपांतरवाच्य २ लघुजातक कारिका-टीका (१५७१ विक्रमपुर) ३ जीरावला पार्श्वस्त० संस्कृत स्तोत्र प० ३, ४ सीमंधरस्तवनादि उपलब्ध हैं । आपके शि० चारुचंद्रजी कृत १ उत्तम कुमारचरित्र २ रतिसार चौ० ३ हरिबल चौ० (१५८१ आ० सु० ३) ४ नंदनमणियारसन्धि (१५८७) आदि उपलब्ध हैं आपकी परम्परामें श्रीबलभोपाध्याय हो गये हैं, देखें यु० चरित्र पृ० २०३ ।

५३ महिमा समुद्र (४३१-३२) बेगड़शाखा

५४ महिमहर्ष (४३२) बेगड़ शाखा, अच्छे कवि थे ।

५५ महिमाहंस (३००)

५६ माइदास (३१८)

५७ माणक (२६४)

५८ माधव (३३६)

५९ मेरुनन्दन (३६६) जिनोदयसूरि आपके दोक्षागुरु थे ॥

आपके रचित अजितशान्तिस्तवनादि उपलब्ध है ।

६० रयणशाह (७)

६१ रत्ननिधान (१०३-१२३) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० १०४

६२ राजकरण (३०३-३०४)

६३ राजलछी (३४०)

६४ राजलाम (२५५-२५७) देखें यु० जिनचंद्रसूरि पृ० १७३

६५ राजसमुद्र (१३२) आचार्य पदके अनन्तर नाम जिन-
राजसूरि, देखें इसी ग्रन्थमें राससार पृ० २२

६६ राजसुन्दर (३२०) प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि आप (जिन-
सिंहपट्टे) पिप्पलक जिनचन्द्रसूरिजीके शिष्य थे ।

६७ राजसोम (१४६) कविवर समयसुन्दरजीके शि० हर्षनन्दन
शि० जयकीर्त्तिजीके शिष्य थे । आपके रचित श्रावकाराधना
(भाषा) २ कल्पसूत्र (१४ स्वप्न) व्याख्यान (सं० १७०६ आ०
सु० ६ जेसलमेर, जिनसागरसूरि शि० जसवीर पठ०) ३ इरियाविही
मिथ्यादुष्कृतस्त०वाला० ४ फारसी स्त० आदि उपलब्ध है ।

६८ राजहंस (२३१)

६६ रूपहर्ष (२४१) आप राजविजयजीके शिष्य थे ।

७० लब्धिकलोल (७८-१२१-१२२) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० २०६

७१ लब्धिशेखर (६८)

७२ ललितकीर्त्ति (२०७-४०५) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० २०६

७३ लाधशाह (३२१) कडुआमती (कडुवा-खीमो-वीरो-जीवराज-
तेजपाल-रतनपाल—जिनदास-तेज-कल्याण-लघुजी थोभणशि०)
थे । आपके रचित, १ जम्बूरास (१७६४ का० सु० २ गुरु सोहीगाम)
२ सूरत चैत्य परिपाटी (१७६३ मि० ब० १० गु० सूरत) ३ पृथ्वी-
चन्द्रगुणसागर चरित्रबाला० (१८०७ मि० सु० ५ रवि० राधणपुर)
प्राप्त हैं ।

७४ वसतो (२६५) आपके रचित १ लोद्रवास्त० (१८१७ मि०
ब० ५ र०) २ वीशस्थानक स्त० गा० १६, ३ रात्रिभोजन सज्ञाय,
४ पार्श्वनाथ स्तवनादि उपलब्ध हैं ।

७५ विमलरत्न (२०८)

७६ विद्याविलास (२४५) आपके रचित कई संस्कृत अष्टक
आदि हमारे संग्रहमें हैं ।

७७ विद्यासिद्धि (२१४)

७८ बेलजी (२५१)

७९ श्रीसार (६१-६४) देखें युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि पृ० २०७

८० श्रीसुन्दर (१७१) " " पृ० १७२

८१ समयप्रमोद (८६-६६) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० १७२

८२ समयसुन्दर (८८-१०६-७-८-६-२६-२७-२८-२९-३१-

२००-२२७) देखें उपरोक्त पृ० १६७ और राससार पृ० ४५ ।

८३ समयहर्ष (२५४)

८४ सहजकीर्ति (१७५-७६) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० २०६

८५ सारमूर्ति (२३)

८६ साधुकीर्ति (६२-६७-४०४) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० १६२

८७ सुखरत्न (१४६)

८८ सुमतिकालोल (६४) , , पृ० १०५

८९ सुमतिवलभ (१६८)

९० सुमतिविजय (१७७)

९१ सुमति विमल (२५०)

९२ सुमतिरंग (४१०-४२१) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० ३१५

९३ विवेकसिद्धि (४२२)

९४ सोमकुंजर (४८) आप उ० जयसागरजीके विद्वान शिष्य थे । विज्ञप्तित्रिवेणी पृ० ६१ से ६३) में आपके रचित कई अलंकारिक पद्य भी पाये जाते हैं ।

९५ सोममूर्ति (३८७) जिनपतिसूरि शि० जिनेश्वरसूरिजीके आप सुशिष्य थे और उ० अभयतिलकजीके आप सतीर्थ थे । देखें जैनयुग वर्ष २ पृ० १६४ ।

९६ हर्षकुल (५७) महो०-पुण्यसागरजीके शिष्य थे, उल्लेख यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० १६०

९७ हर्षचन्द्र (२४६) रूपहर्ष शि०, आपके रचित अन्य एक गहुंली भी संग्रहमें है ।

- ६८ हर्षनन्दन (१२४-३२-३३-१४६-२०१-२०३) देखें यु० पृ० १७१
- ६६ हर्षवल्लभ (४१७) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० १८५.
- १०० सेवकसुन्दर (४२०)
- १०१ हेमसिद्धि (२११-१३)
- १०२ क्षमाकल्याण (२६६-३०६-७) देखें इसी ग्रन्थमें राससार
पृ० ६४
- १०३ ज्ञानकलश (३२६)
- १०४ ज्ञानकुशल (२३२)
- १०५ ज्ञानहर्ष (३३५-३७८) देखें यु० जिनचन्द्रसूरि पृ० ३०५.
- कवियोंके नामके आगे प्रस्तुत संग्रह (मूल) के पृष्ठोंकी संख्या दी गई है । कइ कवि एकही नामसे एकही समयमें कइ हो गये हैं अतः संदिग्ध परिचय देना उचित नहीं ज्ञात हुआ ।



ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह



प्रगट प्रभावी योगीन्द्र युगप्रधानजी जिनदत्त सूरिजी

(जैसलमेर भाण्डागारीयप्राचीन ताडपत्रीय

प्रतिके काष्ठफलकपर चित्रित)

॥ अहम् ॥

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

॥ श्री गुरु गुण षट्पद ॥



जिणवल्लह-पमुहाणं, सुगुरूणं जो पढेइ वर-कण्पं ।

मंगल-दीवंमि कए, सो पावइ मंगलं विमलं ॥१॥

इग्यारह सइ सट्टसत्त समहिय संवछरि ।

आसाढइ सिय छट्ठि चित्तकौटंमि पवरपुरि ।

महावीर जिणभवणिट्ठिय संठिउ जिणवल्लह ।

जिणि उज्जोयउ चंदु गछु पंडिय जिणवल्लह ।

गुरु तक्क कव्व नाडय पमुह, विज्जा वास पसिद्ध धर ।

परिहरवि आवि विहि पयइ कइ, पुहवि पसंसिजइ सुपरि ॥१॥

इग्यारह गुणहत्तरइ किसण वैसाख छट्ठि दिणि ।

चित्तउडइ वर नयरि संघु मिलियउ आणंदिणि ।

वद्धमाण जिणभवणि भयउ तहि घणउ महोछवु ।

देवभदि संठियउ सूरि जिणदत्त सुनिछवु ।

आयस पुणति सूरि भिछ, जिम ज्ञाण नाण संतुद्ध मण ।

जिणदत्त सूरि पहु सुर गुरवि, थुणवि न सकउं तुम्ह गुण ॥ २ ॥

अज्जवि जसु जस पसरु महि छहखंड धरत्तिहि ।

अज्जवि जसु गुण नियरु थुणहि पंडिय बहु भत्तिहि ।

अज्जवि सुमरिज्जंतु विगघत्तु अवहरइ पवित्तण ।

नाम ग्रहणि कुणंति जसु अज्जवि भवियण दिण ।

अञ्जवि जु देवु लोइ द्वियउ, संव मणछिउ देइ फलु ।

जिणदत्त सूरि पहु सुरगुरुवि, धम्मु पयासिउ जिण अमलु ॥३॥

अभयदाणु जिणि दिनु सयल संघह विक्कमपुरि ।

क्रिय पयट्ट जिण उसभ भुवणि बहुविइ उउवु भरि ।

जिणि पडिबोहउ कुमरपालु नरवय तिहुयण गिरि ।

पंचसत्त मुणि नेमि जेणि वारिउ देसण करि ।

उज्जेणी वक्कु जोइणि तणउं, जिणि पडिबोहउ ज्ञाण बलि ।

जिणदत्त सूरि पहु सुरगुरवि, हुयउ न होइ सइ इत्थु कलि ॥ ४ ॥

वारह पंचुत्तरइ धवल वैसाख छट्ठि दिणि ।

सइ जिणदत्त मुणिंद ठविउ जिनचंदु पट्टि तहि (? जिणि) ॥

विक्कमपुरि जिण वीर भुवणि वादिय मणु मोहइ ।

गणहरु जेम सुहंम सामि भवियण दिण बोहइ ।

जिणचन्द सूरि जसु चन्दु सम, अञ्जवि उज्जोयइउ गयणु जिणि ।

..... ॥ ५ ॥

वारह सइ तेवीस समइ कत्तिय सिय तेरसि ।

बबेरेपुरि ठविउ सूरि जिणपत्ति महा रिसि ॥

मंतुं दिनु जयदेव सूरि सूरहि सुपवित्तिण,

अत्थाणु पहुविरायह तणउ जिणि रंजवि जयपत्तु लियउ ।

खरहरय सदि जगि पयडिउ, जुग पहाणु पहुविप्पयउ ॥ ६ ॥

बारअट्टुहतरइ माह सिय छट्ठि भणिज्जइ ।

जिणेसर सूरि पइसरइ संघु सयलु विविह सज्जइ ।

सूरिमंतु सिरि सव्वएवसूरहि जसु दिनउ ।

जालउरहि जिणवीर भुवणि बहु उच्छव (की) नउ ॥

कंसाल ताल झलरि पडह, वेण वंसु रलियामणउ ।

सुपढंति भट्ट सुंमहि गहिर, जय जय सह सुहावणउ ॥७॥

जिणवल्लह जिणदत्त सूरि जिणचंडु जु जिणवइ ।

तुय सुव्वइ आसीस दिंति जिणेसरसूरि मुणिवइ ।

उयहि जाम जलु रहइ गयणि जाम मह दिणेसरु ।

ताम पयासिउ सूरि धंमु जुगपवरु जिणेसरु ॥


विहि संघु स नंदउ दिणणदिणु, वीर तित्थु थिरु होउ धर ।

पूजन्ति मणोरह सयल तहि, कव्वट्ट पढंति नारि नर ॥ ८ ॥

[इति षटपदम्]



॥ श्री जिणदत्तसूरि स्तुति ॥



सिरि सुयदेवि पसाउ करे, गुरु श्रीजिणदत्त सूरि ।

वन्निसु खरतर गण गयणि, सूरि जेम गुण पूरि ॥ १ ॥

संवत इग्यारह वरसि, बतीसइ जसु जम्म ।

वाछिग मंत्री पिता जणणि, बाह (इ) देवि सुरम्म ॥ २ ॥

इगतालइ जिणवय गहिय, गुणहुत्तरइ जसु पाट ।

वइसाखइ वदि छट्टि दिणि, पय पणमी सुर वाट ॥ ३ ॥

अंबड सावय कर लिहिय, सोवन अखर अंबि ।

जुग पहाण जगि पयडियउ ए, सिरि सोहम पडिबिब ॥४॥

जिण चोसठि जोगिणी जितिय, खित्तवाल बावन्न ।

डाइणि साइणि विभूसीय, पहुवइ नाम न अन्न ॥ ५ ॥

सूरि मंत्र बलि कर सहिय, साहिय जिण धरणिद ।

सावय सविय लख इग, पडिबोहिय जण वृन्द ॥ ६ ॥

अरि करि केसरी दुडुदल, चउविह देव निकाय ।

आण न लोपि कोइ जगि, जसु पणमइ नरराय ॥ ७ ॥

संवत बारह इग्यार समइ, अजयमेरुपुर ठाण ।

इग्यारसि आसाढ सुदि, सगिगपत्त सुह झाणि ॥ ८ ॥

श्री जिणवलइ सूरि पए, श्रीजिणदत्त मुणिंदु ।

बिघ हरण मङ्गलकरण, करउ पुण्य आणंदु ॥ ९ ॥

श्री पुण्यसागर कृत

॥ श्रीजिनचन्द्रसूरि अष्टकम् ॥

श्रीजिनदत्त सुरिन्दपय, श्रीजिनचन्द्र मुणिन्द ।

नय (?)र मणि मंडित भाल यस, कुसल कुमुद वणचंदा ॥१॥

संवत् सिव सत्ताणवयं, सहदृमि सुदि जम्मु ।

रासल तात सुमातु जसु, देल्हण देवि सुधम्म ॥ २ ॥

संवत् बार तिगोत्तरय, फागुण नवमि विशुद्ध ।

पंच महव्वय भरि धरिय, बालत्तणि पडिबुद्ध ॥ ३ ॥

बारह सह पंचोत्तरइ ए, वैशाखाह सुदि छट्टि ।

थापिउ विक्कमपुर नयरि, जिणदत्त सूरि सुपट्टि ॥ ४ ॥

तेविसइ भाद्रव कसिणि, चवदसि सुह परिणामि ।

सुरपुरि पत्तउ मुणिपवर, श्री जोयणिपुर ठामि ॥ ५ ॥

सुह गुरु पूजा जह करइ ए, नासय तासु किलेस ।

रोग सोग आरति टलइ ए, मिलइ लच्छि सुविशेष ॥६॥

नाम मंत्र जे मुख जपइ ए, मगु तगु सुद्धि तिसंझ ।

मनवंछित सवि तसु हुवई, कज्जारंभ अवंझ ॥ ७ ॥

जासु सुजसु जगि झिगामिगौ ए, चंदुज्जल निकलंक ।

प्रमु प्रताप गुण विप्फुगइ. हरइ डमर अरि संक ॥ ८ ॥

इय श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु, संथिणिउ गुणि पुन्न ।

श्री “पुण्यसागर” वीनवइ, सहगुरु होउ सुप्रसन्न ॥ ९ ॥

इति श्रीजिनचन्द्रसूरि महाप्रभावीक अष्टकं संपूर्णम् ।

(गुलाबकुमारी लायब्रेरीके गुटका नं० १२५ से उद्धृत)

शाह रयण कृत
श्रीजिनपतिसूरि धवल गीतम्



वीर जिणेसर नमइ सुरेसर, तस पह पणमिय पय कमले ।
युगवर जिनपति सूरि गुण गाइसो, भक्तिभर हरसिहि मनिरमले ॥१॥
तिहुअण तारण सिव सुख कारण, वंछिय पूरण कल्पतरो ।
विघन विणासण पाव पणासण, दुरित तिमिर भर सहस करो ॥२॥
पुहवि पसिद्धउ सूरि सूरिश्वर, शम दम संयम सिरि तिलउ ए ।
इणि कलिकालहि एह जो जुगपवर, जिणवइ सूरि महिमा निलउ ए ॥३॥
अत्थि मरुमण्डले नयर विक्रमपुरे, जसोवर्द्धनु जगि जाणिइ ए ।
तासुवर गेहिणी सूहव देविय, जासु वर पुत्त बखाणिइ ए ॥ ४ ॥
विक (म) संवच्छरे बार दहोतरे, चैत्र धुरि आठमि जो जाईयउ ए ।
नयर नर नारि नय(व?)रंग भरि गायो, जसोवरधनु बधावियउ ए ॥५॥
तिणि सुह दिवसहि निय मणि रंगहि, उच्छव करिय नव नविय परे ।
निरुपम “नरपति” नामु तसु किज्जए, क्रमि क्रमि बाधइ तात घरे ॥६॥
बार अठार ए वीर जिणालए, फागुण बदि दसमिय पवरे ।
वरीय संजम सिरीय भीमपल्लीपुरे, नन्दि वर ठविय जिणचंदसूरे ॥७॥
अह सयल सार सिद्धांत अवगाहए, सज्जणमण नयण आणंदणउ ए ।
नाण गुण चरण गुण पयासए, चउ विह संव सोहामणउ ए ॥८॥

वार त्रेवीसए नयरि बब्बेरए, कातिय सुदी दिन तेरसीए ।
 श्री जिणचन्दसूरि पाटि संठाविउ, श्रीजयदेव सूरि आयरीए ॥६॥
 गुरुय नामेण जिनपति सूरि उदयउ, चन्द्र कुलंबर चन्दलउ ए ।
 विहरए सयल देसंमि गुण भरिउ, समइ सरोरह (? वर) हंसलउए ॥१०॥
 पेखि किरि रूव लावन्न गुण आयार, जण जण जंपए मनि धरी ए ।
 सिरि माल्हूय कुले कमल दिवायर, वादीय गय घड केसरी ए ॥११॥
 पामीउ जेत्तु छतीस विवादिहि, जयसिंह पहविय परषद (इ) ए ।
 वोहिय पुहविय पमुह नरिन्दह, जासु वयणि जिण आदर(इ)ए ॥१२॥
 दीखिय बहु सीस पयट्टिय बहु बिंब, थापिय रीति खरतर तणी ए ।
 जासु पय पणमए सासणा देवि, देवि जालंधरा रंजिवी ए ॥१३॥
 अह मरुकोटहि नेमुचन्द निवसए, (गुरु)गुरु देखि मनु नवि गम(इ)ए ।
 जासु मनि निवसए खरउ जिण धम्मु, खरउ आचारि गुरु
 मनि गम (इ) ए ॥१४॥
 तायणु सोपुरि(पुरे) नयरि गामागरे, गुरु २ चि(वि?) रिय जोवइ अपारे
 भमियउ वारह वरिस भण्डारिय, सुगुरु देखंतउ समय सारे ॥१५॥
 अह अवर वासरे पट्टणे पुरवरे, श्रीयजिनपतिसूरि पेखि करे ।
 तउ मनि मानिय सयणजण आणिय, आदिरीयउ गुरु हरिस भरे ॥१६॥
 तासु अंगोल मुनियपय जोगि, जाणिय सयहत्थि दीखि करे ।
 तयण जिण सासण पभाव पयडंतउ, पट्टतउ पाल्हणपुर नयरे ॥१७॥
 सुललित वाणि वखाणुं करंतउ, भविय बोहंतउ विविह परे ।
 साह (?हू)सावय जण जस्स सेवा करइ, सेव सारइ सुरभुपरि परे ॥१८॥
 अन्नं दिणंतरे वार सतहोतरे, मास असाठि जिण अणसरी ए ।
 मन्न सुह ज्ञाणहि सिय दसमी दिवसहि, पट्टतउ सूरि अमरापुरी ए ॥१९॥
 एहु श्री जिणपति सूरि गुरु जुगपवरु, साह “रयण” इम संथुणइ ए ।
 समरइ जे नर नारि निरंतर, तहा घर नविनिधि संपज(इ) ए ॥२०॥

कवि भक्तउ कृत


श्रीमज्जिनपतिसूरीणां गतिम्

वीर जिनेसर नमीउ सुरेसर, तस पह पणमिय पय कमले ।
 युगवर जिनपतिसूरि गुण मंडन, गुण गण गाइसो मनि रमले ।१।
 तिहुअण तारण सिव सुह कारण, वंछिय पूरण कल्पतरो ।
 विघन विणाशन पाव पणाशन, दुरित तिमिर न(भ)र सहस करो ।२।
 काम धेनोत्तम काम कुम्भोपम, पूरण जेम चिन्तारयण ।
 श्रीय जिण शासणि नव नव रंगिहि, अतुल प्रभाव प्रगटीयकरण ।३।
 तिहुअण रंजण भव दुह भंजण, दंसण नाण चारित्तजुत्तो ।
 सकल जिणागम सोहग सुन्दर, अभिनवउ गोयम उदयवंतो ।४।
 पुहवि प्रसिद्धउ सूरि सूरीसर, चन्द्र कुलंवर चन्दलउ ए ।
 कमल नयण मंगल कुल कारण, गङ्गजल तासु जसु निरमलउ ए ।५।
 इणि कलिकालिहिं अवरु नवि सुणीइए, सिरि माल्हूय कुले सिर तिलउ ए
 सोहम वंसिहि वयरह साखिहिं, जिणवइए सूरि महिमा निलउ ए ।६।
 अवर वर वासुरि पुन्य भर भासुरे, मूल नक्षत्रि चउयइ जु सारो ।
 थुगईं सुर नमईं नर चरण चूडामणि, जायउ पुत्रु नरवय कुमारो ।७।
 नर वर नारिय घरि घरे गायउ, जसोवरद्धनु वधावीउ ए ।
 तस घरणीय माणव मन हरणीय, उछव गरूअ करावोउ ए । ८।
 देसि मुरमुण्डले नयरि विक्रम पुरे, जसो वरद्धनु जगि जाणीउ ए ।
 सूहवदेविय उयरि ऊपन्नउ, तिहूयण सयलि ववाणीउ ए । ९।
 विक्रम संवत्सरे बार दहोतरे, चैत्र बहुल आठमि (आठमि !) पवरे ।

सलह्यी जय “नरपति”इणि नामिहिं, क्रमिक्रमि वाधइ ए तातघरे । १०
 वार अट्टारह ए वोर जिगालए, फागुण धुरि दसमीय पवरे ।
 वरीय संजमसिरे भीमपल्लीय पुरे, नांदि ठविय जिणचन्दसूरे । ११ ।
 पढ्य जिणागम पमुइ विजावलीय, दरसणि त्रिभुवनु मोहीऊं ए ।
 कमल दलावल देह सुकोमल, गुणमणि मन्दिर सोहीऊं ए । १२ ।
 रूव कला गण गुण रयणायर, तिहुअण नयण आणंदयंतो ।
 महीयले सोहइ ए भविक जन मोहइ ए, चालइ ए मोह तिमर हरंतो । १३
 वार तेवीसइ ए नयरि बवेरइ ए, कातिक सुदि दिण तेरसी ए ।
 जाणीय जयदेव सूरीहिं थापिय, तिहुअण जण मण उल्हसी ए । १४ ।
 सिरि जिणचन्दइ तणय सुपाटिहिं, उवसम रस भर पूरीयउ ए ।
 सुवहीय चारु विहारु करंतउ, अजयमेरे नयरि सम्मोसरिउ ए । १५ ।
 पामीउ जेतु छत्रीस विवादिहिं, जयसिंह पुहवीय परषइ ए ।
 बोहिय पुहविय पमुह नरिंदइ, निसुणीय वयणि जिण धम्मु करइ ए । १६ ।
 दीखिय बहुशीस पयट्टिय बहुविह बिंव, थापीय रीति खरतर तणीए ।
 प्रभ पय बेवइ ए निसि दिन सेवइ ए, देवी जालंधर रंजिवी ए । १७ ।
 सुललित वाणि वखाण करंतउ, धवल असाढ सतहत्तरइ ए ।
 मन सुह ज्ञाणिहिं दसमिय दिवसिंहिं, पढुतउ सूरि अमरा पुरी ए । १८ ।
 चरण कमल नरवर सुर सेवइ, मङ्गल केलि निवास हु ए ।
 थूभह रयण पालणपुरे नयरिहिं, तिहुअण पुरइ ए आस हु ए । १९ ।
 लीणउ कमलेहि भमर जिम “भत्तउ”, पाय कमल पणमिय कहइ ।
 समरइ ए जे नर नारि निरंतर, तिहां घरे रिद्धि नवनिहि लहइ ए । २० ।

इति श्रीमज्जिनपति सूरीणां गीतम् ।

श्रीजिनपति सूरि स्तूप कलशः



जनितभुवनतोषं रम्यसम्यक्त्वपोषं,
वटितकलुषमोषं स्नात्रमत्यस्तदोषम् ।

प्रभुजिनपतिसुरैः प्रीणितप्राज्यसुरै-
र्व्यपगतमलगात्रैः सूत्र्यते पुण्यपात्रैः ॥ १ ॥

कनककलशपूरैः कान्तिनिर्धूतसूरैः
कलकमलपिधानैः पुष्पमालाप्रधानैः ।

जिनपतियतिमूले मज्जनं सज्जनानां,
जनयति भवनोदं विश्वविश्वप्रमोदम् ॥ २ ॥

श्रीमत्प्रह्लादनपुरवरे प्रोन्नतस्तूपरत्ने,
स्फूर्जन्मूर्त्तिं जिनपतिगुरुं रत्नसानोजनंदा ।

क्षीरे नीरे स्नपय सुतरां भव्यलोका अशोकाः,
प्रेयः श्रेयः श्रियमनुपमां येन रम्यां लभध्वे ॥३॥

इति जिनपतिसूरिगौतमः श्रीसुधर्मा,
प्रभुयुगावरजम्बूस्वामिवत्सप्रतापः ।

मथितकुपथदर्पो मज्जितः सज्जितश्रीः,
सकलकलशराध्या पातु संघाय लक्ष्मीः ॥४॥

॥इति श्रीजिनपतिसूरीणां स्तूपकलशः ॥

॥ श्रीजिनप्रभसूरि गीतम् ॥



खरतर गच्छि वद्धमान-सूरि, जिणेसर सूरि गुरो ।

अभयदेवसूरि जिणवलह, सूरि जिणदत्त जुग पवरो ॥१॥

सुगुरु परंपर थुणहु तुम्हि, भवियहु भत्ति भरि ।

सिद्धि रमणि जिम वरइ सयंवर नव नविय परि ॥आंचलीः
जिणचन्द्रसूरि जिणपतिसूरि, जिणसे तु (?र) गुणनिधानु ।

तदणुक्रमि उपनले सुगुरु, जिणसिंघ सूरि जुगप्रधानु ॥२॥

तासु पाटि उदयगिरि उदय ले, जिणप्रभसूरि भाणु ।

भविय कमल पडिवोहणु, मिळत तिमिर हरणु ॥ ३ ॥

राउ महंमद साहि जिणि, निय गुणि रंजियउं ।

मेढमंडलि दिळिय पुरि, जिण धरमु प्रकटु किउं ॥ ४ ॥

तसु गळ धुर धरणु भयलि, जिणदेवसूरि सूरिराउ ।

तिणि थापिउ जिणमेरुसूरि, नमहु जसु मनइ राउ ॥ ५ ॥

गीतु पवीतु जो गायण, सुगुरु परंपरह ।

सयल समीहि सिझहिं, पुहविहिं तसु नरह ॥ ६ ॥



॥ श्रीजिनप्रभसूरि गीतम् ॥



के सलहउ ढीलो नयरु हे, के वरनउ वखाणू ए ।

जिनप्रभसूरि जग सलहीजइ, जिणि रंजिउ सुरुताणू ॥१॥

चलु सखि बंदण जाह गुण, गरुवउ जिनप्रभसूरि ।

रलियइ तसु गुण गाहिं राय रंजगु पंडिय तिलउ । आंचली ।

आगसु सिद्धंतु पुराणु वखाणिइ, पडिवोहह सन्वलोइ ए ।

जिणप्रभसूरि गुरु सारिखउ हो, विरला दीसउ कोइ ए ॥२॥

आठाही आठमिहि चउथी, तेडावइ सुरिताणू ए ।

पुह सितु मुख जिणप्रभ सूरि चलियउ, जिमि ससि इंदुविमाणिए ॥३॥

“असपति” “कुतुवदोनु” मनि रंजिउ, दीठेलि जिणप्रभ सूरी ए ।

एकंति हि मन सासउ पूछइ, राय मणोरह पूरी ए ॥ ४ ॥

गाम भूरिय पटोला गज वल, तूठउ देइ सुरिताणू ए ।

जिणप्रभसूरि गुरु कंपिनई छइ, तिहुअणि अमलिय माणू ए ॥५॥

ढाल दमामा अरु नीसाणा, गहिरा वाजइ तूरा ए ।

इणपरि जिणप्रभसूरि गुरु आवइ, संघ मणोरह पूरा ए ॥ ६ ॥



॥ श्रीजिनप्रभसूरीणां गीतम् ॥

उदय ले खरतर गछ गयणि, अभिनवउ सहस करो ।

सिरी जिणप्रभसूरि गणहरो, जंगम कल्पतरो ॥ १ ॥

वंदहु भविक जन जिणत्राशण, वण नव वसंतो ।

छतीस गुण संजूतो वाइय मयगल दलण सीहो । आंचली।

तेर पंचासियइ पोस सुदि आठमि, सणिहि वारो ।

भेटिउ असपते “महमदो”, सुगुरि ढीलिय नयरे ॥ २ ॥

आपुणु पास वइसारए, नमिवि आदरि नरिन्दो ।

अभिनव कवितु वखाणिवि, राय रञ्जइ मुणिदो ॥ ३ ॥

हरखितु देइ राय गय तुरय, धण कणय देस गामा ।

भणइ अनेवि जे चाह हो, ते तुह दिउ इमा ॥ ४ ॥

लेइ णहु किंपि जिणप्रभसूरि, मुणिवरो अति निरीहो ।

श्रीमुखि सलहिउ पातसाहि, विविह परि मुणि सीहो ॥५॥

पूजिवि सुगुरु वखादिकहिं, करिवि सहिथि निसाणु ।

देइ फुरमाणु अनु कारवाइ, नव वसति राय सुजाणु ॥६॥

पाट हथि चाडिवि जुगपवरु, जिणदेव सूरि समेतो ।

मोकलइ राउ पोसाल हं वहु, मलिक परि करीतो ॥७॥

वाजहि पंच सवुद गहिर सरि, नाचहि तरुण नारि ।

ईदु जम गइंदसहि तु, गुरु आवइ वसतिहिं मझारे ॥८॥

धम्म धुर धवल संघवइ सयल, जाचक जन दिति दानु ।

संघ संजूत वहु भगति भरि, नमहिं गुरु गुणनिधानु ॥९॥

सानिधि पउमिणि देवि इम, जगि जुग जयवन्तो ।

नंदउ जिणप्रभसूरि गुरु, संजम सिरि तणउ कंतो ॥१०॥

॥ श्रीजिणदेवसूरि गीतं ॥



निरुपम गुण गण मणि निधानु संजमि प्रधानु ।

सुगुरु जिणप्रभसूरि पट उदयगिरि उदयले नवल भाणु ॥ १ ॥

बंदहु भविय हो सुगुरु जिणदेवसूरि ढिल्लिय वर नयरि देसणउ

अमियरसि वरिसए मुणिवरु जणु घणु ऊनविउ ॥ आंचली ॥

जेहि कन्नाणापुर मंडणु सामिउं वीर जिणु ।

महमद राइ समप्पिउं थापिउ सुभ लगानि सुभ दिवसि ॥ २ ॥

नाणि विन्नाणी कला कुसले विद्या वलि अजेउ ।

लखण छंद नाटक प्रमाण वखाणए आगमि गुण अमेउ ॥ ३ ॥

धनु कुल धरु जसु कुलि उपनुं इहु मुणि रयणु ।

धनु वीरिणि रमणि चूडामणि जिणि गुरु उरि धरिउ ॥ ४ ॥

धणु जिणसिंघ सूरि दिखियाउ धनु चंद्र गळु ।

धनु जिणप्रभसूरि निज गुरु जिणि निज पाटिहि थापियउ ॥५॥

हलि सखे घणउ सोहावणिय रलियावणिय ।

देसण जिणदेवसूरि मुणिराय हं जाणउं नितु सुणउ ॥ ६ ॥

महि मंडलि धरमु समुधरए जिण शासणिहिं ।

अणुदिण प्रभावन करइ गणधरो, अवयरिउ वयइरसामि ॥७॥

वादिय मयगल दलण सीहो विमल सील धरु ।


छत्रीस गुणधर गुण कलिउ चिरु जयउ जिणदेव सूरि गुरु ॥८॥

॥ इति श्री आचार्याणां गीत पदानि ॥

श्रीधर्मकलशमुनि

कृत

श्रीजिनकुशलसूरि पट्टाभिषेक रास



सयल कुशल कलाण बल्ली, घणु संति जिणेसरु ।
 पणमेविणु जिणचंदसूरि, गोयमसमु गणहरु ।
 नाण म होय हि गुण निहाण, गुरु गुण गाए सु ।
 पाट ठवणु जिन कुशलसूरि, वर रासु भणेसु ॥ १ ॥
 आसि जिणेसर सूरि पढमु, अणहिलपुर पट्टणि ।
 वसहि मग पयडेण, राउ रंजिउ “दुल्लह” जिणि ।
 तासु पट्टि जिणचंदसूरि, गुणमणि रोहण सम ।
 विहिय जेण संवेग-रंग-साला मालोवम ॥ २ ॥
 अभयदेव नव अंग वित्तिकरु, पासु पसायणु ।
 पउमएवि धरणिंद पमुह, सुर साहिय सासणु ।
 तउ जिणवल्लभसूरि तरणि, संवेगि सिरोमणि ।
 संबोहिय चित्तउडि तेणि, चामुंडा पउमणि ॥ ३ ॥
 जोगिराउ जिणदत्तसूरि, उदियउ सहसकरु ।
 नाण ज्ञाण जोइणिय दुट्ट देविय किकरु करु ।
 रूववंतु पच्चक्खु मयणु, जण नयणाणंदु ।

सयल कला संपुत्र वंदु, जिणचन्द मुणिदु ॥ ४ ॥
 वाइ करडि, केसरि किसोरु, जिणपत्ति जईसू ।
 पुणवि जिणेसर सूरि सिद्ध, आरंभिय सीसु ।
 सयल शुद्ध सिद्धंत सलिल, सायर अप्पारु ।
 जिणपबोह सूरि भविय कमल, सत्रिया गणधारु ॥५॥
 तयणं तरु गोयमह सामि, सम लद्धि समिद्धिउ ।
 बहुय देसि सुविहिय विहारि, तिहुअणि सुपसिद्धउ ।
 “कुतवदीन” सुगताण राउ, रंजिउ स मणोहरु ।
 जगि पयडउ जिणचंदसूरि, सूरिहि सिर सेहरु ॥ ६ ॥

॥ घातः ॥

चंद कुल निहि चंद कुल निहि, तवइ जिम भाणु ।
 नाण किरण उज्जोय करु, भविय कमल पडिबोह कारणु ।
 कुग्गह गह मच्छिन्न पद, कोह लोह तमहर पणासणु ।
 महि मंडलि अच्छरिय धरो, जिण रंजिउ सुरताणु ।
 सूरि राउ सो सग्गहि गयउ, जाणिउ निय निरवाणु ॥ ७ ॥
 त अह ढिल्लिय पुर वर नयरि, जिणिचंदसूरि गणधारु ।
 त जयवल्लह गणि तेडियउ, मंतु कियउ सुविचारु ।
 त विजयसीह ठक्कर पवरो, महंतियाण कुलि सारु ।
 तउ नामु ठामि (मु)तसु अप्पियउ, तउ गोलइ(गोयम)सउं गणधारु ॥८॥
 त गुज्जरधर मंडणउ, अणहिलवाडउ नामु ।
 त मिलिय संघु समुदाउ तहि, महंतियाण अभिरामु ॥ ९ ॥
 त उसवाल कुल मंडणउ, तेजपाल तहि साहु ।
 त लहु बंधव रूदइ सहिउ, गुरु साहम्मि पसाउ ॥ १० ॥

ता गुरु राजेन्द्रचन्द्रसूरि, आचारिज वर राउ ।

सुय समुद् मुणिवर रयणु, विवेउसमुद् उवझाउ ॥ ११ ॥

संघ सयल गुरु विनवए, तेजपालु सुविसेसु ।

पाट महोच्छव कारविसु, दियइ सुगुरु आएसु ॥१२ ॥

त संघ वयणि आणंदियउ, जाल्हण तणउ मल्हार ।

त देस दिसंतर पाठवए, कुंकउती सुविचारु ॥ १३ ॥

सुण्ड उछवु अणहिल्ल पुरे, सुधनवंत सुह गेह ।

त सयल संघ तिक्रखणि मिलिय, पावसि जिम घण मेह ॥१४॥

कंठ ट्टिउ गोलय सहिउ, गुरु आणा संजुत्तु ।

वायवंतु वाहड तणउ, विजयसीहु संपत्तु ॥ १५ ॥

त पइसारउ संघह कियउ, वज्जहि वज्जंतेहि ।

जिम रामहि अवडा नयरि, ढक बुक पसुहेहि ॥ १६ ॥

दीण दुहिय किरि कप्पतरो, राय पसाय महंतु ।

त धम्म महाधर धुरि धवओ, देवराज पवर मंत्रि ॥ १७ ॥

त तसु नंदणु जेलहा घरणि, जयतसिरी बखाणि ।

त कुसलकीरति तहि कुलि तिलकु, घण गुण रयणह खाणि ॥१८॥

तेरहसय सतहत्तरइ किन्नंग (?कृष्ण) इगारसि जिट्ट ।

सुर विमाणु किरि मंडियउ, नंदि भुवणि जिणि दिट्टि ॥१९॥

त राजेन्द्रचन्द्रसूरि, जिणचन्द्रसूरिहि सीसु ।

त कुशलकीरति पाटहि ठविउ, मणहर वाणारिस ॥ २० ॥

नाम ठवियउ जिणकुशलसूरि, वज्जिय नंदिय तूर ।

त संघु सयलु आणंदियउ, मणह मणोरह पूर ॥ २१ ॥

घातः—सयल संघह सयल संघह केलि आवासु ।

अणहिलपुर वर नयर गुजरात धर मुखह मंडणु ।

देस दिसंतरि तहि मिलिय, सयल संघ वरिसंत जिम घणु ।

पाट धुरन्धर संठविउ, मिलिय मिलावइ भूरि ।

संघ महोछवु कारावइ, वज्जंतइ घणतूरि ॥ २२ ॥

त आदहिए आदिजिणिंइ भरहु, नेमि जिम नारायणु ।

पासह ए जिम धरणिंदु, जिम सेणिय गुरु वीर जिणु ।

तिण परि ए सुह गुरु भक्ति, महंतियाणि परि सलहिय ए ।

पडिवनए तहि परिपुन्न, विजयसीहु जगि जस लियइ ए ॥२३॥

संघवइ ए सामल वंशि, देसि विदेसहि जाणिय ए ।

घण जिम ए घणु वरिसंतु, वीरदेव वखाणिय ए ।

कारइए जीमणवार, साहंमिय वछल वर ।

संघह ए कप्पड वार, गुरुयभक्ति गुरु पूज कर ॥ २४ ॥

दीसई ए अहिणव बात, पाटणि दरिसण संख हूय ।

सूरिहि एसउ सउ-सात साहु, साहुणि चउवीस-सय ।

रुदई ए सउ तेजपालि घरि, तेडिउ पहिरावियइ ।

जइ सई ए दूसमकालि, चन्द्रहि नामउं लिहावियइ ॥ २५ ॥

घर घरि ए मंगल चार, पुन्न कलस घर घरि ठविय ।

घर घरि ए वंदर बाल, घरि घरि गूडी ऊभविय ॥ २६ ॥

वज्जिय ए तूर गंभीर, अंबरू वहिरिउ पडिरमण ।

नाचहि ए अबलिय बाल, रञ्जिय सुर धवला रवेहिं ॥ २७ ॥

अणहिलि ए पुर मंझारि, नर नारी जोवण मिलिय ।

किसउ सु तेजउ साहु, जसु एवडउ उछव रलिय ॥ २८ ॥

पुणरविण पुणवि सो साहु, संघ सयलि सम्माणिय ए ।

आ गई ए उच्छव सारु, सिरि चन्द कुलि जगि जाणिय ए ॥२६॥

इण परि ए तेडवि संघु, पाट महोछवु कारविउ ।

जिण गरुए नव नव भंगि, सयल विंव सु समुद्धरिउ ॥३०॥

घातः—धवल मंगल धवल मंगल कलयलारवे ।

वज्जत घण तूर वर महर सदि नच्चइ पुरंधिय ।

वसुधारहि वर संति नर केवि मेहु जेम मनहि रंजिय ।

ठामि ठामि कलोल झुणि, महा महोछवु मोय ।

जुगपहाण पयसंठवणि, पूरिय मग्गण लोय ॥ ३१ ॥

सयल संघ सुविहाण, जिण सासण उज्जोय करो ।

कोह लोह मय मोह, पाव पंक विधंसियरो ॥ ३२ ॥

उदयाचल जिम भाणु, भविय कमल पडिबोह करो ।

तिम जिणचंद सूरि पाटि, उदयउ सिरि जिण कुसल गुरो ॥३३॥

जिम उगइ रवि विवि वि, हरषुहोइ पंथि अह कुलि ।

जण मण नयणाण्डु, तिम दीठइ गुरु मुह कमलि ॥ ३४ ॥

अणहिलपुर मंझारि, अहिणव गुरु देसण करइ ।

नाण नीरु वरिसंतु, पाव पंकु जिमं घणु हरइ ॥ ३५ ॥

ता महि-मंडलि मेरु, गयगंगणि जा रवि तपए ।

सिरि जिणकुशल मुर्णिडु, जिण-सासणि ता चिरु जयउ ॥३६॥

नंदउ विहि समुदाउ, तेजपालु सावय पवरो ।

साहंमिय साधारु, दस दिसि पसरिउ किति भरो ॥ ३७ ॥

गुणि गोयम गुरु एसु, पढहि सुणहि जे संथुणहि ।

अमराउर तहि वासु, धम्मिय “धम्मकलसु” भणइ ॥ ३८ ॥



कवि सारमूर्ति मुनि कृत
 ॥ श्रीजिनपद्मसूरि पद्मभिषेक रास ॥



सुरतरु रिसह जिणिंद पाय, अनुसर सुयदेवी ।

सुगुरु राय जिणचन्दसूरि, गुरु चरण नमेवी ॥

अमिय सरिसु जिणपदम सूरि, पय ठवणह रासू ।

सवणंजल तुम्हि पियउ भविय, लहु सिद्धिहि तासू ॥ १ ॥

वीर तित्थ भर धरण धीर, सोहम्म गणिंदु ।

जंबूस्वामी तह पभव-सूरि, जिण नयणाणंदु ॥

सिज्जंभव जसभदु, अज्ज संभूय दिवायरू ।

भइबाहु सिरि थूलभद्र, गुणमणि रयणायरू ॥ २ ॥

इणि अनुक्रमि उदयउ वद्धमाणु, पुणु जिणेसर सूरी ।

तासु सीस जिणचन्द सूरि, अज्जिय गुण भूरी ॥

पासु पयांसिउ अभय सूरि, थंभणपुरि मंडणु ।

जिणवल्लह सूरि पावरोग, दुखाचल खंडणु ॥ ३ ॥

तउ जिणदत्त जईसुनामि, उवसग्ग पणासइ ।

रुववंतु जिणचन्द सूरि, सावय आसासय ॥

वाई गय कंठीर सरिसु, जिणपत्ति जईसरू ।

सूरि जिणेसर जुग पहाणु, गुरु सिद्धाणसु ॥ ४ ॥

जिणपबोह पडिबोह तरणि, भविया गणधारू ।

निरुवम जिणचन्द सूरि, संघ मण दंछिय कारू ॥

उदयउ तसु पट्टि सयल कला, संपत्तु मयंकू ।

सूरि मउड चूडावयंसु, जिण कुशल मुणिदु ॥ ५ ॥

महि मण्डल विहरन्तु सुपरि, आयउ देराउरि ।

तत्थ विहिय वय गहण माल, पय ठवण विविह परि ।

निय आऊ पज्जंतु सुगुरु, जिणकुसल मुणेइ ।

निय पय सिख समग्ग, सुपरि आयरिह देइ ॥ ६ ॥

॥ धत्ता ॥

जेम दिनमणि जेम दिनमणि, धराणि पयडेय ।

तव तेय दिप्पंत तेम सूरि मउडु, जिणकुशल गणहरू ।

दढ छंद लखण सहिउ, पाव रोेर मिच्छत्त तम हरू ।

चन्द गच्छ उज्जोय करू, महि मंडलि मुणि राउ ।

अणुदिणु सो नर नमउ तुम्हि, जो तिहुपति वखाउ ॥ ७ ॥

सिंधु देसि राणु नयरे, कंचण रयण निहाणु ।

तहि रीहडु सावय हुउं, पुनचन्दु चन्द समाणु ॥ ८ ॥

तसु नंदणु उल्लव धवलो, विहि संघह संजुत्तु ।

साहु राय हरिपाल वरो, देराउरि संपत्तु ॥ ९ ॥

सिरि तरुणप्पहु आयरिउ, नाण चरण आधारू ।

सु पडुचन्दि पुण विन्नवण, कर जोड़वि हरिपाल ॥१०॥

पय ठवणुल्लव जुगवरह, काराविसु बहु रंगि ।

ताम सुगुरु आइसु दियए, निसुणवि हरिसिउ अंगि ॥११॥

कुंकुवत्रिय पाट ठवण, दस दिसि संघ हरेसु ।

सयल संघु मिलि आवियउ, वळरि करइ पवेसु ॥१२॥

पुहवि पयडु खीमड कुलहि, लखमीधरु सुविचारु ।

तसु नन्दण आंबड पवरो, दीण दुहिय साधारु ॥ १३ ॥

तासु घरणि कीकी उयरे, रायहुंसु अवयरिड ।

त पदमसूरि कुल कमलु रवे, बहु गुण विद्या भरिड ॥१४॥

विक्रम निव संवळरिण, तेरह सइ नऊ एहि ।

जिट्टि मासि सिय छट्टि तहि, सुइ दिणि ससिवारेहि ॥१५॥

आदि जिणेसर वर भुवणि, ठविय नन्दि सुविसाल ।

धय पडाग तोरण कलिय, चउदिसि वंदुरवाल ॥ १६ ॥

सिरि तरुणप्पह सूरि वरो, सरसइ कंठाभरणु ।

सुगुरु वयणि पट्टहि ठविड, पदमसूरि ति मुणिरयणु ॥१७॥

जुगपहाणु जिणपदम सूरै, नामु ठविड सुपवित्त ।

आणंदिय सुर नर रमणि, जय जयकार करंति ॥ १८ ॥

॥ धत्ता ॥

मिलिड दसदिसि मिलिड दस दिसि, संघ अपारु ।

देराउरि वर नयरि तुर सदि गज्जंति अंबरु

नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखणय सुन्दर

पय ठवणुछवि जुगवरह विहसिड मग्गण लोड

जय जय सहु समुछलिड तिहुअणि हुयड पमोड ॥ १९ ॥

धन्नु सुवासरु आजु, धन्नु एसु सुहुत्त वरो ।

अभिनव पुनम चन्दु, महिमंडलि उदयड सुगुरु ॥ २० ॥

तिहुयणि जय जय कारु, पूरिड महियलु तूर रवे ।

घणु वरिसइ वसुधार, नर नारिय अइ विविह परे ॥२१॥

संघ महिम गुरु पूय, गुरुयाणंदहि कारवए ।

साहम्मिय घण रंगि, सम्माणइ नव नविय परे ॥ २२ ॥

वर वत्थाभरणेण, पूरिय मग्गण दीण जण ।

धवलइ भुवणु जसेण, सुपरि साहु हरिपालु जिइम ॥ २३ ॥

नाचइ अवलीय बाल, पंच सबद बाजहि सुपरे ।

घरि घरि मंगलचार, घरि घरि गूडिय ऊभविय ॥ २४ ॥

उदयउ कलि अकलंकु, पाट तिलकु जिणकुशल सूरे ।

जिण सासणि मायंडू, जयवन्तउ जिणपदम सूरे ॥ २५ ॥

जिम तारायणि चन्दु, सहस नयण उत्तिमु सुरह ।

चिंतामणि रयणाह, तिम सुहगुरु गुरुयउ गुणह ॥ २६ ॥

नवरस देसण वाणि, सवणंजलि जे नर पियहि ।

मणुय जम्मु संसारि, सहलउ किउ इत्थु कलि तिहि ॥२७॥

जाम गयण ससि सूर, धरणि जाम थिरु मेरु गिरि ।

विहि संघह संजत्तु, ताम जयउ जिणपदम सूरे ॥ २८ ॥

इहु पय ठवणह रासु, भाव भगति जे नर दियहि ।

ताह होइ सिव वास, “सारमुत्ति” मुणि इम भणइ ॥२९॥

॥ इति श्रीजिनपद्मसूरि पट्टाभिषेक रास ॥



खरतर गुरुगुण वर्णन छप्पय



सो गुरु सुगुरु जु छविह जीव अप्पण सम जाणइ ।
 सो गुरु सुगुरु जु सच्चरुव सिद्धंत वखाणइ ।
 सो गुरु सुगुरु जु सील धम्म निम्मल परिपालइ ।
 सो गुरु सुगुरु जु दव्व संग विसम सम भणि टालइ ।
 सो वेव सुगुरु जो मूल गुण, उत्तर गुण जइणा करइ ।
 गुणवंत सुगुरु भो भवियणह, पर तारइ अप्पण तरइ ॥ १ ॥
 धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु जीव हणिज्जइ ।
 धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु कूड़ भणिज्जइ ।
 धम्म सुधम्म पहाण जत्थ नहु चोरी किज्जइ ।
 धम्म सुधम्म पहाण जत्थ परत्थी न रमिज्जइ ।
 सो धम्म रम्म जो गुण सहिय, दान सील तव भाव मउ ।
 भो भवियल्लोय तुम्हि पर करिय, नरभव आलि म नीगमउ ॥ २ ॥
 सिरि वद्धमाण तित्थे जुगवर, सोहम्म सामि वंसंमि ।
 सुविहिय चूडामणि मुणिगो, खरतर गुरुगो थुणस्सामि ॥ ३ ॥
 सिरि उज्जोयण वद्धमाण सिरि सूरि जिणेसर ।
 सिरि जिनचंद-मुणिंद? तिलउ^१ सिरि अभय गणेसर ।

जिणवल्लह जिणदत्त सूरि जिणचन्द नमिज्जइ ।

जिणवय जिणेसर जिणप्रबोह जिणचंद थुणिज्जइ ।

जिणकुशल सूरि जिणपउम गुरु, जिणलद्धी जिणचंद गुरु ।

जिणउदयं पट्टि जिणराजवर, संपय सिरि जिणभद्दगुरु ॥४॥

अग्यारह सइ सतसठइ जिणवल्लह पद दिद्धउ ।

इग्यारह गुणहत्तरइ तहइ जिणदत्त पसिद्धउ ।

वारह पंचगलइ तहवि जिणचन्द मुणीसरु ।

बारइ तेवीसइ सहिय जिणपत्ति जईसरु ।

जोगीस जिणेसर सूरि गुरु, बारह अठहत्तरि वरसि ।

जिणपबोह गच्छाह वइ, तेरह इगतीसा वरसि ॥ ५ ॥

तेरह इगताला वरसि पट्टि जिणचन्दहु लद्धउ ।

तेरहसय सत्तहत्तरइ सहिय जिणकुशल पसिद्धउ ।

तेरह नउया एम जाणि जिणपउम गणीसरु ।

लद्ध नाम जिनलबद्ध सूरि चहदय सय वछरि ।

जिणचन्द सूरि गच्छह तिलउ, चउदइ सय छडोत्तरइ ।

जिणउदयसूरि उदयवंतपहु, सय चौउदह पनरोत्तरइ ॥ ६ ॥

अग्यारह सतसठइ जेण वल्लह पद दिद्धउं ।

आसाढ सिय छट्टि चित्तकोटहि सुपसिद्धउ ।

किसण छट्टि वइसाख इग्यारह गुणहत्तरि ।

सूरि राउ जिणदत्त ठविय चित्तउइह छप्परि ।

अजितनाथ वर भवण नंदि मंडिय गुरु वत्थिरि ।

सयल संघ बहु परि मिलिय रलिय पूरिय मनभित्तरि ॥

जिण कुशल सूरि सीसह तिलउ, जिणचन्दह पट्टुद्धरणु ।

जिणचंदसूरि भवियह नमउ, सयल संघ वंछिय करणु ॥११॥

गुण गण वेय मयंक वरसि फग्गुण वदि छट्टहि ।

अणहिलपुरि वरि नंदि ठविय संतीसर दिट्ठिहि ॥

सिरि लोयआयरिय मंतु अप्पिय सुसुहुत्तहि ।

सिरि जिणउदय मुणिंद पट्टु उद्धरिय धरित्तहि ॥

छतीस गुणावलि परिवरिय, चन्द गच्छ उज्जोय करु ।

जिणराजसूरि गुरु जगि जयउ, सयल संघ आणंदयरु ॥१२॥

पण सग वेय मयंक^१ वरसि माहह छण वासरि ।

भागुसल्लि वर नयरि अजियनाहह जिण मंदिरि ॥

नंदि ठविय वित्थारि सुगुरु सागरचन्द गणहरि ।

सूरि मंतु जसु दिद्ध^२ किद्ध मंगलु विवहु^३ प्परि ॥

जिणराजसूरि पट्टह तिलउ, जिणसासण उज्जोयकरु ।

जा चन्द सूरि ता जगि जयउ, सिरि जिणभइ मुणिंद वरु ॥१३॥

मंत मझि नवकार सार नाणह धुरि केवल ।

देव मझि अरिहन्त सव्व फुल्लह धुरि उप्पलु ॥

रुख मझि वर कप्परुख संघह धुरि मुणिवर ।

पखि मझि जिम राजहंस पन्वय धुरि मंदिरि ॥

जिणराजसूरि पट्टुद्धरण, भविय लोय पडिबोहयर ।

तिम सयल सूरि चूडारयण, जिणभइप्पहु जुग पवर ॥१४॥

मंगल सिरि अरिहन्त देव, मंगल सिरि सिद्धह ।

मंगल सिरि जुगपवर सूरि, मंगल उवझायह ॥

मंगल सुविहिय सव्व साहु, मंगल जिणधम्मह ।

मङ्गलु विहरइ सव्व सङ्ग, मङ्गल सन्नाणह ॥

सुयएवि होइ मङ्गलु अमल, मङ्गलु जिण सासण सुरह ।

वर सीसह जिणवय सुह गुरुह, मङ्गल सूरि जिणेसरह ॥१५॥

माल्हू साख सिंगार साह रतनिग कुलमंडणु ।

झूदाउत सुख संसि पुहवि धारलदे नंदणु ॥

चउदह सय पनरेतिरइ कसिण आसादह तेरसि ।

पट्ट महोच्छव कियउ साह रतनागर वरसि ॥

खरतरह गच्छि उज्जोय करु, जिणचन्द सूरि पट्टु धरणु ।

जिणउदय सूरि नंदउ सुपहु, विहिसंघह मङ्गल करणु ॥१६॥

जिम जलहरंमि मोर जिहा वसंतमि कोकिला हुंती ।

सूरउग्गमणे कमलु तह भविया तुह आगमणे ॥

जिम जलहर आगमणि मोर^१ हरसिय मण नच्चइ ।

जिम दिणियर उग्गमणि कमल वणसिरि सिरि विकसइ ॥

ससिहर संगम जेम सयल सायरु जल विकसइ ।

जिम वसंति महियलि हंसंति कोयल मइ मच्चइ ॥

तिम सूरि राउ जिनउदय गुरु, पट्टाहिव रसि (?वि) उक्कसिय ।

जिनराजसूरि गुरुदंसणहि भविय नयण मण उलहसिय ॥१७॥

वासिग उप्परि धरणि धरणि उप्परि जिम गिरिवर ।

गिरिवर उप्परि मेह मेहु उप्परि रवि ससिहर ॥

ससिहर उप्परि तियस तियस उप्परि जिम सुर^१ वर ।

इंदुप्परि नवगीय गीय उप्परि पंचुत्तर ॥

सव्वट्टसिद्धि तसु उप्परि, जिम तसु उप्परि मुक्ख हलि ।

तिम सूरि जिणेसर जुगपवर, सूरहि उप्परि इत्थ कलि ॥१८॥

कुसल बडो संसार, कुसल सज्जण जण चाहइ ।

कुसलइ मइगल वारि लळि कुसलहि धरि आवइ ।

कुसलहि घण वरसंति कुसलि धण धन रवन्नउ ।

कुसलहि घोड^२ घट्टि कुसलि पहिरिय सुवन्नउ ॥

परिसउ नाम सुह गुरु तणउ, कुसलहि जग रलियामणउ ।

जिण कुसल सूरि नाम ग्रहणि, धरि^३ धरि होइ वधामणउ ॥१९॥

दस सय चउवीसेहि नयरि पट्टणि अणहिलपुरि ।

हूयउ वाद सुविहतह चेइवासी सउं बहु परि ॥

दुल्लभ नरवइ सभा समुखि जिण हेलइ जित्तउ ।

चित्तवास उत्थप्पिय देस गुज्जरहं वदित्तउ ।

सुविहित्त गळि खरतर विरुद, दुल्लभ नरवइ तहि दियइ ।

सिरि बद्धमाण पट्टह तिलउ, जिणेसर सूरि गुरु गहगहइ ॥२०॥

रवि किरणेहू वलंगि चडिय अट्टावय तित्थहि ।

निय २ वन्न पमाण विब वंदिय जिण भत्तिहि ।

पनरह सय तापस पबोह दिखिय जिण सत्तिहि ।

पारावइ इग पत्ति सब्व खीरह धिय खंडहि ॥

अखीग महाणसि लट्टिवर, गोइम सामिय गुण तिलउ ।

जसु नामिण सिज्झइ कज्ज सवि, सो झायउ तिहुयण तिलउ ॥२१॥

सो जयउ जेण वहियं पंचमि (घाउ) चउत्थिपजूसरण ।

पख चउदसि जाया नम्मविया कालकाइरियो ॥

कालिकसूरि मुणिंद जयउ तिहुअण मण रंजण ।

उज्जेणो गदभिल्ल राय मूलह निक्कंदण ॥

सरसइ साहुणि कज्जि सिंघ लंछण जिणि रखिय ।

सोहम्माइवईंद सयल आउखउ अखिय ॥

मरहट्टदेसि पयठाणपुरि, सालवाहण अवरोहपर ।

सो कालिगसूरि संवह जयउ, चउत्थि पजूसरण विहिय धरि ॥२२॥

जिणदत्त नंदउ सुपहु जो भारहंमि जुगपवरो ।

अंबाएवि पसाया, विन्नाउ नागदेवेण ॥ १ ॥

नागदेव वर सावएण उज्जित^१ चडेविणु ।

पुछिय जुगवर अंब एवि उववास करे विणु ॥

तसु^२ सत्ति तुट्टाय तीय, करि अखरि लिखिया ।

भणिउ^३ जवाईय पम्ह सय^४, जुगपवर सुधम्मिय ॥

भमिऊण पहवि अणहिल्लपुरि, जुगपहाण तिणि जाणियउ ।

जिणदत्तसूरि नंदउ सुपहु, अम्बाएवि वखाणियउ ॥२३॥

गह धम्मो देव सिंसी फुगग कन्नाय च (उ)दसी दिवसे ।

पंडिय वजयाणंदो निज्जणिय “अभयतिलकेण” ॥ १ ॥

पाणि तणइ विवादि रज्ज जयसिध नरिंदह ।

उज्जेणी वर नयरि भुवणि पहु संती जिणंदह ।

जिणवलभ जिणदत्त सूरि जिणचन्द जईसरु ।

रंजिय जिणवय सूरि धरह सिरि सूरि जिणेसर ॥

ता ? उन्हउं सीयलु जयह जलु, फासूय थप्पिय विवहप्परि ।

निज्जिणित विज्जयाणंद ति(लि:)हि, अभयतिलकि चउपट्टि धरि ॥२४॥

रयणि रमन रमणि पवेसु न्हवणु नहु निसहि

जिणेसर नं दिन दोसा समय बलि न सव्वरिय विसरुह ।

नहु जामणहि पवट्टरत्ति रहु भमइ नभमणह ।

नहु विहारि वखाणु जत्त तुगी भरि समणह ॥

भवियणहु जहिनइ त्तिय अवहि, तह सुर्यंभि धुयरय करउ ।

तरु मोहं मूल मूलण गयह, जिणवल्लह पय अणुसरउ ॥२५॥

जिणदत्त सूरि मंगलु मंगलु, जिणचन्द्रसूरि रायस्स ।

जिणवय सूरि जिणेसर, मंगलु तह वद्धमाणस्स ॥ १ ॥

वद्धमाण घणगुणनिहाण मंगलु कलि अमिलह ।

सुगुरु जिणेसर सूरि वसहि पयडण धुरि धवल्लह ।

मंगलु पहु जिणचन्द अभयदेवह जिणवल्लह ।

मंगलु गुरु जिणदत्त सूरि मंगलु जिणचन्दह ॥

जिणपत्ति सूरि मंगलु अमलु, जास सुजस पसरिय धरह ।

चउविह सुसंघ संरुल्लह कवि, मंगलु सूरि जिणेसरह ॥२६॥

कहस चन्द्र निम्मलह कहस तारायण नम्मल ।

कहस सुपवित्त कहस बगुलउ अय उज्जल ॥

कहस नीर सुरसरीय कहस वाहलोय पवित्तिय ।

पदमराग कह गुरुय कहस पघरिय रंगिय ॥

जिणपदम सूरि पट्टु पट्टुधर, अमिय वाणि देसण वरिस ।

तुडि कर सुजोह किनगलि पडिसि, जिनलब्ध सूरि गणहरसरसु ॥२७॥

एने बेरि खञ्जूरि जतइ सिरिविडि करि भखिय ।

एन अंब अम्बलिय दख दाडिम जं चखिय ।

एन जंब जंबूयह सयल पिप्पल जं असियह ।

बडआरु य उवरन एय एय पसर जबसिय ॥

पउमपह नारिग नह सु नयनिमल कोमल महूय ।

जिणपत्ति सूरि नालियर इह, अररि कोर वंच भंजेय तुय ॥२८॥

जिम नसि सोहइ चंद जेम कज्जलु तरुलछहि ।

हंस जेम सुरवरहि पुरिस सोहइ जिम लछिहि ।

कंचणुं जिम हीरेहि जेम कुल सोहइ पुत्तहि ।

रमणि जेम भत्तार राउ सोहइ सामंतइ ।

सुर नाह जेम सोहइ सुरह, जगि सोहइ जिणधम्म भरु ।

आयरिय मझि सिहासणहि, तिम सोहइ जिणचन्द गुरु ॥२९॥

दसणभइ नरनाह वीर आगमि आणंदिय ।

पभणइ वंदिसु तेम जेम केणावि न वंदिय ।

रह सज्जिय गय गुडिय तुरिय पखरिय पलाणिय ।

सुखासण सय पंच वडवि चळ धित्तिहि राणिय ॥

बहु छत्त चमर परवारि सउं, जाम सपत्त समोसरणि ।

ताम ईद तसु मणु मणवि, अयरावइ आदसइ मणि ॥३०॥

इंद वयणि गय गुडिर सहस चउसट्टि वेउविवय ।

वारुत्तर सय पंच तीह इक्कह मुह किय ।

मुहि मुहि किय अड दंत दंतहि दंतहि अड वाविय ।

वावि वावि अड कमल कमलि दल लवु लख न(?ना)विय ॥

वत्तांस बद्ध नाडय घड, पत्ति पत्ति नच्चइ रलिय ।

इयसिय रिद्धि पिखेवि कर, दसणभद्द मउ गउ(?य) गलिय ॥३१॥

दसणभद्द चित्तेय अहह मइ सुकिय न किद्धउ ।

तउ मनि धरि संवेगि झत्ति तणि संयमु लिद्धउ ॥

वीरु पाप्पि सु ज जाइ जामि मुणिराउ बइट्टउ ।

ताम भत्ति सुरराय नमिय सो गुणहि गरट्टिउ ॥

भणय इंदु तय जतु मुणिहु, उहारिय निब्भंत मइ ।

जं करउं विनाण आणग थुणि, मइ नि होइ संजम किमइ ॥३२॥

॥ दूसरी प्रतिकी विशेष गाथाएँ ॥

अमरु त जिणवरु गिर त मेरु निसियरु तदसासणु,

तरु त अमरतरु धन त धनु महता पंचाणणु ।

गढ त लंक विसहर त सेसु गह गुरुय त दिवायरु,

अवल त दूयमणि नइ त गंग जल बहुल त सायरु ।

जिणभुवण त नंदीसर भणउ, तुंगत्तणि तापरि गयणु,

पुणि राउत जगि जिणपत्ति गुरु सूरि मउइ चूडारयणु ॥१७॥

जिम तरु सुरतरु महि रयण मझिहिं चिंतामणि,

धेणु मझि जिम कामधेणु गह मझि दिवामणि ।

उडगण सऊहिं वंदु इंदु जिम सगिग पसिद्धउ,
 गिरवर मझिहिं मेरु राउ जिम रह निरत्तउ ।
 तिम एह भूरि सूरिहिं पवरु जिणपवोहसूरि सीसवरु,
 जिणचंदसूरि भवियहु नमहु, पहवि पसिद्धउ जुगपवरु ॥१८॥
 जिण सासण वर रज्जि चंद गळिहिं समरंगणि,
 वरण तुरंगमि चडवि खंतिक्खर खग्गु गहेविणु ।
 जिण आणा सिरिसिरकु सीलि संनाहु सुसज्जिउ,
 पंच महव्वय राय सबल मुणिपत्ति अगंजिउ ।
 एररिसउ सुहडु जिनकुसल सूरि, पिखेविण रहरियतणु ।
 अणभिडिउ मुडिउ मुणिपय पडिउ मयणमाणु मिलहेवि पुण ॥१९॥
 उत्तर दिसि भद्वइ मासि जिम गज्जइ जलहरु,
 जिम हत्थी गडयडइ जेम किन्नरि सरु मणहरु ।
 सायरु जिम कळोल करइ जिम सीह गुंजारइ,
 जिम फुल्लिय सहयार सिहरि कोइल टहकारइ ।
 सघोस घंट जिण जम्मकलणि, वज्जंतिय जिम त्रहत्रहइ,
 जिणपदम सूरि सिद्धंत तिम, वखाणंतउ गहगहइ ॥ २१ ॥
 जिम अन्तर गोइक दुद्धि अंतरु मणि सुरमणि,
 जिम अंतरु सुरतरु पलास जिम जंबुय केसरि ।
 जिम अंतरु बग रायहंस जिम दीवय दिणयर,
 जिम अंतरु गो कामधेण जिम अंत(रु) सुरेसर,
 जिणपदम सूरि तिम (अ)न्नगुरु, एवड अंतरु भविय मुणि ।
 खरतरह गळि मुणवर तिलउ इथु जीह किम सकउ थुणि ॥२२॥

नवलख कुलि धणसोहनंदणु सुप्रसिद्धउ,

खेताहि तिय कुखि जाउ बहु गुणह समिद्धउ ।

बालकालि निज्जणवि मोह संजम सिरि रत्तउ,

गोयम चरिय पयास करणु इणि कालि निरुत्तउ ।

जिणपदम सूरि पटटुद्धरणु, वयरसाह उन्नति करु ।

जिनलबधिसूरि भवियहु नमहु, चंदगळि मुणि जुगपवर ॥२३॥

उदय वडउ संसारि उदय सुरवर नर नंदय,

उदय कितहु गह गयणि उदय सहसकर वंदय ।

उदय लगी सबि कज्ज रज्ज सिद्धंत प्रमाणइ,

उदउ अनुपम अचल उदय वलि वलि वखाणइ ।

धग धणय पुत्त परियण सयल, उदय(ल)गो जस वित्थरइ ।

जिणउदय सूरि इणि कारिणहिं, उदउ सयल संघइ करइ ॥२४॥

जिम चित्तामणि रयण मझि उत्तम सलहिज्जइ,

जिम कणयाचल गिरिह मझि किरि धुरहि ठविज्जइ ।

जिम गंगाजल जलइ मझि सुपवित्त भणिज्जइ,

जिम सोह गह वत्थु मझि ससहरु वन्निज्जइ ।

जिम तरुह मझि वंछित्त करु, सुरतरु महिमा महमहइ ।

जिम सूरि मझि जिणभदसूरि, जुगपहाण गुरु गहगहइ ॥२७॥

जिणि उम्मूलिय मोहजाल सुविसाल पयंडिहिं,

जिणि सुजाणि किव्राणि मयणु किउ खंडो खंडिहि ।

जसु अगाइ मइ कोह लोह भड किमिहि न मंडिहि,

गय जिम जिणि भव रुक्ख भग्ग तव सुंडा दंडिहि ।
 सो गच्छनाह जिणभद्रगुरु, वंछिय पूरण कप्पतरु,
 कल्लाण वह्नि नवधार धरु, वसह मझि जयवंत चिरु ॥२८॥
 जिणि दिणि दुद्धभ सभा सखर खरतर जे तिण दिणि,
 पडिवोहिय चामुण्ड फुडवि खरतर जे तिणि दिणि ।
 जिणीय वाद छट्टमइ मासि फुड खरतर तिणिदिणि,

रंजिय नरवंम नरिंद जिहिं, धारनयर स्युं नरवरा !
 जिणभद्रसूरि ते तुल्ल सवि, अखिल खोणि खरतर खरा ॥३१॥
 वेशाखि (षि) का मदांति सांख्य सोगत नैयायक,
 मीमांसक मुख मुखरवादि गुरु गर्व निवारक ।
 उत्सूत्राविधि मार्ग वगर्ग देशक यति ब्रजा,
 करटि घटांकुश कुल विशाल सौधोक्कल सुध्वज ।
 जन नयन सुधाकर रुचिरकर, मदन महीधर कुलिशधर,
 जय सूरि मुकुट गत कपट भट, गुरु जिणभद्र युगपवर ॥३२॥
 सयल गरुय गुण गण गणिंद गण सीस मउड मणि,
 निय वयणिहिं पर वादि निद्धइइ सुतक्खणि ।
 सवि आचार विचार सार विहिमग्ग पयासइ,
 भविय जण मण विमल कमल रवि जेम पयासइ ।
 पुरि नयरि देसि गामागरहिं, विहरतउ सो होइ सुगुरु ।
 सो जयउ जिणेसर सासणिहिं, श्रीजिणभद्र मुणिंदवरु ॥३३॥

ताम तिमिर धरि फुरइ जाम दिणयरु नहु उगइ ।

तां मयगल मयमत्त जाम केसरिय न लगइ ।

ताम चिडां चिगचिगं जां न सिचांणउ दुद्युइ ।

तां गज्जइ घणु गयणि जांम नहु पवण फुगइ ।

तिम सयल वादि निय निय घरिहिं, तांम गव्व पव्वइ चडइं ।

जिनभद्र सूरि सुह गुरु तणीय, हथु न जां कन्निहिं पडइं ॥३४॥

घर पुर नयर निवासि जेय निय गव्व पयासइं ।

बोलावंता बहुय विरुद नहु किंपि विमासइं ।

पहुवि पयउ पमाण लखण वर वखाणइं ।

वादि विवाइ विनोदि संक निय चित्त न याणइं ।

एरिस जि केवि भुवणिहिं भलइं, वादी मयंगल गउयडइं ।

जिनभद्र सूरि केसरि डरिहिं त धुज्जवि धरणिहिं पडइं ॥३५॥

नाग कुमर नानाह सुग्नाहा जेण तिहुयणि जिन्ना ।

तिहुयण सल्लविरुदो विव खाउ एस भूवलए १

भूवलर्यमि पसिद्ध सिद्ध जो संकरु भणियउ ।

गोरी पयतलि रुलिय सोय इणि वाणिहि हणियउ ।

दानव मानव असुर मरि हेइइ जो लिद्धउ ।

सो नारायण सोल सहस गोपी वसि किद्धउ ।

हिव एह अधिक भडि वाउलउ, न मुणिलोयहं कलिहिं ।

जिनभद्रसूरि इणि कारणिहि, मयण मल्लु जित्तउ बलिहिं ॥३६॥

दुर्घट घटना घटित कुटिल कपटागम सूक्त ।

वावाटोत्कट करटि करट पाटन सिंहोद्भट ।

न विट लंपट मुक्त निकट विन तारि भट स्फट,

हाटक सुथट किरिड कोटि घृष्ट क्रम नख तर जट,

विस्टप वांछित कामघट विघडित दुष्ट घट प्रकट

जिनभद्र सूरि गुरुवर किकट, सितपटसिरोमुकुट ॥३७॥

॥ इति समस्तदेव गुरु षट्पदानि ॥



॥ पहराज कवि कृत ॥

॥ जिनादयसूरि गुण वर्णन ॥

किणि गुणि सोववितवणं, सिद्धिहिका भंति तुम्ह हो मुणिणं ।

संसार फेरि डहणं, दिखा बालाणए गहणं ॥१॥

वालत्तणि वय गहण सुपुणि मुणिवर संभालियउ ।

अट्ट कम्म निज्जणवि गमण दुग्ग गइ टालियउ ॥

उग्गु तवणु जिण तवउ वितु संमतहि रहिउ ।

संजम फरिसु पहाणु मयण समरंगणि बहिउ ।

जिणउदय सूरि पुय पय नमहि, ति नर मुक्ति रमणी रमइ ।

“पहराज” भणइ तुइ विन्नउं, अजउं भवणु किणि गुणि तवहि॥१॥

लीलयति सिद्धि पावहि जे नर पणमंति एरिसा सुगुरु ।

मुणिवरह वित्त कलिउ नहु मन्नइ अन्न तियस्स ॥१॥

मुणिवर मनुमय कलिउ भत्ति जिणवरह मनावइ

अवर तरुणि नहु गमइ सिद्धिरमणि इह भावइ ।

करइ तवणि बहु भंगि रंगि आगम वखाणइ ।

अबुह जीव बोहंत लेत सुमत्थह नाणय ॥

जिणउदय सूरि गच्छाहवइ, मुख मग्गि धोरि सुपह ।

“पहराज” भणइ सुपसाउ करि, सिव मारग दिखाल महु ॥२॥

सुगुरु शिव मग्ग जूय क्रिय कला विसारह

मंस भखण परिहरउ सुरा सिउं भेउ निवारइ ।

वेसन रख कउ पंध पाउ पारद्धहि अणंतउ ।

चोरी म करि अयाण रखि दुग्गय जिउ जंतउ ॥
 पर रमणि मिस्सिह सत्तय वसणि, जीव दय दढ संग्रहयउ ।
 जिणउदयसूरि सुहगुरु नमहु, सिद्धि रमणि लीलइ लहउ ॥३॥
 सुगुरु सिद्धि इम भणइ कित्ति तूय तणी थुणिज्जइ ।
 सुगुरु देव इम भणय लीह गणहर तुय दिज्जय ।
 सुगुरु सुविह गण वित्ति अचलु तुय नामहि लग्गउ ।
 तुहत पढइ सिद्धंत सुगुरु जिनभत्ति विलग्गउ ॥
 जिणउदय सूरि जग जुगपवर, तुय गुण वनउं सहसि फणि ।
 परसउ सुगुरु हो भवियणह, कहय सिद्धि णब्भन्तमणि ॥४॥
 कवणि कवणि गुणि थुणउं कवणि किणि भेय वखाणउ ।
 थूलभइ तुह सील लब्धि गोयम तुह जाणउ ।
 पाव पंक मउ मलिउ दलिउ कन्दप्प निरुत्तउ ।
 तुह मुनिवर सिरि तिलउ भविय कप्पयरु पहत्तउ ॥
 जिणउदयसूरि मणहर रयण, सुगुरु पट्टधर उद्धरणु ।
 “पहुराज” भणइ इमजाणि करि, फल मनवंछिउ सुह करणु ॥५॥
 फल मनवंछिउ होइ जि किवि तुइ नाम पयासय ।
 तुझ नाम सुणि सुगुरु रोर दारिद पणासइ ।
 नामगहणि तुय तणय सयल श्रावय उस्सासहि ।
 ॥
 जिणउदयसूरि गणहर रयणु, सुगुरु पट्टधर उद्धरणु ।
 “पहुराज” भणइ इम जाणि करि, सयल संघ मंगलु करणु ॥६॥



श्रीजिनप्रभसूरि परम्परा गुर्वाबली



वंदे सुहंम सारिं, जंबू सारिं च पभवसूरिं च ।

सिज्जंभव जसभदं, अज्जसंभूयं तथा वंदे ॥ १ ॥

तह भद बाहु सारिं च, थूलभदंजइ जिणवरिदुं ।

अज्ज महइरि सूरिं, अज्ज सुहत्थिच वंदामि ॥ २ ॥

तह संति सूरि हरिभद सूरिं, संडिल्ल सूरि जुगपवरं ।

अज्ज समुहं तह अज्ज मंगु, अज्ज धम्मं अहं वंदे ॥ ३ ॥

भदगुत्तं चं वइरं च, अज्जरखिय मुणिवरं ।

अज्ज नंदि च वंदामि, अज्ज नागहत्थि तथा ॥ ४ ॥

रेवय खंडिल्ल हिमवंत, नाग उज्जोय सूरिणो वंदे ।

गोविन्द भूइदिन्ने, लोहच्चिय दूस सूरिउ ॥ ५ ॥

उमासाइवायगे वंदे, वंदे जिणभद सूरिणो ।

हरिभद सूरिणो वंदे, वंदेहिं देवसूरिंपि ॥ ६ ॥

तह नेमिचन्दसूरिं, उज्जोयण सूरि पज्जिइणो वंदे ।

तह वद्धमाण सूरिं, सूरि सिरि जिणेसरं वंदे ॥ ७ ॥

ज्जिणचन्द अभयसूरिं, सूरि जिण वल्लहं तथा वंदे ।

जिणदत्तं जिणचंदं, जिणवइय जिणेसरं वंदे ॥ ८ ॥

संजम सरसइ निरुयंसु, सुणीण तित्थभर च (ध) रणं ।

सुगुरुं गणहररणं, वंदे जिणसिंह सूरिमहं ॥ ६ ॥

जिणपह सूरि मुणिंदो, पयडिय नीसेस तिहऊयणाणंदो ।

संपइ जिणवर सिरि, बद्धमाण तित्थं पभावेइ ॥१०॥

सिरि जिणपह सूरिणं, पट्टंमि पइठ्ठि ओगुण गरिट्ठो ।

जयइ जिणदेव सूरि, निय पन्ना विजय सूरसूरी ॥११॥

जिणदेव सूरि पहोदय, गिरि चूडाविभूसणे भाणू ।

जिण मेरु सूरि सुगुरु, जयउ जए सयल विज्जनिहिं ॥१२॥

जिणहित सूरि मुणिंदो, तप्पजेरविय कुमुयवण चंदो ।

मयणकरि कुम विहडण, दुद्धरपंचाणणो जयउ ॥१३॥

सुगुरु परंपरा गाहा, कुलय मिणजो पढेइ पञ्चूसे ।

सो लहइ मणोवंछिय, सिद्धि सव्वंपिभव्वजणे ॥१४॥

॥ श्रीजिनप्रभसूरि छप्पय ॥

गयण थकी जिण कुलह^१ आणि ओघइ उत्तारी ।

कियो महिष^२ स्युं वाद^३ सुण्यउ नगरी नवबारी ॥

पातिसाह रंजियउ साथि वड^४ वृक्ष चलायउ ।

शत्रुंजय राइण सरिस, वरिस दुद्धइ झड ल्यायउ ॥


जिण दोरडइ मुद्रिका प्रकट कीय, जिन प्रतिमा बुल्लिय वयण ।

जिणप्रभसूरि खरतर सुगच्छि, भरतक्षेत्र मंडिय रयण ॥१॥

॥ इति गुरावली गाथा कुलकं समाप्तम् ॥

१ नांखि, २ मुख, ३ नयर पिक्खइ, ४ दिल्लीपति छरताण पूठि
५ सिहरि ।

खरतरगच्छ पट्टावली



प्रथम श्री(धवल) राग

धन^१ धन जिण (शासन?) पातग नाशन, त्रिभुवन गरुअउं गहगहए ।
जासु^२ तणउ जसुवाउ गंगाजल, निरमल महियले महमह^३ ए ॥१॥
श्रीवयरस्वामी गुरु अनुक्रमि चिहु दिसे, चंद्रकुल^४ चउपट जाणिइए ।
गच्छ चउरासीय माहि अति गरुअउ, खरतरगच्छ वक्खाणिइए ॥२॥

छंदः—

वखाणियइ गिरि मांहि गरुअउ, जेम मेरु महीधरो ।
मणि मांहि गिरूयउ जेम सुरमणि, जेम ग्रह गणि दिणयरो ॥
जिम देव दानव माहि गरुअ, गज्जए अमरेशरो ।
तिम सयल गच्छह मांहि गरुअउ, राजगच्छ सु खरतरो ॥३॥

राग देशाखः—

खरतरगच्छहिं खरउ ववहार, खरउ आचार मुनि आचरइ ए ।
खरउ सिद्धांत वखाणेइ सुहगुरु, खरउ विधि मारग वापरइ ए ॥ ४ ॥
तसु गच्छ^५ मण्डण पाप विहंडण, जे हुआ सुविहित सिरोमणि ए ।
श्री जयसागर गुरु उपदेसिहिं, गाइसु खरतर गच्छ धणी ए ॥ ५ ॥

छंदः—

गुरु गच्छ धणी हंड हरखि गाइसु, प्रथम हरिभद सूरि गुरो ।

तसु वंसि क्रमि उदयउ मुणीसर, देवसूरि सुगणहरो ॥

सिरि नेमिचन्द मुणिंद सुंदर, पाट तसु उज्जयाल ए ।

सिरि सूरि उज्जोयण जईसर, पाव पंक पखालए ॥ ६ ॥

रागदेशाख छाया

आवुय ऊपरि मास छ सीम, साधियु सूरिमंत्र लेइ (य) नीम ।

पायालह पहुतउ धरणिंदो, प्रगटियो वज्रमय आदिजिणंदो ॥ ७ ॥

मिथ्याती जे जोगी (य) जडिया, सुहगुरु अतिसइ ते सहनुडिया ।

जिणशासन हूउ जयवाउ,^१ विमल तणइ मनि आणंद जाउ ॥ ८ ॥

विमल सुवसहोय विमलि करावी (य),

जसु उवएसिहिं (य) त्रिभुवनि भावो ।

जाणि कि नंदीसर परसादो, परतखि देउल मिसि जसवादो ॥६॥

॥ छंदः ॥

जसुवाउ जसु उवएसि लीधउ, विमलवर मंतीसरे ।

कारविय निरुपम विमल वसही, गरुअगिरि आवु सरे ॥

सिरि सूरि मंत्र प्रभाव प्रगटिय, सुविहित मग्ग दिवायरो ।

सिरि वद्धमाण मुणिंद नंदउ, सयल गुण रयणायरो ॥१०॥

॥ राग राजवलभः ॥

गूजर देसिहिं जाणियइ, पाटण अणहिलपुर नामी ए ।

राज करइ गजपति तिहां सिरि, दुल्लह नरवइ नामी ए ॥११॥

चउरासो मठपति तिहां, आचारिज छइ तिणि कालि ए ।

जिगवर मंदिरि ते वसइ, इक सुविहित मुनिवर टालि ए ॥१२॥

सुविहित नइ मठपति हुउ, ग (१रा)यंगणि वसिंहि विवाडू ए ।

सूरि जिणेसरि पामिउ, जग देखत जय जयवाडू ए ॥१३॥

दससय चउवीसहिं गए, उथापिउ चेइयवासू ए ।

श्रीजिनशासनि थापिउ वसतिहि, सुविहित मुनि(वर)वासू ए ॥१४॥

गुरु गुणि रंजिउ इम भणइ श्री मुखि दुल्लह नरनाहू ए ।

इणि कलिकालिहि खरहरा, चारित्रधर एहजि साहू ए ॥१५॥

॥ छन्दः ॥

खरहरा चारित्रधर गुरु, एहु विरुद प्रकासिउ ।

उथप्पिय चियवास सुविहिय, संघ वसहि निवासिउ ।

२जइउ जिणि राउ दुल्लह, जयउ सूरि जिणेसरो ।

तसु पाटि सिरि जिणचन्द गणहर, भविय लोअ दिणेसरो ॥१६॥

॥ राग धन्याश्रोः ॥

श्रीजिन शासन उधरिउंए,

नव अंगए तणइ वखानि, श्री अभयदेवसूरिजुगपवरो

प्रगटिऊ एथंभण पास, श्रीजयतिहुअणि जेणे गुरो ॥१७॥

॥ छन्दः ॥

गुरु गरुअ खरतर गच्छि उदयउ, अभयदेव गणेसरो ।

जसु पायव वंदइ देविं पदमावती, धरण सुरेवरो ॥

निय वयण सीमंधर जिणेसर, जासु गुण वक्खाण ए ।

किम मु सरीखउ मूढ ते गुरु, वरणवी जगि जाण ए ॥१८॥

जाणियइ सुविहित सिरोमणि ए ।

तसु तण ए पाटि सिंगार, पुह विहिं “पिंडविशुद्धि” करो ।

इणि जुगी ए एक जोगिंद, श्रीजिनवल्लभ सूरि गुरो ॥१६॥

छंदः—

गुरु गुण तणउ भंडार गणहर, सयल संयम भर धरो ।

वागडी देसि वखाणि जिणध्रम, दससहस आवक करो ।

चीत्रउड ऊपरि देवि चामुंड, प्रसिद्ध जिणि प्रतिबोधिया ।

तिणि सूरि जिण वल्लह जईसरि, कवण लोय न मोहिया ॥२०॥

श्रीजिनदत्त सूरि गुरु नमउ ए ।

अम्बिका ए देवि आदेसि, जाणियइ चिहुं जुगे जुग प्रधान ।

सयंभरी ए राय डइ जेहि, दीधउ श्रीजिनधर्म दान ॥२१॥

छंदः—

जिनधर्म दानिहि पनरसय मुनि, दीखिया जिण निज करे ।

वखाण सुणिवा देव आवइ, सेव सारइ बहु परे ॥

चउसट्टि योगिणी नामि देवी, जासु आण न लंघ ए ।

तसु गुरु तणइ सुपसाइ नंदउ, एहु खरतर संघ ए ॥२२॥

श्रीजिनचंद सूरि नर रयण ।

नरमणी ए जासु निलाडि, झलहलइ जेम गयणहिं दिणंदो ।

तसु तणइ ए पाटि प्रचंड, श्रीसूरिजिनपति सूरिइंदो ॥२३॥

छंदः—

सिर सूरिइन्द मुणिंद जिनपति, श्रीजिन^१ शासनि गज्ज ए ।
 छत्री वादइ जयपताका, विरुद जसु जगि छज्ज ए ॥
 अहंसि(जि)रि जिणेसर सूरि वंदउ, जिण प्रबोह मुनीसरो ।
 कलिकाल केवलि विरुद गणहर, तयणु जिणचंद सूरि गुरो ॥२४॥

राग धन्याश्री भासः—

साहेलीए नयरि देरउरि सुरतरु, सुगुरु वर श्रीजिनकुशल सुरे ।
 साहेली ए थूभिहिं प्रणमइ तसुपय, भवियजन^२ भगति ऊगति सूरे ।
 साहेली ए तोह तणे जाइहि दोहग, दुरिअ दालिद दुहसयल दूरे ।
 साहेलीए तीह तणइ मंदिर विलसइ, संपति सय वरसु भरि पूरे ॥२५॥


छंदः—

भरि पूरि आवइ सयल संपय, भविय लोयह नितु घरे ।
 जे थूभि श्रो जिनकुशल सुह गुरु, पय नमइ देराउरे ।
 तसु पाटि सिरि जिणपदम गणहर, नमउ पुहवि प्रसिद्धउ ।
 “कूंचालि सरसती” विरुद पाटणि जासु संघहिं दिद्धउ ॥२६॥
 साहेली ए इणिगच्छि लब्धिहि गोयम गह गहइ श्रीजिनलब्धि सूरे ।
 साहेली ए चन्द्र गच्छे पूनिमचन्द जिम सोह ए श्रीजिनचंद सूरे ॥
 साहेली ए श्रीसंघ उदयकर चंदउ नदेन श्रीजिनउदय सूरे ।
 साहेली ए सुरि पुरंदर सुंदर गुरुअउ श्रीजिनराज सूरे ॥२७॥

साहेली ए नितु नवतत्व वखाण ए जाण ए सयल सिद्धान्त सारो ।
 साहेली ए मणहर रूपि अनोपम संजम निरमल गुण भंडारो ।
 साहेली ए गोयम जंबु कि अभिनवउ अभिनवउ थूलभइ वयर गुरि ।
 साहेली ए संपइ प्रणमउ गच्छपति श्रीजिनभद्रसूरि जुग पवरो ।२८।
 साहुसाखह तिलउ बछराज साह मलहारो ।
 स्याणीय कुखंहि अवयरिउ छाजइ खरतर गच्छ भारो ।
 साहेली ए संपय पणमउ गच्छपति श्रीजिनचन्द्र सूरि युगपवरो ।
 दंसणि भवियण मोहए सोहइ सूरि गुणरयण धरो ॥२९॥

छंदः—

जुगवर तणा गुणरयण पूरी गरुअ एह गुरावली ।
 श्रीसंधि भाविहि सांभलो ती मन तणी पूरउ रली ॥
 आराधतउ विधि खरतर सं..... ।
 इम भणइ भगतिहि सोमकुंजर जाम चंद दिणंदउ ॥३०॥
 इति श्रीविधिपक्षालंकार श्रीखरतर गुरुणा गुर्वावली समाप्ता ॥



नोटः—श्रीजिनकृपाचन्द्र सूरि ज्ञानभण्डारस्य गुटकेमें २६ वीं गाथा अतिरिक्त मिली है ।

ज्ञात होता है उस प्रतिके लिखने के समय जिनचन्द्रसूरि विद्यमान होंगे अतः यह १ गाथा उसीमें वृद्धि कर दी है ।

१ दंदइ गणधर गरुयउ

श्रीभावप्रभसूरि गीतम्



समरवि सुहगुरु पाय अहे, ज(सु) दरसणि मनु उल्हसइ ए ।
 थुणीयइ मुणिवर राय अहे, कलियुगे जसु महिमा वसइ ए ॥१॥
 निरमल निय जस पूरि अहे, चन्दन वन जिम महिमहइ ए ।
 श्रीय भावप्रभसूरि अहे, श्रीयखरतरगळे गहगहइ ए ॥ २ ॥
 अमिय समाणीय वाणि अहे, नवरस देसण जो करइ ए ।
 समय विवेक सुजाणि अहे, समकित रयणसो मनि धरइए ॥३॥
 पंच महव्यधार अहे, पंच विषय परि गंजणूं ए ।
 पालय पंच आचार अहे, पंचमि (ध्यात्व) भंजणूं ए ॥ ४ ॥
 भंजणु मोह नरिंदो अहे, मयणु महाभडो वसि कीउ ए ।
 वसि कीउ कोहु गयंदो अहे, मानु पंचाननु वन (स?)कीउ ए ॥५॥
 चमकीउ दलिउ कषाय अहे, लोभ भुजंगसु निरुजणिउ ए ।
 निजणिउ अरि रागाय अहे, सयल सुरा सुरे सेवीयउ ए ॥ ६ ॥
 सेवइ जसु पय साध अहे, पंकय महूरर रुण उणइ ए ।
 धन धनु जे नरनारि अहे, नित नितु प्रसु गुण गण थुणइ ए ॥७॥
 मंगल लछि विलास अहे, पूरइ ए वंछिय सुहकरू ए ।
 निरुवम उवसम वास अहे, रंजण भविअण मुणिवरू ए ॥ ८ ॥
 नव रस देसण वाणि अहे, घण जिम गाजइ ए गुहिर सरे ।
 मयण दवानल वारि अहे, नागिहिं जलि वरिसइ सुखरे ॥ ९ ॥
 विहरइ सुविही याचार अहे, कास कुसुम जसु निरमलउ ए ।

माल्हुअ साख विशाल अहे, लूणिग कुलि महियलि तिलउ ए ॥१०॥
 लव्विहिं गोयम सामि अहे, सीयलिहिं साधु सुदरशनु ए ।
 सव्वड साह महहार अहे, राजल देविय नंदनुं ए ॥११॥
 निरमल गुण भंडारो अहे, श्रीय जिनराजसूरे शीस वरो ।
 संयम सिरि उरि हारो अहे, सागरचन्द्रसूरे पाटु धरो ॥१२॥
 सुमत्तणु-सुरतरु तेम अहे, सुकृत रसो भरि पूरीउ ए ।
 गुणमणि रयणिहिं जेम अहे, लव्वणिम मंजरि अंकूरीउ ए ॥१३॥
 दिणियर जिम सविक्रासो अहे, जस कीयरतिगुण विसतरीए ।
 जगि जयवंतउ सूरे अहे, पूरव गुर सवि उद्धरी ए ॥१४॥
 उद्धरिय धीरिम मे(रु) गिरि जिम, चन्द्रगळि मुख मंडणो ।
 पंच समतिहिं त्रिहुं गुपिति गुपतउ, दुरित भवभय खंडणो ।
 सिरि आइरिय सुवर कांति दिणियर, भविक कमल सविकासणो ।
 जयवंतु श्रीय गुरु भावप्रभसूरि, जाम ससि गयणंगणो ॥१५॥

॥ इति श्रीमदाचार्याणां गीतम् ॥

श्रीरागि ढाल ॥ छ ॥



श्रीकल्याणचन्द्रगणि कृत
श्रीकीर्तिरत्नसूरि चउपइ

सरसति सरस वयण दे देवि, जिम गुरु गुण बोलिउं संखेवि ।
 पीजइ अमीय रसायण बिंदु, तहवि सरीरिइ हुइ गुण वृन्द ॥१॥
 महि मंडण पयडउ धण रिद्धि, नयर महेवउ नर बहु बुद्धि ॥
 ओसवंश अति घण तिणि ठाण, वसइ सुरहम जिम धणदाण ॥२॥
 तहि श्री संखवाल गुणवंत, उदयवंत साखा धनवंत ।
 कोचर साह तणइ संतान, आपमल देपा बहु मानि ॥ ३ ॥
 सीलिहि सीता रुपइ रंभ, दान देइ न करइ मनि दंभ ॥
 देप घरणी देवलदे नारि, पुत्त रयण तिणि जन्मा च्यारि ॥४॥
 लखउ भादउ साह सुरंग, केलहउ देलहउ बंधव चंग ॥
 धनद जेम धन्नवंत अनेक, धर्मकाजि जसु अति सविवेक ॥५॥
 चउदह गुणपचासह जम्मु, दिखिउ देलह त्रेसट्टइ रंसु ॥
 श्रीजिनवर्द्धन सूरिहि शाख, कीर्तिराइ सीखविय सुपात्र ॥६॥
 हिव वाणारीय पद सत्तरइ, पाठक पद असीयइ ऊधरइ ॥
 तयणंतरि आयरिह मंतु, जोगि जाणि गुरि दीधउ मंतु ॥७॥
 लखउ केलहउ करइ विस्तारि, उलव जेसलमेर मंझारि ॥
 श्रीजिनभद्रसूरि सत्ताणवइ, किया श्री कीर्तिरयण सूरिवइ ॥८॥
 वादो मइंगल ता गइ अइइ, जां गुरु केसरि दृष्टि नव चइइ ॥
 जव किरि अम्ह गुरु बोलइ बोल, वादी मूकइ मांन नितोल ॥९॥

जहि मस्तकि गुरु नियकरु ठवइ, तइ घरि नवनिद्धि संपद हवइ ।

सुह गुरु जेह भणावइ सीस, ते पंडित हुइ विस्वा वीस ॥१०॥

जिहां जिहां गुणवंता रहइ, तिहां श्रावक रिधिहि गहगहइ ॥

गाम नगर ते अविचल खेम, लबधिवंत जणिजह एम ॥११॥

पनरह पणवीसइ वरसंमि, वइसाखा वदिदिण पंचमि ।

पंचवीस दिण अणसण पालि, सरगि पहुंचता पाव पखालि ॥१२॥

रविजिम झगमगि झिगमिग करइ, नवइ तेज तनु अणसण धरइ ।

अतिसय जिम तित्थंकरतणा, गुरु अनुभवि हुया अतिघणा ॥१३॥

सुह गुरुअणसण सीधउं जांम, वीर विहारे देविहि ताम ।

झल हलंत दीवो पुण कीध, जडिय किमाडिहि लोक प्रसिद्धि ॥१४॥

जिम उदयाचलि उगउ भाणु, तिमपूरव दिसि प्रगट प्रमाणु ।

थापिउ थूम सुनिश्चलजाण, श्री वीरमपुर उत्तम ठाणि ॥१५॥

श्रीखरतर गणि सुरतर राय, जहि सिरि किर्त्तिरयण सूरि पाय ।

आराहउ भवियणइकचित्ति, ते मण वंछित पामइ झत्ति ॥१६॥

चिन्तामणि जिम पूरइ आस, पूजइ जे मनि धरिय उल्लास ।

तिणि कारणि गुरु चरण त्रिकाल, सेवइ नर नारि भूपाल ॥१७॥

श्री कीर्त्तिरतन सूरि चउपइ, प्रहउठी जे निश्चल थइ ।

भणइ गुणइ तिहि काज सरंति, “कल्याणचन्द्र”गणि भगतिभणंति ॥१८॥

॥ इति श्रीकीर्त्तिरत्नसूरि चउपइ ॥

सं० १६३७ वर्षे शाके १५८२ प्र० ज्येष्ठ मासे शुक्लपक्षे षेष्ठा तिथौ गुरुवासरे । श्रीमहिमावती मध्ये श्रीवृहत्खरतर गच्छे श्रीजिन चन्द्रसूरि विजयराज्ये संखवाल गोत्रीय संघभार धुरन्धर साहकेल्हात-
त्पुत्रसा० धन्ना तत्पुत्रसा० वरसिंघ तत्पुत्र सा० कुवरा तत्पुत्र सा० नव्वा तत्पुत्र सा० सुरताण तत्पुत्रसा० खेतसीह भानू साह चांपशी पुस्तिका करापिता पुत्र पुत्रादि चिरनंद्यात् । शुभं भवतु ।

[श्रीपूज्यजीके संग्रहस्थ गुटकाके पृ० ४२ से]

श्रीभक्तिलाभोपाध्याय कृत

॥ श्रीजिनहंससूरि गुरुगीतम् ॥



सरसति मति दिउ अम्ह अतिघणी, सरस सुकोमल वाणि
 श्रीमज्जिनहंससूरिगुरुगाइसिउं, मन लीणउ गुण जाणि ॥१॥सर०
 अति घणीयदियउ मति देव सरसति, सुगुरु वंदण जाईइ ।
 प्रहउठि श्रीजिनहंससूरि गुरु, भाव भगतिहि गाईइ ॥२॥
 पाट उत्सव लाख वेची (पिरोजी) कर, करमसिंह करावए ।
 गुरु ठामि ठामि विहार करता, आगरा जब आवए ॥३॥
 तब हरखिउ डुंगरसी घणो, बंधव वली पामदत्त ।
 श्रीमाल चतुर नर जाणियइ, खरतर गुरुगुण रत्त ॥४॥
 तब हरखिउ डुंगरसी करावइ, सुगुरु पइसारा तणी ।
 बहु परें सजाई सहु सुणज्यो, वात ए छे अति घणी ॥५॥
 पाखरया हाथी पादसाह, सुगुरु साम्हो संचरइ ।
 गुरु पाय हेठइ कथीपानइ, पटोला बहु पाथरइ ॥६॥
 पातसाह साहमो आविउ, उंबर खान वजीर ।
 लोक मिलिया पार न जाणियइ, मोरइ काच कपूर ॥७॥
 आवीया साहमा पादसाह सबे वाजा वाजए ।
 जेण सरणाइ जलरि संख वाजइ, ससरिअ अंबर गाजए ॥८॥
 मोति वधावइ गीत गावइ, पुण्य कलस धरइ सिरे ।
 सिंगारसारा सब नारी करइ, उच्छव घर घरे ॥९॥

रूपटंका सहित तंबोल दिवइ, वेंचिउ वित्त अपार ।
 इम पइसारो विस्तार कीयो, वरतिऔ जय जयकार ॥१०॥
 तंबोल दिधउ सुजस लीधउ, इसी बात घणी सुणी ।
 श्रीसिकन्दर बादशाह, वडइ दिल्लीनउ धणी ॥११॥
 जिंसी जिनप्रभसूरि किरामति, पादशाहे जणियइ ।
 एथी सहु लोकमांही, घणुं घणुं बखाणीयइ ॥१२॥
 दीवान मांहे तेडाविया, कीधी पूछ बहुत ।
 देखाडी किरामती आपणि, गुरुया गुरु गुणवंत ॥१३॥
 दीवान मांहे घोर तप नइ, जाप सुगुरु मन धरइ ।
 जिनदत्तसूरि पसायइ चौसठि, योगिनी सानिध करइ ॥१४॥
 श्रीसिकंदर चित्त मानियउ, किरामत कांइ कही ।
 पांचसइ बंदी बाखरसी, छोडव्या इण गुरु सही ॥१५॥
 बंदि छोडि विरुद मोटउ हुयउ, तप जप शील प्रमाणि
 गुरुमोटा करम तणा धणी, जाणिउं इणउ इहनाणि ॥१६॥
 बंदि छोडि मोटउ विरुदलाधउ, बादशाहे परखिया ।
 श्रीपासनाह जिणंद तुट्टउ, संघ सकलइ हरखीया ॥१७॥
 श्रीभक्तिलाभ उवझाय बोलइ, भगति आणी अति घणी ।
 श्रीजिणहंससूरि चिरकाल जीवउ, गच्छ खरतर सिरधणी ॥१८॥

इति गुरु गीतम्



श्री पद्ममन्दिर कवि कृत

॥ श्री देवतिलकोपाध्याय चौपई ॥

पास जिणेसर पय नमुं, निरुपम कमला कंद ।

सुगुरुयुणंता पामियइ, अविहड सुख आपंद ॥१॥

भारह्वास अजोध्या ठाम, बाहड गिरि बहुधण अभिराम ।

चवदहसइ चम्माल प्रसिद्ध, निवसइ लोक घणा सुसमृद्ध ॥२॥

ओसवाल भणसाली वंश, निरमल उभय पक्ष ।

करमचंद सुहकरम निवास, तसुघरि जनम्या गुणह निवास ॥३॥

तासु घरणि सोहण जाणियइ, सील सीत उपम आणीयइ ।

पनरहसइ तेत्रीसइ वास, तसु घरि जनम्या गुणह निवास ॥४॥

दीधउ जोसी देदो नाम, अनुक्रमि वाधइ गुण अभिराम ।

रामति रमतउ अति सुकमाल, माइ ताइ मन मोहइ बाल ॥५॥

इगतालइ संजम आदरि, पाप जोग सगला परिहरी ।

भणीय सयल सिद्धांतां सार, छासठइ पद लह्यो उदार ॥६॥

श्रीदेवतिलक पाठक गहगहइ, महियलि महिमा सहुको कहइ ।

देस विदेशे करी विहार, भवियण नइ कीधा उपगार ॥७॥

ईसनयण नभरस ससि वास, सेय पंचमी मिगसर मास ।

करि अणशण आराहण ठाण, पाम्यउ अनिमिष तणउ विमाण ॥८॥

जेसलमेरु थुंभ जाणियइ, प्रगट प्रभाव पुहवि माणीयइ ।

दरसण दीठइ अति उलाह, समरणि सवि टालइ दुखदाह ॥६॥

खास सास जर पसुहज रोग, नाम लियइ नवि आए सोग ।

अधिक प्रताप सलहियइ आज, जो प्रणमइ तसुसारइ काज ॥१०॥

थाल विसाल थापना करी, निरमल नेवज आगलि धरी ।

केसरि चन्दन पूज रसाल, विरची चाढइ कुसमह माल ॥११॥

सृगमद मेलि अगर घनसार, भोग ऊगाहउ अतिहि उदार ।

करि साथियउ अखंड तंदु लइ, सुगुणगान कीजइ तिह वलइ ॥१२॥

चित्त तणी सहि चिंता टलइ, मनह मनोरथ ततखिण फलइ ।

खरतरगणगयणिहि ससि समउ, भाविकलोक करिजोडी नमउ ॥१३॥

गुरु श्रीदेवतिलक उवझाय, प्रणम्यइ बाधइ सुह समवाय ।

अरि करि केसरि विसहर चोर, समर्यउ असिव निवारइ घोर ॥१४॥

ए चउपई सदा जे गुणइ, उठि प्रभाति सुगुरु गुण थुणइ ।

कहइ “पदममंदिर” मनशुद्धि, तसुथाए सुख संपति रिद्धि ॥१५॥



मुनि हर्षकुल कृत

महो० श्रीपुण्यसागर गुरु गीतम्

रागः---सहब

श्रीजगद्गुरु पय वंदीयइ, सारद तणइ पसायजो ।

पंचइंद्रिय जिणि वशिकीय, ते गाइसु मुणिरायजी ॥१॥

मन शुद्धि भावियण भावियइ श्रीपुण्यसागर उवझाउ जी ।

पालइ शील सुदढ सदा, मन वंछित सुखदाउ जी ॥

विमल वदन जसु दीपतउ, जिम पूनम नउ चंद जी ।

मधुर अमृत रस पीवता, थाइ परमाणन्द जी ॥मन०॥२॥

दस विधि साधु धरम धरइ, उपशम रस भण्डारो जी ।

क्षमा खडग करि जिन हण्यउ, हेळइ मदन विकारो जी ॥३॥मन॥

ज्ञान क्रिया गुणि सोहतउ जसु, पणमइ नरवर राउ जी ।

नामइ नव निधि संपजइ, सेवइ मुनिवर पाउ जी ॥४॥म०॥

धन उत्तम दे उरि धरयउ, उदर्यासिंह कुलि दिनकार जी ।

जिन शासन मांहि परगडउ, सुविहित गच्छ सिणगार जी ॥५॥म०॥

श्रीजिनहंस सूरिसरइ सइ हथि दीखिय शीस जी ।

हरषी “हरष कुल” इम भणइ, गुरु प्रतपउ कोडि वरीस जी ॥६॥म०॥

श्री जिनचन्द्रसूरि अरुबर प्रतिबोध रास

दोहा :—राग असावरी

जिनवर जग गुरु मन धरि, गोयम गुरु पणमेसु ।

सरस्वती सदगुरु सानिधइ, श्री गुरु रास रचेसु ॥ १ ॥

बात सुणी जिम जन मुखइ, ते तिम कहिस जगीस ।

अधिको ओछो जो हुवइ, कोप(य?) करो मत रीस ॥ २ ॥

महावीर पाटइं प्रगट, श्री सोहम गणधार ।

तास पाटि चउसट्टिमइ, गच्छ खरतर जयकार ॥ ३ ॥

संवत सोल बारोत्तरइ, जैसलमेरु मंझार ।

श्री जिन माणिक सूरि ने, थापिउ पाट उदार ॥ ४ ॥

मानियो राउल माल दे, गुण गिरुओ गणधार ।

महीयलि जसु यश निरमलो, कोय न लोपइ कार ॥ ५ ॥

तेजि तपइ जिम दिनमणि, श्री जिनचन्द्र सूरिश ।

सुरपति नरपति मानत्री, सेव करइ निश दोश ॥ ६ ॥

युगप्रधान जगि सुरतरु, सूरि शिरोमणि एह ।

श्री जिन शासनि सिरतिलौ, शील सुनिम्मल देह ॥ ७ ॥

पूरव पाटण पामियो, खरतर विरुद अभंग ।

संवत सोल सतोतरे, उजवालइ गुरु रंगि ॥ ८ ॥

साधु विहारे विहरतां, आया गुरु गुजराति ।

करइ चउमासो पाटणे, उच्छव अधिक विख्यात ॥ ९ ॥

चालि राग सामेरी

उच्छव अधिक विख्यात, महीयलि मोटा अवदात ।

पाठक वाचक परिवार, जूथाधिपति जयकार ॥ १० ॥

इणि अवसरि वातज मोटी, मत जाणउ को नर खोटी ।

कुमति जे कीधउ ग्रन्थ, ते दुरगति केरउ पंथ ॥ ११ ॥

हठवाद घणा तिण कीधा, संघ पाटण नइ जसलोधा ।

कुमति नउ मोड़िउ मानं, जग मांहि बधारिउ वांन ॥ १२ ॥

पेखी हरि सारंग त्रासइ, गुरु नामइ कुमति नासइ ।

पूज्य पाटण जय पद पायउ, मोतीड़े नारि बधायउ ॥ १३ ॥

गामागर पुरि विहरंता, गुरु अहमदावाद पहुंचता ।

तिहां संघ चतुर्विध बंदइ, गुरु दरसण करि चिर नंदइ ॥ १४ ॥

उच्छव आडम्बर कीधउ, धन खरची लाहउ लीधउ ।

गुरु जांणी लाभ अनन्त, चउमासि करइ गुणवन्त ॥ १५ ॥

चउमासि तणइ परभाति, सुह गुरु पहुंचता खंभाति ।

चउमासि करइ गुरुराज, श्री संघ तणइ हितकाज ॥ १६ ॥

खरतर गच्छ गयण दिणंद, अभयादिम देव सुणिंद ।

प्रगट्या जिण थंभण पास, जागइ अतिसइ जसवास ॥ १७ ॥

श्री जिनचन्द्र सूरिन्द, भेटयउ प्रभु पास जिणन्द ।

श्री जिन कुंशल सुरीस, बंद्या मन धरि जगीस ॥ १८ ॥

हिब अहमदावाद सुरम्म, जोगीनाथ साह सुधम्म ।

शत्रुंजय भटेणरंगि, तेड्या गुरु वेगि सुचंगि ॥ १९ ॥

सुन्दर सकल सोभागी, खरतर गच्छ गुरु रागी ।

बड़ भागी बलवन्त, लघु बंधव जसवन्त ॥ ३० ॥

श्रेणिक अभय कुमार, तासु तणइ अवतार ।

मुहतो मतिवन्त कहियइ, तसु गुण पार न लहियइ ॥ ३१ ॥

पिसुण तणइ पग फेर, मुंकी वीकम नयर ।

लाहोरि जईय उच्छाहि, सेव्यो श्री पातिशाह ॥ ३२ ॥

मोटउ भूपति अकबर, कउण करइ तसु सरभर ।

चिहुं खण्ड वरतिय आण, सेवइ नर राय रांण ॥ ३३ ॥

अरि गंजण भंजन सिंह, महीयलि जसु जस सीह ।

धरम करम गुण जांण, साचउ ए सुरताण ॥ ३४ ॥

बुद्धि महोदधि जाणी, श्रीजी निज मनि आणी ।

कर्मचन्द तेड़ीय पासि, राखइ मन उलासि ॥ ३५ ॥

मान महुत तसु दीधउ, मन्त्रि सिरोमणि कीधउ ।

कर्मचन्द शाहि सुं प्रीत, चालइ उत्तम रोति ॥ ३६ ॥

मीर मलक खोजा खान, दीजइ राय राणा मान ।

मिलीया सकल दीवाणि, साहिव बोलइ मुख वाणि ॥ ३७ ॥

मुंहता काहि तुझ मर्म, देव कवण गुरु धर्म ।

भंजउ मुझ मन भ्रन्ति, निज मनि करिय एकन्ति ॥ ३८ ॥

राग सोरठी दोहा

वलतउ मुहतउ विनवइ, सुणि साहब मुझ वात ।

देव दया पर जीव ने, ते अरिहंत विख्यात ॥ ३९ ॥

क्रोध मान माया तजी, नहीं जसु लोभ लगार ।

उपशम रस में झीलता, ते मुझ गुरु अणगार ॥ ४० ॥

शत्रु मित्र दोय सारिखा, दान शीयल तप भाव ।

जीव जतन जिहां कीजिय, धर्मह जाणि स्वभाव ॥ ४१ ॥

मई जाण्या हई बहुत गुरु, कुग तेरइ गुरु पीर ।

मन्त्रि भणइ साहिब सुणउ, हम खरतर गुरु धीर ॥ ४२ ॥

जिनदत्त सूरि प्रगट हइ, श्री जिन कुशल मुनिन्द ।

तसु अनुक्रमि हइ सुगण नर, श्रीजिनचन्द सुरिंद ॥ ४३ ॥

रूपइ मयण हराविउ, निरुपम सुन्दर देह ।

सकल विद्यानिधि आगरु, गुण गण रयण सुगेह ॥ ४४ ॥

संभलि अकबर हरखियउ, कहां हइ ते गुरु आज ।

राजनगर छई सांप्रतइ, सांभलि तुं महाराज ॥ ४५ ॥

राग धन्या श्री

बात सुणी ए पातिशाह, हरखियउ हीयइ अपार ।

हुकम कियो महता भणी, तेडि गुरु लाय म वार ॥ ४६ ॥

अत वार लावइ सुगुरु तेडण. भेजि मेरा आदमी ।

अरदास इक साहिब आगइ, करइ मुहतउ सिर नमी ॥ ४७ ॥

अव धूप गाढि पाव चलिय, प्रवहण कुल बइसे नहीं ।

गुजराति गुरु हइ डीलि गिरुआ, आविन सकइ अवसही ॥ ४८ ॥

बलतउ कहइ मुहता भणी, तेडउ उसका सीस ।

दुइ जण गुरु नइ मुकीया, हित करी विश्वा वीस ॥ ४९ ॥

हितकरि मूक्या वेगि दुइजण, मानसिंह इहां भेजीय ।

जिम शाहि अकबर तासु दरसणि, देखि नियमन रंजीय ॥ ५० ॥

महिमराज वाचक सातठाणे, मुकीया लाहोर भणी ।

मुनि वेग पहुंता शाहि पासइ, देखि हरखिउ नरमणी ॥ ४७ ॥

साहि पूछइ वाचक प्रतई, कब आवइ गुरु सोय ।

जिण दीठइ मन रंजीय, जास नमइ बहुल्येय ॥

बहु ल्येय प्रणमइ जासु पयतलि, जगत्रगुरु हइ ओ बड़ा ।

तब शाहि अकबर सुगरु तेडण, वेगि मुंकइ मेवड़ा ॥

चउमासि नयडी अबही आवइ, चालवउ नवि गुरु तणउ ।

तब कहइ अकबर सुणो मंत्री, लाभ चउंगउ तसु घणउ ॥४८॥

पतशाहि जण अविया, सुह गुरु तेडण काजि ।

रंजस कुछ ते नवि करइ, गह गहीयउ गच्छराज ॥

गच्छराज दरसणि वेगि देखि, हेजि हियडउ हींस ए ।

अति हर्ष आणो साहि जणते, वार वार सलीस ए ॥

सुरताण श्रीजी मंत्रवीजी, लेख तुम्ह पठाविया ।

सिर नामी ते जण कहइ गुरु कुं, शाहि मंत्री बोलाविया ॥४९॥

सुह गुरु कागल वांचिया, निज मन करइ विचार ।

हिव मुझ जावउ तिहां सही, संघ मिलिउ तिण वार ॥

तिणवार मिलियउ संघ सघलो, वइस मन आलोच ए ।

चउमास आवी देश अलगउ, सुगुरु कहउ किम पहुंच ए ॥

समझावि श्रीसंघ खंभपुर थी, सुगुरु निज मन दइ सही ।

मुनिवेग चाल्या शुद्ध नवमी, लाभ वर कारण लही ॥५०॥

राग सामेरी दूहाः—

सुन्दर शकुन हुआ बहु, केता कहुं तस नाम ।

मन मनोरथ जिण फलइ, सीझइ वंछित काम ॥५१॥

वंदी वडलावी वलइ, हरखइ संघ रसाल ।

भाग्यबली जिणचंद गुरु, जाणइ बाल गोपाल ॥५२॥

तेरसि पूज्य पधारिया, अमदावाद मंझार ।

पइसारउ करि जस लीयउ, संघ मल्यो सुविचार ॥५३॥

हिव चउमासो आवियउ, किम हुइ साधु विहार ।

गुरु आलोचइ संघ सुं, नावइ बात विचार ॥५४॥

तिण अवसरि फुरमाणि वलि, आव्या दोय अपार ।

घणुं २ मुहतइ लिख्यो, मत लावउ तिहां वार ॥५५॥

वर्षा कारण मत गिणउ, लोक तणउ अपवाद ।

निश्चय वहिला आवज्यो, जिम थाइ जसवाद ॥५६॥

गुरु कारण जांणी करी, होस्यइ लाभ असंख ।

संघ कहइ हिव जायवउ, कोय करउ मत कंख ॥५७॥

ढालःगौड़ी (निंबीयानी) (आंकडी)

परम सोभागी सहगुरु वंदियइ, श्रीजिनचंद सूरिन्दो जी ।

मान दीयइ जस अकवर भूपति, चरण नमइ नरवृन्दो जी ॥५८॥

संघ वंदावी गुरुजी पांगुरथा, आया म्हेसाणे गामो जी ।

सिधपुर पहुंता खरतर गच्छ घणी, साह वनो तिण ठामो जी ॥

गुरु आडंबर पइसारो कियउ, खरचिउ गरथ अपारो जी ।

संघ पाटण नउ वेगि पधारियउ, गुरुवंदन अधिकारो जी ॥५९॥

पूज्य पाल्हण पुरि पहुंता शुभ दिनइ, संघ सकल उच्छाहो जी ।

संघ पाटण नउ गुरु वांदी वलिउ, लाहिण करिल्यइ लाहो जी ॥६०॥

महुर बधाउ आविउ सिवपुरि, हरखिउ संघ सुजाणो जी ।

पालहणपुर श्रीपूज्य पधारिया, जाणिउ राव सुरताणो जी ॥६१॥प०

संघ तेडी ने रावजी इम भणइ, आपुं छुं असवारो जी ।

तेडि आवउ वेगि मुनिवरु, मत लावउ तुम्ह वारो जी ॥६२॥

श्रीसंघ राय जण पालहणपुरि जइ, तेडी आवइ रंगो जी ।

गामागर पुर सुहगुरु विहरता, कहता धर्म सुचंगो जी ॥६३॥

राग देशाख ढाल (इकवीस ढालिधानी)

सीरोही रे आवाजउ गुरु नो लही, नर-नारी रे आवइ साम्हा उमही ।
हरि कर रथ रे पायक बहुला विस्तरइ,

कोणी(क) जिम रे गुरु वंदन संघ संचरइ ॥

संचरइ वर नीसांण नेजा, मधुर मादल वज्ज ए ।

पंच शब्द झलरि संख सुस्वर जाणि अंबर गज्ज ए ॥

भर भरइ भेरी वलि नफेरी, सुहव सिर घटकज्ज ए ।

सुर असुर नर वर नारि किन्नर, देखि दरसन रंज ए ॥६४॥

वर सुहव रे पूठि थकी गुण गावती, भरि थाली रे मुक्ताफल वधावती ।

जय र खर रे कवियण जण मुख उचरइ, वर नयरी रे माहे इम गुरु संचरइ

संचरइ श्रावक साधु साथइ, आदि जिन अभिनंदिया ।

सोवनगिरि श्रीसंघ आवउ, उच्छव कर गुरु वंदिया ।

राय श्रीसुलताण आवी, वंदि गुरु पय वीनवइ ।

मुझ कृपा कीजइ बोल दीजइ, करउ पजुसण हिवइ ॥६५॥

गुरु जाणि रे आग्रह राजा संघ नउ, पजुसण रे करइ पूज्य संघ शुभ मनउ ।

अढाही रे पाली जीव दया खरी, जिनमंदिर रे पूजइ श्रावक हितकरी ।

हितकरिय कहइ गुरु सुणउ नरपति, जीव हिंसा टालीयइ ॥
 किण पर्व पूनिम दिद्ध मंड तुझ, अभय अविचल पालीयइ ।
 गुरु संघ श्रीजावालपुर नई वेगि पहुंता पारणइ ॥
 अति उच्छव कियउ साह वन्नइ सुजस लीधो तिणि खिणइ ॥६६॥
 मंत्री कर्मचन्द रे करि अरदास सुसाहिनइ ।
 फुरमाणा रे मूक्या दुइ जण पूज्य ने ॥
 चउमासउ रे पूरउ करिय पधारजो ।
 पण किण इक रे पछइ वार म लगाइजो ।
 म लगाइजो तिहां बार काइ, जहति जाणी अति घणी ॥
 पारणइ पूज्य विहार कीधउ, जायवा लाहुर भणी ।
 श्रीसंघ चउविह सुगुरु साथइ, पातिशाही जण वली ॥
 गांधर्व भोजक भाट चारण मिला गुणियन मन रली ॥६७॥
 हिव देखेरे गाम सराणउ जाणियइ, भमराणी रे खांडपरंगि वखाणियइ,
 संघ आवी रे विक्रमपुर नो उमही ।
 गुरु वंद्यारे महाजन मजलइ गहगही ॥
 महि गहीय लाहिण संघ कीधी नयर द्रुणाडइ गयो ।
 श्रीसंघ जेसलमेरु नो तिहां वंदी गुरु हरखित थयो ।
 रोहीठ नइगइ उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया ।
 साह थिरइ मेरइ सुजस लाधा, दान बहु दवरविया ॥ ६८ ॥
 संघ मोटउ रे, जोधपुरउ तिहां आवीयउ,
 करि लाहिण रे शासनि शोभ चढावियो ।
 सब चोथौ रे, नांदी करी चिहुं उच्चयो ।

तिथि बारस रे, मुंको ठाकुर जस बर्यो ।

जस बर्यो संघइ नयर पाली, आडंबर गुरु मंडियउ ।

पूज्य वांदिया तिहां नांदि मांडी, दानि दालिद्र खंडियउ ।

लांबियां ग्रामइं लाभ जाणो, सूरि सोझित निरखिया ।

जिनराज मंदिर देखो सुन्दर, वंदि आवक हरखिया ॥ ६६ ॥

चौलाडइ रे, आनन्द पूज्य पधारोए ।

पइसारउ रे, प्रगट कीयउ कट्टारीए ।

जइतारणि रे, आवे बाजा बाजिया ।

गुरु वंदी रे, दान बलइ संघ गाजिया ॥

गाजियउ जिनचंद्रसूरि गच्छपति, वीर शासनि ए बडो ।

कलिकाल गोत्रम स्वामि समवइ, नहीय को ए जेवडउ ।

विहरता मुनिवर वेगि आवइ, नयर मोटइ मेडतइ ।

परसरइ आया नयर केरे, कहइ संघ मुंहना प्रतइ ॥ ७० ॥

॥ राग गौडो धन्या श्री ॥

कर्मचन्द्र कुल सागरे, उदया सुत दीय चन्द्र ।

भागचन्द्र मंत्रोसर, बांधव लिखमीचन्द्र ।

हय गय रह पायक, मेली बहु जन वृन्द ।

करि सबल दवाजउ, वंदइ श्री जिनचन्द्र ॥ ७१ ॥

पंच शब्दउ झलरि, बाजइ ढोल नीसांग ।

भवियण जण गावइ, गुरु गुण मधुरि वाण ।

तिहां मिलीयो महाजन, दीजइ फोफल दान ।

सुन्दरी सुकलीणी, सूइव करइ गुण गान ॥ ७२ ॥

गज डम्बर सबलइ, पूज्य पधार्या जांम ।

मन्त्री लाहिण कीधी, खरची बहुला दाम ।

याचक जन पोष्या, जग में राख्यो नाम ।

धन धन ते मानव, करइ जउ उत्तम काम ॥ ७३ ॥

व्रत नन्दि महोत्सव, लाभ अधिक तिण ठाण ।

ततखिण पातशाहि, आव्या ले फुरमाण ।

चाल्या संघ साथइ, पहुंता फलवधि ठाणि ।

श्री पास जिणेसर, दंघा त्रिभुवन भाणि ॥ ७४ ॥

हिब नगर नागोरउ रइं आया श्री गच्छराज ।

वाजित्र बहु हय गय मेली श्री सङ्घ साज ।

आवि पद वंदी करइ हम उत्तम आज ।

जउ पूज्य पधार्या तउ सरिया सब काज ॥ ७५ ॥

मन्त्रीसर वांदइ मेहइ मन नइ रङ्ग ।

पइसारो सारउ कीधो अति उच्छरङ्ग ।

गुरु दरसन देखि बधियो हर्ष कलोल ।

महीयलि जस व्यापिउ आपिउ वर तंवल ॥ ७६ ॥

गुरु आगम ततखिण प्रगटियो पुन्य पडूर ।

संघ बीकानेरउ आविउ संघ सनूर ।

त्रिणसइं सिजवाला प्रवहण सइं बलि च्यार ।

धन खरचइ भवियण, भावइ वर नर नारि ॥ ७७ ॥

अनुक्रम पड़िहारइ, राजुलदेसर गामि ।

रस रंग रीणीपुर, पहुंता खरतर स्वामि ।

संघ उच्छव मंडइ आडंबर अभिराम ।

संघ आवियो वंदण, महिम तणउ तिण ठाम ॥७८॥

खरची धन अरची श्री जिनराय विहार ।

गुरु वाणि सुणि चित्त हरखिउ संघ अपार ।

संघ वंदी बलीयउ, पहुंतउ महिम मंझार ।

पाटणसरसइ बलि, कसूर हुयउ जयकार ॥७९॥

लाहुर महाजन वंदन गुरु सुजगीस ।

सनमुख ते आविउ चाली कोस चालीस !

आया हापाणइ श्रीजिनचन्द सूरिश ।

नर नारी पयतलि सेव करइ निसदीस ॥८०॥

राग गौड़ी दूहा:—

चेगि बधाउ आवियउ, कीयउ मंत्रीसर जाण ।

क्रम २ पूज्य पधारिया, हापाणइ अहिठाण ॥८१॥

दीधी रसना हेम नी, कर कंकरण के काण ।

दानिइ दालिद खंडियउ, तासु दीयउ बहुमान ॥८२॥

पूज्य पधार्या जाण करि, मेळी सब संघात ।

पहुंता श्री गुरु वांदिवा, सफल करइ निज आथ ॥८३॥

नेड़ी डेरइ आण करि, कइइ साह नई मन्त्रीस ।

जे तुम्ह सुगुरु बोलाविया, ते आब्या सुरीस ॥८४॥

अकबर बलतो इम भणइ, तेडुउ ते गणधार ।

दरसण तसु कउ चाहिये, जिम हुइ हरष अपार ॥८५॥

राग गौड़ा बालूडानी:—

पंडित मोटा साथ मुनिवर जयसोम,
 कनकसोम विद्या बरू ए ।
 महिमराज रत्ननिधान वाचक,
 गुणविनय समयसुन्दर शोभा धरू ए ॥८६॥
 इम मुनिवर इकतीस गुरु जी परिवर्या,
 ज्ञान क्रिया गुण शोभता ए ।
 संव चतुर्विध साथ याचक गुणी जण,
 जय जय वाणी बोलता ए ॥८७॥
 पहुंता गुरु दीवाण देखी अकबर,
 आवइ साम्हा उमही ए ।
 वंदी गुरु ना पाय मांहि पधारिया,
 सइंहथि गुरु नौ कर प्रही ए ॥८८॥
 पहुंता दउड़ी मांहि, सुहगुरु साह जो
 धरमवात रंगे करइ ए ।
 चिंते श्रीजी देखी ए गुरु सेवतां,
 पाप ताप दूरइ हरइ ए ॥८९॥
 गच्छपति थे उपदेश, अकबर आगलि
 मधुर स्वर वाणी करी ए ।
 जे नर मारइ जीव ते दुख दुरगति,
 पामइ पातक आचरो ए ॥९०॥

बोलइ कूड़ बहुत ते नर मध्यम,
 इण परभवि दुख लइइ ए।
 चोरी करम चण्डाल चिहुं गति रोलवइ,
 परम पुरुष ते इम कहइ ए ॥६१॥
 पर रमणि रस रंगि सेवइ जे नर,
 दुरगति दुख पावइ वही ए।
 लोभ लगी दुखहोय जाणउ भूपति,
 सुख संतोष हवइ सही ए ॥६२॥
 पंचइ आश्रव ए तजे नर संवरइ,
 भवसायर हेलां तरइ ए।
 पामइ सुख अतन्त नर वइ सुरपद,
 कुमारपाल तणी परइ ए ॥६३॥
 इम सांभलि गुरु वाणि रंजिउ नरपति,
 श्री गुरु ने आदर करइ ए।
 धण कंचन वर कोडि कापड़ बहु परि,
 गुरु आगइ अकबर धरइ ए ॥६४॥
 लिउ टुक इहु तुम्ह सामि जा कुछ चाहिये,
 सुगुरु कहइ हम क्या करां ए।
 देखि गुरु निरलोभ रंजिउ अकबर,
 बोलइ ए गुरु अणुसरां ए ॥६५॥
 श्रीपुज्य श्रीजी दोय आध्या बाहिरि,
 सुणउ दिवांणी काजीयो ए।

धरम धुरंधर धीर गिरुओ गुणनिधि,
जैन धर्म को राजीयो ए ॥६६॥

॥ राग धन्याश्री ॥

संफल ऋद्धि धन संपदा, कायम हम दिन आज ।
गुरु देखी साहि हरखियो, जिम केकी घन गाज ॥६७॥
घणी भुई चाली करि, आया अब हम पासि ।
पहुंचो तुम निज थानकै, संघमनि पूरी आस ॥६८॥
वाजिन्न हयगय अम्ह तणा, मुंहता ले परिवार ।
पूज्य उपासरइ पहुंचवउ, कारि आडम्बर सार ॥६९॥
वलतउ गुरुजी इम भणइ, सांभलि तूं महाराय ।
हम दोवाज कया करां, साचउ पुन्य सखाय ॥१००॥
आग्रह अति अकबर करी, म्हेलइ सवि परिवार ।
उच्छव अधिक उपासरइ, आवइ गुरु सुविचार ॥१०१॥

राग आशावरी:—

हय गय पायक बहुपरि आगइ, वाजइ गुहिर निसाण ।
धवल मंगल छइ सूह्व रंगइ, मिलीया नर राय राण ॥२॥
भाव धरीने भवियण भेटउ, श्रीजिनचन्दसूरिन्द ।
मन सुधि मानित साहि अकबर, प्रणमइ जास नरिन्द रे ॥भ०॥आं॥
श्री सङ्ग चउविह सुगुरु साथइ, मंत्रीश्वर कर्मचन्द ।
पइसरो शाह परबत कीधउ, आणिमन आणंद रे ॥ ३ ॥ भाव० ॥
उच्छव अधिक उपाश्रय आव्या, श्री गुरु छइ उपदेश ।
अमीय समाणि वाणि सुगंता, भाजइ सयल किलेस रे ॥४॥भा०॥

भरि सुगताफल थाल मनोहर, सूहव सुगुरु बधावइ ।

प्राचक हर्षइ गुरु गुण गांता, दान मान तव पावइ रे ॥५॥ भा०
फागुण सुदि बारस दिन पहुंता, लाहुर नयर मंझारि ।

मनवंचित सहकेरा फलीया, वरत्या जय जयकार रे ॥६॥भा०॥
दिन प्रति श्रीजी सुं वलि मिलतां, वाधिउ अधिक सनेह ।

गुरु नी सूरति देखि अकबर, कहइ जग धन धन एहरे ॥७॥ भा०
कइ क्रोधी के लोभी कूड़े, के मनि धरइ गुमान ।

। षट् दरशन मइं नयण निहाले, नहीं कोइ एह समान रे ॥८॥भा०
हुकम कीयउ गुरु कुं शाहि अकबर, दउढ़ी महल पधारउ ।

श्री जिनधर्म सुणावी मुझ कुं, दुरमति दूरइ वारउ रे ॥९॥भा०
धरम वात (रं) गइ नित करता, रंजिउ श्री पातिशाहि ।

लाभ अधिक हुं तुम कुं आपीस, सुणि मनि हुयउ उच्छाहि रे ॥१०॥

रागः—धन्याश्री । ढालः सुणि सुणि जंबू नी

अन्य दिवस वलि निज उलट भरइं, महुरसउ ऐकज गुरु आगे धरइ ।

इम धरइ श्री गुरु आगलि तिहाँ अकबर भूपति ।

गुरुराज जंपइ सुणउ नरवर नवि प्रहइ ए धन जति ।

ए वाणि सम्भलि शाहि हरष्यो, धन्य धन ए मुनिवरू ।

निग्लोभ निरमम मोह वरजित रूपि रंजित नरवरू ॥११॥

तब ते आपिउ धन मुंहताभणी, धरम सुथानिक खरचउ ए गणी ।

ए गणीय खरचउ पुन्य संचउ कीयउ हुकम मुंहता भणी ।

धरम ठामि दीधउ सुजस लीधउ वयी महिमा जग वणी ।

इम चैत्री पूनम दिवस सांतिक, साहि हुकम मुंहतइ कोयउ ।

जिनराज जिनचंदसूरि वंदी, दान याचक नइ दीयउ ॥ १२ ॥

सज करो सेना देस साधन भणी,

कास्मीर ऊपर चढीयउ नर मणी ।

गुरु भणीय आप्रह करीय तेड़या, मानसिंह मुनि परवर्या ।

संचर्या साथइ राय रांगा, उम्बरा ते गुणभर्या ॥

वलि मीर मिलक बहु खान खोज, साथि कर्मचन्द मंत्रवो ।

सब सेन वाटइ वहइ सुत्रधइ, न्याय चलवइ सूत्रवी ॥ १३ ॥

श्री गुरु वाणि श्रीजी नितु सुणइ,

धर्म मूर्ति ए धन धन सुह भणइ ।

शुभ दिनइ रिपु बल हेलि भंजी, नयर श्रीपुरि उतरी ।

अम्मारि तिहां दिन आठ पाली देश साथी जयवरी ।

आवियउ भूपति नयर लाहुर, गुहिर वाजा बाजिया ।

गच्छराज जिनचंदसूरि देखी, दुख दूरइ भाजीया ॥ १४ ॥

जिनचन्दसूरि गुरु श्रीजी सुं आवि मिली,

एकान्तइ गुण गोठि करइ रली ।

गुण गोठि करतां चित्त धरतां सुणिवि जिनदत्तसूरि चरी ।

हरखियउ अकबर सुगुरु उपरि प्रथम सई सुख हितकरी ।

जुगप्रधान पदवो दिद्धगुरु कुं, त्रिविध वाजा बाजिया ।

बहु दान मानइ गुणह गानइ, संघ सवि मन गाजिया ॥ १५ ॥

गच्छपति प्रति बहु भूपति वीनवइ ।

सुणि अरदास हमारो तुं हिवइ ॥

अरदास प्रभु अवधारि मेरी, मंत्रि श्रीजी कहइ बली ।

महिमराज ने प्रभु पाटि थापउ, एह सुझ मन छइ रली ॥

गुणनिधि रत्ननिधान गणिनई, सुपद पाठक आपीयइ ।

शुभ लगन वेला दिवस लेइ, वेगि इनकुं थापियइ ॥ १६ ॥

नरपति वांणी श्रीगुरु सांभली,

कहइ मंड मानी बातज ए भली ।

ए बात मांनी सुगुरु वांणी, लगन शोभन वासरइ ।

मांडियउ उच्छव मंत्रि कर्मचन्द, मेलि महाजन बहुरइ ॥

पातिशाहि सइमुख नाम थापिउ, सिंह सम मन भाविया ।

जिनसिंह सूरि सुगुरु थाप्या, सूहवि रंग बधाविया ॥ १७ ॥

आचारज पद श्री गुरु आपिउ,

संघ चतुर्विध साखइ थापियउ ।

व्यापीउ निरमल सुजस महीयलि, सयल श्रीसंघ सुखकरु ।

चिरकाल जिनचंदसूरि जिनसिंह, तपउ जिहां जगि दिनकरु ॥

जयसोम रत्ननिधान पाठ (क), दोय वाचक थापिया ।

गुणविनय सुन्दर, समयसुन्दर, सुगुरु तसु पद आपीया ॥ १८ ॥

धप मप धों धों मादल बाजिया,

तव तसु नादइ अम्बर गाजिया ।

वाजिया ताल कंसाल तिवली, भेरि वीणा भृंगली ।

अति हर्ष माचइ पात्र नाचइ, भगति भामिनी सवि मिलो ;

मोतीयां थाल भरेवि उलटि, वार वार बधावती ।

इक रास भास उलासि देतो, मधुर स्वर गुण गावती ॥ १९ ॥

कर्मचन्द्र परगट पद ठवणो कीयो,

संव भगति करि सयण संतोषीयउ ।

संतोषिया जाचक दान देइ, किद्ध कोडि पसाउ ए ।

संप्राम मंत्री तणउ नन्दन, करइ निज मनि भाउ ए ॥

नव ग्राम गइंवर दिद्ध अनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री वली ।

मांगता अश्व प्रधान आप्या, पांचसइ ते सवि मिली ॥ २० ॥

इण परि लाहुरि उच्छव अति घणा,

कीधा श्री संघ रंगि बधावणा ।

इम चोपडा शाख शृङ्गार गुणनिधि, साह चांपा कुल तिलउ ।

धन मात चांपल देइ कहीय, जासु नन्दन गुण निलउ ॥

विधि वेद रस शशि मास फागुन, शुक्ल बीज सोहामणी ।

थापी श्री जिनसिंह सूरि, गुरुवउ संघ बधामणी ॥ २१ ॥

राग—धन्याश्री

हाल—(जीरावल मण्डण सामो लहिस जी)

अविहड़ि लाहुरि नयर बधामणाजी, वाज्या गुहिर निसाण ।

पुरि पुरि जी (२) मंत्री बधाऊ मोकल्या जी ॥ २२ ॥

हर्ष धरी श्रीजी श्रीगुरु भणी जी, बगसइ दिवस सुसात ।

वरतइ जी (२) आण हमारी, जां लगइ जी ॥ २३ ॥

मास असाढ अठाइ पालवी जी, आदर अधिक अमारो ।

सघलइ जी (२) लिखि फुरमाण सु पाठवीजी ॥ २४ ॥

वरस दिवस, लगि जलचर मूकियाजी, खंभनगर अहिठाणि ।

गुरु नइ जी (२) श्रीजी लाभ दीयउ घणउजी ॥ २५ ॥

द्यइ आसीस दुनी महि मंडलइजो, प्रतिपइ कोडि बरीस ।

ए गुरुजो (२) जिण जगिजीव छुड़ाविया जो ॥ २६ ॥

राग—धन्याश्रो ।

ढालः— (कनक कमल पगला ठवइ ए)

प्रगट प्रतापी परगडो ए, सूरि बडो जिणचन्द ।

कुमति सवि दूरे टल्या ए, सुन्दर सोहग कन्द ॥ २७ ॥

सदा सुहगुरु नमोए, दइ अकबर जसु मानं । सदा० । आंकणी ।

जिनदत्तसूरि जग जागतउ ए, गरुने सानिधकार । स० ।

श्रीजिनकुशल सूरीश्वरु ए, वंछित फल दातार ॥स०॥ २८ ॥

रीहइ वंशइ चंदलउ ए, श्रीवन्त शाह मल्हार । स० ।

सिरीयादे उरि हंसलउ ए, माणिकसूरि पटधार ॥स०॥ २९ ॥

गुरु ने लाभ हुया घणां ए, होस्यइ अवर अनन्त । स० ।

धरम महाविधि विस्तरइ ए, जिहां विहरइ गुणवंत ॥ स०॥ ३० ॥

अकबर समवडि राजीयउ ए, अवर न कोई जाण । स० ।

गच्छपति मांहि गुणनिलउ ए, सूरि वडउ सुरताण ॥ स०॥ ३१ ॥

कवियण कहइ गुण केतलाए, जसु गुण संख न पार । स० ।

जिरंजीवउ गुरु नरवरु ए, जिन शासन आधार ॥स०॥ ३२ ॥

जिहां लगी महीयलि सुर गिरीए, गयण तपइ शशि सूर । स० ।

जिनचन्द रि तिहां लगइ, प्रतपउ पून्य पडूर ॥ ३३ ॥ स० ॥

वसु युग रस शशि बच्छरइ ए, जेठ वदि तेरस जांणि ।स०।

शांति जिनेसर सानिधइ ए, रास चडिउ परमाणि ॥३४॥स०॥

आग्रह अति श्री संघ नइ ए, अहमदाबाद मंझारि ।स०।

रास रच्यो रलियामणउ ए, भवियण जण सुखकार ॥३५॥स०॥

पढ़इ गु(सु)णइ गुरु गुण रसी ए, पूजइ तास जगीस ।स०।

कर जोड़ी कवियण कहइ, विमल रंग मुनि सीस ॥३६॥स०॥

इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सूरेश्वर रास समाप्ता मिति ।

लिखितं लब्धिकल्लोल मुनिभिः श्री स्तम्भ तीर्थे, पं० लक्ष्मीप्रमोद
मुनि वाच्यमानं चिरं नद्यात् यावच्चन्द्र दिवावरौ । श्रीरस्तु ।



ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह



युगप्रधान जिनचन्द्रसूरिजीकी मूर्ति

(बीकानेरके ऋषभ जिनालयमें
सं० १६८६ प्रतिष्ठित मूर्ति)

* कवि समयप्रमोद कृत *

॥ श्रीयुगप्रधान निर्वाण रास ॥

दोहा राग (आसावरी)

गुणनिधान गुरु^१ पाय नमि, वाग वाणि अनुसार (आधारि) ।

युगप्रधान निर्वाण नी, महिमा कहिसुं विचार ॥ १ ॥

युगप्रधान जंगम यति, गिरुआ गुणे गम्भीर ।

श्री जिनचन्द सुरिन्दवर, धुरि धोरी ध्रम धीर ॥ २ ॥

संवत पनर पंचाणूयइ, रीहड़ कुलि अवतार ।

श्रीवन्त सिरिया दे धर्यउ,^२ सुत सुरताण कुमार ॥ ३ ॥

संवत सोल चड़ोत्तरइ, श्री जिनमाणिक सूरि ।

सइ हथि संयम आदर्यउ, मोटइ महत पडूरि ॥ ४ ॥

महिपति जेसलमेरु नइ, थाप्या राउल माल ।

संवत सोल बारोत्तरइ, शत्रु तणइ सिर साल ॥ ५ ॥

ढाल (१) राग जयतसिरि

(करजोड़ी आगल रही एहनी ढाल)

आज बधावौ संघ मइं, दिन दिन बधते^३ वानइ रे ।

पूज्य प्रताप बाधइ^४ घणौ, दुश्मन कीधा कानइ रे ॥६॥ आ०

१ गौतम २ देवीनइ ३ बाधइ ४ बधइ

सुविहित पद उजवालयु, पूज्य परिहरइ परिग्रह माया रे ।

उग्र विहारइ विहरतां, पूज्य गुर्जर खंडइ आया रे ॥ ७ ॥

रिषिमतीयां सुं तिहां थयउ, अति झूठी पोथी वादौ रे ।

पुज्य वल्लत बल कुमतियां, परगट गाल्यउ नादौ रे ॥८॥ आ०॥

पूज्य तणी महिमा सुणी, सन्मान्या अकबर शाहइ रे ।

शुगप्रधान पद आपियउ, सह लाहउर उच्छाहइ रे ॥९॥ आ०॥
कोडि सवा धन खरचियउ, मंत्रि क्रमचन्द्रजी भूपालइ रे ।

आचारिज पद तिहां थयउ, संवत सोल अडतालइ रे ॥१०॥आ०॥

संवत सोलसइ बावनइ, पुज्य पंच नदी (सिन्धु) साधी रे ।

जित कासी जय पामियउ, करि गोतम ज्युं सिधि वाधी रे ॥११॥आ०॥

राजा राणा मंडली, एतउ आइ नमें निज भावइ रे ।

श्रीजिनचंदसूरिसरु, पुज्य सुशब्द नित २ पावइ रे ॥१२॥आ०॥

संइ हथि करि जे दीखिया, पूज्य शीश तणा परिवारो रे ।

ते आगम नइ अर्थे भर्या, मोटी पदवीधर सुविचारो रे ॥१३॥आ०॥

जोगी, सोम, शिवा समा, पूज्य कीधा संघवी साचा रे ।

ए अवदात सुगुरु तणा, जाणि माणिक हीरा जाचा रे ॥१४॥आ०॥

१ इस रासकी ३ प्रतियें हमारे पास हैं जिनमें ऐसा ही लिखा है । सुद्वित,
“गणधर सार्ध शतक” में भी इसी प्रकार है । किन्तु पट्टावलि आदि
में सर्वत्र सं० १६४९ ही लिखा है ।

२ आप तणइ ३ बलि

॥ दोहा सोरठी ॥

महा मुणीश्वर मुकुट मणि, दरसणियां दीवांण ।

च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नउ सुरतांण ॥१५॥

अतिशय आगर आदि लगि, झूठ कहुं तउ नेम ।

जिम अकबर सनमानिउ, तिम वलि शाहि सलेम ॥१६॥

ढाल (जतनी)

पातिसाहि सलेम सटोप, क्रियउ दरसणियां सुं कोप ।

ए कामणगारा कामो, दरवार थो दूरि हरामी ॥१७॥

एकन कुं पाग बंधावउ, एकन कुं नाआस अणावउ ।

एकन कुं देशवटो जंगल दोजे, एकन कुं पखालो कोजइ ॥१८॥

ए शाहि हुकुम सांभलिया, तसु कोप (कउप) थका खळभलिया ।

जजमान मिलो संयतना, दरहाल करइ गुरु जतना ॥१९॥

के नासि हीई पूंठि पडोया, केइ मइवासइ जइ चढोया ।

केइ जंगल जाई बइठा, केइ दौडि गुरू मांई (जाइ) पइठा ॥२०॥

जे नासत यवने झाल्या, ते आणि भाखसी घाल्या ।

पाणी नै अन्नज पाल्या, वयरीडा वयर सुं साल्या ॥२१॥

इम सांभलि शासन होला, जिगवंइ सुरोश सुशीला ।

गुजराति धरा थी पधारइ, जिन शासन वान वधारइ ॥२२॥

अति आसति वलि गुरु चालो, अपुरां भय दूरइ पालो ।

उप्रसेनपुइ पउधारइ, पुज्य शाहि तणइ दरवारई ॥२३॥

पूज्य देखि दीदारइ मिलिया, पातिशाह तगा कोप गलीया ।

गुजराति धरा क्युं आए, पातिशाहि गुरु बतलाए ॥२४॥

पातिशाहि कुं देण आशीश, हम आए शाहि जगोश ।

काहे पाया दुःख शरीर, जाओ जउख करउ गुरु पीर ॥२५॥

एक शाहि हुकुम जउ पावां, बंदियडां बंदि छुडावां ।

पातिशाहि खयरत करीजइ, दरशणियां पूरुं (दूवउ) दीजइ ॥ २६ ॥

पातिशाहि हुंतउ जे जूठउ, पूज्यभाग बलइ अति तूठउ ।

जाउ विचरउ देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोइ न वारइ ॥ २७ ॥

धन धन खरतरगच्छ राया, दर्शनियां दण्ड छुडाया ।

पूज्य सुयश करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडतइ आया ॥२८॥

दूहा (धन्यासिरि)

श्रावक श्राविका बहु परइ, भगति करइ सविशेष ।

आण वहै गुरुराज नी, गौतम समवड देखि ॥ २९ ॥

धरमाचारिज धर्म गुरु, धरम तणउ आधार ।

द्विव चउमासउ जिहां करइ, ते निसुणौ सुविचार ॥ ३० ॥

ढाल (राग--धवल धन्यासिरी, चिन्तामणिपासपूजियै)

देश मंडोवर दीपतउ, तिहां बीलाडा नामौ रे ।

नगर वसै विवहारिया, सुख संपद अभिरामौ रे ॥३१॥ दे० ॥

धोरी धवल जिसा तिहां, खरतर संघ प्रधानो रे ।

कुल दीपक कटारिया, जिहां घरि बहु धन धानो रे ॥३२॥दे०॥

१ बंध, २ दंड, ३ श्रावी, ४ जिहॉ रहै, ५ सहुरमतइ ।

पंच मिली आलोचिया, इहां पूज्य करै चौमासो रे ।

जन्म जीवित सफलउ हुवइ, सयणां पूजइ आसौ रे ॥३३॥दे०॥

इम मिली संघ तिहां थकी, आवइ पुज्य दिदारइ रे ।

महिमा बधारइ मेड़तै, पूज्य वन्दी जन्म समारइ रे ॥३४॥दे०॥
युगवर गुरु पउधारीयइ, संघ करइ अरदासो रे ।

नयर बिलाड़इ रंग सुं, पूज्यजो करउ चौमासो रे ॥३५॥दे०॥
इम सुणि पूज्य पधारिया, बिलाड़इ रंगरोल रे ।

संघ महोत्सव मांडियउ, दीजै तुरत तंबोल रे ॥ ३६ ॥ दे० ॥

दोहा (राग गौडी)

पूज्य चउमासो आवियउ, श्री संघ हर्ष उत्साह ।

विविध करइ परभावना, ल्ये लक्ष्मी नौ लाह ॥ ३७ ॥

पूज्य दिइइ नित्य देशना, श्रीसंघ सुणइ बखान ।

पाखी पोसहिता जिमइ, धन जीवित सुप्रमाण ॥ ३८ ॥

विधि सुं तप सिद्धान्त ना, साधु वहइ उपधान ।

पूज्य पजूसण पड़िक्कमै, जंगम युगहप्रधान ॥ ३९ ॥

संवत सोलेसित्तरइ, आसू मास उदार ।

सुर संपद सुह गुरु वरो, ते कहिसुं अधिकार ॥ ४० ॥

(ढाल भावना री चंदलियानी)

नाणै (नइ) निहालइ हो पूज्य जो आउखउ रे, तेड़ी संघ प्रधान ।

जुगवर आपै हो रूड़ी सोखड़ो रे, सुणिज्यो“पुण्य-प्रधान”॥४१॥ना०॥

गुरु कुल वासै हो बसिज्यो चेलडां रे, मत लोपउ गुरु कार ।
 सार अनइ वठि संयम पालिज्यो रे, सूधौ साधु आचार ॥४२॥ना०॥
 संघ सहु नै धर्मलाभ कागलइ रे, लिखिज्यौ देश विदेश ।
 गच्छा धुरा जिनसिंहसूरिनिर्वाहिस्यै रे, करिज्यो तसुआदेश ॥४३॥ना०॥
 साधु भणी इम सीख द्यै पूजजी रे, अरिहन्त सिद्ध सुसाखि ।
 संइमुख अणसण पूज्य जो उच्चरइ रे, आसू पड़िले पाखि ॥४४॥ना०॥
 जीव चउरासि लख (राशि) खामिनै रे, कञ्चन तृण सम निन्द ।
 ममता नै बलिमाया मोसउ परिहरी रे, इमनिज पाप निकंद ॥४५॥ना०॥
 वयर कुमार जिम अणसण उजलउ रे, पाली पहर चियार ।
 सुख ने समाधे ध्यानै धरम नइ रे, पहुंचइ सरग मझार ॥४६॥ना०॥
 इन्द्र तणो तिहां अपछर ओलगइ रे, सेव करइ सुर वृन्द ।
 साधु तणउ धर्म सूधौ पालियौ रे, तिण फलिया ते आणंद ॥४७॥ना०॥

दोहा (राग गौड़ी)

गंगोदक पावन जलइ, पूज्य पखाली अंग ।
 चौवा चन्दन अरगजा, संघ लगावइ रंग ॥ ४८ ॥
 बाजा बाजइ जन मिलइ, पार विहूणा पात्र ।
 सुर नर आवै देखवा, पूज्य तणउ शुभ गात्र ॥४९॥
 वेश वणावी साधु नउ, धूपि सयल शरीर ।
 बैसाड़ी पालखियइ, उपरि बहुत अबीर ॥ ५० ॥
ढाल राग--गउड़ी (श्रेणिक मनि अचरिज थयउ एहनी)
 हाहाकार जगत्र ह्यउ, मोटो पुरुष असमानौ रे ।
 बड़ बखती विश्रामियउ, दीवइ जिउं बूझाणउ रे ॥ ५१ ॥

पुज्य पुज्य मुखि उच्चरइ, नयणि नीर नवि मायइ रे ।
 सहगुरु सो(सा)लइ सांभरइ, हियडुं तिल तिल थायइ रे ॥५२॥पूज्य०॥
 संघ साधु इम विलविलइ, हा ! खरतर गच्छि चंडउ रे ।
 हा ! जिणशासण सामियां, हा ! परताप दिगंदउ रे ॥५३॥पूज्य०॥
 हा ! सुन्दर सुख सागरु, हा ! मोटिम भंडारउ रे ।
 हा ! रीहइ कुल सेहरउ, हा ! गिरुवा गणधारउ रे ॥५४॥पूज्य०॥
 हा ! मरजाद महोदधि, हा ! शरणागत पाल रे ।
 हा ! धरणीधर धीरमा, हा ! नरपति सम भाल रे ॥५५॥पूज्य०॥
 बहु वन सोहइ भूमिका, वाणगंगा नइ तीर रे ।
 आरोगी किसणागरइ, बाजाइ सुरभि समीर रे ॥ पू०॥५६ ॥
 बावन्ना चंदन ठवो, सुरहा तेल नी धार रे ।
 घृत विश्वानर तर पिनइ, कीधउ तनु संस्कार रे ॥ पू०॥५७ ॥
 वेश्वानर केहनउ सगउ, पणि अतिसय संयोग ।
 नवि दाक्षी पुज्य मुंहपत्ति, देखइ सघला लोग रे ॥ पू०॥५८ ॥
 पुरुष रत्न विरहइ करी, साथि मरवउ न थावइ रे ।
 शान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आवइ रे ॥ पू०॥५९॥

राग—धन्यासिरी

(सुविचारी हो प्राणी निज मन थिर करि जोय)

ढालः—

सुविचारी हो पूज्यनी, तुम्ह बिनु घड़ी रे छः मास ।
 दरसण दिखाइउ आपणउ हो, सेवक पूजइ आश ॥६०॥ सुवि०

एकरसउ पउधारियइ हो, दीजइ दरशण रसाल ।

संव उमाहु अति घणउ हो, वंदन चरण त्रिकाल ॥६१॥ सुवि०
वाह्हेसर रलियामणा हो, जे जगि साचा मीत ।

तिण थी पांगरउ पूज्यजी रे, मो मनि ए परतीत ॥६२॥ सुवि०
इणि भवि भवे भवान्तरइ हो, तुं साहिव सिरताज ।

मातु पिता तुं देवता हो, तुं गिरुआ गच्छराज ॥६३॥ सुवि०
पूज्य चरण नित चरचतां हो, वन्दत वंछित जोइ ।

अलिअ विघन अलगा टरइ हो, पगि २ संपत होइ ॥६४॥ सुवि०
शांतिनाथ सुपसाउलइ हो, जिनदत्त कुशल सूरिन्द ।

तिम जुगवर गुरु सानिधइ हो, संव सयल आणंद ॥६५॥ सुवि०
मीठा गुण श्रीपूज्य ना हो, जेहवी साकर द्राख ।

रंचक कूड़ इहा त(न?)ई हो, चन्दा सूरिज साख ॥६६॥ सुवि०
तासु पाटि महिमागरु हो, सोहग सुरतरु कन्द ।

सूर्य जेम चढती कला हो, श्री जिनसिंह सुरींद ॥६७॥ सुवि०
हो युगवर, नामइ जय जय कार ।

वंश बधावइ चोपडा हो, दिन दिन अधिकउ वान ।

पाटोधर पुहवी तिलउ हो, चिर नन्दउ श्रीमान् ॥६८॥ सुवि०
युगवर गुरु गुण गांवतां हो, नव नव रंग विनोद ।

एहनं१ आस्या फलइ हो, जंपइ “समयप्रमोद” ॥६९॥ सुवि०

॥ इति युगप्रधान जिनचन्द सूरि निर्वाणमिदं !



॥ युगप्रधान आलजा गीतम् ॥

आसू मास बलि आवीयउ, पूज्यजी, आयउ दीवाली पर्व पू० ।
 काती चउमासौ आवीयउ, पू० आया अवसर सर्व ॥१॥
 तुम्हे आवौ रे श्रियादे का नंदन, तुमे बिनु घड़िय न जाय पू० ।
 तुम्हे बिन अलजो जाय पूज्य० ॥ तुम्हे० ॥
 शाहि सलेम वली उंबरा, पू० संभारइ सहु कोइ ।
 धर्म सुणावउ आविनइ पू०, जीव दया लाभ होइ ॥तु०॥२॥
 आवक आया वांदिवा पू०, ओसवाल नइ श्रीमाल ।
 दरशण छउ इक वार कउ, पू० वाणि सुणावउ विशाल ॥तु०॥३॥
 वाजउठ मांड्यउ बैसणइ, पू० कमली मांडी सुघाट ।
 वखाण नी वेला थइ पू०, श्रीसंघ जोयइ वाट ॥पू०॥तु०॥४॥
 आविका मिलि आवी सहु, पू० वांदण वे कर जोइ ।
 वंदावी धर्मलाभ छौ पू०, जिम पहुंचइ मन कोइ ॥पू०॥तु०॥५॥
 आविका उपधान सहु वहै पू०, मांड्यउ नंदि मंडाण ।
 माल पहिरावउ आविनइ पू०, जिम हुवै जन्मप्रमाण ॥पू०॥तु०॥६॥
 अभिग्रह वांदण उपरि पूज्य०, कीधा हुंता नर नार ।
 ते पहुंचावउ तेहना, पू० वंदावउ एक वार ॥पू०॥तु०॥७॥
 परव पूजसण वहि गया पूज जी, लेख वाञ्छै सहु कोय ।
 मन मान्या आदेश छउ, पू० शिष्य सुखी जिम होय ॥पू०॥तु०॥८॥

तुम सरिखड संसारमें पू०, देखुं नहिं को दीदार ।

नयना तृप्ति पामइ नहीं, पू० संभारुं सौ वार ॥पू०॥तु०॥६॥
मुझ मिलवा अलजौ घणौ पूज्य०, तुम्हे तौ अकल अलक्ष ।

सुपनि में आवि वंदावज्यो, पू० हुं जाणिसि परतक्षि ॥पू०॥तु०॥१०॥
युगप्रधान जगि जागतउ, पू० श्री जिनचन्द मुणिद ।

सानिधि करिज्यो संघ ने, पू० समयसुंदर आणंद ॥पू०॥तु०॥११॥

॥ इति श्री जिनचन्द्र सूरीश्वराणां आलजा गीतं ॥

सं० १६६६ वर्षे श्री समयसुं(द)र महोपाध्याय तच्छिष्यमुख्य
श्री वाचनाचार्य श्रीमहिमासमुद्र ×गणि तच्छिष्य पं० विद्याविजय
गणि शिष्य पं० वीरपालेनालेखि ॥ १ ॥ (पत्र ४ हमारे संग्रहमें)

× पाठक श्री समयसुन्दरजीगणि ने इनके आग्रहसे सं० १६६७ में
“श्रावकाराधना” बनाई जिसकी अन्त्य प्रशस्ति इस प्रकार है :—
आराधनां सुगम संस्कृत वार्तिकाम्भ्यां, चक्रे क्रमात् समयसुंदर आदरेण ।
उच्चाभिधान नगरे महिमासमुद्र शिष्याग्रहेण मुनि षड्रस चन्द्र वर्षे ॥



॥ श्रीजिनचन्द्रसूरि गीतानि ॥

(१)

मन धरोय सासण माइ, तुं मुझकरि सुपसाउ,
मन वचन दृढ करिकाय, चिदानंद सुं लयलाय,
गाइवा श्री गछराउ, मुझ उपज्यौ बहु भाउ ॥ १ ॥
धन धन खरतर गच्छ मंडण, श्रीजिनचंद्रसूरि पय वंदण । टेरे ।
मारवाडि देस उदार, जिहां धरम कौ विस्तार ।
तिहां खेतसर मंझारि, ओसवंश कउ सिणगार ।
सिरवंत साह उदार, तसु सिरिय देवी नार ॥ धन० ॥ २ ॥
सुख विलसतां दिन दिन, पुण्यवंत गरभ उपन्न ।
नव मास जिहां पडिपुन्न, जनमीया पुत्र रतन्न ।
तिहां खरचीया बहु धन्न, सब लोक कहइ धन धन्न ॥ धन० ॥ ३ ॥
नाम थापना सुलताण, नितु नितु चढ़ते वान ।
जग मांहे अमली मान, सूरिज तेज समान ।
मतिमंत सब गुण जाण, रूप रंजवइ रायराण ॥ धन० ॥ ४ ॥
तिहां विहरता माणिकसूरि, आविया आणंद पूरि ।
देसणा दिद्ध सनूरी, निसुणइ भवियण भूरि ।
पूरब पुण्य षडूरि, मोहनी कर्म करि चूरि ॥ धन० ॥ ५ ॥

सुलताण मनहि विचार, लेइवा संयम भार ।

सुणि मात निज परिवार, यहु अधिर सब संसार ।

अनुमति घो सुविचार, हम होहिंगे अणगार ॥ धन० ॥ ६ ॥

सुणि पूत तूं सुकमाल, तेरो नव योवन सुर साल ।

यहु मदन अति असराल, क्या जाणही तूं बाल ।

आपणि मति संभाल, तव पीछइ चारित्रपाल ॥ धन० ॥ ७ ॥

अब निसुणि मोरी मात, ए छोडि जूठी बात ।

चारित्र कउ व्याघात, नहु कीजइ कहि तात ।

संजम्म लेइ विख्यात, लइ जु नीकी भाँति ॥ धन० ॥ ८ ॥

भणिया इम इग्यारह अंग, मन मांहे आणि रंग ।

गुरु भालि अतिहि उत्तंग, गुरु रूपि विजित अनंग ।

परवादि वाद अभंग, गुरु वचन गंग तरंग ॥ धन० ॥ ९ ॥

सोलसइ संवत वार, जिनमाणिकसूरि पटधार ।

जिणि सूरि मन्त्र उचार, पामीयो पुण्य अवतार ।

सिरिवंत शाह मल्हार, सब लोक मानइ कार ॥ धन० ॥ १० ॥

सुखकरउ श्रीजिणचंद, सब साधु केरे वृन्द ।

जां लंगि रवि धू चन्द, तां लग तूं चिरनन्द ।

कहइ कनकसोम मुणिद, करउ संघ कूं आणंद ॥ धन० ॥ ११ ॥

॥ सं० १६२८ वर्षे पं० कनकसोमैविलेखि ॥

(२)

राग—मल्हार

भलइ री भलइ आज पूज्य पधारइ, विहरंता गुरु साधु विहारइ ॥भ०॥

जुगवर श्रीजिन शासनि जागइ, महियल मोटइ भाग सोभागइ ॥भ०१॥

सूरिमन्त्र गुरु सान्निध सोधिउ, पातिसाहि अकवर प्रतिबोधिउ ।भ०।
 सब दुनीया मांहे कीधी भलाइ, हफतह रोज अमारि पलाई ॥भ०॥२॥
 परतिख पंचे पोर आराधी, संघ उदय काजि पंचनदी साथी ।भ० ।
 वाणी अमृत वखाण सुणावइ, सूत्र सिद्धांत ना अरथि जणावइ॥भ०॥३॥
 बलिहारी म्हारा पूजजी ने वयणे, बलिहारी अणियाले नयणे ।भ०।
 श्रीवन्त-नन्दन सकल सनूगइ, उदयवन्त गुरु अधिक पडूरइ॥भ०॥४॥
 ?;.....।भ०।
 श्रीजिनमाणिकसूरि पटधारी, वाचक श्रीसुन्दर सुखकारो ॥भ०॥५॥

(३)

ए मेरउ साजणीयउ सखि सुन्दर सोइ, जो मुझ बात जणावइ रे ।
 किणि वाटडियइ मेरउ पूज्य पधारइ, श्रीगुरु सबहि सुहावइ रे ।
 गुरु सबहि सुहावइ, जिणि पुरि आवइ, तिणिपुरि सोह चढावइ ।
 गुरु सोभागी, गुरु विधि आगी, पुण्य उदय स चढावइ ।
 गच्छराउ गुणी जिनचन्द सुणी, जण कार न लोपइ कोइ ।

आवाजउ गुरु कउ जो जाणइ, मेरउ साजण सोइ ॥१॥
 ए जिम मङ्गलीयउ वण वीझ विनोदी, जिम घन दरसण मोरा रे ।
 रवि दंसणियइ कोक मुरंगी, दरसण चन्द चकोरा रे ।
 जिम चन्द चकोरा रे, तेम अघोरा देखि दरसण तोरा ।

हित संतोषइ पुण्यइ पोषइ, अति हरषित मन मोरा ।
 निरदन्दी श्रीजिनचन्द्र पधारउ, वेगइ होइ प्रमोदी ।

तुम्हि देखि सहु जण जिम वीझावण, मङ्गलीयउ सुविनोदी ॥२॥

ए गुरु जोवणीयइ विधि मारगि लीणउ इणिगुरि लोहन मायारे ।

कसि कंचणीयइ जेम परीखा, दिन दिनि वान सवाया रे ।

नितु वान सवाया मोह न माया, मन्मथ आण मनाया ।

पद सोहाया कोमल काया, श्रो खरतर गच्छ राया ।

ल्य लागी रंगीरसि जिउ रमतउ, अलि मकरंदइ पीणउ ।

भाग बली गुणि वय जोवणि, जो विधि मारग लीणउ ॥३॥

ए मनि आणंदियइ साधु कीरति, बोलइ ए गुरु शील उदारा रे ।

गुरु सहव दे कूखि मराला, श्रोवन्त साह मल्हारा रे ।

सिरि वंत मल्हारा श्रोजयकारा, रीहडकुलि सिणगारा ।

जग आधारा नितु अविकारा, माणिकसूरि पटधारा ॥

चउरासी गण महि गणी निहाल्या, कोइ नहीं इणि तोलइ ।

चिरनंदउ जिणचन्द मुनोश्वर, साधुकीर्ति इम बोलइ ॥ ४ ॥

(४)

राग—देशाख

श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु वंदउ, सुललित वाणि करइ रे वखान ।

युगप्रधान जिन शासनि सोहइ, अकबर शाहु दीयइ बहुमान ॥१॥

गुजर मंडलतें बोलाये, संतन मुखि सुनि जसु गुणगान ।

बहुत पट्टरि सुगुरु पाउधारइ, वखत योगि लाहोर सुथान ॥२॥श्री०॥

अरथ विचार पूछि सब विध विध, रीझे अकबर साहि सुजान ।

बहुत २ दरसनि मइ देखे, कौन कहुं या सुगुरु समान ॥श्री०॥३॥

भाग सोभाग अधिक या गुरु कउ, सूरनि पाक अमृत समवानि ।

पेस करइ अकबर अणमांग्ये, सब दुनीयां महि अभयादान ।श्री०॥४॥

श्रीजिनमाणिकसूरि पटोधर, रोहड़ वंशि चढ़ावत वांन ।

कहइ गुणविनय पूजजो प्रतपउ, खरतरगच्छ उदयाचलभान ॥श्री०॥ १॥

(५)

राग—सारंग

सरसति सामिणी विनवुं, मांगु एक पसाय । सखीरी ।

उलट आणी गाइसुं, श्रीखरतर गच्छराय ॥ स० ॥ १ ॥

श्रीचिणचन्द सूरिश्वरू, कलि गौतम अवतार । स० ।

सूरि सिरोमणि गुणभर्यो, सकल कला भंडार ॥श्री०॥ २ ॥

ओसवंश सिरि सेहरउ, रोहड़ कुलि सिणगार । स० ।

सिरियादे उरि जन्मोया, श्रीवंत शाह मल्हार ॥श्री०॥ ३ ॥

श्रीजिनशासन परगड़उ, वड खरतरगच्छ ईस । स० ।

नर नारी नित जेहनउ, नाम जपइ निशदीस ॥श्री०॥ ४ ॥

श्रीजिनमाणिकसूरि नइ, पाटइ प्रगट्यउ भाण । स० ।

राय राणा मुनि मंडली, मानइ मोटा जाण ॥ श्री० ॥ ५ ॥

सोभागी महिमानिलउ, महियल मोहनवेलि । स० ।

अबूझजीव प्रतिबूझइ, वाणि सुधारस रेलि ॥श्री०॥ ६ ॥

जग सगले जस पामीयउ, प्रतिबोधी पातिशाह । स० ।

खंभाइत दधि मालली, राखी अधिक उच्छाह ॥ श्री० ॥ ७ ॥

आठ दिवस आषाढ़ के, अट्टाही निरधारि । स० ।

सब दुनीयां मांहि सासती, पालावी अमारि ॥ श्री० ॥ ८ ॥

शील सुलक्षण सोहतउ, सुन्दर साहस धीर । स० ।

सुविधि सुपरि करि साधोया, पंचनदी पंचपीर ॥श्री०॥ ९ ॥

सूधउ मारग उपदिस्ती, पाय लगाड्या लाख । स० ।

दरसण ज्ञान क्रिया धर, सविगच्छ पूरइ साख ॥श्री०॥१०॥

सइं हथि अकवर थापिया, सहगुरु युगहप्रधान । स० ।

श्रीसुन्दर प्रभु चिरजयउ, दिन दिन चढतइ वान ॥श्री०॥११॥

(६)

श्री अकवर बहुमान, कीधउउ युगप्रधान ।

कर्मचन्द बुद्धिनिधान । मीर मलिक खोजा खान,

काजीसुला परधान । पयनमइ करि गुणगान, दिन चढते वान ॥१॥

सब दिन मुझ मन खंति घणी, अथि जिणचन्द सूरिसेव तणो । आं ।

मारवाड़ गुजर बंग, मेवाड़ सिन्धु कलिंग ।

मालव अपूरव अंग, पूरव सुदेस तिलंग ।

सब देस मिलि मनरंग, गावइ सुगुरु गुण चंग ।

जिम केतकि वनभृङ्ग, तिम सुगुरु सुं मुझ रङ्ग ॥ २ ॥सवा॥

कलि गौतमा अवतार, तजि मोह मदन विकार ।

निरमाय निरहंकार, धन धन्न ए अणगार ।

माणिक्यसूरि पटधार, अति रूप वयर कुमार ।

श्रीवंत शाह मलहार, 'सुमतिकलोल' सुखकार ॥ ३ ॥सव०॥

(७)

अकवर भूपति मानोया, तिण मानइ सहु लोइ ।

जिनचन्दसूरि सुरीश्वर, वन्दै वंछित होइ ।

वंदता वंछित होइ अहनिसि, देखतां चित हींस ए ।

श्रीपूज्य जिनचन्दसूरि समवडि अवर कोइ न दीसए ।

सम्पति कारक, दुखनिवारक धर्मधारक महाव्रती ।

मन भाव आणी लाभ जाणी, नमइ अकवर भूपती ॥ १ ॥

असुरां गुरु प्रतिबोधीउ, दाखी धरम विचार ।

शासन सोह चढावीयो, माणिकसूरि पट्टधार ॥

पट्टधार माणिकसूरि नइ ए, रीहइ वंसइ दिन मणी ।

श्रीवंत श्रीयादेवी नंदन, सुविहित साधु सिरोमणी ॥

गुणरयण रोहण भविय मोहन, कम्म सोहण व्रत लीउ ।

सुविचार सार उदार भावइ असुरां गुरु प्रतिबोधीयउ ॥ २ ॥

एहवो गुरु वंद्यो नहीं इणि जगि ते अकयथ ।

अकबर श्रीमुख इम कहइ, खरतर गच्छ मणिमथ ॥

मणिमथ खरतर गच्छ केरउ, अभिनवेरउ सुरतरु ।

मन तणा कामित सयल पूरइ, रूप जेम पुरन्दरु ॥

जसु तणइ दरसणि दुरित नासइ, रिद्धि वासइ घर सही ।

इम कहइ अकबर तेह अकयथ, जेणि गुरु वंद्यो नहीं ॥ ३ ॥

युगप्रधान पदवी भली, आपइ अकबर राज ।

सइमुख हरखै इम कहइ, ए गुरु सब सिरताज ।

सिरताज सब गच्छ एह सहगुरु, करइ बगसीस इम वली,

गुजरात खभायत मंदरि करउ निरभय माछली ।

वर्धमान सामि तणइ शासनि, करी उन्नति इम रली ।

आपइ अकबर अधिक हरषे, युगप्रधान पदवी भली ॥ ४ ॥

जां लगि अम्बर रवि शशि, जां सुर शैल नदीस ।

तां नंदउ ए राजियो, मानइ आण नरेस ॥

जसु आण मानइ राव राणा, भाव बहु हियडै धरी ।

नन्द बुधिरस शशि वरसि चैत्रह नवमि तिहि अति गुण भरी ।

शील सत्त तप जप पूजा वसे, माणिभद्र प्रमुख सुमन्न ।

यक्ष सह जिनदत्तसूरि सानिधै, तेह थया सुप्रसन्न ॥६॥धन॥
प्रहसमि गुरुजी पत्तणि अविद्या, वाज्या जेत्र निसाण ।

ठाम २ ना संघ मिल्या घणा, आपै दान सुजाण ॥१०॥धन॥
घोरवाड वंसे परगडा, नानिग सुत राजपाल ।
सपरिवार तिहां बहु धन खरचिनै, लीवो यश सुविशाल ॥११॥धन॥
तिहां थी उच्चनगर गुरु आविया, वंशा शान्ति जिणंद ।

देरावर प्रणम्या जग दीपता, श्रीजिनकुशल मुणिंद ॥१२॥धन॥
हिव तिहां थो मारग विचि आवतां, सुन्दर थुंम निवेश ।

पद पंकज जिनमाणिकसूरिना, भेट्या तिगे प्रदेश ॥१३॥धन॥
नवहर पास जुहारी पधारिया, जेसलमेरु मंझार ।

फागन सुदी बीजै सह हरषोया, राउल संघ अपार ॥१४॥धन॥
श्रीजिनचंद यतीश्वर गुणानिलो, प्रतपो युग प्रधान ।
'पद्मराज' इम पभणइ मन रसइ, दिन दिन वथतै वान ॥१५॥धन॥

(९)

वनी हे सहगुरुकी ठकुराई

श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु वंदो, जो कुछ हो चतुराई ॥१॥वनी॥

सकल सनूर हुकम सब मानति तै जिन्ह कुं फुरमाई ।

अरु कलु दोष नहों दिल अंतरि, तिमि सबहीं मनिलाई ॥२॥वनी॥

माणिकसूरि पाट महिमा वरो, लइ जिन स्युं वितणाइ ।

झिगमिग ज्योति सुगरुकी जागी, 'साधुकीरति' सुखदाइ ॥३॥वनी॥

(१०) राग मल्हार

पूज्य आवाजउ सांभलउ सहिए, हरख्या सगलालोक ।
 मोरउ मन पिण उलस्यउ सहिए, जिम हरि दंसण कोक ॥१॥
 इण रे सुगुरु जी जग माहि जस पडहउ बजाइयउ ॥आ०॥
 पहिलुं अकबर मानीया सहीए, ए गुरु हीरा खाणि ।
 युगप्रधान पद तिण दियउ सहिए, पय लागइ रायराणि ॥२॥इण०॥
 गच्छ अनेक मई जोइया सहिए, तुम सम अवर न कोइ ।
 हेलइ मयण वसी कीयउ सहिए, शीलइ थूलभद्र जोइ ॥३॥इण०
 अनुक्रमि श्रीगुरु विहरता सहीए, आव्या पाटण मांहि ।
 चउमासउ प्रभु तिहां करइ सहीए, मन आणी उच्छाह ॥४॥इण०॥
 लेख आयउ आगरा थको सड़ीए, जाणी सगली बात ।
 साहि सलेम कोपइ चढयइ सहोए, कुमतो बांध्या राति ॥५॥इण०॥
 चउमासो करि पांगुर्या सहीए, करता देस विहार ।
 असेनपुर आविया सहीए, वरत्या जय जयकार ॥६॥इण०॥
 श्रीपातिशाह बोलाविया सहीए, जंगमजुगहप्रधान ।
 धरम मरम कहि बूझव्यउ सहीए, तुरत दीया फुरमान ॥७॥इण०॥
 जिण शासन उजवालयउ सहीए, साह श्रीवंत कुल चन्द ।
 साधु विहार मुगता कीया सहीए, खरतर पति जिणचन्द ॥८॥इण०
 सिरिया दे उरि हंसलउ सहीए, तेजइ दीपइ भाण ।
 “लब्धिशेखर” मुनि इम भणइ सहीए, सेवक आपणउ जाणि ॥९॥इण०॥

(११)

राउल श्री भीम इम कहइ जी, जादव वंसि वदीत रे ॥ पूज जी ॥
 पधारो जेसलमेरु नइ जी, प्रीति धरी निज चित्त रे ॥१०॥१॥

वखत बडा गुजराति ना जी, पूज पधार्या जेथ रे ।

धन धन लोक सहुवलि रे, जेह वसइ छइ तेथ रे ॥२॥रा०॥

पूज तणइ जे श्रीमुखइ जी, निसुणइ अमृत वाणि रे ।

सेव करइ गुरु नी शाश्वती रे, तेहनो जन्म प्रमाणि रे ॥३॥रा०

दिवस घणा विचि वउलीया जी, आवण केरी आस रे ।

हुंसि अछइ माहरइ हियइ जी, इहां जइ करउ चउमासि रे ॥४॥रा०॥

श्री जेसलगिरि संघ नी जो, अधिक अछइ मन कोडि रे ।

गुरुजी चरणइ लागिवा, रे त्रिकरण शुद्ध कर जोडि रे ॥५॥रा०॥

साधु नी संगति जउ मिलइ रे, तउ पूजइ मन नी आस रे ।

चित्तामणि करि जउ चढयइ रे, तउ चित्त थाइ उल्लास रे ॥६॥रा०॥

मुझ मन हरख घणउ अछइ जी, तुम्ह मिलवा नुं आज रे ।

तुम्ह आव्यांसवि साध्यस्यां रे, अधिक धरम तणा काज रे ॥७॥रा०॥

इहां विलम्ब नवि कीजियइ जी, श्री खरतर गणधार रे ।

श्री जिनचन्द्र गुणभणइ रे, “गुणविनय” गणि सुखकार रे ॥८॥रा०॥

(स्वयंलिखित-पत्र १ हमारे संग्रह में)

(१२) राग—सामेरी

सुगुरु कइ दरसन कइ बलिहारी ।

श्री खरतरगच्छ जंगम सुरतरु, जिनचन्द्रसूरि सुखकारी ॥१॥सु०॥

अकबर शाहि हरख करि कीनउ, युगप्रधान पदधारी ।

खंभायत मइ शाहि हुकम तई, जलचर जीव उबारी ॥२॥सु०॥

सात दिवस जिनि सब जीवन की, हिंसा दूर निवारी ।

देश देशि फुरमान पठाए, सब जग कु उपगारी ॥३॥सु०॥

जिनमाणिकसूरि पाट प्रभाकर, कलि गौतम अवतारी ।
 कहइ “गुणविनय” सकल गुण सुंदर, गावत सब नर-नारी ॥४॥सु०॥
 (कवि के हस्तलिखित पत्र से उद्धृत)

(१३) राग—धन्यासिरी मारुणी

सुगुरु मेरइ चिरि जीवउ चउसाल ।
 खम्भायत दरिया की मच्छली, बोलत बोल रसाल ॥१॥सु०॥
 भाग हमारइ तिहां जावत हइ, लाभपुरइ भय टाल ।
 श्रीजी कुं अइसी अरज करेज्यो, जलचर कुं प्रतिपाल ॥२॥सु०॥
 एह अरज निसुणी पूज्यां तइ, रंज्यु वर भूपाल ।
 हुकम करि नइ छाप पठाइ, हरख्या बाल गोपाल ॥३॥सु०॥
 युगप्रधान जिनचन्द यतीसर, छइ जसु नाम विशाल ।
 शाहि अकबर तसु फरमाइ, तिणि झाड़ायाला जाल ॥४॥सु०॥
 निशभरि नींद अवइ आवत हइ, मरण तणु भय टाल ।
 जय जय जय आशीस दियत हइ, मिलि जीवन की माल ॥५॥सु०॥
 धन धन धोर हुमाऊं कुं नन्दन, जीवत दान दयाल ।
 धन धन श्रीखरतरगच्छ नायक, षटकाया रखवाल ॥६॥सु०॥
 धन मन्त्री कर्मचन्द वञ्जावत, उद्यम कीउ दरहाल ।
 साहिब नइ साचइ सुप्रसादइ, अलीय विन्न सब टालि ॥७॥सु०॥
 धन ते संघ इणइ जे अवसर, परघल खरचइ माल ।
 तसु “कल्याण कमल” नो संपद, आपद न हुवइ बाल ॥८॥सु०॥

(१४) अपूर्ण

सरस वचन सग्सति सुपसायइ, गाइसु श्रीगुरुराय री माई ।
युगप्रधान जिनचन्द यतीश्वर, सुर नर सेवे पाय री माई ॥
कलियुग कल्पवृक्ष अवतरियो, सेवक जन सुखकार री माई ॥आं॥
जिन शासन जिनचन्द तणो यश, प्रतपै पुहवि मझार री माई ।
प्रहसम नित नित श्रीगुरु प्रणमो, श्रीखरतर गणधार री माई ॥२॥
संवत पनर पचाणुं वर्षे, रीहड़ कुल मनु भाण री माई ।
श्रीवंत शाह गृहणी सिरियादे, जनम्या श्री “सुरताण” री माई ॥३॥
संवत सोल चडोतर बरसे, लीधो संयम भार री माई ।
जिनमाणिक्यसूरि सैं हाथै दिक्षा, शिष्यरत्न सुविचाररी माई ॥४॥क०
लघु वय बुद्धि विनाणे जाण्यो, श्रुतसागर नौ सार री माई ।
अभिनव वयर कुमर अवतारै, सकल कला भंडार री माई ॥५॥क०॥
वखत संयोगे सोल बारोत्तर, जेशलमेर मंझार री माई ।
पाम्यो सूरीश्वर पद प्रकट्यो, श्रीसंघ जय २ कार री माई ॥६॥क०
उग्र विहार आदर्यो श्रीगुरु, कठिन क्रियाउद्धार री माई ।
चारित्र पात्र महंत मुनीश्वर, रत्नत्रय आधार री माई ॥७॥क०॥
सतरोत्तर वर्षे पाटण में, अधिक बधारी माम री माई ।
च्यार असी गच्छ साखै खरतर, विरुद दीपायौ ताम री माई ॥८॥क०
हथगाउर सौरीपुर नामै, तीरथ विमलगिरिंद री माई ।
आबूगढ़ गिरनार सिखर तिहां, प्रणम्या श्रीजिनचन्दरी माई ॥९॥क०
आरासण तारंगै तीरथ, राणपुरै गुरुराज री माई ।
वरकाणा संखेश्वर प्रामे, प्रणम्या श्री जिनराजरी माई ॥१०॥क०॥

अवर तीर्थ पण श्रीगुरु भैरव्या, प्रतिबोध्या पातिसाह री माई ।
 अकवर अधिको आसति निरखी, दीधौ मौटौ लाह री माई ॥११॥
 खम्भायत नो खाडी केरा, राख्या जीव अनेक री माई ।
 बरस एक लग श्री गुरु वचने, पाम्यो परम विवेक री माई ॥१२॥क०
 सात दिवस लगि निज आणा में. वरतावी अमारि री माई ।
 अकवर अवर अपूर्व कारिज, कींधा गुरु उपकार री माई ॥१३॥क०॥
 पंचनदी पति परतिख साध्या, माणभद्र विख्यात री माई ।

..... ॥

(१५) श्री गुरुजी गीत

युगवर श्री जिनचन्द्रजी, जगि जिनशासनि चन्द्र रे ।

प्रहसमि उठी पूजियइ, कामित सुरतरु कंद रे ॥१॥जुग०॥
 संवति पनर पंचाणुयइ, श्रीवंत साह मल्हार रे ।

मात सिरियादेवि जनमीयउ, रीहड़ कुल सिणगार रे ।२॥जुग०॥
 संवत सोल चिडोत्तरइ, जाणी जिणि अथिर संसार रे ।

हाथि जिनमाणिकसूरि नइ, संग्रहउ संयम भार रे ॥३॥जुग०॥
 वयरकुमार तणी परइ, लघुवइ बुद्धि भंडार रे ।

गुरुकुल वास वसि पामियउ, प्रवचन सागर पार रे ।४॥जुग०॥
 संवत सोल बारोतरइ, जेसलमेरु मझारि रे ।

भाग्य बलि सूरि पदवी लही, हरखिया सवि नर नारि रे ।५॥जुग०॥
 कठिण क्रिया जिण उद्धरि, मांडियउ उग्र विहार रे ।

सूरि जिणवल्लभ सारिखउ, चरण करण गुणधार रे ।६॥जुग०॥

पाटण सोल सतरोतरइ, च्यारि असी गच्छ साखि रे ।

खरतर विरुद दीपावियउ, आगम अक्षर दाखि रे ॥ ७ ॥ जुग० ॥
सौरीपुर हथिणाउरे, विमलिगिरि गढ़ गिरिनार रे ।

तारङ्ग अर्बुदि तीरथइ, यात्र करि बहु वारि रे ॥ ८ ॥ जुग० ॥
अकबर शाहि गुरु परिखोयउ, कसवटि कंचण जेम रे ।

पूज्यनी मधुर देसण सुणी, रंजियउ साहि सलेम रे ॥९॥ जुग० ॥
सात दिवस वरतावियउ, मांहि दुनिया अभयदान रे ।

पंच नदी पति साधिया, वाधियउ अति घणउ वान रे ॥१०॥जुग०॥
राजनगर प्रतिष्ठा करी, सबल मंडाण गुरुराइ रे ।

संघवी सोमजी लछिनउ, लाह लियइ तिणि ठाइ रे ॥११॥जुग०॥
सुरप्रसन्न जेहनइ मस्तकइ, गुरु धरइ दक्षिण पाणि रे ।
तेह घरि केलिकमला करइ, मुखवसइ अविर(ल) वाणि रे ॥१२॥जुग०॥
दरसनी जिन मुगता करी, सोल सित्तर वासि रे ।

अविया नगर बिलाइए, सुगुरु रखा चउमासि रे ॥१३॥जुग०॥
दिवस आसु वदि बीजनइ, उच्चरी अणशण सार रे ।

सुरपुरि भुगुरु सिधारिया, सुर करइ जय जयकार रे ॥१४॥जुग०॥
नाम समरणि नवनिधि मिलइ, सवि फळइ संघनी आस रे ।

आधि नइ व्याधि दूरइ टलइ, संपजइ लील विलास रे ॥१५॥जुग०॥
केशर चन्दन कुसुम सुं, चरचतां सहगुरु पाय रे ।

पुत्र संतान परघलहुवइ, दिन दिन तेज सवाय रे ॥१६॥जुग०॥
श्रीजिनचन्द्रसूरीसरू, चिर जयउ जुगहप्रधान रे ।

इणपरि गुरु गुण संथुणइ, पाठक 'रत्ननिधान' रे ॥१७॥जुग०॥
(श्री जिनदत्तसूरि ज्ञान भंडार-सूरतस्थ हस्त लिखत ग्रन्थात्
प्रेषक पन्यास केशरमुनिजी)

॥ इति श्री गुरुजी गीतं ॥

(१६)

॥ ६ राग ३६ रागिणी गर्भित् गीत ॥

कौजइ ओच्छव सन्तां सुगुरु केरउ (१)

सुललित वयण सुण सखि मेरउ (२)

कहउरी संदेस खरा गुरु आवतिया (३)

तिणवेला उलसी मेरी छातिया (४) ॥१॥

आएरी सखि श्रीवंतमल्हारा,

खरतर गच्छ शृङ्गारहारा । ए आंकड़ी (५)

अइसा रंग वधावन कौजइ (६)

गुरु अभिराम गिरा अमृत पीजइ (७)

ऐसे सुगुरु कुं नित्य उलगाउरी (८)

सुन्दर शरीरा गच्छपति अउरी ॥ ६ ॥ आ० ॥२॥

दुःख के दार सुगुरु तुम हउ री (१०)

गाउं गुण गुरु केदारा गउरी (११)

सोरठगिरि की जात्रा करणकुं आपणरी गुरु पाय परउ (१२)

भाग्यफलयो ओच्छव लोकणरओ (१३) ॥३॥

तुं कृपापर दउलति दे मोहि हुं तेरो भगन हुं री (१४)

गुरुजी तुं उपर जीव राखी रहूरी (१५)

इहु सयनी गुरु मेरा ब्रह्मचारी (१६)

हुं चरण लागुं डर डमर वारी (१७) आ० ॥४॥

अहो निकेत नटनराइण कइ आगइ

अइसइ नृत्य करत गुरुके रागइ (१८)

ऐसे शुद्ध नाटक होता गावत सुंदरी

वेणु वीणा मुरज वाजत घुमर घुघरी (१९) ॥५॥

रास मधु माधवइ देति रंभा, सुगुरु गायति वार्यति भंभा (२०)

तेजपुज जिमसे भेइरवी, जुगप्रधान गुरु पेखउ भवि(२१)आ०॥६॥

सबहि ठउर वरी जयतसिरी (२२)

गुरुके गुण गावत गुजरी (२३)

मारुणि नारी मिली सब गावत सुन्दर रूप सोभागी रे (२४)

आज सखि पुन्य दिसा मेरो जागी (२५) ॥७॥

तोरी भक्ति मुज मन मां वसी री (२६)

साहि अकबर मानइ जसु बाबरवंसी (२७)

गुरुके बंदणी तरसइसिंधुया (२८)

इया सारी गुरुकी मूरतिया (२९) आ० ॥८॥

गुरुजी तुंहिजकृपाल भूपाल कलानिधि तुंहिज सबहि सिरताज(३०)

आवइ ए रीतइ गच्छराज (३१)

संकरा भरण लांछन जिन सुप्रसन्न

जिनचंदसूरि गुरुकुंनतिकरुं (३२) ॥९॥

तेरी सुरतकी बलिहारी, तुं पूरव आस हमारी,

तुं जग सुरतरु ए (३३)

गुरु प्रणमइरी सुरनर किन्नर धोरणी रे

मनदंछित पूरण सुरमणी रे (३४) ॥१०॥

मालवा गजडमिश्री अमृत थइ धचन मीठे गुरु तेरे हइ ताथइ (३५)

करउ वंदणा गुरुकुं त्रिकालइ हरउ पंच प्रमाद रे (३६)

सवइकुं कल्याण सुख सुगुरु प्रसाद रे (३७) आ० ॥११॥

बहु परभाति वउ उछव सार (३८)

पंचमहाव्रत धर गुरु उदार (३९)

हुं आदेसकार प्रभुतेरा, जुगप्रधान जिनचन्द

मुनिसरा, तुं प्रभु साहिब मेरा (४०) ॥१२॥

दुरित मे वारउ गुरुजी सुख करउ रे श्रीसङ्ग पुरउ आशा

नाम तुमारइ नवनिधि संपजइ रे लाभइ लील विलास (४१) ॥१३॥

धन्यासरी रागमाला रची उदार, छः राग छत्रोसे भाषा भेद विचार,

सोलसइ बावन विजय दसमी दिने सुरगुरुवार,

थंभण पास पसायइं ब्रंवावती मजार (२) ध०) ॥१४॥

जुगप्रधान जिनचन्द सूरिंद सारा

चिर जयउ जिनसिंघसूरि सपरिवार (३ ध०)

सकलचन्द मुणीसर सीस उन्नतिकार,

“समयसुन्दर” सदा सुख अपार (६ ध०) ॥१५॥

इति श्रीयुगप्रधान जिनचन्दसूरीगां रागमाला सम्पूर्णा,

कृता च० समयसुन्दरगणिना लिखिता सं० १६५२ वर्षे

कार्तिक शुदि ४ दिने श्री स्तंभतीर्थ नगरे ।



(१७) रागः—आसावरी

पूज्यजी तुम्ह चरणे मेरुउ मन लीणउ, ज्युं मधुकर अरविंद ।
 मोहन बेलि सबइ मन मोहियउ, पेखत परमाणंद रे ॥१॥पूज्य०॥
 सुललित वाणि वखाण सुणावति, श्रवति सुधा मकरंद रे ।
 भविक भवोदधि तारण बेरी, जनमन कुमदनी चंदरे ॥२॥पूज्य०॥
 रीहड वंश सरोज दिवाकर, साह श्रोवंत कउ नंद रे ।
 “समयसुन्दर” कहइ तुं चिरप्रतपे, श्रीजिनचन्द्र सुणिंद रे ॥३॥पूज्य०॥

(१८) आसावरी

भले री माई श्री जिनचन्द्रसूरि आए ।

श्रीजिन धर्म मरम बूझण कुं, अकबर शाहि बुलाए ॥ १ ॥

सद्गुरु वाणी सुणि शाहि अकबर, परमाणंद मनि पाए ।

हफतहरोज अमारि पालन कुं, लिखि फुरमान पठाए ॥ २ ॥

श्री खरतर गच्छ उन्नति कीनी, दुरजन दूर पुलाए ।

“समयसुन्दर” कहै श्रीजिनचन्द्रसूरि सब जनके मन भाए ॥३॥

(१९) आसावरी

सुगुरु चिर प्रतपे तुं कोडि वरीस ।

खंभायत बन्दर माछलडो, सब मिलि देत आशीस ॥ १ ॥ सु०

धन धन श्री खरतरगच्छ नायक, अमृतवाणि वरीस ।

शाहि अकबर हमकुं राखणकुं, जासु करी बकशीस ॥ २ ॥

लिखि फुरमाण पठावत सबही, धन कर्मचन्द्र मंत्रीश ।

“समयसुन्दर” प्रभु परम कृपा करि, पूरउ मनहि जगीश ॥३॥

(२०)

श्री खरतर गच्छ राजीयउ रे माणिक सूरि पटधारो रे ।

सुन्दर साधु सिरोमणी रे, विनयवंत परिवारो ॥ १ ॥

विनयवंत परिवार तुम्हारउ, भाग फलयउ सखी आज हमारो ।

ए चन्द्रालउ छइ अति सारउ, श्रीपूज्यजी तुम्हे वेगि पधारो ॥१॥

जिणचन्दसूरिजी रे, तुम्ह जग मोहण वेलि ।

सुणज्यो वीनती रे, आवउ आम्हारइ दिसि, गिरूआ गच्छपतिरे ॥

वाट जोवतां आवीया रे हरख्या सहु नर-नारो ।

संघ सहु उच्छव करइ रे घरि २ मंगलाचारो ॥

घरिघरि मंगलचारो रे गोरी, सुगुरु बधावउ बहिनी मोरी ।

ए चन्द्रालउ सांभलज्योरी, हुं बलिहारी पूजजी तोरी ॥२॥ श्री०

अमृत सरिखा बोलडा रे, सांभलतो सुख थाज्यो ।

श्रीपूज्य दरसण देखतां रे, अलिय विघन सवि जाज्यो ॥

अलिय विघन सहु जायइ रे दूरइ, श्रीपूज्य वांदु उगमते सूरइ ।

ए चन्द्रालउ गांउ हजूरइ, तउ मुझ आस पूलइ सवि नूरइ ॥ ३ ॥

जिणदीठा मन उलसइ रे नयणे अमीय झरंति ।

ते गुरुना गुण गावतां रे, वंछित काज सरंति ॥

वंछित काज सरंति सदाइ, श्रीजिणचन्दसूरि वांदउ माई ।

ए चन्द्रालउ भास मईगाई, प्रीति “समयसुन्दर” मनिपाई ॥४॥ श्री

(२१)

जनचन्दसूरि आलीजा गीत रागः—आस्यासिंधूडो

थिर अकवर तुं थापीयउ, युग प्रधान जग जोइ ।

श्रीजिनचन्दसूरि सारिखउ, सारि० कलिमें न दीसइ कोय ॥१॥

उमाह धरो नइ तातजी हुं आवियउरे, हो एकरसउ तुं आवि ।
मनका मनोरथ सहु फलइ माहरा रे,हो दरसणि मोहि दिखाव ॥ २ ॥
जिनशासनि राख्यउ जिणइ, डोलतउ डमडोल ।

समझायउ श्री पातिसाह, सदगुरु खाटयउ तइं सुबोल । ऊ० ॥३॥
आलेजो मिलवा अति घणउ, आयउ सिन्ध थी एथ ।

नगर गाम सहु निरखीया, कहो क्युं न दीसइ पूज्य केथ ।उ० ॥४॥
शाहि सलेम सहु अंबरा, भीम सूर भूपाल ।

चीतारइ तुं नइ चाह सुं, हो पूज्यजी पधारउ किरपाल । ऊ० ॥५॥
वावा आदिम बाहूबलि, वोर गौयम ज्युं विलाप ।

मेलउ न सरज्यउ माहरउ मा०, ते तउ रह्यो पछताप । ऊमा०६॥
साह बडउ हो सोमजी राख्यउ कर्मचन्द राज ।

अकबर इंद्रपुरि आणीयउ हो, आस्तिक वादी गुरु आज । उमा०७॥
मूयइ कहइ ते मूहनर, जीवइ जिणचन्दसूरि ।

जग जंपइ जस जेहनउ, जेह० हो पुहवि कीरत पडरि । ऊमा०८॥
चतुर्विध संघ चीतारस्यइ, जां जीविसइ तां सीम ।

वीसार्या किम विसरइ, विस० हो निर्मल तप जप नीम । उमा०९॥
पाटि तुम्हारइ प्रगटीयउ, श्री जिर्णसिंह सूरीस ।

शिष्य निवाज्या तइ सहु, तइं० रे जतीयां पूरी जगीस । उमा०१०॥
समयसुन्दर कृत अपूर्ण—प्राप्त



कवि कुशल लाभ कृत

॥ श्रीफूज्य काहण गतिम् ॥

राग—आसावरी

- पहिलो प्रणमुं प्रथमजिण, आदिनाथ अरिहंत ।
नाभि नरेश्वर कुलतिलक, आपइ सुख अनंत ॥ १ ॥
- चक्रवर्ती जे पांचमो, सरणागत साधारि ।
शान्ति करण जिन सोलमो, शान्तिनाथ सुखकार ॥ २ ॥
- बह्वचारो सिर मुकटमणि, यादव वंश जिणिंद ।
नेमिनाथ भावइ नमुं, आणो मन आणंद ॥ ३ ॥
- श्री खंभायत मंडणो, प्रणमुं थंभण पास ।
एक मना आराधतां, पूरइ जन नी आस ॥ ४ ॥
- शासननायक समरीयइ, वर्द्धमान वर वीर ।
तीर्थकर चौबोसमो, सोवन वर्ण शरीर ॥ ५ ॥
- च्यारि तीर्थकर शाश्वता, विहरमाण जिन वीश ।
त्रिण चौवीशी जिन तणा, नाम जपूं निशदीस ॥ ६ ॥
- श्रीगौतमगणधर सधर, नमिसुं लब्धिनिधान ।
केवलिकमला करि वशइ, महिमा मेरु समान ॥ ७ ॥
- समरुं शासनदेवता, प्रणमुं सदगुरु पाय ।
तासु प्रसादे गाइस्युं, श्री खरतरगच्छ राय ॥ ८ ॥

सतर भेद संयम धरइ, गिरुआ गुण छतीस ।

अधिकी उत्कृष्टी क्रिया, ध्यान धरइ निसदीस ॥ ९ ॥

सूयगडांग सूत्रे कहा, वीर स्तव अधिकार ।

भव समुद्र तारण तरण, वाहण जिम विस्तार ॥ १० ॥

आ भव सागर सारिखुं, सुख दुख अंत न पार ।

सद्गुरु वाहण नी परइ, उतारइ भवपार ॥ ११ ॥

ढालः—सामेरी

भवसागर समुद्र समान, राग द्वेष वि नेऊ धाण ? ।

ममता तृष्णा जल पूर, मिथ्यात मगर अति क्रूर ॥ १२ ॥

मोजा ऊंचा अभिमान, विषयादिक वायु समान ।

संसार समुद्र मंझारि, जीव भन्या अनंत वारि ॥ १३ ॥

हिव पुण्य तणइ संयोग, पाम्यो सहगुरु नो योग ।

भवसागर तारणहार, जिन धर्म तणउ आधार ॥ १४ ॥

वाहण नी परि निस्तारइ, जीव दुर्गति पडितो वारइ ।

कालरि जलि किहांन छीपइ, पर वादी कोइ न जीपइ ॥ १५ ॥

इहणइ तोफान न लागइ, सुखि वायु वहइ वैरागइ ।

जल थल सविहुं उपगारइ, भवियण जण हेलं तारइ ॥ १६ ॥

ढालः—हुसेनी धन्यासिरी

श्रीजिनराय नीपाइयउ ए, वाहण समुं जिनधर्म,

भविक जनतारवा ए ॥ १७ ॥

तारइ २ श्रीवंत शाह नो नन्दन वाहण तणी परइ ।

तारइ २ सिरियादे नो सुत कि, वाहण सिला मती ए ।

तारइ २ श्रीपूज्य सुसाधु, श्रीखरतरगच्छ गच्छपत्ति ए ॥ आं० ॥
अविहड वाहण ए सही ए, सविहुं सुख व्यापार ।

धर्म धन दायकू ए ॥ १८ ॥

तारइ तारइ श्री समकित अति निर्मलो ए ।

पहलउ ते पयठांण, सुमति सूत्रेधर्यो ए ॥ १९ ॥

ता० गुण छतीस सोहामणा ए ।

विहु दिसि बांक मंडाण, सुकृत दल मलिवा ए ॥ २० ॥

ता० कूया थुंभ चारित्र तणउ ए ।

जयणा जोडी संधि, सबल सढ तप तणउ ए ॥ २१ ॥

ता० शोल डबू सो सोभतो ए ।

ले मत सुगुरु वखाण, दया गुण दोरडो ए ॥ २२ ॥

तारइ तारइ कळमी ते शुद्धी क्रियाए,

पुण्य करणी पंतांस, संतोष जलइ भयाउ रे ॥२३॥

ता० दशविध धर्म वेडूं गवी ए ।

संवर तेह जना रखि मासरि छत्रडी ए ॥२४॥

ता० सतर भेद संयम तणाए,

ते आउला अपार । संवेग सुं पंजरी ए ॥२५॥

ता० आज्ञा नालु अणी समोए ।

पंच समिति पर वांण, कीर्त्तिधज जह ल्हइ ए ॥२६॥

ता० विजइ बारह भावनाए ।

(दा) हांडा शुभ परिणाम, नागर नवतत्त्व तणाए ॥२७॥

ता० करुणा कीलइ लेपीउ ए, ज्ञान निरुपम नोर ।

झोलउ समरस भयोए ॥२८॥

ता० शासन नायक हू (कू) यउए, मालिम श्री गुरराज ।

कराणि मुनिवरुए ॥२९॥

ता० जिन भाषित मारग बहइ ए, वाजिन्नताद सिझाय ।

सुसाधु खलासीयाए ॥३०॥

तारइ २ ए मारग जिनधर्म तणउए, को डोलइ नहीं लगार ।

सदा सुखियां करइए ॥३१॥

ता० मल (चा ?) वारी ते काठीया ए, कुमती चोर हीनोर ।

सहु भय टालताए ॥३२॥

ता० पुण्य क्रियाणे पूरीया ए, बहुरति वस्तु अनेक ।

सुजस पाखर खरीए ॥३३॥

ता० कषाय डूंगर जालवइए, वइतउ ध्यान प्रवाह ।

सिलामति आवीयोए ॥३४॥

ढाल-रामगिरी:—

धर्ममारग उपदेशता, करता २ विधइ विहार रे ।

आव्याजी नगर त्रंवावती, श्री संघ हर्ष अपार रे ॥३५॥

पूज्य आव्या ते आसा फली, श्री खरतरगच्छ गणधार रे ।

श्री जिनचन्दसूरि वांडीयइ, साथइ २ साधु परिवार रे ॥३६॥पू०॥

आगम सूत्र अर्थे भर्या, सुकृत क्रियाण ते सार रे ।

चारित्र वखारि अति भली(र्या), भ्रत पचखाण विस्तार रे ॥३७॥

वस्तु अपूर्व बहुरिवा, मिल्या २ भविक नर-नार रे ।

विनय करि पूज्य नइ वीनवइ, आपउ २ वस्तु उदार रे ॥३८॥पू०॥
मोटा २ श्रावक श्राविका, करइ मंडाण अनेक रे ।

महोत्सव अधिक प्रभावना, जाणइ २ विनय विवेक रे ॥३९॥पू०॥
ज्ञान दरशण चारित्र तणा, अमोलक रत्न महंत रे ।

पुण्य व्यापारि आवि मिल्या, बहुरतां लाभ अनन्त रे ॥४०॥पू०॥
दान गुण मोतीय निर्मला, पंच आचार ते पांच रे ।

दश पचखाण ते कहरवउ, अगर ते शीतल वाच रे ॥४१॥पू०॥
सूफ ते सहहणा खरी, सुगुरु सेवा सिकलात रे ।

पोत सुरासुर पोसहा, मकमल प्रवचन मात रे ॥४२॥पू०॥
हीर पेटी महोत्सव घणा, इ आ (त्रा ?) मी ते सूत्रनी साख रे ।
भाव(जाच)परिवार लिय अति भलो, निवृत्ति ते किसमिस दाख रे ॥४३॥पू०॥
श्रीफल श्रीगुरु देशणा, वीश थानिक कमखाव रे ।

नांदि उछव मलीयागरउ, पूज्यनी भगति गुलाव रे ॥४४॥पू०॥
देश विरति ते कचकडउ, चोली(ल) यां ते उपधान रे ।

दांत(न)? शीलंगरथ उजलउ, राती जगु तेह कंताण रे ॥४५॥पू०॥
शीतल सुकडि भावना, स्नात्र तेकपूर बरास रे ।

कतीफउ कल्याणिक जाणीयइ, कंस बण्यो सह उपवास रे ॥४६॥पू०॥
मासखमण मसझारे समुं (भलुं), लारीते लाख नवकार रे ।

सूत्र ना भेइ हीरा खरा, उचित नुं दान दीनार रे ॥४७॥पू०॥
पाखर कमण बरीया बिसइ, लवंग ओ(ब)ली विश्वा(सय)वीस रे ।

नाम आलोयण बाडीया, छठ तप बिसय गुणतीस रे ॥४८॥पू०॥

संसार तारण दु कांबली, चउथो व्रत तेह दस्तार रे ।

अखोड आंबिल निम जाणवी, कल(इ)य वेयावच्चसार रे ॥४६॥पू०॥

अठम तप ते टोक(प)रां, अठाही ते सेव खजूर रे ।

समवसरण तप ते मिरी, सोपारी सामायिक पूर रे ॥५०॥पू०॥

लाहिण माल पहिरावणी, उत्तम क्रियाण ते जोइ रे ।

परखीय वस्त जे संप्रही, लाख असंखित होइ रे ॥५१॥पू०॥

श्री गुरु शासण देवता, वाहण ना रखवाल रे ।

भगति भणी सानिध करइ, फलइ मनोरथ माल रे ॥५२॥पू०॥

रागः—केदार गौड़ी

दिन २ महोत्सव अति घणा, श्रोसंव भगति सुहाइ ।

मन शुद्धि श्रीगुरु सेवीयइ, जिणि सेव्यइ शिवसुखपाइ ॥५३॥पू०॥

भविकं जन वंदौ सहगुरु पाय, श्री खरतर गच्छराय ॥आं०॥

प्रमु पाटिए चउवीसमइ, श्रीपूज्य जिनचन्दसूरि ।

उद्योतकारी अभिनवो, उदयो पुन्य अंकूर ॥५४॥भ०॥

शाह (आवक) भंडारी वीरजी, साह राका नइ गुरुराग ।

वर्द्धमानशाह विनयइ घणो, शाह नागजी अधिक सोभाग ॥५५॥भ०॥

शाह वछा शाह पदमसो, देवजीने जैतशाह ।

आवक हरखा(षा)हीरजो, भाणजी अधिकउ उच्छाइ ॥५६॥भ०॥

भंडारी माडण नइ भगति घणी, शाह जाबडने घणा भाव ।

शाह मनुआने शाह सहजीया, भंडारी अमीउ अधिक अछाइ रो ॥५७॥

नित मिलइ आवक आविका, संभलइ पूज्य वखाण ।

हीयडउ उलटइ उलसइ, एम जीव्यो जन्म प्रमाण ॥५८॥भ०॥

आग्रह देखी श्री संघनो, पूज्यजी रह्या चउमास ।

धर्मनो मार्ग उपदिसेइ, इम पहुंती मननी आश ॥५६॥भ०॥

प्रतिमाप्रतिष्ठा थापना, दीक्षा दीयइ गुरुराज ।

इम सफल नर भव तेहनो, जे करइ सुकृत ना काज रे ॥६०॥भ०॥

राग :—गुड मल्हार

आव्यो मास असाढ़ झबूके दामिनी रे ।

जोवइ २ प्रीयडा वाट सकोमल कामिनी रे ॥

चातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ २ उचरइ रे ।

वरसइ घण वरसात सजल सरवर भरइ रे ॥६१॥

इण अवसरि श्रीपूज्य महा मोटा जती रे ।

आवक ना सुख हेत आया त्रंभावती रे ।

जोवउ २ अम गुरु रीति प्रतीति वधइ बलो रे ।

दिक्षारमणी साथ रमइ मननी रली रे ॥६१॥आ०॥

संवेग सुधारसनीर सबल सरवर भर्या रे ।

पंच महाव्रत मित्र संजोगइ संचर्या रे ।

उपशम पालि उतंग तरंग वैरागना रे ।

सुमति गुप्ति वर नारि संजोग सौभाग्यना रे ॥६२॥

प्रवचन वचन विस्तार अरथ तगवर घगा रे ।

कोकिल कामिनी गीत गायइ ओ गुरु तणा रे ।

गाजइ २ गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे ।

भविष्य मोर चकोर थायइ शुभ वासना रे ॥६३॥

सदा गुरु ध्यान स्नान लहरि शीतल बहइ रे ।

कीर्त्ति सुजस विसाल सकल जग मह महइ रे ।

साते खेत्र सुठाम सुधर्मह नोपजइ रे ।

श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजइ रे ॥६४॥

स्वामि संयोग सुधर्म सहइ सुणइ रे ।

फलीया पुण्य व्यापार आचार सुहामणा रे । २

पुण्य सुगाल हवति मिल्या श्री पूज्यजी रे ।

वाहण आव्या खेति बर वाइ हर ? रमजी रे ॥६५॥

जिहां २ श्रीगुरु आण, प्रवर्ते जिह् किणइ रे ।

दिन २ अधिक जगीस जो थाइज्यों तिह् किणइ रे ।

ज्यां लग मेरु गिरिन्द गयणि तारा घणा रे ।


तां लागि अविचल राज करउ, गुरु अम्ह तणा रे ॥६६॥

परता पूरण पास जिणेसर थंभणउ रे ।

श्रीगुरु ना गुण ज्ञानहर्ष भवियण भणउ रे ॥

“कुशललाभ” कर जोडि श्रीगुरु पय नमइ रे ।

श्रीपूज्य वाहण गीत सुणतां मन रमइ रे ॥६७॥



गुरु गीत नं० २३

सभ (ब?) नमइ चक्रवर्ती जिनचन्दसूरि,

चतुर (विद्य)संघ चतुरंग सेन सजि, वारे विघन अरि दूरि ।

नव तत नवनिधान जिन पाए, आगम गंगा कूरि ।

चवद विद्या गुण रतन संग करि, नीकड नीलवट नूरि ॥१॥स०॥

पंच महाव्रत महल (ण?)श्रमण गुण, हइ दरवार हजूरि ।

दरसन ज्ञान चरण त्रिणह तोरथ, साधि सकति अरि चूरि ॥२॥स०॥

मरुधर गूजर सोरठ मालव, पूरव सिंध संपूरि ।

षटखण्ड साधि परम गुरु सानिधि, घुरे सुजस के तूरि ॥३॥स०॥

निरमल वंस उदय फुनि पाए, दरसन अंगि अंकूरि ।

मुनि“जयसोम”बढ़ति जय २ धुनि, सुगुरु सकति भरपूरि ॥४॥स०॥

जयप्राप्ति गीत

(२४) राग :—

देखउ माई आसा मेरइ मनकी, सफल फलीरे उलटि अंगि न माइ ।

सुजस जसु देसंतरइ, नवखंडि दीपायउ नाम रे ।

माम मोटी महि मंडले, सब जन काइ प्रणाम रे ॥१॥जीतउ०॥

श्रीखरतरगच्छ राजीयउ, श्रीजिनचंद्र मुणिंदर ।

मान मोड्यो कुमति तणउ, त्रिभुवन हुओ आणंद रे ॥२॥अं॥

पाटणि भूप दुर्लभ मुखे, बरस दससइअसी मानि रे ।

सूरि गण पमुह तिहां चउरासो, मढ़पति जीपी आसाणि रे ॥३॥जीतउ०॥

दिवस शुभ थान पंचासरइ, करीय परणाम विसार रे ।

सूरि जिगेश्वर पामोयो, खरतर विहइ उडार रे ॥४॥जीतउ०॥

संवत सोल सतरोत्तरइ, पाटण नयर मझार रे ।

मेळी दरसण सहु संमत, ग्रन्थ नी साखि साधार रे ॥५॥जीतउ०॥

पूर्व विरुद उजवालयउ, साखि दाखइ सहु लोक रे ।

तेज खरतर सहगुरु तणउ, ऋषिमती ते थयउ फोकरे ॥६॥जीतउ०॥

रिगमती (ऋषिमती) जे हुंतउ 'कंकली' वोळतो आल पंपाल रे ।

खष्ट कीधउ खरतर गुरे, जाणइ बाल गोपाल रे ॥७॥जीतउ०॥

निलवट नूर अतिसउ घणउ, खरतर सोह सम जोडि रे ।

जंबु करिगमता जे भिडइ, जय किम पामइ सोइ रे ॥८॥जीतउ०॥

माणिकसूरि पाटइ तपइ, रिहड कुल सिणगार रे ।

श्रीजिनचन्द्र सूरि गुणधा निलउ, सेवक जन सुखकार रे ॥९॥जी०

(२५) विधि स्थानक चौपई

गरुवौ गच्छ खरतर तणौ, जेहनै गुरु श्रीजिनदत्तसूरि ।

भद्रसूरि भाग्यइ भयौ, प्रणमन्ता होइ आणंद पूरि कि ॥१॥

सूरि शिरोमणि चिरजयउ, श्रीजिनचन्द्रसूरि गणधारि ।

कुमति दल जिण भांजियउ, वत्यौ जग मांहिं जय २ कार कि ॥२॥

बालपणइ चारित लियउ, विधा बुद्धि विनय भंडार ।

अविधि पंथ जिण परिहरी, धारइ पंच महाव्रत धार कि ॥३॥

गुण लत्तीस सदा धरइ, कलिकालइ गोयम अवतार ।

सहु गच्छ माहे सिर धणी, रूपे मयण मनायउ हार कि ॥४॥

सूरि "जिनेश्वर" जगतिलउ, तामु पाटाभय देव विख्यात ।

वृत्ति नवांगि जिणइ करो, तेतो खरतर प्रगटावदात कि ॥५॥

श्रीसेढी तटनी तटइ, प्रगट क्रियउ जिण थंभण पास ।

कुष्ट गमाइयउ देहनौ, ते खरतर गच्छ पूरइ आस कि ॥६॥
संवत सोल सत्तोतरइ (१६१७), अणहिल पाटण नगर मझार ।

श्रीगुरु पहुंता विचरता, सहु भवियण मन हर्ष अपार ॥७॥
केई कुमति कळंकिया, बोलइ सूत्र अरथ विपरीत ।
निज गुरु भाषित ओलवइ, तिहां कणि श्रीगुरु पाम्यो जीत कि ॥८॥
कंकाली मही मूलगौ, पंडित तणौ वहै अभिमान ।

सागर छीतर सम थयो, जिहि उदयौ खरतर गुरु भानि कि ॥९॥
पाटण मांहि पंचासरौ, पाडा पाखलि जे पोशाल ।

पौल देई पैशी रह्यौ, जे मुखि लावत आल पंपाल कि ॥१०॥
गच्छ चौरासी मेलवौ, पंच शाख नी साखि उदार ।

जीत्यउ खरतर राजियौ, ए सहुको जाणै संसार कि ॥११॥
श्रुति उगधाड़ा पौरसी, बहु पड़िपुना कहंतां दोष ।

मृषावाद इम बोलतां, बीजौ व्रत किम पामै पोष कि ॥१२॥
घणा दिवस ना बाकुला, मांडा गोरस लोधा वीर ।

विधिवादइ साधु लिया, ठामि २ ए दीखै हीर कि ॥१३॥
वर्धमान जिन वा (पा?) रणै, लोधा वासी शुद्ध आधा(हा?)र ।

संघट्टा तेहना तुम्हें, टालो छौ ए कवण आचार कि ॥१४॥
पर्व चारि पोसह तणा, बोलइ सूत्रं अरथ नै भाखि ।

पर्व पखै पोसह करौ, तेहनी नवि दीसै किह साखि कि ॥१५॥
सातवीस झाझेरडा, इम पूछइवा छइ बहु बोल ।

ते सूधी परि सर्दहौ, भव भ्रामक कांड (ग) वाओ निटोल कि ॥१६॥

रोस रोस हम मनि नहीं, एक जोभ किम करउं बखाण ।

श्रीजिनकुशल सूरिन्द्र नै, समरणि लाभै कोड़ि कल्याण कि ॥१७॥

गहुंली नं० (२६) रागः—गूजरी ।

अब मइ पायउ सब गुणजांण ।

साहि अकवर कहइ ए सुहगुरु, जिनशासन सुलवाण ॥अब०॥आंकणी॥

यतीय सती मइ बहुत निहाले, नही को एह समान ।

के क्रोधी के लोभो कूड़ा, केइ मन धरइ गुमान ॥१॥अब०॥

गुरुनी वाणि सुगी अवनिपती, वृझयउ थइ सन्मान ।

देस विदेश जीऊ हिंस्या दली, भेजी निज फुरमान ॥२॥अब०॥

श्रीजिनमाणिक सूरि पटोधर, खरतरगच्छ राजान ।

चिरजीवो जिनचंद यतीश्वर, कहइ मुनि“लब्धि”सुजाना ॥३॥अब०॥

गहुंली नं० (२७) रागः—गूजरी ।

दुनिया चाहइ दौ सुलतान ।

इक नरपति इक यतिपति सुन्दर, जाने हइ रहमान ॥दु०॥आंकणी॥

राय राणा भू अरिजन साधी, बरतावो निज आण ।

बर्बर बंस हुमाऊ नंदन, अकवर साहि सुजांण ॥१॥दु०॥

विधि पथ हीलक दुरजन जनके, गाली मइ अभिमान ।

श्रीवंत सुत सब सूरि सिरोमणी, जग मांहि “जुगप्रधान” ॥२॥दु०॥

बइह सिंहासण हुकुम सुनावति, कौ नवि खंडत आण ।

मिर ‘मलक’ बहु उनकुं सेवति, इनकुं मुनि राजान ॥३॥दु०॥

इक छत्र सिरु बरि मथाडंबर, धारति दौऊ समान ।

कहति“लब्धि”जिनचंद धराधर, प्रतिपो जहां दोऊ भांन ॥भा० दु०॥

गहुंली नं० (२८) रागः—धवल धन्याश्री ।

नीकौ नीकउरी जिनशासनि ए गुरु नीको ।

युगप्रधान जगि जंगम एही,दीयउ जसु अकबर ठो(टी?)कउरी॥जि०॥आं०

राज काज (आज) हम सुन्दर, सफल भयउ अब नीको ।

साहि अकबर कहइ जु मोकुं, दरसण थयो गुरुजी कउरी ॥१॥जि०॥

मोहन रूप सुगुरु बडभागी, लखौ मान श्रीजीउ को ।

जे गुरु उपर मद मच्छर धरतां, हुउ मुख तिहकु फोकउ रो॥२॥जि०॥

श्रीगुरु नामि दुरति हरि भाजइ, नाद सुगी जिउ सीह को ।

सार (ह?)श्रीवंत सुतन चिर जीवउ, साहिव “लब्धि”मुनी को ॥३॥

गहुंली नं० (२९) रागः—सोरठो ।

आज उछरंग आणंद अंगि उपनौ,

आज गच्छ राज ना गुण थुणोजइ ।

गाम पुरि पाटणइ रंगि बधावणा,

नवनवा उछव संघ कीजइ ॥ आज०॥आ०॥

हुकम श्री साहि नइ पंच नदि साधिनइ,

उदय कीयउ संघनो सवायौ ।

संघपति सोमजी, सुणउ मुझ बिनती,

सोय जिणचंद गुरु आज आयो ॥१॥आ०॥

साहि प्रतिबोधता पंच नदी साधतां,

सुजसमइ जास जगि भेर वागी ।

“लब्धिकलोल” मुनि कहइ (कहति) गुरु गावतां,

आज मुझ परम मनि प्रीत जागी ॥२॥आ०॥

(३०) गहुंली

सुगुरु मेरउ कामित कामगवी ।

मनशुद्ध साही अकबर दीनी, युगप्रथान पदवी ॥१॥सु०॥

सकल निसाकर मंडल समसरि, दीपति वदन छवि ।

महिमंडल मइ महिमा जाकी, दिन प्रति नवीनवी ॥२॥सु०॥

जिनमाणिक सूरि पाटि उदयगिरि, श्रीजिनचंद्र रवी ।

पेखत ही हरखत भयउ मन मइ, “रत्न निधान” कवी ॥३॥सु०॥

(३१) सुयश गीत ॥ रागः—धन्याश्री ॥

नमो सूरि जिगचन्द्र दादा सदादीपतउ,

जीपतउ दुरजण जण विशेष ।

रिद्धि नवनिद्धि सुखसिद्धि दायक सही,

पादुका प्रहसमइ उठि देख ॥ १ ॥ नमो० ॥

सधवट मोटिकउ बोल खाटयउ खरउ,

शाहि सलेम जसकीध सेवा ।

गच्छ चउरासी ना मुनिवर राखिया,

साखीया सूरिजचन्द्र देवा ॥ २ ॥ नमो० ॥

भाग सोभाग बइराग गुण आगला,
जीवता कलियुगि जीव जाण्यउ ।
अन्तलगि आतम धरम कारिज(क)री,
स्वर्ग पहुतां पछी सुर वखाण्यउ ॥ ३ ॥ नमो० ॥

खरतर सेवकां सुरतरु सारिखउ,
कष्ट संकट सवि दूर कीजइ ।
“हर्षनंदन” कहइ चतुविध श्रीसंव,
दिन दिन दौलति एम दीजइ ॥ ४ ॥ नमो० ॥



॥ श्रीजिनसिंहसूरि गीतानि ॥

रागः—बेलाउल

(१)

शुभ दिन आज वधाइ, धवल मंगल गावो माइ ।

श्रीजिनसिंहसूरि आचारज, दीपइ बहुत सवाइ ॥१॥शुभ०॥
शाहि हुकम श्रीजिनचन्द्रसूरि गुरु, सईहथि दीन वडाइ ।

मंत्रीश्वर कर्मचंद्र महोच्छव, कोनउ तवहुं बनाइ ॥२॥शु०॥
पातिशाह अकवर जाकुं मानत, जानत सब लोकाइ ।

कइइ 'गुणविनय' सुगुरु चिरजीवउ, श्रीसंघ कुं सुखदाइ ॥३॥शु०॥

(२) रागः—मेवाडउ

श्रीगौतम गुरु पायनमी, गाउं श्रीं गच्छराज

श्रीजिनसिंघ सूरिसरु, पूरवइ वंछित काज ॥

पूरवइ वंछित काज सहगुरु, सोभागी गुण सोहइ ए

मुनिराय मोहन वेलि ने परे, भविक जन मन मोह ए ।

चारित्रपात्र कठोर किरिया, धरमकारज उद्यमी,

गच्छराजना गुणगाइइयुंजी, श्रीगौतम गुरु पयनमी ॥१॥

गुरु लाहोर पधारिया, तेडाव्या कर्मचंद्र ।

श्री अकवर ने सहगुरु मिल्या, पाम्या परमाणंद ।

पामीया परमाणंद ततक्षण, हुकम दिउ उठो ने कियो ।

अत्यंत आदर मान गुरुने, पादशाह अकबर दियउ ।
 धर्म गोष्ठि करतां दया धरता, हिंसा दोष निवारिया ।
 आणंद वरत्या हुआ ओच्छव, गुरु लाहोर पधारिया ॥२॥
 श्रीअकबर आग्रह करी, काश्मीर कियो रे विहार,
 श्रीपुरनगरसोहामणुं ,तिहां वरतावी अमार ॥
 अमार वरती सर्व धरती, हुओ जयजयकार ए,
 गुरु सीत ताप(ना) परीसह, सखा विविध प्रकार ए ।
 महालाभ जाणी हरख आणी, धीरपणुं हियडे धरी,
 काश्मीर देश विहार कीधो, श्रीअकबर आग्रह करी (३)
 श्री अकबर चित रंजियो, पूज्यने करइ अरदास ।
 आचारिज मानसिंघ करउ, अम मन परमउल्लास
 अम्ह मन आज उलास अधिकउ, फागुण शुदी बीजइ मुदा ।
 सइहत्थि जिनचंदसूरी दीधी, आचारिज पद संपदा ।
 करमचंद मंत्रीसर महोत्सव, आडंबर मोटो कियो ।
 गुरुराजना..... ॥४॥
 गुण देखि गिरुआ, वरीस सह गुरु, चापडां चडती कला ।
 चांपशी साह मलहार चांपल. देवि माता तन इला,
 पादसाह अकबरसाहि परख्यो, श्रीजिनसिंघ सूरि चिरजयउ ।
 आसीस पभणइ “समयसुन्दर”, संघ सहू हरखित थयउ ॥५॥
 इति श्रीजिनसिंहसूरीणां जकडी गीतं समाप्तम् ।



(३) गुरु गीतम्

आज मेरे मन की आश फली ।

श्रीजिनसिंहसूरि मुख देखत, आरति दूर टली ॥१॥

श्रीजिनचंद्रसूरि सइंहत्थइ, चतुर्विध संघ मिली ।

शाहि हुकम आचारज पदवी, दीधी अधिक भली ॥२॥

कोडि वरिस मंत्री श्रीकरमचंद्र, उत्सव करत रली ।

“समयसुन्दर” गुरुके पदपंकज, लीनो जेम अलो ॥३॥

(४)

जिनसिंहसूरि हीडोलण गीतं

सरश्वति सामणि वीनवुं, आपज्यो एक पसाय ।

श्रीआचार्य गुण गाइसुं, हीडोलणा रे आणंद अंगिन माय ॥१॥ही०॥

वांदउ श्रीजिनसिंहसूरि, ही० प्रह उगमत(ल)इ सूरि ।ही०।

मुझ मन आणंद पूरि, ही० दरसण पातिक दूरि ॥आं०॥

मुनिराय मोहण बेलडी, महियल महिमा आज ।

चंद जिन चढ़ती कला हीं० श्रीसंघ पूरवइ आस ॥२॥

सोभागी महिमा निलउ, निलवट दीपइ नूर ।

नरनारि पाय कमल नमइ, ही० प्रगट्यो पुण्यपडूर ॥३॥ही०॥

चोपड़ा वंशइ परगडउ, चांपसी शाह मलहार ।ही०।

मात चांपल दे उरि धर्या, ही० प्रगटयउ पुण्य प्रकार ॥४॥ही०॥

चौरासी गच्छ सिर तिलउ, जिनसिंहसूरि सूरीस ।

चिरजयउ चतुर्विध संघ सुं, ही० ‘समयसुन्दर’ बइ आसीस ॥५॥ही०

(५) जिनसिंहसूरि गहुंलो

चालउ सहेली सहगुरु वांदिवाजो, सखि मुझ मर्नि वांदिवानो कोड़ रे ।
 श्रोजिनसिंहसूरि आवीयाजी, सखो करुं प्रणाम कर जोड़ रे ।१।चा०
 मात चांपलदे उरि धर्याजी, सखो चांपसो शाह मल्हार रे ।
 मनमोहन महिमा निलउजो, सखी चोपड़ा साख शृङ्गार रे ।२।चा०
 वइरागइव्रत आदर्योजी, सखी पेच महाव्रत धार रे ।
 सकल कलागम सोहनाजी, सखो लब्धि विद्या भंडार रे ॥३॥चा०॥
 श्री अकबर आप्रह करिजी, सखी कास्मोर क्रियउ विहार रे ।
 साधु आचारइ साहि रंजीयउ रे, सखी तिहां वरतावि अमारि रे ।४।चा०
 श्रीजिनचंद्रसूरि थापोयउजी, सखी आचारिज निज पटधार रे ।
 संघ सयल आस्या फली, सखी खरतर गच्छ जयकार रे ।५।चा०।
 नंदि महोच्छव मंडोयउजी, सखि कर्मचंद्र मंत्रीस रे ।
 नयरलाहोर वित बावरइजी, सखी कवियण कोडि वरीस रे ।६।चा०।
 गुरुजी मान्या रे मोटे ठाकुरेजी, सखी गुरुजी मान्या अकबरसाहि रे ।
 गुरुजी मान्या रे मोटे ऊंबरेजी, सखी जसु श त्रिभुवनमांहि रे ।७।चा०।
 मुझ मन मोहो गुरुजी तुम गुणेजी, सखि जिम मधुकर सहकार रे ।
 गुरुजी तुम दरसन नयणे निरखतांजी, सखी मुझमनि हर्षअपार रे ।८।
 चिर प्रतपइ गुरु राजीयउजी, सखो श्रीजिनसिंघसूरीस रे ।
 'समयसुंदर' इम बिनवइजी, सखी पूरउ माहरइ मनहीं जगीस रे ।९।चा०

बधावा (६)

आज रंग बधामणां, मोतीयडे चउक पूरावउ रे ।

श्रीआचारिज आविया, श्रीजिनसिंहसूरि बधावउ रे ॥१॥आ०॥

जुगप्रधान जगि जाणीयइ, श्रीजिनचंदसूरि सुणिंद रे ।

सइहथि पाटइ थापीया, गुरु प्रतपइ तेजि दिणंद रे ॥२॥आ०॥

सुर नर किन्नर हरषीया, गुरु सुललित वाणि वखाणइ रे ।

पातिशाहि प्रतिबोधियउ, श्रीअकबर साहि सुजाण रे ॥३॥आ०॥

बलिहारी गुरु वणयडे?(वयणडे)बलिहारी गुरु मुखचन्द रे ।

बलिहारी गुरु नयणडे, पेखहांत परमाणंद रे ॥४॥आ०॥

धन चांपल दे कूखड़ी, धन चांपसी साह उदार रे ।

पुरष रत्न जिहां उपना, श्री चोपडा साख श्रृङ्गार रे ॥५॥आ०॥

श्री खरतर गच्छ राजियउ, जिनशासन माहि दीवउ रे ।

“समयसुंदर” कहइ गुरु मेरउ, श्रीजिनसिंहसूरि चिर जीवउ रे ॥६॥आ०॥

इति श्री श्री श्री आचार्य जिनसिंहसूरि गीतम्

॥ श्री हर्षनन्दन मुनिनालिपीकृतम् ॥

—*—

(७)

आज कुं धन दिन मेरउ ।

पुन्य दशा प्रगटो अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरउ ॥ १ ॥ आ० ॥

श्री जिनसिंहसूरि तुंहि (२) मेरे जीउ में, सुपनइ मइ नहीँ अनेरो ।

कुमुदिनी चन्द जिसउ तुम लीनउ, दूर तुही तुम्ह नेरउ ॥२॥आ०॥

तुम्हारइ दरसन आणंद (मोपइ) उपजती, नयन को प्रेम नवेरउ ।

“समयसुन्दर” कहइ सब कुं वलभ, जीउ तुं तिन थइ अधिकेरउ ॥३॥आ०॥

(८) चौमासा गीत ।

श्रावण मास सोहामणो, महियल वरसे मेहो जी ।
 वापीयडारे पिउ २ करइ, अम्ह मनि सुगुरु सनेहो जी ॥
 अम मन सुगुरु सनेह प्रगट्यो, मेदिनी हरयालियां ।
 गुरु जीव जयणा जुगति पालइ, बहइ नीर परणालियां ॥
 सुध क्षेत्र समकित बीज वावइ, संघ आनंद अति घणो ।
 जिनसिंघ सूरि करउ चउमासउ, श्रावण मास सोहामणो ॥ १ ॥
 भलइ आयउ भादवउ, नीर भर्या नीवाणो जी ।
 गुहिर गंभीर ध्वनि गाजता, सहगुरु करिही बखाणो जी ॥
 ब्रखाण कल्पसिद्धांत वांचइ, भविय राचइ मोरड़ा ।
 अति सरस देसण सुणी हरषइ, जेम चंद चकोरड़ा ॥
 गोरडी मंगल गीत गावइ, कंठ कोकिल अभिनवउ ।
 जिनसिंहसूरि मुणिंद गातां, भलै रे आव्यो भादवउ ॥ २ ॥
 आसू आस सहु फली, निरमल सरवर नीरो जी ।
 सहगुरु उपशम रस भर्या, सायर जेम गंभीरो जी ॥
 गंभीर सायर जेम सहगुरु, सकल गुण मणि सोहए ।
 अति रूप सुंदर मुनि पुरंदर, भविय जण मण मोहए ॥
 गुरु चंद्रनो परि झरइ अमृत, पूजतां पूरइ रली ।
 सेवतां जिनसिंघसूरि सह गुरु, आसू मास आसा फली ॥ ३ ॥
 काती गुरु चढती कला, प्रतपइ तेज दिणंदो जी ।
 धरतीयइ रे धान नीपनां, जन मनि परमाणंदो जी ॥
 जन मनि परमाणंद प्रगट्यो, धरम ध्यान थया घणा ॥

बलि परब दिवाली महोत्सव, रलीय रंग वधामणा ॥
चउमास च्यारे मास जिनसिंघ, सूरि संपद आगला ।
वीनवइ वाचक “समय सुन्दर”, काती गुरु चढ़ती कला ॥४॥

(९) गहुंलो

आचारिज तुमे मन मोहियो, तुमे जगि मोहन वेलि ।
सुन्दर रूप सुहामणो, वचन सुधारस केलि ॥ १ ॥आ०॥
राय राणा सब मोहिया, मोह्यो अकबर साह रे ।
नर नारी रा मन मोहिया, महिमा महियल मांह रे ॥ २ ॥आ०॥
कामण मोहन नवि करौ, सुधा दीसो छो साधु रे ;
मोहनगारा गुण तुम तणा, ए परमारथ साध रे ॥ ३ ॥आ०॥
गुण देखी राचे सहुको, अवगुण राचे न कोय रे ।
हार सहुको हियड धरै, नेउर पाय तलि होय रे ॥ ४ ॥आ०॥
गुणवंत रे गुरु अम्हतणा, जिनसिंहसूरि गुरुराज रे ।
ज्ञान क्रिया गुण निर्मला, “समय सुन्दर” सरताज रे ॥ ५ ॥आ०॥

(१०) गुरुवाणी महिमा गीत

गुरु वाणी (जग) सगलउ मोहीयउ, साचा मोहन वेलो जी ।
सांभलता सहुनइ सुख संपजइ, जाणि अमी रस रेलो जी ।१।गुरु०॥
बाबन चंदन तइ अति सीतली, निरमल गंग तरंगो जी ।
पाप पखालइ भवियण जण तणा, लागो मुझ मन रंगो जी ।२।गुरु०॥

वचन चातुरी गुरु प्रतिबूझवी, साहि “सलेम” नरिंदो जी ।
 अमयदान नउ पडहो बजावियउ, श्रीजिनसिंह सूरिंदो जी ।३।गुरु०॥
 चोपड़ा वंशइ सोम चढ़ावतउ, चांपसी शाह मल्लारो जी ।
 परवादी गज भंजण केसरी, आगम अर्थ भंडारो जी ।४।गुरु०॥
 युगप्रधान सईहाथइ थापिया. अकवर शाहि हजूरो जी ।
 ‘राजसमुद्र’ मनरंगइ उचरइ, प्रतपउ जां ससि सूरु जी ।५।गुरु०॥

(११) गच्छपति पद प्राप्ति गीत

श्रीजिनसिंहसूरि पाटइ बड्ठा, श्रीसंघ आव्या (ज्ञा?) मान रे ॥
 खरतरगच्छपति साही (पदवो) पाइ, वाध्यउ दिन दिन वान ॥ १ ॥
 माई ऐसा सदगुरु वंदीयइ, जंगम जुगहपूरधान रे ।
 कोडि दीवाली राज करउ ज्युं, ध्रुवतारा असमान रे ।२।मा०॥
 सूरिमंत्र सिर छत्र विराजइ, क्षमा मुगट प्रधान रे ।
 सुमति गुपति दुइ चामर बीजइ, सिंहासण धर्मध्यान रे ।३।मा०॥
 श्रीसंघ रे युगप्रधान पदवी लही, आया “मकुरबखान” रे ।
 साजण मण चिंत्या हुआ, मल्या दुरजण माण रे ।४।मा०॥
 श्रीसंघ रंग करइ अति उच्छव, दीधा बहुला दान रे ।
 दश दिशि कीर्त्ति कवियण बोलइ, ‘हरषनन्दन’ गुणगान रे ।५।माई०॥

(१२) ॥निर्वाण गीतं ॥ ढालः—निंदलरी

मेडतइ नगरि पधारोया, श्रीजिनसिंह सुजाण हो । पूजजी० ।
 पोस वदि तेरस निसि भरइ, पाम्यउ पद निरवाण हो ।१।पूजजी०॥

तुम पउढयां माहरे किम सरइ, पउढण नी नही वार हो । पूजजी० ॥

नयण निहालउ नेह सुं, बइठउ सहू परिवार हो ॥ आंकणी० ॥

दीर्घ नौद निवारीयइ, धर्म तगइ प्रस्ताव हो । पूजजी० ॥

राइ प्रायच्छित साचवउ, पडिकमणउ शुभ भाव हो ॥२॥पू०॥

झालर बाजी देहरइ, वाजउ संख पडूर हो ।

तरवर पंखी जागीया, जागउ सुगुरु सनूर हो ॥३॥पू०॥

प्रहफाटी पगडउ थयउ, हीयउ पिण फाडण हार हो ।

बोलायां बोलइ नहीं, कइ रूठउ करतार हो ॥४॥पू०॥

समरइ सगला उंवरा, “मुकुरवखान” नबाव हो ॥पू०॥

कागल देस विदेश ना, वांची करइ (उ?) जबाव हो ॥५॥पू०॥

लहुडा चेला लाडिला, मी(वि?)नति करइ विशेष हो ॥पू०॥

पाटी परवाडि दीजीयइ, मुहडइ सामउ देख हो ॥६॥पू०॥

ए पातिसाही मेवडउ, ऊभो करइ अरदास हो ॥पू०॥

एक घड़ी पडखुं नहीं, चालउ श्री जो पास हो ॥७॥पू०॥

आनी बांदिवा आविका, ओसवाल श्रीमाल हो ॥पू०॥

यथासमाधि कहइ करउ, एक वखाण रसाल हो ॥८॥पू०॥

बोलणहारउ चलि गयउ, रखा बोलावण हार हो ॥पू०॥

आप सवारथ सीझव्यउ, पाम्थउ सुरलोक सार हो ॥९॥पू०॥

मौन प्रह्यउ मनचिंतवी, कीधउ कोइ आलोच हो ॥पू०॥

सगला शिष्य नवाजीया, भागउ मूल थी सोच हो ॥१०॥पू०॥

पाट तुम्हारइ प्रतपीयउ, श्रीजिनराज सनूर हो ॥पू०॥

आचारिज अधिकी कला, श्रीजिनसागर सूरि हो ॥पू०॥११॥

अवि २ थाज्यो वंदना, श्रीजिनसिंह सूरिंद हो ॥पू०॥

सानिध करज्यो सर्वदा, ‘हरषनन्दन’ आणंद हो ॥१२॥पू०॥

श्री भावहर्ष उपाध्याय गीतं

श्री सरसति मति दिड घणी, सुहगुरु करउ प्रसाय ।

हरष करी हुं वीनवुं, श्रीभावहर्ष उवझाय ॥ १ ॥

श्री भावहर्ष उवझायवर, प्रतपउ कोडि वरीस ।

तूठी सरसति देवता, हरषि दीयइ आसीस ॥ २ ॥

तुडि करीनइ किम तोली(य)इ, धीर गम्भीर गुणेहि ।

मेरु महासागर मही, अधिका ते गुरु देहि ॥ ३ ॥

दिन दिनि संजमि संचडई सायर जिम सित ! पाखि ।

तप जप खप तेहवी करइ, जिसी न लाभइ लाखि ॥ ४ ॥

सुरतरु जिम सोहामणा, मन वंछित दातार ।

हर्ष ऋद्धि सुख संपदा, तरु आवण जलधार ॥ ५ ॥

राग :—सोरठी

जलधर जिउं जगत्र जीवाडइ, मन परम प्रीति पदि चाडइ ।

देसण रस सरस दिखाडइ, दुख दहनति दूरि गमाडइ ॥ ६ ॥

आवक चातक उछाह, मोर जीम श्री संघ साह ।

सरवर ते भवियणं श्रवण, वाणी रसि भरियइ विवण ॥ ७ ॥

ऊगइ तिहां सुकृत अंकूर, टलइ मिथ्या भर तमल (तिमिर?)पूर ।

संताप पाप हुइ चूर, जिनशासन विमवणउ नूर ॥ ८ ॥

श्री भावहर्ष उवझाय, ते जल्लिहर कहियइ न्याय ।

उपसम रसि पूरित काय, सोहइ संसारि सझाय ॥ ९ ॥

दूहाः—श्रीजिन माणिकसूरि गुरु, दीधउ पद उवझाय ।

जेसलमेरइ माहि सुदि, दसमि नमउ तसु पाय ॥ १० ॥

सुगुरु पाय प्रमोद नमीयइ, दुख दुरगति दूरइ गमीयइ ।

भव सागरि भिमि न भमीयइ, सुख संपति सरिसा रमीयइ ॥११॥

खरतरगछि पूनिम चन्द, गुरु दीठइ मनि आणंद ।

सेवंता सुरतरु कंद, रंजइ गुरु वचनि नरिंद ॥१२॥

साह कोडा नंदन धन्न, कोडिम दे उयरि रतन्न ।

‘कुलतिलक’ सुगुरु चा सीस, उवझाय सदा सुजगीस ॥१३॥

श्री भावहर्ष हितकारी, सुधउ मुनि पंथ विचारी ।

पंच समिति गुपति गुणधारी, विहरइ गुरु दोष निवारी ॥१४॥

श्री भावहर्ष उवझाया, चिरजीवउ मुनिवर राया ।

मई हरखइ सुहगुरु गाया, मुझ हीयडइ अधिक सुहाया ॥१५॥

(संग्रहस्थ पत्र १ तत्कालीन लि० रचित)

सुखनिधान गुरुगीतम्

राग धन्याश्री

सुगुरु के पणमो भवियण पाया,

श्रीसमयकलश गुरु पाटि प्रभाकर, सुखनिधान गणिराया ।१।

हुंवंड वंस विश्वात सुणीजइ, वइ सुख सम्पति ध्याया ।

गुणसेन वदति सुगुरु सेवातई, दिन २ तेज सवाया ।२।

* १ सं० १६८५ चैत्रइदि ३ दिने शुक्रवारे पं० गुणसेन लिखितं

ऋषिदेव रत्न वाचनार्थ (श्रीपूज्यजी संग्रह हथगुटकेसे)



श्री साधुकीर्ति जयपताका गीतम् ।



॥ जयपताका गीत ॥

सोलहसइ पंचवीसइ समइ, आगरइ नयरि विशेष रे ।

पोसहकी चरचा थकी, खरतर सुजस नी रेख रे । १ ।

खरतर जइत पद पामीयउ, साधुकीर्ति जय सार रे ।

साहि अकबर कछउ श्रीमुखई, पण्डित एह उदाररे । खर०
“बुद्धिसागर” तणी बुद्धि गइ, भाखीयउ अति अविचार रे ।

षष्ठ थया तपा ऋषिमती, खरतरे लहयउ जयकार रे । २ ।
संस्कृत तपलो न बोलीयउ, थया खिसाण अपार रे ।

चतुर अकबर मुख पंडिते, करी सागर बुधि हार रे । ३ । खर०
तर्क व्याकर्ण पढयउ नहीं, मरम ए सुणयउ अखण्ड ए ।

मलम सागर बुधि ऊघडयउ, जाणीयउ अशुचि नउ पिंड रे । ४ । ख०
गंगदासि साह धोधू तणइ, मोडीयउ कुमत नउ माण रे ।

बचन पतिशाह ए बोलियउ, बुद्धि सागर अजाण रे । ५ । खर०
पीतलि मांहि थी नीकली, अहवा रङ्ग पतङ्ग रे ।

ऋषिमती सहु अछइ एहवा, सागर बुद्धि तणइ भंग रे । ६ । खर०
हुकम करि पातिशाहइ दीया, भेरि दमाम नीसाण रे ।

गाजतइ बाजतइ आवीया, खरतर सुजस वखाण रे । ७ । खर०

श्रीजिनचन्द्रसूरि सानिधइ, “दया कलश” गुरु सीस रे ।

“साधुकीर्त्ति” जगि जयत छइ, कहइ कवि “जलह” जगीसरे । ८।खर०
॥ इति श्री साधुकीरति गुरु जयपताका गीतं ।

(२)

संवत् दस सय असोयइ पाटणइ, ची (चैत्य) वासी मलिमाणो जी ।

खरतर विरुद लहयउ दुर्लभ मुखइ, सूरि जिणेसर जाणोरे । १ ।

जय पाडयउ (पाम्यो?) खरतर पुरि आगरइ, साधुकीर्त्ति बहु नूरे जी ।

पोसह पर्व दिनइ जिण थापीयउ, अकवर साहि हजुरे रे । २। जय
आगरइ पुरि मिगसरि धुरि बारसी, सोलपंचवीस वरीस जी ।

पूरव विरुद सही उज्जवालियउ, साधुकीर्त्ति सुजगीशो रे । ३। ज०
च्यारि वरण खरतर (कुं) जय (जय) करि, जाणइ बाल-गोपालजी ।

बूठा वाट बटाऊ सहु कहइ, कुमती सिर पंच तालोजी । ४। जय
कुबुद्धि षष्ठ थयउ तउ पिण सही, नीलज अनइ.....॥

तस्कर जिम दुइ भेरि बजाविनइ, आ०यउ रयणी ठामजी । ५। ज०
चाइमल मेघदास नेतसी, ले अकवर फुरमाणो जी ।

पंच शब्द बजावी जय लहयउ, खरतर कोयउ मंडाणो जी । ६। ज
श्रीजिनदत्त कुशलसूरि सानिधइ, उत्तम पुण्य प्रकारो जी ।

कर जोडो नइ “खइपति” वीनवइ, खरतर जय-जयकारोजी । ७। ज
इति श्री जयपताका गीतं ॥ श्री । आ० भरही पठनार्थं ॥

(पत्र १ श्रीपुजजी सं०)

(३) गहुंली राग—असावरी

वाणि रसाल अमृत रस सारिखी, मोह्या भवियण लोइ जी ।

सूत्र सिद्धंत अर्थ सूधा कहइ, सुणतां सवि सुख होइ जी ॥१॥
सहगुरु साधुकीर्ति नितु वन्दीयइ, उपशम रस भंडारो जी ।

शील सुदृढ़ संजम गुण आगला, सयल संघ सुखकारो जी ।स०।
पंच सुमति त्रण गुप्ति भली परइ, पालइ निरतीचारो जी ।

जे नर-नारी पय सेवा करइ, दुत्तर तरइ संसारो जी ॥२॥स० ।
वस्तिग नन्दन गुरु चढ़ती कला, ओसवंश सिंगारो जी ।

धन खेमल दे जिणि उयरइ धर्या, सचिंती कुलि अवतारो जी ।३स०
दरसणि नवनिधि सुख सम्पति मिलइ, दयाकलश गुरु सीसोजी ।

“देवकमल” मुनि कर जोडी भणइ, पूरवउ मनह जगीसो जी ।४।स०

॥ सं० १६२५ वर्षे श्रावणसुदि १० आगरा नगरे जिनचन्दसूरि
राज्ये हंसकीर्ति लिखितं श्राविका साहिबी पठनार्थ ॥ पत्र १ श्री-
पुजजीके संग्रहमें । (अनाथी, पार्श्व गीतसह)

(४) कवित्त

साधुकीर्ति साधु अगस्ति जिसो, सब सागरको नाद उतार्यो ।

पतिशाह अकबरके दरबार जीतउ जिणवाद् कुमति विदार्यो ।

पीयउ जिण तिण चरुवार भडार दीयउ लुधु नीति विगार्यो ।

सकुच्यउ अद्ध सागर माजि गयो,

गरब इक हानि भज गच्छ निकार्यो ॥१॥

कवि कनकसोम कृत जड़तपद वेलि

सरसति सामणी वीनवुं, सुझ दे अमृत वाणि ।

मूल थकी खरतर तणा, करिख्युं विरुद बखाणि ॥१॥

श्रावक आवी मिली सुणो, मनधरि अति आणंद ।

चित्त विषवाद न को धरउं, साचउं कहइ सुनिंद ॥२॥

सोलहसय पंचीसइ समई, वाचक दया मुनीस ।

चउमासि आया आगरै, बहु परि करि सुजगीस ॥३॥

“रतनचन्द” वषराग गणि, पण्डित “साधुकीर्त्ति” ।

“हीररंग” गुण आगलो, ज्ञाता “देवकीरत्ति” ॥४॥

तप करि “हंसकोर्त्त” भलो, “कनकसोम” जसवंत ।

“पुण्यविमल” मनि ध्यान धरि, “देवकमल” बुधिवंत ॥५॥

“ज्ञानकुशल” ज्ञाता चतुर, “यशकुशल” हि जस लिद्ध ।

“रंगकुशल” अति रंग करी, “इलानंद” सुप्रसिद्ध ॥६॥

वैरागे चारित्र लीयो, “कीरत्ति(वि)मल” सूजाण ।

बड़ जिम साखा विस्तरौ, दिन २ चढ़ते वान ॥ ७ ॥

चालि—नितु दिन २ चढतइ वान, श्री संघ दीयइ बहुमान ।

तपले चरचा उठाइ, श्रावकने बात सुणाइ ॥८॥

भो सरिखो पंडित जोइ, नही मझि आगरै कोइ ।

तिणि गर्व इसो मन कीधउं, बुद्धिसागर अपयश लीधो ॥९॥

श्रावक आगौ इम बोलइं, अन्ह गाथारस(थ?) कुण खोलइ ।

श्रावक कहइ गर्व न कीजइ, पूछी पंडित समझीजइ ॥१०॥

संघवी सतीदास कुं पूछइं, तुम्ह गुरु कोइ इहां छइ ।

संघवी गाजी नइं भाखइं, साधुकीर्त्ति छै इम दाखइं ॥११॥

लिखि कागद तिणि इक दीन्हउं, श्रावक वचने न पतीनउं ।

पोसह तिहि एक प्रकार, भ्रमि भूलउ ते अविचार ॥१२॥

साधुकीर्त्ति तत्व विचार्यो, तत्वारथ मांहि संभार्यो ।

पौषध छइं दोइ प्रकार, वूझ्यो नहीं सही गमार ॥१३॥

तिहां लिखत दोष दस दीट्टा, तपला तब थया निकीट्टा ।

मिली पद्मसुंदर नइं आखउं, गच्छ ज्यासीकी पत राखउं ॥१४॥

दूहा—पद्म सुंदर इम बोलियउं, वंदन नायउं कांइ ।

स्वारथ पडीओ आपणइं, तउं आयो इण ठांइ ॥१५॥

हिव अपराध खमउं तुम्है, पडयो बरांसउ एह ।

हिव सरणै तुम आविया, कांइ दिखाडउ छैह ॥१६॥

तपले ने संतोषीउ, पिणि सांक्यउं मन मांहि ।

साधुकीर्त्ति जिहां आविस्यै, तिहां हुं आविसुं नांहि ॥१७॥

सुणी बात खरतर खरी, संघ मिल्यो सब आइं ।

गाल बजाडइं ऋषिमती, हिव ढीला तुम्ह कांइ ॥१८॥

चालि—ढीला हिव हम्हे न होस्यां, ऋषिमतीयनकी पत खोस्यां ।

खरतरे तेजसी वोलायो बहु आषांद सुं ते आव्यो ॥१९॥

पंचे मिलि बात पतोठी, परगच्छी हुआ वसीट्टी ।

चउथान कि चरचा थापों, ते घर लिखि अनइ अन्ह आपउं ॥२०॥

तपला रिष तुं सोचावई, इहां पद्मसुंदर नहीं आवई ।

करिस्यां पातिसाह हजूर, खरतर घरि वाज्या तूर ॥२१॥

मिगसर वदी छट्ट प्रभातई, मिलिआ पातिसाह संघातई ।

वाइमल्ल बोलायउं पिछाणी, साहि बात सहु गुदराणी ॥२३॥

आणंदइ खरतर मालहई, कविराज कइंकी आहवालई ।

निज २ थानक सवि आया, विहाणई कविराज बुलाया ॥२३॥

अनिरुद्ध महादे मिश्र, मिलिया तिह भट्ट सहश्र ।

साधुकीर्त्ति संस्कृत भाखई, बुधिसागर स्युं स्युं दाखई ॥२४॥

पंडित कहइ मूढ गमार, तेरो नाम छै बुद्धि कुठार ।

पोषह चरचा दिन पंच, साचउं खरतर पक्ष संच ॥२५॥

दूहा:—

कविराजइ निर्णय कीयउं, जूठउं बुद्धि कुठार ।

साहि पासि जाई कहू, पोषह पर्व विचार ॥२६॥

पद्मसुन्दर इम चिंतवई, इणि हाणई मो हानि ।

साहि पास जाइ कहई, घो हम जीवीदान ॥२७॥

मिगसर वदी बारस दिने, गया साहि आवासि ।

खरतर पूठइ देवगुरु, तपा गया सब नासि ॥२८॥

साहि हजूर बोलाविआ, श्वेताम्बर कउं न्याय ।

हुं करिस ततखिण खरउं, तेड्या पण्डित राय ॥२९॥

ढाल

हिव तेड्या पंडित रायई, कविराज सभा बोलायई ।

साधुकीर्त्ति संस्कृत बोलई, खरतर कहि केहनइ तोले ॥३०॥

साहि सुगत दीयइ साबासि, खरतर मनि अधिक उल्हास ।

बुद्धिसागर कछु न जाणइं, साहि साधुकीर्त्ति कुं बखाणइ ॥३१॥

पंडित सभ (ब? भा?) बोलइं एम, निर्णय कीथो छै जेम ।

खरतर गच्छ कउं पक्ष साचउं, तपला पखि कोइ न राचउ ॥३२॥

मूढ़ पंडित सम किम होइ, पातिसाह विचार्यो जोइ ।

तब पद्मसुंदर बोलायउ, लुकि रह्यो सभा मांहि नाव्यो ॥३३॥

चउपर्वी पोषह थाप्यो, खरतर कुं जयपद आप्यो ।

गजबजीया खरतर लोक, ऋषिमती थया सब फोक ॥३४॥

विण हुकम भेरि हु (हु?) इं वावइं, तपा राति दीवी ले आवइं ।

पातिसाह सुणी ए बात, तपलारउं करउं निपात ॥३५॥

चाइमल मेघइं छोड़ाया, मान भंग करी कटवाया ।

तपला कहइं सर भरि कीजइं, दुरि(इ?)भेरि हुकम इन्ह दीजइं ॥३६॥

दूहाः—

खरतर मनहि विचारीयो, एह बात किम होइ ।

जीती वाजी हारीयइं, करउं पराक्रमकोइ ॥३७॥

धोधू चाइमल नेतसी, मेघउ पारस साह ।

नेमिदास धणराज सहजसिंध, गंगदास भोज अगाह ॥३८॥

श्रीचंद श्रीवच्छ अमरसी, दरगह परबत बखाण ।

छाजमल गढ़मल भारहू रेडउं सामीदास सुजाण ॥३९॥

चीकानघ (य?)री तिहि मिल्या, महेवचा संषवाल ।

आवक सभ (ब?) तेडावीया, महिम के कोटीवाल ॥४०॥

चालिः—

मिलि पहुतावी चांपसि, बइट्टी छईं जिहां आवासि ।

आदर तिह अधि(क?)उंदीधउं, गुरु मंत्रि चित्त वसि कीधउं॥४१॥

चाइमल्ल मेघइ वात बणाइ, अकवर रे तिहां लीया बुलाइ ।

परवत नेमीदास हजूर, दीजईं बाजा हुकम पडूर ॥४२॥

अउलीआ पातिसाहि तूडुं, सइंहाथि थापि लीउं पूठईं ।

सभ बाजा जइत बजावउं, अपणां पोरह कुं बधावउं ॥४३॥

खोजा छडीदार पट्टाया, खरतर साचा जस पाया ।

भेरि मद्दल ढोल नीसाणा, वाज्या चढ्यो वोल प्रमाण ॥४४॥

संघ मेलि मिल्यउं आणंदईं, गुरु सोहइ श्रीसंघ वृन्दईं ।

बाजार आगरईं केरइ, पइसारउं कीधउं भलेरईं ॥४५॥

खरतरै जइत पद पायो, मागत जन सहु अबुलायउं ।

पंच वरण व बाइ अनेक, पहिराया संधि विवेक ॥४६॥

हारयउं तपलो सहु जाणईं, खरतर कुं लोक वखाणईं ।

साखी भट्ट छईं इण बातईं, खरतर परव शुद्ध विख्याते ॥४७॥

जिनदत्त कुशल सानिद्धईं, जिनभद्रसूरि वंश वृद्धईं ।

जिनचंद्रसूरि सुप्रसादइ, खरतरे जीतउं इण वादईं ॥४८॥

दया “अमरमाणिक्य” गुरु सीस, साधुकीर्त्ति लही जगीस ।

मुनि “कनकसोम” इम आखईं, चउविह श्रीसंघकी सांखईं॥४९॥

(तत्कालीन लिखित पत्र ३ संग्रहमें)

जयनिधान कृत

साधुकीर्ति गुरु स्वर्गगमन गीतम्

सुखकरण श्रीशांति जिणेसरु, समरी प्रवचन बचनए जी ।
 सोहण सहगुरु गाईए, नि.....नभाए जी ॥१॥
 चतुर सिरोमणि भावइं वंदीयइ, 'श्रीसाधुकीरति' उवझायो जी ।
 प्रहसमि भवियण कामित सुरतरु, खरतरगच्छ गुरुरायोजी ॥आं०॥
 संवत सोल बतोसइ सुह दिनइ, 'श्रीजिनचंद्रसूरिंदो' जी ।
 माधव मासइं सुदि पुनम थापिया, पाठक पद आणंदो जी ॥२॥च०॥
 सु कुल 'सचिती' श्रीगुरु उपना, 'खेमलदे' वरि हंसो जी ।
 'वस्तपाल' पिता जसु जाणिये, मुनिजन महि अवतंसो जी ॥३॥च०॥
 नाण चरण गुण सयल कला धरु, जश परिमल सुविसालो जी ।
 'अमरमाणिक्य' गुरु पाटइं दीपता, अठमि शशिदल भालो जी ॥४॥च०॥
 गाम नयर पुरि विहरी महीयलइं, पडिवोही जणवृन्दो जी ।
 सोल छयालइ आया संवतइ, पुरि 'जालोर' मुणिंदो जी ॥५॥च०॥
 माह बहुल पखि अणसण उच्चरि, आणो निय मन ठामो जी ।
 ॥६॥च०॥

आउ पूरी चउदसि दिन भलइ, पहुता तब सुरलोक जी ।
 थूभ अपूर्व कियउ गुण (रु?)तणउ, प्रणमीजइ बहुलोक जी ॥७॥च०॥
 इण कलिकाले श्रीगुरु जे नमइ, भाव धरी नरनारी जी ।
 समकित निर्मल हुइ वलि तेहनई, धन कण सुत सुखकारी जी ॥८॥च०॥
 धन धन 'साधुकीर्ति' रलियामणा, सबही नाम सुहाए जी ।
 पाय कमल जुग नितु तस प्रणमतां, घरि घरि मंगल थाए जी ॥९॥च०॥
 ऊल्ट आणी सहगुरु गाइया, वाचक 'रायचंद्र' सीसि जो ।
 आसा पूरण सुरमणि सुरगवी, 'जयनिधान' सुह दीसि जी ॥१०॥च०॥

वादी हर्षनन्दन कृत

श्री समयसुन्दर उपाध्यायानां गीतम्

(१) राग (मारुणी)

साच 'साचोरे' सद्गुरु जनमिया रे, 'रूपसीजीरा' नंद ।
 नवयौवन भर संयम संग्रहोजी, सईहथ 'श्रीजिनचंद' ॥ १ ॥
 भले रे विराज्यो उपाध्याय देशमें रे, 'समयसुन्दर' सरदार ।
 अधिक प्रतापी वड़ जिम विस्तरै रे, शिष्य शाखा परिवार ॥भले॥२॥
 चवदै विद्या आपण अभ्यसी रे, पण्डित राय पडूर ।
 छोड़ाया सांडा मयणे मारता रे, रावल 'भीम' हजूर ॥भले॥३॥
 'लाहाउरे' 'अकबर' रंजियो रे, आठ लाख अरथ दिखाड ।
 वाचक पदवी पण पामी तिहां रे, परगड वंश 'पोरवाड' ॥भले॥४॥
 सिन्धु विहारे लाभ लियड घणो रे, रंजी 'मखनूम' सेख ।
 पांचे नदियां जीवदया भरी रे, राखी धेनु विशेष ॥भले॥५॥
 पहिराया पूरा मुनिवर गच्छ ना रे, प्रणमे भूपति पाय ।
 बजड़ाव्या वाजा ताजा मेड़ता रे, रंजी मंडोवर राय ॥भले॥६॥
 वालहो लागे चतुर्विध संघ ने रे, 'सकलचंद' गणि शीश ।
 बड़वखती वादी सदा रे, 'हर्षनंदन' सुजगीश ॥भले॥७॥

कवि देवीदास कृत



(२) रागः—आसावरी सिन्धुद्धो

‘समयसुन्दर’ वाणारस बंदिये, सुललित वाणि वखाणो जी ।
 राय रंजण गीतारथ गुणनिलो जो, महिमा मेरू समाणो जी ॥स०॥१॥
 अरथ करी ‘अकबर’ मन रीझव्यो, बलि कहू वीजी बातो जी ।
 ‘जेसलमेर’ सांडा जीव छोड़ान्या, रावल करि रलिआतो जी ॥स०॥२॥
 ‘शीतपुर’ माहें जिण समझावियो, ‘मखनूम’ महमद सेखो जी ।
 जीवदया परा पडह फेरावियो, राखी चिहुंखंड रेखो जी ॥स०॥३॥
 दड़ दिवाने सगले दीपता, संघ घणो सोभागो जी ।
 माने मोटा राणा राजिया, वणारीस बडभागो जी ॥स०॥४॥
 सदगुरु सिगलो गच्छ पहिरावियो, लोक माहें यश लीधो जी ।
 ‘हर्षनन्दन’ सरखा शिष्य जेहने, ‘वादी’ विरुद प्रसिद्धो जी ॥स०॥५॥
 जन्मभूमि ‘साचोरे’ जेहनी, वंश ‘पोरवाड़’ विख्यातो जी ।
 मातु ‘लीलादे’ ‘रूपसी’ जनमिया, एहवा गुरु अवदातो जी ॥स०॥६॥
 (श्री) ‘जिनचन्दसूरि’ संइहथे दीखिया, ‘सकलचन्द’ गुरु शीशो जी ।
 ‘समयसुन्दर’ गुरु चिर प्रतपै सदा, छै ‘देवीदास’ आसीसो जी ॥स०॥७॥

॥ इति श्रीसमयसुन्दरोपाध्यायानां गीतद्वयं ॥

[हमारे संग्रहमें तत्कालीन लि० प्रति, पत्र १ से]


वादी हर्षनन्दन कृत

श्री समयसुन्दर उपाध्यायानां गीतिकम्

(१) राग (मारुणी)

साच 'साचोरे' सद्गुरु जनमिया रे, 'रूपसीजीरा' नंद ।
 नवयौवन भर संयम संप्रहोजी, सईंहथ 'श्रीजिनचंद' ॥ १ ॥
 भले रे विराज्यो उपाध्याय देशमें रे, 'समयसुन्दर' सरदार ।
 अधिक प्रतापी वड़ जिम विस्तरै रे, शिष्य शाखा परिवार ॥भले॥२॥
 चवदै विद्या आपण अभ्यसी रे, पण्डित राय पडूर ।
 छोड़ाया सांडा मयणे मारता रे, रावल 'भीम' हजूर ॥भले॥३॥
 'लाहाउरे' 'अकबर' रंजियो रे, आठ लाख अरथ दिखाड़ ।
 वाचक पदवी पण पामी तिहां रे, परगड़ वंश 'पोरवाड़' ॥भले॥४॥
 सिन्धु विहारे लाभ लियउ घणो रे, रंजी 'मखनूम' सेख ।
 पांचे नदियां जीवदया भरी रे, राखी धेनु विशेष ॥भले॥५॥
 पहिराया पूरा मुनिवर गच्छ ना रे, प्रणमे भूपति पाय ।
 बजड़ाव्या वाजा ताजा मेड़ता रे, रंजी मंडोवर राय ॥भले॥६॥
 वाल्हो लागे चतुर्विध संघ ने रे, 'सकलचंद' गणि शीश ।
 बड़वखती वादी सदा रे, 'हर्षनंदन' सुजगीश ॥भले॥७॥

कवि देवीदास कृत



(२) रागः—आसावरी सिन्धुडो

‘समयसुन्दर’ वाणारस वंदिये, सुललित वाणि वखाणो जी ।
 राय रंजण गीतारथ गुणनिलो जो, महिमा मेरु समाणो जी ॥स०॥१॥
 अरथ करी ‘अकबर’ मन रीझव्यो, बलि कहुं बीजी बातो जी ।
 ‘जेसलमेर’ सांडा जीव छोड़ान्या, रावल करि रलिआतो जी ॥स०॥२॥
 ‘शीतपुर’ मांहे जिण समझावियो, ‘मखनूम’ महमद सेखो जी ।
 जीवदया परा पडह फेरावियो, राखी चिहुंखंड रेखो जी ॥स०॥३॥
 दड दिवाने सगले दीपता, संघ घणो सोभागो जी ।
 माने मोटा राणा राजिया, वणारीस बडभागो जी ॥स०॥४॥
 सद्गुरु सिगलो गच्छ पहिरावियो, लोक मांहे यश लीधो जी ।
 ‘हर्षनन्दन’ सरखा शिष्य जेहने, ‘वादी’ विरुद प्रसिद्धो जी ॥स०॥५॥
 जन्मभूमि ‘साचोरे’ जेहनी, वंश ‘पोरवाड’ बिल्यातो जी ।
 मातु ‘लीलादे’ ‘रूपसी’ जनमिया, एहवा गुरु अवदातो जी ॥स०॥६॥
 (श्री) ‘जिनचन्दसूरि’ संदहथे दीखिया, ‘सकलचन्द’ गुरु शीशो जी ।
 ‘समयसुंदर’ गुरु चिर प्रतपै सदा, छै ‘देवीदास’ आसीसो जी ॥स०॥७॥

॥ इति श्रीसमयसुंदरोपाध्यायानां गीतद्वयं ॥

[हमारे संग्रहमें तत्कालीन लि० प्रति, पत्र १ से]

राजसोम कृत महोपाध्याय समयसुन्दरजी गीतिम्

(३) ॥ ढाल हांजरनी ॥

नखंडमें जसु नाम पंडित गिरुआहो, तर्क व्याकर्ण भण्या ।
 अर्थ किया अभिराम पदएकणराहो, आठ लाख आकरा ॥१॥
 साधु बड़ो ए महन्त 'अकबर' शाहे हो, जेह वखाणीयो ।
 'समयसुन्दर' भाग्यवंत पातिशाह पू(तू?)ठोहो,थापलि इम कछोरे॥२॥
 जीवदया जशलीध राउल रंजी हो, 'भीम' 'जेशलगिरि' ।
 करणो उत्तम कीध 'सांडा' छोड़ाया हो, देशमें मारता ॥३॥
 'सिद्धपुर' मांहे शेख 'महम्मद' मोटो हो, जिण प्रतिवोधीयो ।
 सिन्धु देश मांहे विशेष 'गायां' छोड़ावी हो, तुरके मारती ॥ ४ ॥
 सखर वस्त्र पटकूल गच्छ पहरायो, खरतर गरुअडो ।
 वचनकला अनुकूल प्रबंध देखी हो, शाख कीधाघणां ॥ ५ ॥
 पर उपगार निामत्ति कीधो सगलो हो,धन-धन इम कहे ।
 गीत छंद बहु वृत्ति कलियुग मांहे हो, जिणे शाको कियो ॥ ६ ॥
 जुगप्रधान 'जिनचन्द' स्वयंहस्त वाचक हो, पद 'लाहोरे' दियो ।
 'श्रीजिनसिंहसूरिंद' शहर 'लवेरे' हो, पाठक पद कीयो ॥ ७ ॥
 आगम अर्थ अगाह सयमुख साचो हो, जेणे प्ररुपीयो ।
 गिरुओ गुरु गजगाह पारवार पूरो हो, जेहनो परगडो ॥ ८ ॥
 कीधो क्रियाउद्धार संवत सोले हो, इक्काणु समे ।
 गौतमने अणुहार पंचाचार पाले हो, घणुं वली खप करे ॥ ९ ॥

अणसण करि अणगार संवत सतरे हो, सय विडोत्तरे ।
 'अहमदावाद' मझार परलोक पहुंचा हो, चैत्र शुदि तेरसे ॥ १० ॥
 बादीगज दल सींह पाट प्रभाकर हो, प्रतपे तेहने ।
 'हरषनन्दन' अणवीह पण्डित मांही हो, लीह काठी जिणे ॥ ११ ॥
 प्रगट जासु परिवार भाग्यवन्त मोटो हो, वाचक जाणीये ।
 दिन-दिन जय-जयकार जग जिरंजीवो हो, 'राजसोम' इम कहे ॥ १२ ॥*

[इति महोपाध्याय समयसुन्दरजी गीतं]



॥ श्रीयशकुशल सुगुरु गीतम् ॥

॥ राग काफी ॥

'श्री यशकुशल' मुनीसर (नागुण) गावो तुम्ह सुखकारी ।
 सहु जनने सुखसातादायक, विघ्न विडारण हारी ॥१॥य०॥
 ठाम ठाम महिमा सदगुरुनी, जाणे लोक लुगाइ ।
 तिम वलि इण देशे सविशेषै, कहतां नावै काई ॥२॥य०॥
 भर दरियावै समरण करतां, हाथे कर उबारै ।
 ध्यान धरै इक मन जे साचौ, तेहना कारज सारै ॥३॥य०॥
 'कनकसोम' पाटै उदयाचल, श्री 'यशकुशल' मुणिन्द ।
 दिन दिन अधिको साहिब सोहे, जिम ग्रह माहिं चंद ॥४॥य०॥
 महिर करी नइ दीजइ दरिशन, जोजइ सेवक सार ।
 'सुखरतन' कइ कर जोड़ी नै, भवि भवि तूं ही आधार ॥५॥य०॥

* यह गीत बाहड़मेरके यति श्री नेमिचन्द्रजीसे प्राप्त हुआ है । एत-
 दर्थ उन्हें धन्यवाद देते हैं ।

कविवर श्रीसार कृत
श्री जिनराजसूरिगण

[रचना समय सं० १६८१]

—***—

.....तोरण चंग ।

दीठां सगला दुख हरइ, थायइ अति उछरंग ॥ ६ ॥ मेरी० ।
अति सखर सुंदर अति भली, सोहइं घणी ध्रमसाल ।

जिह आवी व्यवहारिया, धरम करइ सुविसाल ॥१०॥ मेरी० ।
वन वाग वाड़ी अति घणी, तिहां रमइ लोक छयल ।

सोहइ नगर सुहामणउ, भोगी करइ सयल ॥११॥ मेरी० ।
'रायसिंघ' राय करावियउ, 'नवउ कोट' अमली माण ।

कचमहले करि सोभतउ, केहउ करूं वखाण ॥१२॥ मेरी० ।
हिव राज पालइ रंग सेती, राजा तिहां 'रायसिंघ' ।


वयरी मृगला भांगिवां, ए सादूलोसिंघ ॥१३॥ मेरी० ।
प्रतिपयउ 'राठोड़ा' कुलइं, सेवकां पूरइ आस ।

पट्टराणी साथइ सदा, विलसहि भोगविलास ॥१४॥ मेरी० ।
तेहनइ 'मुहतउ' मलहपतउ, परदुख काटनहार ।

'कर्मचन्द' नामइ दिपतउ, बुद्धइं अभयकुमार ॥१५॥ मेरी० ।
डोलती 'राखी' जेण पृथ्वी, दिया दान अपार ।

'पैत्रीसइ' मांहि मांडियउ, सगलइ सत्तूकार ॥१६॥ मेरी० ।

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह ..



जिनराज मूरिजी—जिन रंगमूरिजी

(शालिभद्र चौपड़की प्रतिसे)

‘कोडि’ द्रव्य दीया याचकां, ‘लाहोर’ नयर उच्छाह ।

श्री ‘जिनचन्द’ युगवर कीया, पत्तगरियउ ‘पतिशाहि’ ॥१७॥ मेरी० ।

‘नव’ गाम नइ ‘नव’ हाथीया, तिहां दिया द्रव्य अनेक ।

श्री ‘जिनसिंहसूरिंद’ नइ, आचारिज सविवेक ॥१८॥ मेरी० ।

‘रायसिंघ’ राजा राज पालइ, मंत्रवी तिहि ‘कर्मचंद’ ।

सहू को लोक सुखइ बसइ, दिन-दिन अधिक आणंद ॥१९॥मेरी०॥

दूहा— वसइ तिहां व्यवहारिउ, सोभागो सिरदार ।

धर्म धुरन्धर ‘धर्मसी’, वोहिथ कुल सिणगार ॥ १ ॥

दुखियां नउ पीहर सदा, धर्मी नइ धनवंत ।

कुल मंडण महिमा निलउ, गुणरागी गुणवन्त ॥ २ ॥

पतिभक्ता नइ गुणवती, शीयलवती वरियाम ।

मनहर नारी तेहनइ, ‘धारलदे’ इणि नाम ॥ ३ ॥

भणि जाणइ चउसठि कला, रूपइ जीती रंभ ।

एहवी नारि को नहि, अदभूत रूप अचम्भ ॥ ४ ॥

दोगंदक सुरनी परइ, सही सगला संजोग ।

निज प्रीतम साथइ सदा, विलसइ नव-नव भोग ॥ ५ ॥

ढाल वीजी—मांहका जोगना तुं कहिज्योरे अरदास । ए जाति ।

उत्तम गृह मांहि (ए) कदा रे, पउठि ‘धारल’ देवि । प्रीतमजी । पउ०

झवकइ मोती झुंक्का रे, सुख सज्या नित मेव ॥ प्री० सु० । १ ।

प्रीतमजी बोलइ अमृत वाणि, प्रीतमजी बोलइ कोयल वाणि ।

प्रीतमजी तुं मेरउ सुलताण, प्रीतमजी तुं तो चतुर सुजाण ।

प्रीतमजी दिठउ स्वप्न उदार, प्रीतमजी कहउ नइ तासु विचार ।
प्रीतमजी थे पण्डित सिरदार ॥ आंकणी० ॥

चोवा चन्दन अरगजा रे, कसतूरि घनसार । प्री० कस्तूरि० ।
चिहुं दिशि परिमल महमहइ रे, इन्द्र भुवन आकार ॥ प्री० इन्द्र० ॥ २
दमणा पाडल केतकी रे, जाइ जुही सुविशाल । प्री० । जा० ।
फूल तिहां महकइ घणा रे, तिम फूलांरी माल ॥ प्री० ति० ॥ ३ । प्री० वो० ।
दहदिशी दीवा झलहलइ रे, चन्द्रूअडा चउसाल । प्री० चं० ।
भीतइ चीतर भिल्या भला रे, वारू वन्नरमाल ॥ प्री० वा० ॥ ४ । प्री०
मनहर मोती जालियां रे, करइ कली उजास । प्री० क० ।
पुन्य पखइ किम पामीयइ रे, एहवा सखर आवास । प्री० ए० ॥ ५ । प्री० ।
'धारलदे' पडठि तिहां रे, कोइ न लोपइ लीह । प्री० को० ।
किउं सूती किउं जागती रे, दीठइ सुहणे सौंह ॥ प्री० दी० ॥ ६ । प्री०
सुहणउ देखी सुहामणउं रे, पामइ हरख अपार । प्री० पा० ।
स्वप्न तणउ फल पूछिवा रे, वीनवीयउ भरतार ॥ प्री० वि० ॥ ७ । प्री०
अमृत समी बाणि सुणीरे, जाग्या 'धरमसी' साह । प्री० जा० ।
पुण्ययोग जाणे मिली रे, साकर दूधहि मांहि ॥ प्री० सा० ॥ ८ । प्री० ।
धरि आणंद इसउ कहइ रे, सखरउ लह्यउ सुपन्न । प्री० स० ।
सूरवीर विद्यानिलउ रे, हुइस्यइ पुत्र रतन ॥ प्री० हु० ॥ ९ । प्री० ।
कुलदीपक बोहित्थरां रे, अन्ति हुस्यइ राजान । प्री० अं० ।
सिंह तणी परि साहसी रे, थास्यइ पुत्र प्रधान ॥ प्री० था० ॥ १० । प्री० ।
गरभकाल पूरउ हुस्ये रे, सात दिवस नव मास । प्री० सा० ।
पुत्र मनोहर जनमिस्यइ रे, फलिस्यै मन नी आस ॥ प्री० म० ॥ ११ । प्री० ।

हीयडइ हरख थयउ घणउरे, सुणियउ सुपन विचार । प्री० सु० ।
तहत्ति करी उठि तदारे, पहुंती भुवन मंझार ॥ प्री० प० ॥ १२ ॥ प्री० वो०
दूहा—घरि (भुवन?) आवी इम चितवइ, अजेसीम बहु रात ।

धरम जागरि जागतां, प्रकटाणउ परभात ॥ १ ॥

जे भणिया बहुत्तरि-कला, भणिया वेद पुराण ।

प्रहउगइ घर तेडिया, जोसी ज्योतिष जाण ॥ २ ॥

‘श्रीधर’ ‘धरणीधर’ सही, जोसी ‘विठ्ठलदास’ ।

पहरी खीरोदक धोतीया, आव्या मन उल्लासि ॥ ३ ॥

संतोष्या जोसी कहइ, सुपन तणउ फल एह ।

कुलदीपक सुत होइस्यइ, कूड कहां तउ नेम ॥ ४ ॥

इम फल सुपन तणउ सुणी, किया उच्छव असमान ।

सनमान्या जोसी सहु, दिया अनर्गल दान ॥ ५ ॥

हालतीजीः—मनि मेघकुमर पछतावी ॥ ए जाति ।

हिव दीजइ दान अनेक, परियण मांहे बध्यउ विवेक ।

सुरलोक थकी सुर चवियउ, धारलदे उरि अवतरिउ ॥ १ ॥

बधिवा लागउ परिवार, माता हरखि तिणवार ।

राजा पिण इइ सन्मान, तिग दिन थी वधियउ वान ॥ २ ॥

इम गरभ बधइ सुखदाइ, तसु महिमा कहयि न जाइ ।

मास त्रीजइ दोहला पावइ, माता मनि घणुं सुहावइ ॥ ३ ॥

जाणइ चन्द्र पान करोजइ, भरि घुंठ अमिरस पीजइ ।

वलि दान अनर्गल दीजइ, लखमी रो लाहो लीजइ ॥ ४ ॥

जिनवरनी कीजइ जात्र, घरि तेडी पोखुं पात्र ।

खरचीजइ धन असमान, छोड़ावुं बन्दीवान ॥ ५ ॥

सुणियइ श्री जिनवर वाणि, मन लागी अमिय समाणि ।

ध्याउ श्रीअरिहन्त देव, कीजइ सहगुरुकी सेव ॥ ६ ॥

कर्म रोग गमेवा ओसउ, कीजइ पडिक्रमणउ पोसउ ।

मनशुद्धि ध्यावुं नवकार, दुखियां नइ करू उपगार ॥ ७ ॥

वन वाग जइ उल्लरंग, प्रीतम सुं कीजइ रंग ।

मनमान्या वरसइ मेह, तउ फलइ मनोरथ एह ॥ ८ ॥

‘विमलाचल’ नइ ‘गिरनार’, ‘सम्मेतसिखर’ सिरदार ।

भेटूं ‘आवू’ सुखकारी, पूजा करूं ‘सतर’—प्रकारी ॥ ९ ॥

तालः—जा ‘खाजा’ लापसी आही, बलि लाडु लाखणसाही ।

परसुं खुरसाणि मेवा, कीजइ साहमीनी सेवा ॥ १० ॥

धन खरची नाम लिखावुं, ‘सात क्षेत्रे’ वित्त बावुं ।

तिम दुखित दीन साधारू, इणि परि आपउ निसतारू ॥ ११ ॥

इम डोहला पामइ जेह, ‘धरमसी’ शाह पूरइ तेह ।

उत्तम नर गरभइ आयउ, माता पिण आणंद पायउ ॥ १२ ॥

जउ पापी गरभइ आवइ, तउ मात खिहाला खावइ ।

कइ ठिकरि ना खाइ खण्ड, कइं खायइ भींत लवंड ॥ १३ ॥

एतउ गरभ सदा सुकमाल, फलि मात मनोरथ माल ।

गुणवन्त हुस्यइ ए आगइ, तिण सहको पाये लागइ ॥ १४ ॥

माता मनि घणउ सनेह, सुख देस्यइ नन्दन एह ।

खाटउ खारउ नवि खायइ, इम काल सुखे करि जायइ ॥ १५ ॥

दित सात अनइ नव मास, पूरउ थयउ गरभावास ।

फल फूले दहदिशी फलियां, माता मन हुइ रङ्गरलियां ॥ १६ ॥

अति शीतल वाजइ वाय, दुखियांनइ पिण सुख थाय ।

गुणवन्त पुरुष जब जायइ, तब सगलउ जग सुख पायइ ॥१७॥

मुंह माग्या वरसइ मेह, लोके २ निवड सनेह ।

सगलइ जगि हुयउ सुगाल, गुणगावइ बालगोपाल ॥ १८ ॥

इम उच्छव सुं अधरात, सुखसज्या सूती मात ।

‘धारलदे’ नन्दन जायउ, सूरिज जिम तेज सवायउ ॥१९॥

दूहाः—वइसाखा सुदि (सातमां !) दिन, सोलहसय सईताल ।

अवण नक्षत्र सुहामणउ, बुधवार (इ) सुविशाल ॥११॥

पंच उंच ग्रह आविया, छत्र जोग सुखकार ।

शुभवेला सुत जन्मयिउ, वरत्यउ जय-जयकार ॥२॥

चन्द्र अनइ सूरिज थकी, सुत नउ अधिकउ तेज ।

रत्नपूज जिमि दीपतउ, सोहइ माता सेज ॥३॥

ढाल चौथी, वधावारी :—

दासी आवि दौड़ति ए, जिण (हां ?) छइ ‘धरमसी’ शाह ।

वधाइ पुत्रनी ए-दीधी मन उमाह ॥ १ ॥

फली आसा सहू ए, जायउ पुत्र रतन । फलि० ।

कोजइ कोडि जतन० फली०, ‘धरमसी’ साह धन धन्न० ॥फली०॥

उदयउ पूरव पुन्य, फली आस्या सहू ए । आं० ।

सुत दीठइ दुख वीसर्या ए, वाजइ ताल कंसाल ॥

दमामा दुडवडी ए, वाजइ वनर माल ॥ २ ॥ फली० ॥

वाजइ थाली अति भली ए, वाजइ जांगी ढोल ।

हवइ उच्छव घणाए, गीतां रा रमझोल ॥ ३ ॥ फली० ।

कुंकुं हाथां दीजीयइ ए, सूहव चइ आसीस ।

कुमर धरमसी तणउए, जीवउ कोडि वरीस ॥४॥ फली० ।

गलिए फूल विछाइया ए, नाटक पडइ बत्रीस ।

कुमर भलइ जनमियउ ए, हरख घणउ निसदीस ॥५॥ फली० ।

जन्म महोछव इम करइ ए, खरचइ परघल दाम ।

सजल जलधर परइ ए, न गिणइ ठाम कुठाम ॥ ६ ॥ फली० ॥

याचक जय-जय उचरइ, सगा लहइ सनमान ।

सयण संतोषिया ए, सखियां करइ गुणगान ॥ ७ ॥ फली० ।

हिव दिन दसमइ आवियइ ए, करइ दसूठुण प्रेम ।

सगा सहि निहतरइ ए, असुचि उतारइ एम ॥ ८ ॥ फली० ।

सतर भक्ष भौजन भला ए, सालि दालि घृत घोल ।

सहू संतोषिया ए, उपरि सरस तंबोल ॥ ९ ॥ फली० ।

एम जमाडि जुगतसुं ए, दिया नालेर सद्रूप ।

भलउ सहको भणइ ए, उछव कियउ अनूप ॥१०॥ फली० ।

धन 'धारलदे' मायडी ए, धन्न २ 'धरमसी' साह ।

कियउ उच्छव भलउ ए, लियइ लखमीरउ लाह ॥ ११ ॥ फली० ।

दूहा:— करि उच्छव रलियामणउ, पुत्र तणउ मुख जोय ।

श्री खेतसी नामउ दियउ, दीठां दउलति होय ॥ १ ॥

सहको लोक इसउ कहइ, सयणां तणइ समक्ख (क्ष) ।

'धरमसी' साह प्रतइं हूयउ, परमेसर परतक्ख ॥ २ ॥

कुलदीपक सुत जनमियउ, करिस्यइ कुल उद्धार ।

इणि नन्दन जाया पछइ, उदय हुअउ संसार ॥ ३ ॥

वखत बलईं इम जाणियइ, शास्त्र तणइ बलि न्याय ।

सहको राणा राजवी, पडिस्यइ एहनइ पाय ॥ ४ ॥

पगे पदम झलकइ भलउ, लखण अंगि वत्रीस ।

कइ गढपति कइ गच्छपति' हुइस्यइ विश्वावीस ॥ ५ ॥

ढाल ५—सुगुण सनेही मेरे लाळा । इण जाति ।

बीज तणउ जिम बाधइ चन्द, तिम बाधइ 'धारलदे' नन्द ।

मात पिता उमहइ आणंद, देवलोक नउ जिम माकन्द ॥१॥

माता सुत नइ ले धवरावइ, बेटा-बेटा कहिय बुलावइ ।

उन्हउ नीर लेइ न्हवरावइ, इम माता मनि आणंद पावइ ॥२॥

आउ मेरा नन्दन गोदि खिलावुं, बंगू लट्टु तुंनइ अणावुं ।

केलवि काजल घालइ अखियां, खोलइ ले खेलावइ सखियां ॥३॥

कांनि अडगनिया पाइ पन्हइयां, घमकइ पगि घूघरियां वनियां ।

चंदलउ करि वागउ पहिरावइ, सिरिकसबीकी पाग बनावइ ॥४॥

कइयईं माता कंठइ लागईं, कइयइ लोटइ माता आगईं ।

कइयइ घडा ना पाणी डोहइ, कइयइ हसि माता मन मोहइ ॥५॥

कइयइ दूधनी दोहणी ढोलइ, कइयइ हीचइ चढि हींढोलइ ।

कइयइ झालइ माखण तरतउ, कइयइ छिपइ माता थी डरतउ ॥६॥

कइयइ मा नउ कंचूअउ ताणइ, कइयइ कांधइ चढिय पलाणइ ।

कइयइ हसि मा साम्हउ जोवइ, कइयईं रूसण मांडी रोवइ ॥७॥

देखी कुंवर कहइ इम माता, इणि सुत दीठां थायइ साता ।

मति को पापी नजरि लगावइ, गुली कांठिलउ गलइ बंधावइ ॥८॥

माऊ २ कहतउ पासइ आवइ, कांइ पूत मां एम बुलावइ ।

प्रेम नजरि माँ साम्ही मेलइ, दूध मांहि जाणे साकर मेलइ ॥९॥

मणमणा बोलइ बोल अमोल, पहिरयउ वागो रातउ चोल ।

अंगि शृङ्गार करावइ सोल, माता सुं इम करइ रंगरोल ॥१०॥

फेरइ चकरडी माता प्रेरइ, बालूडा बलिहारी तेरइ ।

दंगूलट्टू फेरइ चंगा, हाथइ गोटा ल्यइ पंचरंगा ॥११॥

अंचउ उपाडइ ले बांहडियां, माता कहइ आउ मेरा नान्हडियां ।

हाथे वालइ सोवन कडियां, गूंथी छइ फूलनी दडियां ॥१२॥

मइ सोलही पासा सारइ, रमइ पंचेटे विविध प्रकारइ ।

बीजा बालक सहको हारइ, जीपइ कुमर भाग्य अणुसारइ ॥१३॥

इम उच्छव सुं नव-नव केलइ, 'धारलदे' रउ धोटउ खेलइ ।

रूपइ मयण तणउ अवतार, सात वरस नउ थयउ कुमार ॥१४॥

बुद्धइ वीजउ वयर (अभय?) कुमार, आवइ सहु सुणियउ इक वार ।

मात पिता चितइ उरहासइ, कुमर भणावउ पंडित पासइ ॥१५॥

दूहा:—पुत्र भणइवा मांडियइ, पण्डित गुरुनइ पाय ।

विद्याआवी तेहनइ, सरसति मात पसाय ॥ १ ॥

भली परइ आवी भले, सिद्धो अनइ समान ।

“चाणाइक” आवइ भला, नीतिशास्त्र असमान ॥ २ ॥

तेह कला कोइ नहीं, शास्त्र नहीं बलि तेह ।

विद्या ते दीसइ नहीं, कुमर नइ नावइ जेह ॥ ३ ॥

कला 'बहुत्तरि' पुरपनी, जाणइ राग 'छत्तीस' ।

कला देखि सहु को कहइ, जीवो कोडिवरीस ॥ ४ ॥

“षड् भाषा” भाषइ भली, “चवदह विद्या” लाध ।

लिखइ 'अठारह लिपी' सदा, सिगले गुणे अगाध ॥ ५ ॥

ढाल संधिनी छट्टीः—पणमिय पास जिणेसर केरा । इणजाति ।

कुमर हिवइ जोवन वय आयउ, दिन दिन दिपइ तेज सवायउ ।

गरुअउ यश तिहुभवणे गायउ, धन धन ,धारलदे' उ(द)र जायउ ॥१॥

सूरिज जिम तेजइ करि सोहइ, मेह तणी परि महियल मोहइ ।

‘क्रिसण’ तणी पर सूर सदाइ, दानइ ‘करण’ थकी अधिकाइ ॥२॥

रूपइ ‘मनमथ’ नउ मद गाल्यउ, काम क्रोध विपयारस टाल्यउ ॥३॥

सायर जिम सोहइ गंभीर, मेरु महीधर नी परि धीर ।

कलपवृक्ष जिम इच्छा पूरइ, चिंतामणी जिम चिंता चूरइ ॥४॥

‘विक्रमादित्य’ जिसउ उपगारी, अह्निसि सेवक नइ सुखकारी ।

पांच ‘पंडव’ जिम बलवंत, सीह तणी परि साहसवंत ॥५॥

नयन कमल नी परि अणियाली, सोहइ अधर जाणइ परवाली ।

करइ हाथ सुं लटका मटका, बोलइ वचन अमी रा गटका ॥६॥

काया सोहइ कंचण वरणी, सोहइ हाथे सखर समरणी ।

लखतवंतो मोहण बेलि, हंस हरावइ गजगेतिगेली ॥७॥

मस्तक सुंदर तिलक विराजइ, दरसण दीठा भावठि भाजइ ।

पहिरइ नित २ नवरं वागउ, तेगदार मांहे अधिकउ तागउ ॥८॥

रायराणा सहुको छइ मान, धरमध्यान करिवा साबधान ।

न करइ परनिन्दा परघात, केहा केहा कहूं अवदात ॥९॥

देखि दिन दिन अधिक प्रतापइं, वाकां वयरी थरथर कांपइ ।

महीयलि सिगले बोलइ पूरउ, इणपरि विचरइ कुमर सनूरउ ॥१०॥

हिव इणि अवसर श्री] ‘बीकाणइ’, ‘अकवर’ जेहनइ आप वखाणइ ।

खरतरगच्छ मांहे प्रबल पडूर, आव्या गुरु ‘श्रीजिनसिंह’सूर॥११॥

सुविहृत साधु तणइ परिवारइ, दे उपदेश भविक निस्तारइ ।

विचरइ महियल उग्र विहारइ, आप तरइ लोकां नइ तारइ ॥१२॥

हुवइ सबल तिहां पइसारइ, जिनशासनि रो वान बधारइ ।

कलिकालइ गौतम अवतारइ, पूजजी 'बीकानयर' पधारइ ॥१३॥

हरखित हुआ सहूको लोक, जिम रवि दंसणि थायइ कोक ।

बड़ा बड़ा श्रावक सुणइ अशेष, पूजजी एहवउ छइ उपदेश ॥१४॥

दोहा :—ए सायर गाजइ भलउ, अथवा गाजइ मेह ।

वाणी सांभलतां थकां, एहवउ थयउ संदेह ॥१॥

पोषइ 'नव रस' परगड़ा, करइ 'राग छतीस' ।

सरस वखाण सुणी करी, सह को छइ आसीस ॥२॥

ढाल सातमी :—मेघमुनि कांइ डमडोलइरे । इणजाति ।

सहको श्रावक सांभलइजी, लोक सुणइ लख गान ।

“खेतसी” कुमर पधारियाजी, इणपरि सुणइ वखाण ॥१॥

भविकजन धरम सखाइ रे, जीवनइ सुखदाइ रे ।

कीजइ चित्त लाइ रे, भविकजन धरम सखाइ रे ॥आँकणी०॥

सद्गुरुनी संगति लहीजी, लाधौ आरिज खेत ।

मानव भव लाधउ भलउजी, चेत सकइ तउ चेत ॥२॥ भविक० ॥

इण जगि सरव अश्वाशतउजी, हीयइ बिचारी जोय ।

इम जाणिरे प्राणियाजी, ममता मां करउ कोय ॥३॥ भविक०॥

माया मोह्या मानवीजी, धन संचइ दिन राति ।

वयरी जम पूठइ वहईजी, जीव न जाणइ घात ॥४॥ भविक०॥

दश दृष्टंते दोहिलउजी, लाधउ नर भव सार ।

तिहां पणि पुण्यइ पामियइजी, उत्तम कुल अवतार ॥५॥ भविक०॥

बत्रीस लाख विमान नउ जी, साहिव छइ जे इन्द्र ।

ते पणि श्रावक कुल सदा, वंछइ धरि आणंद ॥६॥भविक०॥

वरजीजइ श्रावक कुलइंजी, अनंतकाय बत्रीस ।

मधु माखण वरंजइ सदाजी, तिम अभक्ष बावीस ॥७॥भविक०॥

सामायिक ले टालयइजी, त्रीस अनइ दुइ दोष ।

परनिंदा नवि कीजियइजी, मन धरियइ संतोष ॥८॥भविक०॥

इक दिन दिक्षा पालीयइजी, आणी भाव प्रधान ।

तउ सिवपुर ना सुख लहइजी, निश्चय देव विमान ॥९॥भविक०॥

इणि जगि सरब अशाश्वतोजी, स्वारथ नउ सहु कोय ।

निज स्वारथ अणपूजतइजी, सुत फिरी वयरी होय ॥१०॥भविक०॥

चितामणी सुरतरु समउजी, जिनवर भाषित धर्म ।

जउ मन शुद्धइं कीजियइजी, तउ त्रूटइ सही कर्म ॥११॥भविक०॥

दोहा :—खेतसी कुमरइं संभल्यउ, जिनसिंह सूरि बखान ।

वाणी मनमांहे वसी, मिट्टी अमिय समाण ॥१॥

करजोड़ी एहवउ कहइ, आणि हरख अपार ।

तुम्ह उपदेशइ जाणियउ, मइ संसार असार ॥२॥

तिणि कारण मुझनइ हिवइ, दीजइ संजमभार ।

कृपा करि मो उपरइ, इणि भविथी निस्तार ॥३॥

वलतउ गुरु इणि परि कहइ, मकरउ ए प्रतिबंध ।

मात पिता पूछउ जइ, करउ धरम सम्बन्ध ॥४॥

ढाल आठमी:—मांहेके देह रंगीली चूनरी—इणजाति ।

अहो गुरु बांदी नइ उठियउ, आव्यउ माता नइ पास हो ।

कर जोडिनइ इणि परि कहइ, आणी मन मांहि उलास हो ॥१॥

मोनइ अनुमति दीजइ मातजी, हुं लेइस संजमभार हो ।
 जगि स्वारथ नउ सहु को सगउ, मिलीयोछइ ए परिवार हो ॥२॥मो०॥
 सहगुरु नी देसण सुणी, मन मांहि धरी अनुराग हो ।
 इहव इणिभवथी मन उभगउ, मुझ नइ आव्यउ वयरागहो ॥३॥मो०॥
 अहो देस विदेश फिरी करी, खाटीजइ परिघल आथि हो ।
 पणि परलोकइ जातां थकां, तो नावइ प्राणी साथि हो ॥४॥मो०॥
 अहो इणभवि परभवि जीवनइ, सुख कारण श्रीजिनधर्म हो ।
 जिणथी सुख सम्पति सम्पजइ, कीजइ तेहिज कर्म हो ॥५॥मो०॥
 अहो डाभ अणि-जल जेहवउ, जेहवउ चञ्चल नय (हय?) वेग हो ।
 माता अथि तिसउ ए आउखउ, आण्यउ इम जाणि संवेग हो ॥६॥मो०॥
 अहो इणि जगि को केहनउ नहीं, परिजन नइ वलि परिवार हो ।
 भगवन्तरउ भाख्यउ जीवनइ, इक धर्म अछइ आधार हो ॥७॥मो०॥
 अहो जीव तणइ पूठइ वहइ, सर सान्ध्यइ बयरी काल हो ।
 तिण कारण करसुं मातजी, पाणी आव्या पहलइ पाल हो ॥८॥मो०॥
 अहो ए सुख भोगवतां छतां, दुख थाय पछइ असमान हो ।
 ते सोनउ केथउ कीजियइ, जे पहिरयउ तोडइ कान हो ॥९॥मो०॥
 अहो जेह बडा सुखिया अछइ, वलि हुस्यइ सुखिया जेह हो ।
 ते सहु को पुण्य पसाउलइ, इहां कोइ नहीं सन्देह हो ॥१०॥मो०॥
 भेदाणी धरमइ करी, माता मुझ साते धात हो ।
 सुनिवर नउ मारग मांहरइ, हियडइ वसियउ दिनरात हो ॥११॥मो०॥
दोहा :—पुत्र वयण इम सम्भली, संजम मति सुविशाल ।

सुछाँड़त माता थइ, पड़ी धरणी तत्काल ॥ १ ॥

गंगोदक सुं छांतिनइ, बीइया शीतल वाय ।

सावधान हुइ तदा, इणि परि जम्पइ माय ॥ २ ॥

तुं नान्हडियउ माहरइ, तुं मुझ जीवनप्राण ।

एक घड़ी पिण दिन समी, तोरइ विरह सुजाण ॥ ३ ॥

तुं सुकमाल सोहामणउ, दोहिलउ संजम भार ।

बोल विचारी बोलियइ, संजम दुक्करकार ॥ ४ ॥

तन धन यौवन लही करी, विलसउ नवनव भोग ।

वलि वलि लहतां दोहिला, एहवा भोग संजोग ॥ ५ ॥

वेलि (९):—छही एहवा भोज संजोग, विलसीजइ नवनवभोग ।

तुं “बोहिथरा” कुल दीवउ, तिणि कोडि वरस चिरजीवउ ॥१॥

सुत तुं सुकमाल सदाइ, तुं सिगलानइ सुखदाइ ।

जिणवर भासित ले दोक्षा, तुं किणी परि मांगिसी भिक्षा ॥२॥

तुं पंडितचतुर सुजाण, तुं बोलइ अमृत-वाणि ।

तुज गुण गावइ सहु कोइ, तुज सरिखउ पुरिस न कोइ ॥३॥

दोहा :—सांभलतां पिण दोहिली, सुत संजमनी बात ।

आवक धरम समाचरउ, तुं सुकमाल सुगात ॥ १ ॥

वेलि :—सुत तुं सुकमाल सुगात, मत कहिजो संजम बात ।

इणि गरुअइ संजम भारइ, विचरेवउ खइडां धारइ ॥१॥

बहुला मुनिवर आगेइ, चूका छइ चारित लेइ ॥

तिणी बात इसी मत कहिजो, डोकरपणि चारित लेइयो ॥२॥

इणि जोवनवय तुं आयउ, तुं नन्दन पुण्यइ पायउ ।

घणा दुखित दीन सधारउ, ‘बोहिथ कुल’ वान वधारउ ॥३॥

दोहा :—वचन एहवउ सांभलि, इणि परि कहइ कुमार ।

कायर कापुरिसां भणी, दुहिलउ संजम भार ॥ १ ॥

वेलि :—माता दुहिलउ संजम भार, जे कायर हवइ नर-नारि

जो सूर वीर सरदार, तिणनइ स्युं दुक्करकार ॥ १ ॥

गाथा :—ता(उ)तूंगोमेरुगिरी, मयरहरो(सायरो)तावहोइदुत्तारो ॥

ता विसमा कज्जगइ, जाव न धीरा पवज्जंति ॥ १ ॥

वेलि :—जे कुल ना जाया होवइ, ते कुलवटि साम्हउ जीवइ ।

तिण कारण ढील न कीजइ, माताजी अनुमति दीजइ ॥२॥

दोहा :—संजम उपर जाणियउ, सुत नउ निवड सनेह ।

हिव जिम जाणो तिम करउ, दीधी अनुमति एह ॥ १ ॥

वेलि :—हिव दीधी अनुमति एह, संयम सुं निवड सनेह ॥

दिक्षा नउ उच्छव कीजइ, मुंह मांग्या धन खरचीजइ ॥१॥

धरि रङ्ग 'धरमसी' शाह, इम उच्छव करइ उच्छाह ।

धरि मंगल वाजित्र वाजइ, तिणि नादइ अम्बर गाजइ ॥२॥

बाजइ भुंगल नइ भेरी, बाजइ नवरंग नफेरी ।

बाजइ ढोल दमामा ताली, गुण गावइ अबलाबाली ॥३॥

बाजइ सुन्दर सरणाइ, सुणतां श्रवणे सुखदाइ ।

बाजइ झलरि ना झणकार, पड़इ मादल ना दोंकार ॥४॥

बाजइ राय गिडगिडी रंग, विध विध बाजइ मुख चंग ।

गन्धर्व बजावइ वीणा, सुणइ लोक सहु तिहां लीणा ॥५॥

बाजइ त्रिवली ताल कंसाल, गीत गावइ बाल-गोपाल

आलापइ राग छत्तीस, इम उच्छ (व) थाय जगीस ॥६॥

दोहा :—उष्णोदक सुं कुमर नइ, भलउ करायउ स्तान ।

अङ्गि शृङ्गार कीया सहु, वणियउ वेष प्रधान ॥ १ ॥

वेलि :—हिंव वणियउ वेश प्रधान, गंगोदक सुं कीया स्तान ।

मोतीयडे कुमर बधायउ, आभरणे अंगवणायउ ॥ १ ॥

मस्तकि भलउ मुकुट विराजइ, दोइ कानइ कुण्डल छाजइ ।

विहुं बांहे बहरखा खंध, करि सोहइ बाजूबन्ध ॥२॥

उर वर मोतिन कउ हार, पाइ घुघरिया घमकार

अइव उपरि थयउ असवार, याचक करइ जयजयकार ॥३॥

ताजां नेजां गयणइ सोहइ, वरनोलइ इम मनमोहइ ।

.....॥४॥

दोहा:—हिंव गुरु पासइ आवियइ, मिलीया माणस थाट ।

कुमर तणउ जस उचरइ, ‘चारण’ ‘भोजिग’ ‘भाट’ ॥ १ ॥

वेलि:—हिंव ‘चारण’ ‘भोजिग भाट’, “धरमसी” शाह करइ गहगाट

“खेतसी” गुरु पायइ लागइ, गुरु वांदी बइठउ आगइ ॥१॥

इम पभणइ “धरमसी” शाह, ए कुमर बडउ गज गाह ।

पूजजी हिंव कृपा करोजइ, ए मांहरि थापण लीजइ ॥ २ ॥

हिंव कुमर सुणे बालूडा, ले दिक्षा चलिजे रूडा ।

गुरुजीनो कह्यो करेजो, सूधउ संजम पालेजो ॥ ३ ॥

जिम दीपइ ‘बोहिथ’ वंश, तिम करिजो सुत अवतंश ।

क्राधादिक वयरी दाटे, महियली बहुलउ जस खाटे ॥ ४ ॥

तुजनइ किसी सीख सीखांवा, सुं दांत नइ जीभ भलावां ।

जिम सहुको कहइ धन धन्त, तिम करिज्यो पुत्र रतन्त ॥५॥

दोहा :—‘सोलहसय छपन्न’ मई, संवच्छर सुखकार ।

‘मिगसर सुदी तेरसि’ दीनइ, लीधउ संजम भार ॥१॥
माणक मोती माल सहु, हय गय रथ परिवार ।

छंडी संजम आदर्यो, जाणयो अथिर संसार ॥२॥
दे दिक्षा नामउ कीयउ, ‘राजसिंह’ अणगार ।

हिव ‘श्रीजिनसिंहसूरि’ गुरु, करइ अनेथ विहार ॥३॥
वेलि :— हिव करइ अनेथ विहार, ‘राजसिंह’ हुआ अणगार ।
लीधउ पंच महाव्रत भार, षट जीव नउ राखणहार ॥१॥
पंच सुमति भली परि पालइ, विषयारस दूरइ टालइ ।

कइ धरम दश परकारइ, पाटोधर वान वधारइ ॥२॥
प्रहणा सेवन दुइ शिक्षा, सीखी संजम नी रिक्षा ।

मंडलि तप बूहा जाणि, ‘श्रीजिनचन्दसूरि’ विनाणी ॥३॥
दीधी दीक्षा बडइ विरुह, नामउ दीयउ ‘राजसमुद्र’ ।

हिव शास्त्र भण्यां असमान, ते गिणतां नावइ गान ॥४॥
उपधान बूहा मन रंग, ‘उत्तराध्यन’ नइ ‘आचारंग’ ।

तप कलप तणउ आरुहउ, छम्मासी तप पिण बूहउ ॥५॥
वयसइ बहु पंडित आगइ, लुलि लुलि सहि पाये लागइ ।

इम लोक कहइ गुणरागी, जयउ ‘राजसमुद्र’ सउभागी ॥६॥
दोहा :—आवइ ‘आठे व्याकरण’ ‘अट्टारह-नाममाल’ ।

‘छए-तर्क’ भणिया भला, ‘राग छत्रीस’ रसाल ॥ १ ॥
भलइ मेली भणिया वलि, ‘आगम पैतालीस’ ।

सइमुख श्री ‘जिनसिंह’ गुरु, सीखि दीयइ निशदीस ॥२॥

महियलि वादि बड बड़ा, ताता (तां लग?) गरब वहंति ।

जां लागि 'राजसमुद्र' गणि, गरुआ नवि बुलंति ॥ ३ ॥

मोटइ मुनिवर महियलइ, 'राजसमुद्र' अणगार ।

जे जे विद्या जोइयइ, तिणि नहु लाभइ पार ॥ ४ ॥

'वाचनाचारिज' पद दीयउ, 'श्रीजिनचंद्र सूरिंद' ।

पाटोधर प्रतिपउ सदा, रलिय रंग आणंद ॥ ५ ॥

वड वखती सुप्रसन्न वदन, जाग्यो पुण्य अंकूर ।

परतखी देवी 'अम्बिका', हुइ हाजरा हजूर ॥ ६ ॥

परतखि परतउ दिठ ए, 'अम्बा' नइ आधार ।

लिपि बांची 'घंघाणीयइ', जाणइ सहू संसार ॥ ७ ॥

'जेसलमेरु' दुरंग गढ़ि, राउल 'भीम' हजूर ।

वादइ 'तपा' हराविया, विद्या प्रबल पडूर ॥ ८ ॥

इम अनेक विद्या बलइ, खाटया बडा विरुद ।

विद्यावंत बडउ जती, सोहइ 'राजसमुद्र' ॥ ९ ॥

ढाल दसमी—उलाला जाति ।

हिव श्री शाहि 'सलेम', 'मानसिघ' सूंधरि प्रेम ।

वड वडा साहस धीर, मूंकइ अपणा वजीर ॥ १ ॥

तुम्ह 'वीकाणइ' जावउ, 'मानसिघजी' कू बुलावउ ।

इक बेर 'मानसिघ' आवइ, तउ मुझ मन (अति) सुख पावइ ॥ २ ॥

ते 'वीकाणइ' आया, प्रणमइ 'मानसिघ' पाया ।

दीया मन महिराण, 'पतिसाही-फुरमाण' ॥ ३ ॥

‘चवदह विद्या’ निधान, मुनिवर मांहे प्रधान ।

एह हवइ गच्छइसर, तउ तूठउ परमेसर ॥ १५ ॥

सायर जेम गंभीर, मेरु महीधर धीर ।

दीठां दालिद जायइ, वांघा नवनिधि थायइ ॥ १६ ॥

‘राजसमुद्र’ हवइ राजा, ‘सिद्धसेन’ हवइ युवराजा ।

तउ खरतरगच्छ सोहइ, संघ तणा मन मोहइ ॥ १७ ॥

दोहा—इम आलोच करि हिवइ, उठइ श्रीसंघ जाम ।

‘आसकरण’ आवइ तिसइ, ‘संघवी’ पद अभिराम ॥ १ ॥

कुलदीपक श्री ‘चोपड़ा’, बड़ जेहइ विस्तार ।

लखमी रो लाहउ लीयइ, संघ मांहे सिरदार ॥ २ ॥

श्री संघ आगलि इम कहइ, ए मोरी अरदास ।

‘पद ठवणो’ करिवा तणउ, द्यो आदेश उलास ॥ ३ ॥

इम अनुमति ले संघनी, धरइ चित्त उच्छरंग ।

पद ठवणउ संघवी करइ, आणी उलट अंग ॥ ४ ॥

संवत ‘सोलचिहुत्तरइ’, सोमवार सिरताज ।

‘फागुणसुदि’ ‘सातम’ दिनइ, थाप्या श्री जिनराज ॥ ५ ॥

भट्टारक सोहइ भलउ, ‘श्री जिनराज सूरिंद’ ।

प्रतिपउ तांलगि महियलइ, जां लगि ध्रू रवि चंद ॥ ६ ॥

सइंहथ ‘श्री जिनराज’ गुरु, थाप्या प्रबल पडूर ।

आचारिज चढ़ती कला, ‘श्री जिनसागरसूरि’ ॥ ७ ॥

सूरिज जिम सोहइ सदा, ‘श्री जि(न?)राज सूरिंद’ ।

श्री ‘जिनसागर’ सूरि गुरु, प्रतपइ पूनिम चंद ॥ ८ ॥

हिव श्री 'जिनराज सूरिश्वरु', महियल करइ विहार ।

थायइ उच्छव अति घणा, वरत्यउ जय जयकार ॥ ६ ॥

'जेसलमेर' दुरंग गढ़ि, 'सहसफणउ-श्रीपास' ।

थाप्यउ श्री जिनराज गुरु, समर्या पूरइ आस ॥ १० ॥

श्री 'विमलाचल' उपरइ, जे आठमउ उद्धार ।

कीधी तेहनी थापना, जाणइ सहु संसार ॥ ११ ॥

परतिख पास 'अमीझरउ' थाप्यउ 'भाणवट' मांहि ।

इम अवदात किता कहूं, मोटउ गुरु गजगाह ॥ १२ ॥

परतिख देवी 'अम्बिका', परतिखि 'बावन वीर' ।

'धंचनदी' साधी जिणइ, साध्या 'पांच पीर' ॥ १३ ॥

श्री खरतरगच्छ सेहरउ, महियलि सुजस प्रधान ।

प्रतपइ श्री 'जिनराज' गुरु, दिन २ बधतइ वान ॥ १४ ॥

ढाल इग्यारहमी—आयो आयउरी समरंता दादा आयउ ।

गायउ गायउरी जिनराजसूरि गुरु गायउ ॥

'श्री जिनसिंह सूरि' पाटोधर, प्रतपइ तेज सवायउरी ॥जि०१॥आ०॥

पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर, चिहुं दिसी सुजस सुहायउ ।

रंगी रंगीली छयल छबीली, मोती (य) वेगि बधायउरी ॥२॥जि०॥

धन धन 'धर्मसी' शाह नो नंदन, धन 'धारलइ' जायउ ।

तू साहिब मैं तेरउसेवक, तुझ चल(र?)णे चित्त लायउ री ॥३॥जि०॥

'सिंधु' देल विहार करीनइ, 'पांच पीर' वर ल्यायउ ।

उदय हवइ तिणि देसइ अधिकउ, जिणि दिशि पूज गवायउरी ॥४॥जि०॥

श्री 'ठाणांग' नी वृति करिनइ, विषमउ अरथ बतायउ ।

सूरि मंत्रधारी परउपगारी, ईदु नउ बीजउ भायउरी ॥५॥जिन०॥

सह को श्रावक रंजी 'नव खंड', निज नामउ वरतायउ ।
 विद्यावंत बडउ गच्छ नायक, सहको पाय लगायउरी ॥६॥जिन०॥
 सोहइ शहर सदा 'सेत्रावउ' 'मरुधर' मांहि मल्हायउ ।
 संवत 'सोल इक्यासी', वरसइ, एह प्रबंध वणायउरी ॥७॥जिन०॥
 'आसाढा बदि तेरसि' दिवसइ, सुरगुरु वार कहायउ ।
 श्री गच्छनायक गुण गावतां, 'मेह पिण सबलउआयउ'री ॥८॥जि०॥
 'रत्नहर्ष' वाचक मन मोहइ, 'खेम' वंश दीपायउ ।
 'हेमकीर्त्ति' मुनिवर मन हरषइ, एह प्रबंध करायउरी ॥९॥जिन०॥
 श्री 'जिनराजसूरि' गुरु सुरतरु, मइ निज चित्ति बसायउ ।
 मुनि "श्रीसार" साहिब सुखदाइ, मनवांछित फल पायउरी ॥१०॥जि०॥

इति श्री खरतरगच्छाधिराज सकल साधुसमाज वृंद वंदित
 पादपद्म निच्छद्म सदनेक मंगलसद्म श्री जिनराजसूरि सूग्निश्वराणां
 प्रबंध शुभ बंध बंधुरतरो लिखितोयं श्री काल ग्रामे ॥ शुभं भूयान्
 पठक पाठकना मशठमनसां ॥ आविका पुण्यप्रभाविका धारां पठ-
 नार्थं ॥ श्री प्रथम दूहा २१, प्रथम ढाल गाथा १६ दूहा ५, बीजी ढाल
 गाथा १२ दूहा, ५ तोजी ढाल गा: १६ दूहा ३, चौथी ढालगा: ११
 दूहा ५, पांचमी ढाल गाथा १५ दूहा ५, छठी ढाल गाथा १४
 दूहा २, सप्तमी ढाल गाथा ११ दूहा ४, आठमी ढाल गाथा ११
 दूहा ५, नवमी ढाल गाथा ३७ दूहा ६, दशमी ढालगाथा १७
 दूहा १४, इगारमी ढालगाथा १० सर्व गाथा २५४, सर्व श्लोक ३२४
 सर्व ढाल ११, (पत्र २ से ६, प्रत्येक पत्रमें १५ लाइनं सुन्दर अक्षर,
 ज्ञानभंडार, दानसागर बंडल नं० १३ तत्कालीन लि०)

॥ श्री जिनराज सूरि गीतम् ॥

(१)

‘श्री जिनराज सूरेश्वर’ गच्छ धणी, धुरि साधु नउ परिवार ।
 प्रामानुग्रामइ विहरता सखि, वरसता हे देसण जल धार ॥१॥
 कइयइ सुगुरु पथा रिस्यइजी, इण नयरइ हे सखि पुण्य पडूर ।
 सूरवि मोती बधारि (वि?) स्ये जी ॥ आं ॥
 जेहनइ वंसइ बड़बड़ा, गच्छपति हुआ निरदोष ।
 देवतां जिहनी साखि छैसखि, तिण मुं हे कुण करइ मन रोष ॥२॥
 ‘श्री अभयदेवसूरि’ जिहां हुआ, सखि नव अंग विवरणकार ।
 चउसठि योगिणी जिण जीतली, ‘जिनदत्तसूरि’ हे जिहां सुखकार ॥३॥
 जेहनी महिमा नउ नहीं सखि, पार एह निहाल ।
 ‘श्री जिनकुशल सूरेश्वर’ सखि, दीपइ हे इणि जगि चउसाल ॥४॥क०
 पतिशाहि अकबर बूझव्यउ, जिणि अमृत वाणि सुणावि ।
 ‘श्रीजिनचन्द्रसूरेश्वर’ हुआउ सखि, इणि गच्छि हे जग अधिक
 प्रभाव ॥५॥क०
 ‘लाहोरि’ दीधी जेहनइ, गुण देखि आप हजूर ।
 श्रीयुगप्रधान पदवी भली सखि, छानउ हे रहै किम जगि सूर ॥६॥ क०
 तेहनइ पाटइ प्रगटियउ सखि, ‘श्री जिनसिंहसुरिन्द’ ।
 तसु पाटि परतखि थप्पियउ सखि, ए गुरु सोहगनउ कन्द ॥७॥ क०
 निर्मलइ वंश(इ) ऊपनउ, वजू स्वामि शाखि शूङ्गार ।
 श्री‘गुणविनय’ सदगुरु इसउ सखि, चाहिवा हे मुझ हर्ष अपारा ॥८॥क०

(२) श्री जिनराजसूरि सवैया ।



‘जिनदत्त’ (सूर) अर ‘कुशल’ सूरि मुनिंद
 बंछित दायक जाकुं हाजरा हजूर जु ।
 चारित पात (विख्यात) जीते (हैं) मोह मिथ्यात
 और जो अशुभ कर्म किये जिन दूर जु
 ‘जिनसिंध सूर’ पाट सोहै मुनिवर थाट
 भणत सुजाण राय विद्या भरपूर जु ।
 नछत्तन (नक्षत्र?) मांझ जैसे राजत निछतपति,
 सूरिन मैं राजे ऐसे ‘जिनराज सूर’ जु ॥१॥
 जैसे बीच वारण(?)के गंगके तरंग मानो,
 कोट सुखदायक भविक सुख साजकी ।
 गगन अना.....नकी ब्रह्म वेद विचरत
 सब रस सरस सबल रीझ काजकी ।
 गाजत गंभोर अ (घ?) न धार सुध खीर वृंद,
 श्रवण सुणत धुन (ध्वनि?) ऐन मेघ गाज की ।
 ‘जिनसिंध सूर’ पाट विधना सो घड़ी (य) घाट,
 अमृत प्रवाह वांणी(?) सूर ‘जिनराज’ की ।२।
 ‘साहिजहां’ पातिशाह प्रबल प्रताप जाको,
 अति ही करूर नूर को न सरदाखी (?)हैं ।
 ‘असी चउ गळ’ सब थहराये जाके भय,
 ऐसो जोर चकतौ हुवौ न कोउ भाखी हैं ।

श्रीय 'जिनसिंघ' पाट मिल्येउ साहि सनमुख,
 'धरमसी' नंदन सकल जग साखी है ।
 कहै 'कविदास' षट्दरशन कुं उबारै,
 शासनकी टेक 'जिणराज सूरि' राखी है ।३।
 'आगरै' तखत आये सबहीके मन भाये,
 विविध वधाये संघ सकल उछाह कुं ।
 राजा 'गजसंघ' 'सूरसंघ' 'असरपखान',
 'आलम' 'दीवान' सदा सुगुरु सराह कुं ।
 कहै 'कविदास' जिणसिंघ पाट सूर तेज,
 अगम सुगम कीने शासन सुठाह कुं ।
 'मिगसर बहु (वदि?)चोथ' 'रविवार' शुभ दिन,
 मिले 'जिनराज' 'शाहिजहां' पतिशाह कुं ।४।

॥ श्री गच्छाधीश जिनराजसूरि गुरु गीतम् ॥

(३) ॥ ढाल अलबेल्यानी जाति मांहे ॥

—***—

आज सफल सुरतरु फलयउ रे लाल, आज सफल थयउ दीस । सुखदाइ
 गच्छ-नायक भेट्यो भलेरे लाल, 'श्रीजिनराज सूरि' ॥१॥सु०
 सोभागी सवि सूरि मइं रे लाल, समता लीन शरीर । सु० ।
 दिनकर नी परि दीपतउ रे लाल, धरणीधर वर (परि?)धीर ।सु॥२॥
 तूठी जेहनइ 'अंबिका' रे लाल, अविचल दीधो वाच । सु० ।
 लिपि बांची 'घंघाणियइ' रे लाल, सहुको मानइ साच सु०॥३॥सो०॥

राडल 'भीम' सभा भली रे लाल, 'जेसलमेर' मझार । सु० ।
 परवादी जीता जियइ रे लाल, पाम्यउ जय-जयकार । सु०॥४॥सो०
 'श्री जिनवल्लभ' सांभल्यउ रे लाल, कठिन क्रिया प्रतिपाल । सु० ।
 इण जगि परतखि पेखियइ रे लाल, 'श्रीजिनराज'कृपाल । सु०॥५॥सो०
 प्रतिपइ पुण्य पराक्रमइ रे लाल, मानइ सहुको आण । सु० ।
 पिशुन थया सहु पाधरा रे लाल, दूरइ तजि अभिमान । सु०॥६॥सो०
 मइंगल जिम गुरु मालहतउ रे लाल, मोटा साथि मुणिंद । सु० ।
 जन मन मोहइ चालतां रे लाल, पामइ परमाणंद । सु०॥७॥ सो०॥
 क्रोध तज्यउ काया थकी रे लाल, दूरि कियउ अहङ्कार । सु० ।
 मायानइ मानइ नहीं रे लाल, लोभ न चित्त लिंगार । सु०॥८॥ सो०॥
 श्री संघ सोभ बधारतउ रे लाल श्रीजिनराज मुनीश । सु० ।
 प्रतिपउ गुरु महिमंडलइ रे लाल, 'सहजकीरति' आशीस । सु०॥९॥सो०
 ॥ इति श्री गच्छाधीश गुरु गीतम् ॥

(४) ॥ ढाल, बहिनोनी जाति मांहि ॥

गच्छपति सदा गरुड निलउ, पंच सुमति गुपति दयाल ।

सुविहित शिरोमणि साचिलउ, पंच महाव्रत पाल ॥ १ ॥

सद्गुरु वंदियइ, 'श्रीजिनराजसुरिन्द' ।

दरशन अधिक्रआगंद, जंगम सुरतरु कन्द ॥ आंकणी

संघपति शिरोमणि संघवी, श्री 'आसकरण' महन्त ।

पद उवणउ जिहनउ कियउ, खरची धन बहु भांति ॥ २ ॥ स०॥

पहिरावियउ निज गच्छ सहुए, अधिकी करणी कीध ।

‘श्रीजिनसिंह’ पटोधरु, जग माहें जस लीध ॥ ३ ॥ स०॥

‘बोहित्थ’ वंशइ वाधतउ, श्री ‘धर्मशी’ धन धन्न ।

‘धारलदे’ धरणी परइ, जायउ पुत्र रतन्न ॥ ४ ॥ स०॥

जसु देखि साधुपणउ भलउ, हरखि दियउ बहुमान ।

सावासि तुम्ह करणी भली, कहइ श्री ‘मुकरबखान’ ॥ ५ ॥ स०॥

श्री संघ करइ बधामणा, जसु देखि करणी सार ।

गुणवंत सगले ही लहै, पूजा विविध प्रकार ॥ ६ ॥ स०॥

जिण मांहि बहु गुण सूरिना, देखियइ प्रकट प्रमाण ।

वरणवी हुं नवि सकूं, जसु विद्या तणउ गान ॥ ७ ॥ स०॥

श्री गच्छ खरतर चिरजयउ, जिहां एहवा गच्छराय ।

सीह अनइ बलि पाखर्यउ, कहु किम जीपणउ जाय ॥ ८ ॥ स०॥

जिहां लगे मेरु महीधरु, जिहां लगइ शशि दिनकार ।

प्रतिपउ तिहां लगे गच्छधणी, ‘सहजकीरति’ सुखकार ॥ ९ ॥ स०॥

(५)

श्री जिनराजसूरि गुरु राजइ, सिरि जैन तणउ छत्र छाजइ ।

सद्गुरु प्रतपउ जी ॥

दिन-दिन तेज सवायो, भविक लोक मनि भायउ ॥ १ ॥ श्री०॥

गजगति गेलइ चालइ, पञ्च महाब्रत पालइ । स० । श्री०॥

मुनिवर मुनि परवारइ, कुमति कदाग्रह वारइ ॥ २ ॥ स०श्री०॥

श्रीजिनसिंह सूरि पाटइ, पूज्य सोहइ मुनि (वर)थाटइ । स० श्री०॥

महिमा मेरु समानइ, दिन-दिन चढतइ वानइ ॥ ३ ॥ स० । श्री०॥

‘धरमसी’ शाह मल्हार, उरि ‘धारलदे’ अवतार । स० । श्री०

रूपइ वडरकुमार, विद्या तणउ भण्डार ॥ ४ ॥ स० । श्री०
वाद करी ‘जेसाणइ’, जस लीधउ सहुको जाणइ । स० श्री०

पास वरइ जिण जाणी, लिपि बांची ‘घंवाणी’ ॥ ५ ॥ स० । श्री०
बोलइ अमृत वाणी, सुरनर कइ मन भाणी । स० । श्री० ।

सुललित करिय वखाण, रीझविया रायरान ॥ ६ ॥ स० । श्री०
‘बोहित्थरा’ वंसइ दीवउ, कोडि वरस चिरजीवउ ॥ स० । श्री०

जां लगि सूरज चन्द, ‘आनन्द’ प्रभु चिरनन्द ॥ ७ ॥ स० श्री०
(६)

आवउजी माहरइ पूज इणि देसइइरे, चीतारइ श्री ‘करण’ नरेश रे ।

चीतारइ नरनारि नरेश ।

मुझ मुख थी पंथीडा वीनवे रे, जाई जिण छइ पूज तिण देश रे ॥ १ ॥

तीन प्रदिक्षण तूं देइ करीरे, श्री जी रे तुं लागे पाय रे ।

वलि युवराजा ‘रंगविजइ’ भणी रे, इतरउ करिजे वीर पसाय रे ॥ २ ॥ आ०

जसु दरशनि दीठइ तन ऊलसइ रे, मेरु तणी पर पूजजी धीर रे ।

मिहर करि पूज माहरइ देसइइ रे, आवउ पुहपां(?) केरा वीर रे ॥ ३ ॥

संवेग्यां मांहे सिर सेहरउ रे, कलि मइ गौतम नइ अवतार रे ।

जंगम तीरथ तारक जगतमइं रे, जिण जीतउ वलि मदन विकाररे ॥ ४ ॥

पूजजी जे किम मुझ नइ वीसरइ रे, जिणसुं धरम तणउ मुझ रागरे ।

ते गुरु वीसार्थी नवि वीसरइ रे, जेहनउ साचउ जस सोभाग रे ॥ ५ ॥

‘श्री जिनराजसूरीसर’ गच्छ धणी रे, मानी मझनी ए अरदासर रे ।

‘सुमतिविजय’ कहि चतुर्विध संघनी रे पूजजी सफल करउ हिव
आश ॥ ६ ॥ आ०

—X*X—

कवि धर्मकोर्ति कृत

॥ श्री जिनसागर सूरि रास ॥



दूहा:—श्री 'धंभणपुर' नउ धणी, पणमी पास जिणंद ।

श्री 'जिनसागर सूरि' ना, गुण गावुं आणंदि ॥ १ ॥

सरसति मति मुझ निरमली, आपउ करिय पसाय ।

आचारज गुण गांवतां, अविहड वर द्यो माय ॥ २ ॥

वीर जिणिंद परम्परा, 'उद्योतन' 'वद्धमान' ।

सूरि 'जिणेश्वर' पाटवी, 'जिनचन्द्र' सूरि गुणजाण ॥३॥

'अभयदेव' 'वलभ' गुरु, पाटइ श्री 'जिनदत्त' ।

'जिनचंद सूरीसर' जयउ, सूरिसर 'जिनपत्ति' ॥ ४ ॥

'जिणिसर सूरि' 'प्रबोध' गुरु, 'चंद्र सूरि' सिरताज ।

'कुशलसूरि' गुरु भेटतां, आपइ लखमी राज ॥ ५ ॥

'पदमसूरि' तेजइ अधिक, 'लबधि सूरि' 'जिनचंद' ।

पाटि 'जिनोदय' तसु पटइ, श्री 'जिनराज' मुणिंद ॥ ६ ॥

'जिनभद्र' श्री 'जिनचंद' पटि, 'जिनसमुद्र' 'जिनहंस' ।

नामइ नव निधि संपजइ, धन धन 'चोपड' वंश ॥ ७ ॥

मनवंछित सुख पुरवइ, 'माणिक सूरि' मुणिंद ।

'रीहड' वंशइ गरजीयउ, युग प्रधान 'जिणचंद' ॥८॥

श्री 'अकबर' प्रतिबोधीयो, वचने अमृत धार ।

श्री 'खरतर' गच्छराज नी, कीरति समुद्राँ पार ॥ ६ ॥

'युगप्रधान' पद आपीयो, 'अकबर' साहि सुजाण ।

निज हाथि श्री 'जिनसिंह' नइ, पदत्रो दीध प्रधान ॥१०॥

तिण अवसर बहु भाव सुं, देइ 'सवा कोडि' दान ।

'वच्छावत' वित वावरइ, 'कर्मचंद' मंत्रि प्रधान ॥११॥

युगवर 'जंबू' जेहवउ, रूपइ 'वइर-कुमार' ।

'पंच नदी' साधी जिणइ, शुभ लगन शुभ वार ॥१२॥

संवत 'सोल गुणहत्तरइ', बूझवि साहि 'सलेम' ।

'जिनशासनि मुगतउ' कर्यो, 'खरतर' गच्छ मइ खेम ।१३।

तासु पाटि 'जिनसिंह' गुरु, तासु शीस सिरताज ।

'राजसमुद्र' 'सिद्धसेनजो', दरसणि सीझइ काज ॥१४॥

युगवर श्री 'जिनसिंह' नइ, पाटइ श्री 'जिनराज' ।

'जिनसागरसूरि' पाटवी, आचारिज तसु काज ॥१५॥

कवण पिता कुण मात तसु, जनम नगर अभिहाण ।

कुण नगरइ पद थापना, 'धरमकीरति' कहइ वाणि ॥१६॥

ढालः— तिभरीरइ

'जंबू' दीपह थाल समाण, 'लख जोयण जेहनो परिमाण ।

'दक्षिण' 'भरतइ' आरिज देस, 'मरुधरि' 'जंगलि' देस निवेस ॥१७॥

तिहां कणि राजइ 'रायसिंघ' राज, 'बीकानयर' वसइ शुभकाज ।

ठाम ठाम सोहइ हट सेरी, वाजित्र वाजइ गावइ गोरी ॥१८॥

नगर मांहि बहुला व्यवहारी (व्यापारी), दानशील तप भावि उदारी ।
वसइ तिहां पुण्यइ बहु वित्त, साह 'बछा' नामइ थिर चित्त ॥१६॥

राग :—रामगिरी ।

दोहा—रयणी सोहइ चंद सुं, दिनकर सोहइ दीस ।

तिम 'बछा' 'बोहिथ' कुलइ, पूरउ मनह जगीस ॥२०॥

ढाल:— पाछली

तासु धरणि 'मिरगा दे' सती, रूपइ रंभा नु जीपति ।

'चउसठि' कला तणी जे जाण, मुखि बोलइ सा अमृत वाणि ॥२१॥

प्रिय सुं प्रेम धरइ मनि घणउ, 'दसरथ' सुत जिम 'सीता' सुणउ ।

चंद्र चकोर मनइ जिम प्रीति, पालइ पतिव्रत धरम नी रीति ॥२२॥

पांचे इंद्री विषय संयोग, नित नित नवला बहुविध भोग ।

नव यौवन काया मद मची, इंद्र संघातइ जाणें सची ॥२३॥

राग:— आसावरी

दूहा—सुखभरि सूती सुंदरि, पेखि सुपन मध राति ।

रगत चोल रत्नावली, प्रिउ नै कहइ ए बात ॥ २४ ॥

सुणी वचन निज नारि ना, मेघ घटा जिम मोर ।

हरख भणइ सुत ताहरइ, थासइ चतुर चकोर ॥२५॥

ढाल—आस फली माइडी मन मोरी, कूखइ कुमर निधान रे ।

मनवंचित्त डोहलां सवि पूरइ, पामइ अधिकउ मान रे ।२६॥आ०

संवत 'सोल बावन्ना' वरषइ, 'काती सुदो' 'रबिवार' रे ।

'अउदसि'ने दिनि असिणि रिखइ(नक्षत्रइ?),जनम थयो सुखकाररे॥२७

नित नित कुमर बाधइ बहु लक्खणि, सुरतरु नउ जिम कंद रे ।

नयणी अनोपम निलवट सोहइ, वदन पूनम नउ चंद रे ॥२८॥

सहुअ सजन भगतावी भगतइ, मेलि बहु परिवार रे ।

‘चोलउ’ नाम दियउ मन रंगइ, सुपन तणइ अनुसारि रे ॥२९॥

सहिअ समाण मिलि मात पासइ, साह ‘वछराज’ कुलि दीव रे ।

‘सामल’ नाम धरि हुलरावइ, मुखि बोलइ चिरजीव रे ॥३०॥

रागः— मारु

दोहा—रमइ कुमर निज हरखसुं, मात ‘मृगा दे’ पुत्र ।

गजगति गेलइ चालतउ, कुलमंडण अदभूत ॥ ३१ ॥

मीठा बोलइ बोलडा, काय कनक नइ वान ।

बालक ‘बत्रीस लखणो’, मात पिता छइ मान ॥ ३२ ॥

ढालः— पाछली

माइडी मनोरथ पूरइ, सुन्दर सुंखडी आपइ रे ।

बड़ा वचन नवि लोपीयइ, मन सुधि सीख समापइ रे ॥३३॥

आसा बांधी माइडी, सेवइ सुरतरु जेमो रे ।

पोसइ कुमर नइबहु परइ, ‘शालिभद्र’ जिम प्रेमो रे ॥३४॥

इंग अवसरि तिहां आवीया, ‘जिनसिंह सूरि’ सुजाणो रे ।

श्री संघ बंदइ भावसुं, उछव अधिक मंडाणो रे ॥३५॥

मात ‘मृगादे’ सुत सडू, निसुणइ अरथ विचारो रे ।

मन मइ वैराग उपनो, जांणी अथिर संसारो ॥ ३६ ॥

दोहा—‘गजसुकमाल’ जिम ‘मेघ मुनि’, ‘अइमतो तिण काले ।

‘सामल’ ते करणी करइ, जाणइ बाल गोपाल ॥३७॥

ढाल :—केदारा गौडी

सांभली वचन सहगुरु केरा, जीवादिक नवतत्व भलेरा ।
 उपशम रस ध(भ?)र कायकलेसी, संजम सेवा बुद्धि निवेसी ॥३८॥
 मात पासे जइ कुमर सोभागी, पभणइ संजमि लीउ मनरागी ।
 अनुमति मोहि दीयउ मोरी माइ, नवि कोजइ चारित्र अंतराइ ॥३९॥
 मात भणइ वल सांभलि सार्चुं, इण वचनइ पुत्र हुं नवि रार्चुं ।
 लोह चणा मयण दांति चवायइ, तेहथी संजम कठिन कहायइ ॥४०॥
 कुमर भणइ माता किं सूरे परचारइ, कायर हुइ ते हीयडुं हारइ ।
 संजम लेवा बात कहेवी, मइ पिण निश्चइ दिक्षा लेवी ॥ ४१ ॥

राग :—देसाख

दोहा :—वडभाइ 'विक्रम' सहित, 'मात' भणइ मु(तु?)झसाथि ।
 करिसुं आत्मारोधना, 'जिनसिंह सूरी' गुरु हाथि ॥४२॥
 दूध मांहि साकर मिली, पीतां आणंद होइ ।
 वचन सुणि निज मातना, हरखउ कुमर मनि सोइ ॥४३॥
 'विक्रमपुर' थी अनुकमइ, सदगुरु करइ (अ) विहार ।
 'अमरसरइ' पउधारिया, 'श्रीजिनसिंह' उदार ॥४४॥
 सामाइक पोसउ करइ, पडिकमणउ गुरु पासि ।
 संजम लेवा कारणइ, कुमर मनइ उलासि ॥४५॥
 श्री'अमरसर' संघ तिही, हरखित थयउ अपार ।
 वाजित्र बाजइ नवनवा, वरनउलां सुप्रकार ॥४६॥
 'श्रीमाल' वंशि सुहामणउ, 'थानसिंह' थिर चित्त ।
 संजम उलव कारणइ, खरचइ तिहां बहु वित्त ॥४७॥

संबत 'सोल इकसठइ' 'माह' मासि सुभ मासि ।

मात सहित दिक्षा लीयइ, पढुती मन नी आसि ॥४८॥

तिहांथी चारित लेइ नइ, सदगुरु साथि विहार ।

विद्या सीखइ अति घणी, धरता हर्ष अपार ॥४९॥

अनुक्रमि देस वंदावतां, आया 'जिनसिंह' राया ।

'राजनगर' 'जिनचंद्र' ने, लागइ जुगवर पाया ॥५०॥

पांच समिती तीन गुप्ति जे, पालइ प्रवचन मात ।

छ जीवनी रक्षा करइ, न करइ पर नी ताति ॥५१॥

सामाचारि सूत्र अरथ, जाणइ सरव प्रकार ।

'सतावीस' गुणे करी, सोहइ 'सामल' सार ॥५२॥

तप बूहा मांडलि तणा, बड दिखा तिहां दीध ।

'श्रीजिनचंद्र सूरि' सइहथइ, 'सिद्धसेन' मुनि कीध ॥५३॥

बूहा उपधान उल्टइ, आगम ना वलि जोग ।

'छ मासी' 'विक्रमपुरइ' सरिया सकल संयोग ॥५४॥

सुगुरु भणावइ चाह सुं, उत्तम वचन विलास ।

युगप्रधान बहु हित धरइ, पढुंचइ वंछित आस ॥५५॥

चउपइ :—पभणइ शास्त्र सिद्धांत विचार, मुणिवर 'सिद्धसेन' सिरदार

गुरु नउ विनय साचवइ भलउ, 'सिद्धसेन' विद्या गुण निलउ ॥५६॥

'अंग इग्यारह' 'बार-उपंग', 'पयन्ना-दस भणइ मन चंग ।

'छ छेइ' ग्रन्थ मूल सूत्रह 'च्यारि',

'नन्दी', अनइ 'अनुयोगदुआर' ॥५७॥

‘चउदह’ विद्या तणउ निहाण, सदगुरु उत्तम करइ बखाण ।

उदयवंत अवसर नउ जाण, निज गुरु तणइ जे मानइ आण ॥५८॥
खमावंत मांहे पहली लीह, सोहइ गुरु पासइ निसदीह ।

दस विध जतीधरम नउ धणी, तप जप संयम करुणा घणी ॥५९॥
यात्र करो ‘सैत्रुजां’ तणी, साथइ ‘जिनसिंह सूरि’ दिनमणी ।

संघवी ‘आसकरण’ विख्यात, संघ करावी कारिअ जात ॥६०॥
‘खंभात’ नइ ‘अमदावाद’, ‘पाटण’ मांहि घणउ जसवाद ।

‘बडली’ बंद्या ‘जिनदत्तसूरि’, भेट्या पातक जायइ दूर ॥६१॥
इणि अनुक्रमि ‘जिनसिंह सूरि’, ‘सीरोहीयइ’ गुरु सबल पडूरि ।

करिअ पइसारौ वंदइ संघ, राजा मान दियइ ‘राजसिंह’ ॥६२॥
‘जालउरइ’ आवइ गच्छराज, वाजिज वाजइ बहुत दिवाज ।

श्रीसंघ मुं वंदइ कामिनी, रूपइ जीति सुर भामिनी ॥६३॥
‘खंडप’ नई ‘द्रूणाडा हेव, ‘घंघाणी’ भेट्या बहु देव ।

अनुक्रमि मन मइ धरिअ ऊलासि, आव्या ‘बीकानेर’ चउमासि ॥६४॥
‘वाघमल’ पइसारो करइ, नीसाणइ अंबर थरहरइ ।

कीधा नेजां पोलि पागार, वसतिइ आयां श्रीगणधार ॥६५॥
आनन्दइ चउमासउ करो(इ), आया ‘मेवडा’ बहु हित धरी ।

तेडावइ श्रीशाहि ‘सलेम’, ‘मेढता’ आया कुसले खेम ॥६६॥

रागः— वैराडी

दूहा — तिणि अवसर ‘जिणसिंह’ नउ, परवसि थयउ सरीर ।

देवगतइ छूटा नही, पुरष बडा बहु मीर ॥६७॥

अवसर जाणी तिण समइ, श्रीसंघ कहइ विचारि ।
 बोलइ सदगुरु चित धरी, बड वखती सिरदार ॥६८॥
 अणशण आराधन करी, पहुंता गुरु सुर लोग ।
 वाजित्र वाजइ तिहां घणा, मांडवो तणइ संजोगि ॥६९॥
 सोग निवारी थापीया, सखर महुरत लीध ।
 भट्टारक गुरु 'राजसो', 'सामल' आचारज कीध । ७०॥
 'आसकरण' 'अमीपाल' बलि, 'कपूरचन्द' सुविलास ।
 पद ठवणउ करइ रंग सुं, 'ऋपभदास' 'सूरदास' ॥७१॥

रागः— आसावरी

तव सिणगार्या पोलि पगारा, तंवू उंचा खचीयां ।
 मस्तक उपरि मोती झुंबइ,वहींचइ भारइ लचीयां ॥
 तेह तलइ वइठा बहु लोग, भूमि भाग नहिं माग ।
 एक एक नइ वेल्हइ मेलहइ, तिल पडिवा नहीं लाग ॥७२॥
 सबली नांदि मंडाइ तिहां कणि, वाजित्र विविध प्रकार ।
 सूरी मंत्र आप्यउ तिण अवसरि, 'हेमसूरि' गणधार ॥
 श्री 'जिनराज' सूरिस्वर नामइ, साधु तणा सिणगार ।
 बालपणइ सूरि पद आपी, सुंप्यउ गच्छ नउ भार ॥ ७३ ॥
 तेहिज नांदि आचारिज पदवी, 'श्री जिनराज' समोपइ ।
 मन सुद्धइ सूरि मंत्र ज देइ, 'जिनसागर सूरि' थापइ ।
 सजि सिणगारने कामिणी आवइ, भरि भरि मोतिन थल ॥
 सोवन फूलि बधावइ सदगुरु, गावइ गीत धमाल ॥ ७४ ॥

संवत 'सोल चउहत्तरि' वरसइ, 'फागुण सुदि' 'सनिवार' ।

शुभ वेला सुभ महरत जोगइ, 'सातमि' दिवस अपार ॥

संघ सहु हरखित थइ वंदइ, छइ बहुलउ बहुमान ।

'आसकरण' संघवी तिण अवसरि, आपइ बांछित दान ॥७५॥

भट्टारक 'जिनराजसूरि', वर्त्तमान गणधार ।

पाटइ 'जिनसागर' वरू, आचारिज अधिकार ॥७६॥

ढाल :—तेहिज

त्रिहिरिअ 'राणपुरइ' 'वरकाणइ', 'तिमिरि' भेट्या पास ।

'ओइस' 'बंधाणी' यात्र करीनइ, 'मेडतइ' करिअ चउमास ।

तिहाथी उच्छव कीध 'जेसाणइ', 'भणसाली' 'जीवराज' ।

'राउल' 'कल्याण' सुं श्री संघ वंदइ, सीधा सगला काज ॥७७॥

अमृत वाणि सुणइ तिहां श्रीसंघ, बंच्या इग्यारह अंग ।

मिश्री सहित रुपइआ लाहइ, साह 'कुसला' मन रंग ॥

लट्टुपुरइ पाउधारइ सदगुरु, श्रीसंघ साथइ आवइ ।

साहमीवल्ल कइ साह 'थाहरू', 'श्रीमल' सुत वित्त वावइ ॥७८॥

तिहांथी विहार करि 'जिनसागर', आचारज हितकार ।

'फलवद्धीयइ' आवइ ततखिण, थावइ बहुअ प्रकार ॥

उलट धरिअ तिहां कणि वांदइ, श्रीसंघ छइ बहुमान ।

पइसारउ करि 'झावक' 'मानइ', दीधउ याचक दान ॥७९॥

श्रीखरतर गच्छ सोह चडावइ, तिहांथी करिअ विहार ।

'करणुअइ' आया बहु रंगइ, संघ वंदइ गणधार ॥

बीकानयर वंदीइ पहुंचइ, 'श्रीजिनसागर सूरि' ।

'पासणीए' करयुं पइसारउ, रंगइ बहुत पडूरि ॥८०॥

राग :—सामेरी

पासाणी बहु वित बावइ, पइसारउ साम्ही आवइ ।

'सोलह सिणगारे' सारी, सिरि(श्री?) कलश धरि बहु नारी ॥८१॥

सिरि 'भागचंद' सुत आवइ, 'मणुहरदास' निज दावइ ।

वलि संघ सहगुरु वंदइ, श्रीखरतरगच्छ चिरनंदइ ॥८२॥

तिहां वाजइ ढोल नीसाण, संख झालरनउ मंडाण ।

बहु उछवि वसतइ आयां, श्रीसंघ तणइ मनिभाया ॥८३॥

सुहव मिली निउंछण कीजइ, निज जन्म तणउ फल लीजई ।

तंबोल भली पर दीघा, मन वंछिन कारिज सीधा ॥८४॥

राग :—धन्याश्री

'विक्रमपुर' थी संचरी ए, 'सर' मांहि करिअ चउमास ।

दिन दिन रंग वधामणाए पूरइ मननीआस ॥आं०॥

वधावउ सदगुरु ए, 'जिनसागरसूरि' वधावउ ।आ०।खरतरगच्छपडूर।व०।

तिहां श्री रंगइ आवियाए, 'जालयसर' सुखवास ।व०।

उच्छव सुगुरु वांदिआए, मंत्री 'भगवंत दास' ॥८५॥व०॥

विचरिय तिहां थी भावसुं ए, 'डीडवाणउ' वंदावि ॥ व० ॥

'सुरपुर' संघ सुहामणउ, भेटइ बहुलइ भावि । व० ॥ ८६ ॥

'मालपुरइ' महिमा थइ ए, लीघउ लाभ विशेष ॥ व० ॥

श्री संघ वंदइ चाह सुं, प्रहसमि नयणे पेखि ॥ व० ॥ ८७ ॥

नयर 'बीलाडइ' चित धरी ए, चतुर करइ चउमास ॥ व० ॥

उच्छव करइ 'कटारिआ' ए, पाखी पारण खास ॥ व ॥ ८८ ॥

अनुक्रमि सदगुरु पांगुरइ ए, 'मेदनीतटह' निहाली ॥ व० ॥

'रायमल' सुत जगि परिगडउए, 'गोलवछा' 'अमीपाल' ॥८९॥व०॥

बंधव जेहनइ अति भलउए, वड वखती 'नेतसीह' ॥ व० ॥

वहु परिवारइ दीपताए, भात्रीजउ 'राजसीह' ॥ व० ॥ ९० ॥

सबली नांदइ आदर्यो ए, व्रत उच्चार सवेर ॥ व० ॥

रूपइए लाहण करिए, तंबोलइ नालेर ॥ व० ॥ ९१ ॥

'रेखाउत' वित्त वावरइ ए, 'सीरीमाल' 'वीरदास' ॥ व० ॥

'माडण' 'तेजा' रंगसुं ए, 'रीहड' 'दरडा' खास ॥ व० ॥ ९२ ॥

सुंदर गुरु सोहामणउ ए, भावइ कीजइ सेव ॥ व० ॥

तिहाथी विहरी अनुक्रमि ए, वंघा 'राणपुर' देव ॥ व० ॥ ९३ ॥

'कुंभलमेरइ' जिन थुणी ए, 'मेवाडइ' गुणगांन ॥ व० ॥

'उदयपुरां' नउ राजीयउ ए, राणउ 'करण' छइ मान ॥९४॥व०॥

'लखमीचंद' सुत परगडाए, 'रामचंद' 'रघुनाथ' ॥ व० ॥

चित्त धरि वंदइ प्रहसमइए, 'अजाइवदे' सुत साथि ॥९५॥व०॥

साधु विहारइ पग भरइ ए, 'सोनगिरइ' अहिठाण ॥ व० ॥

श्री संघ उच्छव नित करइ ए, अवशर नउ जे जाण ॥९६॥व०॥

'साचजार' संघ सहु मिली ए, आप्रहहे 'हाथिसाह' ॥ व० ॥

चउमासइ गुरु राखीयाए, 'जिनसागर' गजगाह ॥ ९७ ॥ व० ॥

वर्तमान गच्छराजजी ए, 'जिनसागर सूरि' सुखकार ॥व०॥

'श्री जिनसागर' चिरजयउए, आचारिज पद धार ॥९८॥व०॥

युगवर खरतर गच्छ धणीए, 'जिनचंद सूरि' गुरुराय ॥७०॥

शीस सिरोमणी अतिभलाए, 'धरमनिधान' उवझाय ॥६६॥७०॥

तास शीस अति रंगसु ए, 'धरमकीरति' गुण गाइ ॥ ७० ॥

संवत 'सोलहक्यासीयइए, 'पोस वदि' 'पंचमि भाइ ॥१००॥

'श्री जिनसागरसूरि' नउ ए, रास रच्युं सुखकंद ॥ ७० ॥

सुणतां नवनिध संपजइ ए, गातां परमाणंद ॥ १०१ ॥ ७० ॥

तां प्रतपउ गुरु महियलइ, जां गगनइ दिनईस ॥ ७० ॥

"धरमकीरति" गणि इम कहइ ए, पूरे सकल जगीस ॥१०२॥७०

इति भट्टारक जिनसागर सूरिणाम् रास

(बीकानेर स्टेट लायब्रेरीमें पत्र ४)

—*—

श्रीजिनसागर सूरि सवैया

धुरा देस मरुधरा शहर 'बीकाण' सदाइ,

'बोहिथ' हरे विरुद इत वसइ 'बछउ' वरदाइ ।

'मृगा मांत' मोटिम्म, सुपन सूचित सुत सुन्दर,

'आठ' वर्ष अधिकार कला अभ्यास कुलोधर ।

वैराग जोग मां रमतइ, लखमी तजी कोडे लखे,

सूरीस श्री 'जिनसागर' सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥१॥

युगप्रधान 'जिनसिंह' वंस 'चोपडा' विसेखइ,

आवक 'अकबर' शाहि लीध धर्मलाभ अलेखइ ।

सइहथ तेण गुरु पासि, सुकृत करि माता संगइ,

'अमरसरइ' ऊतति आए मनरंगि अर्भंगइ ॥

संप्रहो साधु मारग सरस, पूरण गुण पूरण पखे,

सूरीस श्री 'जिनसागर' सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥२॥

विनय विवेक विचार वाणि सरसती विराजइ,

'विद्या चवद' निधान, सुजस जगि वाजा वाजइ ।

त्रिषम वाणि विषवाद, विषयरस अंगि न बाधइ,

बलतवंत वर विबुध वान दिन प्रति बाधइ ॥

वाजणी थाट वादी विषइ, परि परि पूगउ पारखे ।

सूरीस श्री 'जिनसागर' सुगुरु, उपम इसडे आरखे ॥३॥

उल्लव रंग बधाइ दिवावत, सुंदर मंगल गीत सुहावत,

मोतीन थाल विसाल भरि भरि, भामिनी भावसुं आपि बधावत ।

गच्छ नायक लायक लाख गुणी, गुण गावत वंछित ते फल पावत ।

श्री 'जिनसागरसुरि' वइरागर, नागर रंगि देख्यउ गुरुभावत ॥४॥

प्रगट सोभाग साग विकट वइराग माग,

राग हुं कउ लाग दोष दूरि हीर हीयउ हइ ।

ततु तुम दृढ़घार अमृत ज्ञान आहार

कठिन क्रिया प्रकार काम जु वहीयउहइ ।

ललित ललाट नूर, तपति प्रताप सूर,

'सागर' सुरिंद गुरु गौतम कहायउ हइ ॥५॥

सवाया छइ (उपरोक्त बिकानेर स्टेट लायब्रेरी की

प्रति में, तत्कालीन लि०)

कवि सुमतिवल्लभ कृत
श्री जिनसागर सूरि निर्वाणरास



दूहा:—समरुं सरसति सामिनी, अविरल वाणि दे मात ।

गुण गाइसुं गच्छराज ना, 'सागर सूरि' विख्यात ॥१॥

सहर 'बीकाणो' अति सरस, लखिमी लाहो लेत ।

'ओस वंश' मंड परगडा, 'बोहिथरा' विरुदेत ॥ २ ॥

'वच्छराज' घरि भारजा, 'मिरघा दे' सुत दोइ ।

'बीको' नइ 'सामल' सुखी, अविचल जोडी जोइ ॥ ३ ॥

श्री 'जिनसिध सुरीश' नी, सांभलि देशन सार ।

मात सहित बान्धव विन्हे, संज (म) लइ सुखकार ॥४॥

'माणिकमाला' मावड्डी, 'विनयकल्याण' विशेष ।

'सिद्धसेन' इम त्रिहुं तणा, नाम दीक्षा ना देखि ॥ ५ ॥

'वादी राय' भणाविया, 'हर्षनंदन' करि चित्त ।

'चवदह' विद्या सीखवी, सूत्र अर्थ संयुक्त ॥ ६ ॥

सूयो संयम पालतां, विद्या नउ अभ्यास ।

करतां गीतारथ थया, पुण्याइ परकास ॥ ७ ॥

'सिद्धसेन' अभिनव थयो, 'सिद्धसेन' अवतार ।

बीजा चेला बापडा, 'सांभलिउ' सिरदार ॥ ८ ॥

श्री 'जिनचंद सुरीश' नउ, वचन विचारी एम ।

आचारिज पद थापना, कीधी कहिस्युं नेम ॥ ९ ॥

ढाल १ (पुरन्दरनी चौपाइनी)

‘मरुधर’ देसि मझार ‘मेड़तो’ सहर भलोरी ।

‘आसकरण’ ‘ओसवाल’, ‘चोपड़ा’ वंश तिळोरी ॥ १ ॥

पद ठवणो करि पूज्य, अवसर एह लही री ।

खरचे द्रव्य अनेक, सुकृत ठाम सही री ॥ २ ॥

सूरि मंत्र लह्यो शुद्ध, सहगुरु तेणि समे री ।

श्री ‘जिनसागर सूरि’ इन्द्रिय पांच दमे री ॥ ३ ॥

भोटो साधु महन्त, करणी कठिन करे री ।

श्री ‘जिनसिंह’ के पाट, खरतर गच्छ खरेरी ॥ ४ ॥

पालि पंच आचार, तारण तरण तरी री ।

पंच सुमति प्रतिपाल, खप संयम की खरी री ॥ ५ ॥

पृथिवी करिय पवित्र, साथि साधु भला री ।

अप्रतिबद्ध विहार, दिन दिन अधिक कला री ॥ ६ ॥

‘चौरासी गच्छ’ मांहि, जाकी शोभ भली री ।

चतुर्विध संघ सनूर, संपद गच्छ मिली री ॥ ७ ॥

ढाल २ (मनड़ो मान्यो रे गौड़ी पासजी रे)

मनड़ुं रे मोहयु माहरूं पूजजी रे, श्री ‘जिनसागर सूरि’ ।

बड़ भागी भट्टारक ए भला जी, दिन दिन गच्छ पडूरि ॥ १ ॥

सखर गीतारथ साधु भला भलाजी, मानइ मानइ पूज्य नी आण ।

‘समयसुन्दर’ जी, पाठक परगड़ाजी, पाठक ‘पुण्य प्रधान’ रे ॥ २ ॥

‘जिनचन्द्र सूरि ना’ शिष्य माने सहज्जी, बड़ा बड़ा आवक तेम ।
 धनवंत धींगा पूज्य तणइ पखइजी, बड़भागी गुरु एम ॥ ३ ॥ म०
 संघ उदयवन्त ‘अहमदाबाद’ नौ जी, ‘बीकानेर’ विशेष ।
 ‘पाटण’ नइ ‘खंभाइत’ आवक दीपताजी, ‘मुलताणी’ राखी रेखा ॥४॥ म०
 ‘जेसलमेरी’ आवक पूज्य ना परगड़ाजी, संघनायक ‘संखवाल’ ।
 ‘मेड़ता’ मइ ‘गोलवच्छा’ गह गहैजी, ‘आगरा’ में ‘ओसवाल’ ॥५॥ म०
 ‘बीलाड़ा’ मइ संघवी ‘कटारिया’ जी, ‘जइतारणि’ ‘जालोर’ ।
 ‘पचियाख’ ‘पालहणपुर’ ‘भुज्ज’ ‘सूरत’ मइ जी, ‘दिल्ली’ नइ ‘लाहोर’ ॥६॥ म०
 ‘लूणकरणसर’ ‘उच्च’ ‘मरोट’ मइ जी, नगर ‘थटा’ मांहि तेम ।
 ‘डैरा’ में सामग्री सावती जो ‘फलवधी’ ‘पोकरण’ एम ॥७॥ म०
 ‘सागरसूरि’ ना आवक सहु सुखीजी, अधिकारी ‘ओसवाल’ ।
 देश प्रदेशे आवक दीपताजी, भर खंचण भूपाल ॥ ८ ॥ म०

ढाल ३ (कड़खानी)

‘करमसी’ शाह संवत्सरी पोखिनै, ‘महमद’ दिइ अति सुजश लेवे ।
 सुपुत्र ‘लालचन्द’ हर वरस संवत्सरी, पोखिने संघनुं श्रीफल देवे ॥१॥
 धन्य हो धन्य ‘सागरह सूरिन्द’ गुरु, जेहनो गच्छ दीपे सवायो ।
 बड़ बड़ा आवक परगड़ा नखखंडे, पूज्य नौ सुयश त्रिहुंलोक गायो ॥२॥
 शाह ‘लालचन्द’ नी, धन्य बड़ी मावड़ी, जे विद्यमान ‘धनादे’ कहीजइ ।
 ‘पूठीया’ उपरा खंडनो ‘पीटणी’, सखर समराविनइ लाभ लीजइ ॥३॥
 बहुअ ‘कपूर दे’ जेहनो जाणई, सुपुत्र ‘उग्रसेन’ नी जेह माता ।
 खरचवइ आगला गच्छ ना काम नइ, धर्म ना रागिया अधिक दाता ॥४॥

साह'शान्तिदास'सहोदर 'कपूरचन्द' सुं, वेलिया हेम ना जेह आपै ।
 'सहस दोय रूपिया पाच शत' आगला, खरचिने सुजश निज सुधिर
 थापै ॥५॥

मात 'मानवाई ईं' खंड इक पीटणी, करीय उपासरइ(में)सुजश लीधा ।
 वरस ना वरस आसाढ चोमास ना,पोसीता पोखिवा बोल कीधा॥६॥
 शाह 'मनजी' तणो कुटुंब अति दीपतो, चिहुंखंडे चंद नामो चढायो ।
 शाह 'उदेकरण' 'हाथी' खरो 'हाथियो', जेठमल 'सोमजी' तिम
 सवायो ॥७॥

धरम करणी करै'शाह हाथी'अधिक,राय'बन्दी'छोड़नो विरुद राखै ।
 जीव प्रतिपाल उपगार सहु नै करै,सुपुत्र'पनजी'भला सुजस दाखै॥८॥
 'मूलजी संघजी' पुत्र 'वीरजी, 'परीख' सोनपाल' 'सूरजी' बखाणो ।
 पाखीयां'बोस नइ च्यारि' जीमाड़िने,पुण्य नौ वाहरु जे कहणो ॥९॥
 'परीख' 'चन्द्रभाण' 'लालू'सदा दीपता, 'अमरसी'शाह सिरताज जाणो ।
 'संघवो' 'कचरमल परीख' अखइ अधिक, बाछड़ा 'देवकर्ण' तिम
 बखाणौ ॥ १० ॥

साह 'गुणराजना' सुपुत्र अति सलहीईं, 'रायचन्द गुलालचन्द' साह
 दाखो ।

एम श्रीसंघ उदयवंत'राजनगर'नो,भल भला आवक एम आखो ॥११
 तेम 'खंभाइती' संघ नायक बड़ो, 'भंडशाली' 'बधू' सुतन कहीईं ।

बड़ बड़ी धरम करणी घणी जे करी,लाख मोजां'ऋषभदास'लहिए॥१२॥

दोहा—श्री 'जिनसागरसूरि' नो, उदयवन्त परिवार ।

चेला गीतारथ सहु, पालइ पञ्च आचार ॥ १ ॥

यथा योग जाणी करी, पाठक वाचक कीध ।

श्री 'जिनधर्म'सूरीशने, गच्छ भार इम दीध ॥२॥

ढाल ३

इक दिन दासी दौडती,

आवै कृष्ण नइ पासे रे ॥ पहनी ॥

'अहमदावाद' मइ आपणइ, सेंहथि संघ हजूर रे ।

प्रथम ओढाडी पछेवडी, श्री'जिनसागरसूर' रे ॥ १ ॥

अवसर लाखीणो लही, खरचे द्रव्य अनेक रे ।

'भणसाली 'वधू' भारिजा, 'विमला दे' सुविवेक रे ॥२॥

वलनुं पद थापन करो, सूर मन्त्र गुरु दीध रे ।

श्री'जिनधर्म सूरीश्वर', नाम थाषना इम कीध रे ॥ ३ ॥

संबवणि 'सहजलदे' तिहां, ल्यइ लिखमी नो लाह रे ।

पद ठवणो करइ परगडो, कहइ लोक वाह-वाह रे ॥४॥

पहिला पणि सुकृत जिके, कीधा अनेक प्रकार रे ।

शत्रुंजय संघ कराविउ, खरची द्रव्य हजार रे ॥ ५ ॥

श्री 'जिनसागरसूरि' जी, सहगुरु साथे लीध रे ।

पाटंवरने पांभरी, जाचक जन ने दीध रे ॥ ६ ॥

'भणसाली सधुआ' घरणि, ते 'सहिजल दे' पइ रे ।

पद ठवणि जे 'पूज्य' नै, खरची नइ जस लेह रे ॥ ७ ॥

ढाल ४ (कपूर हुवे अति ऊजलो रे)

अवसर जाणी आपणउ रे, आगल थी अणगार ।

जिण थी शिव सुख पामिइ रे, ते सांभलि अंग इग्यार ॥ १ ॥

सुगुरु जो धन्य-धन्य तुम अवतार,

ए माणस भव नुंसार ॥ आंकणी ॥

आनुपूरवी एहवी रे, उयशम्यो पूरव रोग ।

श्री संघ 'अहमदावाद' नो रे, गीतारथ संयोग ॥२॥

'आखातीज' नइ घाहड़ि रे, शिष्यादिक नइ सार ।

सीखामणि सहगुरु दि(य)इं रे, गुरु गच्छ नुं व्यवहार ॥३॥

चारित फेरी ऊचरि रे, गच्छ भार सहू छोड़ि ।

उत्तम मारग आदरि रे, अशुभ कर्म दल तोड़ि ॥ ४ ॥

'सुदि आठम वैसाख' नो रे, अणसण नो उच्चार ।

श्रीसंघ नी साखि करइ रे, त्रिविधि-त्रिविध विविहार ॥५॥

पासे गीतारथ यति रे, श्री 'राजसोम' उवझाय ।

'राजसार'पाठक भला जी, 'सुमतिजी' गणि नी सहाय ॥६॥

'दयाकुशल' वाचक वलि रे, 'धर्ममन्दिर' मुनि एम ।

'समयनिधान' वाचक वह रे, 'ज्ञानधर्म' मुनि तेम ॥ ७ ॥

"सुमतिवल्लभ" सावधान सुं रे, आठ पुहर सीम तेम ।

शाह 'हाथी' धर्म हाथियो रे, निजरावि गुरु एम ॥ ८ ॥

ढाल (५) विणजारानी

मोरा सहगुरुजो, तुम्हें करज्यो शरणा च्यार । सहगुरुजी करज्यो०

अरिहन्त सिद्ध सुसाधुनो मो० केवलि भाषित धर्म,

ए फल नरभव लाध नो ॥ १ ॥ मो०

जीव 'चुरासी' लख, त्रिकरण शुद्ध खमाविज्यो । मो० ।

पाप अठारह थान, परिहरि अरिहन्त ध्यावज्यो ॥ २ ॥ मो०

परिहरि सगला दोष, बितालीस आहार ना । मो०

जिन धर्म एक आधार, टालि दुःख संसार ना ॥ ३ ॥ मो०

ए संसार असार, स्वारथ नो सहुको सगो । मो० ।

अथिर कुटुम्ब परिवार, धर्म जागरिया तुम जगो ॥ ४ ॥ मो०

अथिर छइ पुत्र कलत्र, अथिर माल घर परिग्रहो । मो० ।

अथिर विभव अधिकार, अथिर काया तिमि ए कहो ॥५॥ मो०

तुम्हें भावज्यो भावन वार, मन समाधि मांहि राखज्यो । मो० ।

अथिर मात नइ तात, अथिर शिष्यादिक नइ भाखज्यो ॥ ६ ॥ मो०

जीवत हाथ मई जाइ, राखी को न सकइ सही । मो० ।

जेहवो संध्या वान, तेहवी संपद ए कही ॥ ७ ॥ मो०

एकलो आवइ जीव, जाइ एकलो प्राणियो । मो० ।

पुण्य पाप दोइ साथ, भगवत एम वखाणियो ॥ ८ ॥ मो०

बाल मरण करी जीव, ठामि ठामि हुओ दुखी । मो० ।

पंडित मरण ए जाणि, जिण थी जीव हुवइ सुखी ॥९॥मो०

इम भावना एकांत भाव, अरिहन्त धर्म आराधता । मो० ।

पुंहता सरग मझारि, आतम कारिज साधता ॥१०॥मो०॥

दोहा :—‘सतर(इ) सइ उगणीस’ मई, मास ‘जेठ बदि तीज’ ।

‘शुक्रे’ ‘सागरसूरि’ जी, सरग ना पाम्या चीज ॥ १ ॥

हाल ६—माया कामिनी वीचइ रे लाल, एहनी ।

अवसर लाखीणो लहीरे, साह हाथी सर्व जाण । मेरे पूजजी० ।

महिमा मोटी इम करइ रे लाल, पूज्य तणइ निर्वाण ॥ १ ॥

यासइ रहि निजरावियारे, दिन ‘इग्यारह’ सीम । मे० ।

सुंस सबद व्रत आखडी रे लाल, नाना विधि ना नीम ॥२॥मे०

चोवा चंदन अरगजा रे, सहगुरु तणइ सरीर । मे० ।

करि अरचा पहिराविया रे लाल, पांभरी पाटू चीर ॥मे०॥३॥

देव विमान जिसो करी रे, मांडवी अति श्रीकार । मे० ।

बाजे गाजे बाजते रे लाल, करि नीहरण विचार ॥मे०॥४॥

वयरचि सूरुडि अगर सुं रे लाल, कस्तूरी घनसार । मे० ।

दहन दीई घृत सींचता रे लाल, श्री पूज्य नुं तिणवार ॥मे०॥५॥

जीव छुड़ावी (वे?)जुगति सुं रे, श्री संघ भेलो होइ । मे० ।

‘गायां’ ‘पाडा’ ‘बाकरी’ रे लाल, रूपइया शत ‘दोइ’ ॥मे०॥६॥

‘शान्तिनाथ’ नइ देहरइ रे लाल, बांदी देव विशेष । मे० ।

वचन सांभलि वीतराग ना रे लाल, मूंकी सोग अशेष ॥मे०॥७॥

(हाल ८) धन्याओ—कुंवर भलइ आविया एहनी ।

ओ ‘जिनसागर सूरि’ जी ए, पाटि प्रभाकर तेम ।

सुगुरु भले गाइयइ, श्री‘जिनधर्म सुरीसरुए, जयवंता जग एम ॥१॥

देस प्रदेशे विहरता ए, भविक जीव प्रतिबोह । स० ।

उदयवंत गच्छ जेहनो ए, महियल मोटी सोह ॥ स० ॥ २ ॥

गुण गातां सगुरु तगा ए, पूज्यइ मन नी खांति । स० ।

मन वंछित सहु ना फलि ए, भांजि मन नी आंति ॥ स० ॥ ३ ॥

संवत ‘सतर वीसोत्तरइ’ ए, ‘सुमतिवल्लभ’ ए रास । स० ।

‘आवणसुदि पुनम’ दिनि ए, कीधो मनह बलास ॥ स० ॥ ४ ॥

श्री ‘जिनधम्म सुरीश’ नो ए, माथि छै मुझ हाथ । स० ।

‘सुमतिवल्लभ’ मुनि इम कहइ ए, ‘सुमतिसमुद्र’ शिष्य साथ ।स०॥५॥

॥ इति श्रीनिर्वाणरास संपूर्णम ॥

(हमारे संग्रह में, तत्कालीन लि०)

श्री जिनसागरसूरि अष्टकम्

(१)

श्री मञ्जेशलमेरुदुर्ग नगरे, श्री विक्रमे गुर्जरे ।

थट्टायां भटनेर मेदिनितटे, श्री मेदपाटे स्फुटम् ॥

श्री जावालपुरे च योधनगरे, श्री नागपुर्यां पुनः ।

श्रीमल्लाभपुरे च वीरमपुरे, श्री सत्यपुर्यामपि ॥१॥

मूलत्राणपुरे मरोट्ट नगरे, देराउरे, पुगले ।

श्री उच्चे किरहोर सिद्धनगरे, धींगोटके संबले ॥

श्री लाहोरपुरे महाजन रिणी, श्री आगराख्ये पुरे ।

सांगानेरपुरे सुपर्व सरसि, श्री मालपुर्यां पुनः ॥२॥

श्री मत्पत्तन नाम्नि राजनगरे, श्री स्थंभतीर्थे स्तथा ।

द्वीपे श्री भृगुकच्छ वृद्धनगरे, सौराष्टके सर्वतः ।

श्री वाराणपुरे च राधनपुरे, श्री गूर्जरे मालवे ।

.....॥३॥

सर्वत्र प्रसरी सरीति सततं, सौभाग्यमावालयतः ।

वैराग्यं विशदा मतिः सुभगता, भाग्याधिकत्वं भृशम् ।

नैपुण्यं च कृतज्ञता सुजनता, येषां यशोवादता ।

सूरि श्री जिनसागरा विजयिनो, भूयासुरंते चिरम् ॥४॥

आचार्याः शतशश्च संति शतशो, गच्छेषु नाम्नांपरम् ।

त्वं त्वाचार्य पदार्थयुग् युगवरः, प्रौढः प्रतापाकरः ॥

भव्यानां भव सागर प्रतरणे, पोतायमानो भुवि ।

श्री मच्छ्री जिनसागरः सुखकरः, सर्वत्र शोभा करः ॥५॥
सौम्यश्री हिम दीधि तौ सुर गुरौ, बुद्धि र्द्वरायां क्षमा ।

तेजःश्री स्तरणौ परोपकृति धीः, श्री विक्रमे भूपतो ॥
सिद्धि गौरखनाथ योगिनि बहु, लर्भाभश्च लम्बोदरे ।

संत्येवं विविधाश्रया गुण गणाः, सर्वेश्रिता त्वां प्रभो ॥६॥
श्री बोहित्थ कुलांबुधि प्रविलसत्प्रालेय रोचि प्रभा ।

भास्वन्मातृ मृगांसु कुक्षि सरसि, श्री राजहंसोपमाः ॥
श्री मद्विक्रम वासि विश्व विदिताः, श्री वस्तराजां गजाः ।

संतु श्री जिनसागरा, खरतरे, गच्छे चिरंजीविनः ॥७॥
इत्थं काव्य कदम्बकं प्रवरकं, मुक्तापुरः प्राभृतम् ।

विज्ञप्तं समयादिमुन्दर गणिर्भक्त्या विधत्तेभृशम् ॥
युष्मत्प्रौढतम प्रताप तपनो, देदीप्यतां सत्वरः ।

यूयं पूरयत स्व भक्त यतिनां, शीघ्रं मनोवाञ्छितम् ॥ ८ ॥

(विकानेर स्टेट लायब्रेरी)

॥ जिनसागरसूरि अवदात गीत ॥

(२)

पूरउ पण्डित पूछीयउ रे, भामिणि आप सभावरे । जोसीड़ा ।

आखो टीपणो देखिने, मांडि लगन उपाय रे ॥ १ ॥ जो०

‘श्रीजिनसागरसूरिजी’ रे, आज काल किण गाम रे । जो० ।

मो मन वांदण उमह्यो रे, सुणि अवदात नइ नाम रे । जो० ।

‘श्रीजिनसागरसूरिजी रे लो० । आ० ।

‘श्रीजिनकुशल’ यतीश्वरइ रे लो, सुपन दिखाड्यो साच रे । जो०

जन्म थकी यश विस्तयीं रे, निकलंक काळ नइ वाच रे । २। जो०

राउल ‘भीम’ नरेसरइ रे लो, निरखी गुरु मुख नूर । जो० ।

केसर चन्दन चरची नइ रे, पामिसि पदवी पडूर रे । ३। जो०

उदय दिखाडयो ‘अम्बिका’ रे लो, श्री जिनशासन देव रे । जो०

युगप्रधान ‘जिनचन्दजी’ रे लो, करइ कृपा नित मेव रे । ४। जो०

मन मान्या वंछित फल्या रे, पूज्य पधार्या आप रे । जो० ।

‘हर्षनन्दन’ कहइ सर्वदा रे लो, वाधउ अधिक प्रताप रे । ५। जो०

(३)

गाम नगर पुर विहरता पूजजी, ‘श्रीजिनसागरसूरि’ ।

कठिन क्रिया खप आदरो, पूजजी, पूहवि सुजस पडूरि ॥ १ ॥

पूजजी पधारउ सूरजी ‘मेडतइ’ रे, आवक अति अविवेक ।

आवक चितारइ दिन प्रति चाह सुं, थापइ लाभ अनेक ।

श्रीसंघ श्रीसंघ वांदी हो, हरखित थाइस्यइ । आ०

खरतर गच्छ शोभा दीयउ, पूजजी बोहिथरे वरदान ।

साहिव 'मुकुरबखानजी,' पूजजी पग लागे छइ मान ॥ २ ॥पू०॥

रूप कला पण्डित कला, पू० वचन कला गुण देख ।

राय राणी मानइ घणुं, पूजजी थांइ माहे विशेष ॥ ३ ॥पू०॥

कामण मोहन नवि करो पू० लोक सहु वसि थाय ।

ए परमात्म प्रीछवउ, पू० पूर्व पुन्य पसाय ॥ ४ ॥पू०॥

चित्त चाहतां आविया, पू० श्रीसंघ मानी वचन ।

रंग महोच्छव दिन प्रतइ, 'हरषनन्दन' कहइ धन ॥ ५ ॥पू०॥

(४)

॥ जाति फूलडानी ॥

श्री संघ आज वधावणी, हिव आज अधिक उछरंगो रे ।

आचारज पद पामियउ, 'जिनसागरसूरि' सुचंगो रे ॥ १ ॥श्री०॥

खरतरगच्छ उन्नति थइ, हिव कीधा अनुपम कामो रे ।

दुरजण मुहडा सामला, हिव साजण बाधो मामो रे ॥२॥श्री०॥

धन पिता 'बच्छराज' जो 'मृगा' पिण माता धनो रे ।

वंश धन 'बोहिथरा', जिहां उत्तम पुत्र रतनो रे ॥ ३ ॥ श्री०

वाजा बाज्या रूयडा, वलि तान मान सन्मानो ।

सूहव गावइ सोहलउ, तिहां याचक पामइ दानो रे ॥ ४ ॥ श्री०

नयण सलूणा पूजजी, हिव हुं बलिहारी नामइ रे ।

मोहनगारा मानवी, हिव 'हरषनन्दन' सुख पामइ रे ॥ ५ ॥ श्री०

(५)

चतुर माणस चित्त उलसइ रे, देखी पूज सरूप रे । हो पूजजी॥

नान्हीवय गुण मोटका रे, उपजइ भाव अनूप रे ॥१॥

ए परमार्थ प्रीछज्यो रे ।

मान सरोवर लहुडोरे, राजहंस सेवइ तीर रे ।

लवणागर मोटउ धणुं रे, पंथी न चाखइ नीर रे ॥२॥

चंदा केरे चांदणे, सहुको बइसइ पास रे ।

सूर (सूर्य!) तपइ जो आकरो, जावइ सहुको नासि रे ॥३॥

उंचो लांबो अति घणउ, सरलउ पिंड खजर रे ।

नान्ही केलि कहावतो, छाया फल भरपूर रे ॥४॥

मोटा मइगल मद झरइ, विलसइ ता गर (लग?) राज ।


सींहणि केरो छावडोरे, गाजइ नही वन मांझ ॥५॥

नान्हा मोटा क्युं नहों, गुण अवगुण बंधाण ।

‘जिनसागर सूरि’ चिर जयउ रे, हर्षनन्दन’ गुण जाण ॥६॥



श्री करमसी संथारा गीतम् ।



सद्गुरु चरण नमी करी, गाइसु श्रीऋषिराइ ।

‘करमसीह’ करणी करी, सांभलीयइ चित्तु लाइ ॥

चित्तु लाइ संभलीयइ चरित, निज भावस्युं चारित लियउ ।

धन वंश ‘कूकड़ चोपड़ा’ नउ, सुयश प्रगट जिणइ कियउ ॥

तप करी काया प्रथम शोधी, विगय षट् रस परिहरी ।

‘करमसी’ सुपरि कियउ संथारउ, सुगुरु चरण नमी करी ॥१॥

रीतइ गुरु कुल वास नी, मनि आणी संवेग ।

जाणी काया कारमी, करि निश्चल मन एक ॥

मन एक निश्चल करी आपइ, अन्न समुंखइ परिहर्यउ ।

आहार त्रिविध त्रिविध संयोगइ गुरु मुखइ अणसण वर्यउ ॥

आराधना करि संघ खामण, धरी विविध उल्हास नी ।

‘करमसी’ तिणि विधि कियउ संथारउ, रीति गुरुकुल-वास नी ॥२॥

चड्यउ संथारइ तिणि परइ, जिणि विधि पूरव साधु ।

करम भांजिवा सिंह हुवउ, भलइ ‘करमसी’ साधु ॥

‘करमसी’ साधु भलइ दीपायउ, गच्छ खरतर संघनइ ।

परभावना अम्मारि वरतो, उच्छव होई दिन दिनइ ॥

सिद्धान्त गीतारथ सुणावइ, साधु वेयावच्च करइ ।

घन कर्म करमट तिय खपावइ, चड्यउ संथारइ तिणि परइ ॥३॥

जन्म 'जेसाणइ' जेहनउ, 'चांपा शाह' मल्हार ।

'चांपलदेवि' उरि धर्यउ, 'ओसवंश' नउ सिणगार ॥

'ओसवंश' नउ सिणगार ए मुनि, दुकर करणो जिणि करी ।

अन्नेक जामन मरण हुंती, छटउ अणसण उच्चरी ॥

'करमसी' मुनि मन कीरयउ करडउ नेह नाणयउ देहनउ ।

मन मदन करडइ क्षेत्र जीत्यउ, जन्म 'जेसाणइ' जेह नउ ॥ ४ ॥

जेहन्ती प्रशंसा सुर करइ, मानव केहो मात्र ।

सोम मुनीश्वर इम कहइ, धन धन एह सुपात्र ॥

धन एह पात्र सुसाधु सुन्दर, परतखि मुनि पंचम अरइ ।

धन जन्म जीविय जाणि एहनउ, परगच्छी महिमा करइ ॥

मास की संलेखण करि नइ, अधिक दिन बीस ऊपरइ ।

ए अमर जग मई हुअउ इणि परि, प्रशंसा सुर नर करइ ॥५॥

'वइसाखइ' संतोषस्युं, 'सातमि बदि' उच्चार ।

कियउ संथारउ करमसी, कलि मई धन अणगार ॥

अणगार धन्ना शालिभद्र जिम, तप अनेक जिणइ किया ।

'सइ अढी बेला निवी आंबिल' करी जिण अणसण लिया ॥

चारित्र पंचे वरस पाली, सु ल्यउलाई मौक्ष स्युं ।

आणंद खरतर गच्छ वाध्यउ, वइसाखइ संतोष स्युं ॥ ६ ॥

॥ इति गीतम् ॥

—*—

तुम्ह देश देशन्तरि कांइ भमउ, गुरु सेव थकी दालिद्र गमउ ।
 ईति अनोति कुनीति दमउ, घर बइठा लिखमो पामि रमउ ॥१०॥
 साह 'पीथइ' 'हाथी' 'रायसिंघइ', 'मांडण' आदइ करि 'भुज' संघइ ।
 उद्यम करि थुंभ तणउ रंगइ, थाप्या पूरब दिशि मन संगइ ॥११॥
 निज सेवक नइ दरसण आपइ, पगि पगि सानिध करि दुःख कापइ ।
 गणि 'ललित कीर्ति' चढतइ दावइ, वंदइ गुरु चरण अधिक दावइ ॥१२॥

॥ इति गुरु गीतम् ॥

सुगुरु वंशावली

भट्टारक 'जिनभद्र' खरउ, गच्छ नायक खरतर ।

तसु पट्टहि 'जिनचन्द' सूरि, तप तेज दिवाकर ॥

सहगुरु श्री'जिनसमुद्र', तासु पट्टहि श्रुत सागर ।

तसु पट्टहि बुधिमंत सूरि 'जिनहंस' सूरीश्वर ॥

अभिनवउ इन्द्र रूपइ अधिक, संजम रमणी सिर तिलउ ।

गच्छपति तास पट्टहि गुहिर, 'जिनमाणिक' महिमा निलउ ॥१॥

'पारिख' वंश प्रसिद्ध, जुगति जिनधर्म सुं जोरी ।

कहु तसु पट्टि 'कल्याणधीर', वाचक धर्म घोरी ॥

'भणशाली' कुल भाण शीस, तसु पट्टहि सुरतरु ।

वाचक श्री'कल्याणलाभ' वाणी अनुपम वरु ॥

पाठक 'कुशलधीर' तासु सिसु, वदइ एम वंशावली ।

गुरु भगत शिष्य गुरु गुण यही सफल करउ रसनावली ॥२॥

(P. C. गुटका नं० ६०)

॥ श्रीविमलकीर्ति गुरु गीतम् ॥

(१)

प्रह उठी नित प्रणमियइ हो, 'विमलकीर्ति' गणि चंद ।

तेज प्रतापे दीपता हो, प्रणमै सहु नर वृन्द ॥ १ ॥

भविक जन वंदियइ हो, नामे पाप पुलाय ॥ भ० ॥ आंकणी ॥

खरतरगच्छ में शोभता हो, सर्व कला गुण जाण ।

जेहनइ मुखि भारती वसइ हो, जाणइ ज्ञान विज्ञान ॥ २ ॥ भ० ॥

'हुबड़' गोत्रे परगड़उ हो, 'श्रीचंद' शाह मल्हार ।

मात 'गवरा' जनमिया हो, शुभ मूरति(महूरत) सुखकार ॥३॥भ०॥

संवत् 'सोलह चउप्पणइ' हो, लीधी दीक्षा सार ।

'माह सुदि सातम' दिनइ हो, पालइ निरतिचार ॥ ४ ॥ भ० ॥

'साधुसुन्दर' पाठक भला हो, सकल कला प्रवीण ।

सइंहथ दीक्षा जेण दीधी हो, ध्यान दया जुण लीण ॥५॥भ०॥

चउरासी गच्छ सेहरो हो, श्री 'जिनराज सुरिन्द' ।

वाचक पद सइंहथ दियो हो, सेव करइ जन वृन्द ॥६॥भ०॥

'सोलहसइ बाणू' समइ हो, श्री 'किरहोर' सुठाम ।

आराधन अणसण करी हो, पहुंचता स्वर्ग सुधाम ॥ ७ ॥ भ० ॥

'विमलकीर्ति' गुरु नाम थी हो, जायइ पातक दूर ।

'विमलरत्न' गुरु सेवतां हो, प्रतपे पुण्य पडूर ॥ ८ ॥ भ० ॥

(२)

राग—धन्याश्री ॥

वाचक 'विमलकीर्ति' गुरुराया, प्रणमो भवियण पाया वे ।

दरशन देखि नवनिधि थाइ, सुख संपति लील सदाइ वे ॥१॥वा०
संवत 'सोल चउपन्ना' वरसे, चतुर चारित्र गहइ हरषइ वे ।

'साधुसुन्दर' तसु गुरु सुवदीता, वादी गज मद जीता वे ॥२॥व
तासु शिष्य गुरु कमल दिणन्दा, भविक चकोर चित्त चंदा वे ।

अनुक्रम 'वाचक' पदवी पाइ, गुरु सौभाग्य सवाइ वे ॥३॥वा०॥
मूल चक्र 'मुलताण' कहावइ, तिहां चउमासइ आवइ वे ।

दान पुण्य (तिहाँ) अधिका थावइ, श्री संघ वधतइ दावइ वे ॥४॥वा०॥
सिन्धु नगर 'कहिरोरइ' आया, लख चौरासी खमाया वे ।

अणसण पाली स्वर्ग सिधाया, गीत ज्ञान बहु गाया वे ॥५॥वा०॥
शिष्य शाखा प्रतपउ रवि चंदा, जां लगि मेरु ध्रू चंदा वे ।

'आणंदविजय' इम गुण गावइ, चढ़ती दउलति पावइ वे ॥६॥वा



साध्वी हेमसिद्धि कृत
 ॥ लावण्यसिद्धि पद्मतणी गीतम् ॥

—**—

राग :—सोरठ

दूहा:—आदि जिणेसर पय नमी, समरी सरसति मात ।

गुण गाइसुं गुरुणी तणा, त्रिभुवन मांहि विख्यात ॥ १ ॥

वेलि ढाल:—जे त्रिभुवन माहि विख्यात, 'लावनसिद्धि' गुण अवदात

'वीकराज' साहकी धीया, वइरागइ चारित्र लीया ॥२॥

'गूजर दे' माता रतन्न, सहू लोक कहइ धन धन्न ।

शीलादिक गुण करि सीता, सहू दुनीया मांहि वदीता ॥३॥

जिण माया मोह निवार्या, भवियण भव-जलनिधि तार्या ।

सूधा पंच महाव्रत पालइ, त्रिण्ह गुप्ति सदा रखवालइ ॥ ४ ॥

दूहा:—अदार सहस शीलंगधर, टालइ सगळा दोस ।

सुन्दर संजम पालती, न करइ माया मोस ॥ ५ ॥

न करइ तिहां माया मोस, वलि निज घट नाणइ रोस ।

धन धन ते श्रावक श्रावी, गुरुणी नइ प्रणमे आवी ॥ ६ ॥

मीठी तिहां अमीय समाणी, सुन्दर गुरुणी नी वाणी ।

सुणि सुणि वूझइ भवि लोक, दिनकर दंसणि जिम कोक ॥ ७ ॥

पद्मतणी 'रत्नसिद्धि' पाटइ, दिन प्रति जस कीरति खाटइ ।

नवनिध हुइ गुरुणी नई नामइ, मनवंछित भवीयण पामइ ॥८॥

दूहाः—अंग उपांग सहु तणा, जाणइ अरथ विचार ।

श्री 'लावण्यसिद्धि' पट्टतणी, विद्या गुण भंडार ॥६॥

सब विद्या गुण भंडार, महिमंडलि करइ विहार ।

तप करि काया उजवाल्ह, 'चंदनबाला' इणि काले ॥१०॥

'जिनचंद' सुगुरु आदेस, परमाण करइ सुविशेष ।

अनुक्रमि 'विक्रमपुरि' आवी, निज अंत समय परभावी ॥११॥

सवि जीवह रासि खमावी, उत्तम भावना मन भावी ।

अणशण आदरियउ रंगइ, सुर व(प्र?)णमइ धरमहु संगइ ॥१२॥

दूहाः—समकित सूधउ पालती, करतो सरणा च्यारि ।

इण परि संथारो क्रीयउ, माया मोह निवारि ॥ १३ ॥

माया मोह निवारी, करइ संव प्रभावन सारी ।

वाजइ पंच शब्द तिहां भेरी, नीसाण घुरंति नफेरी ॥१४॥

अपछर आरतीय उतारि, जिन शासन महिम वधारी ।

जिनवर नो ध्यान धरंती, नवकार विधइ समरंती ॥ १५ ॥

दूहाः—संवत 'सोलहसइ बासट्टि', पट्टती सरग मंझारि ।

जय जय रव सुर गण करइ, धन गुरुणी अवतार ॥ १६ ॥

धन धन गुरुणी अवतार, भवियण जन नइ सुखकार ।

थिर थान 'विक्रमपुरि' थुंभ, देखि मनि धरइ अचंभ ॥१७॥

परता पूरण मन केरी, कल्पतरु थी अधिकेरी ।

'हेमसिद्धि' भगति गुण गावइ, ते सुख संपति नितु पावइ ॥१८॥

(तत्कालोन लि० हमारे संग्रह में)

पहुतणी हेमसिद्धि कृत
सोमसिद्धि(साध्वी)निर्वाण गीतम् ।

राग :—मल्हार

सरस वचन मुझ आपिज्यो, सारद करि सुपसायो रे ।

सहगुरणी गुण गाइसुं, मन धरि अधिक उमाहो रे ॥१॥

सोभागिण गुरुणी वंदीयइ, भाव धरी विशेषो रे ।सो० आंकडी ।

गीतारथ गुरुणो जाणीयइ, गुणवंती सुविचारो रे ।

करुणा रस पूरी सदा, सब जन कुं सुखकारो रे ॥२॥सो० ।

शीलइ सीता रूयडी, सोमइ चंद्र समानो रे ।

उग्र विहारइ तप करइ, महिमा सहित प्रधानो रे ॥३॥सो०॥

‘नाहर’ कुल मांहि चंदलउ, ‘नरपाल’ जु गुण ठामो रे ।

तेहनी नारी जाणियइ, शील करी अभिरामो रे ॥४॥सो०॥

‘सिंघा दे’ गुण आगली, तास पुत्री गुणवंतो रे ।

रूप करी अति शोभती, ‘संगारी’ नाम कहंतोरे ॥५॥सो०॥

योवन वय जब आवीयउ, पिता मन माहि चितइ रे ।

‘बोधरा’ वंशे दीपतउ, ‘जेठ शाह’ सुहावइ रे ॥६॥ सो० ॥

तास पुत्र ‘राजसी’ कहीजइ, परणावइ मन रंगो रे ।

वर्ष अठार हुआ जेभ(त?)लइ, उपदेश सुणी मन चंगो रे ॥७॥सो०॥

वइराग उपनउ तेहनइ, अनुमति मांगी तेमो रे ।

सासु श्वसरा इम कहइ, हुज्यो तूझ नइ खेमो रे ॥ ८ ॥सो०॥

चारित्र पालतां दोहिलउ, सुकुमाल जु तुझ देहो रे ।

मत कहिज्यो कांइ तुम्ह बली, मुझ चारित्र ऊपर नेहो रे ॥१६॥सो०
उच्छत्र महोत्सव कीधा घणा, दीक्षा लीधी सारो रे ।

‘लावण्यसिद्धि’ कन्हइ रहइ, सूत्र अर्थ ना ल्यइ विचारो रे ॥१७॥सो०
‘सोमसिद्धि’ नाम जु थापीयउ, गुणे करी निधानो रे ।

आपणइ पद थापो सही, चारित्र पालइ प्रधानो रे ॥११॥सो०॥
‘सैत्रुज’ प्रमुख यात्रा करी, तिम बलि नीर्थ उदारो रे ।

कीधी भावइ सदा सही, तप उपमा सारो रे ॥ १२ ॥सो०॥
‘श्रावण वदि चउदसि’ दीनइ, ‘वृहस्पतिवार’ प्रधानो रे ।

अणसण लीधउ भावसुं, सब कला गुण निधानो रे ॥१३॥सो०॥
देव थानक पहुंता सही, श्री गुरुणी गुणवंतो रे ।

गुरुणी आस्या पूरी करउ, मुझ मन बगी खंतो रे ॥१४॥सो०॥
विगला पालइ नेहडउ, तुंम सुं (तो?) प्राण आधारो रे ।

तुम्ह बिना हुं क्युंकर रहुं, दुखीया तुं साधारो रे ॥१५॥सो०॥
मोरा नइ बलि दादुरां, बावीहा नइ मेहो रे

चक्रवा चिंतवत रहइ, चंदा उपरि नेहो रे ॥ १६ ॥ सो० ॥
दुखीयां दुख भांजीयइ, तुम्ह बिना अवर न कोइ रे ।

सहगुरुणी गुण गावोयइ, वांदउ दिन दिन सोइ रे ॥ १७ ॥सो०॥
चंद्र सूरज उपमा, दीजइ (अधिक) आणंदो रे ।

पहुंनोणी ‘हेमसिद्धि’ इम भणइ, देज्यो परमाणंदो रे ॥१८॥सो०॥
॥ इति निर्वाण गीतम् ॥

(तत्कालीन लि० हमारे संग्रहमें)

साध्वी विद्या सिद्धि कृत
॥ गुरुणी गीतस् ॥

—*X*—

.....करि आगली, सुमति गुपति भंडार ॥ प्र० ॥२॥
गोत्रज 'साउसखा' जाणियइ, 'करमचंद' साह मल्हार ।

भाव अधिक परिणामइ आदर्यौ लीधउ संजम भार ॥ प्र० ॥३॥
जणती (जाणीती ?) गळ मांहे पढुतणी, क्रिया पात्र सुविचार ।

अहनिस जपतां नाम सुहामणउ, सुख संपति सुखकार । ४। प्र० ॥
श्री 'जिनसिंह सूरीसर' आपीयउ, 'पढुतणी' पद सुविशाल ।

तप जप संजम रुडी परि राखती, जिम माता नइ बाल । ५। प्र० ॥
साध्वी माहि सिरोमणि साध्वी, भणिय गुणिय सुजाण ।

राति दिवस जे समरण करइ, प्रणमइ चतुर सुजाण । ६। प्र० ॥
'सोलहसइ निआणू' वरस मइं, 'भाद्रव बीज' अपार ।

इम वोळइ 'विद्यासिद्धि' साध्वी, संपति हुवउ सुखकार ॥ प्र० ॥ ७ ॥

(सं० १६६६ भा० व० ३ लि०)



(१) श्रीगुर्वावली ढाग



ढणढवि केवल लच्छि वरं, चउवीसढउ जिणंदो ।

गाइसु 'खरतर' जुग ढवर, आणिसु ढनि आणंदो ॥१॥

अहे ढहिलउ जुगवर जगि जयउ ँ, श्री 'सोहढसाढि' ।

वीर जिणंदह तणइ ढाटि, सो शिवढुर गामी ॥

ढोह ढहाढड तणउ ढाण, हेलि निरदलीयउ ।

'जंबूसुवामी' सुसुवामी साल, केवलसिरी कलीयउ ॥२॥

सुयकेवलि सिरी 'ढ्रढवसुरि', 'सिज्जंढव' गणहर ।

दस ढूर्वधर 'वयरसुवामी', तयणुकुढि सुणिवर ॥

तसु वंशि द्विणयर जिसउए, तव तेय ढुरन्तु ।

सिरी 'उज्जोयणसुरि' ढूरि, गुण गणहिं वदीतउ ॥३॥

'आबूयगिरी' सिहरि जेण, तढ कीयउ छुढ्ढासी ।

ढयडीकय सिरी सुरि ढंढ्र, तसु ढहिढ ढयासी ॥

'ढउढावइ' 'धरणिन्द' जासु, ढय क(य) ढल नढंसिय ।

नंदउ सो सिरी 'वदुढाण', सुणि लोय ढसंसिय ॥४॥

ढास

'अणहिल्लढुरि' ढढढत्ति (जीढी) जेण, थाढी सुणिवर वासो ।

रायंगण 'दुल्लह' तणइं, ढामी विरुद ढयासो ॥५॥

अहे 'खरतर विरुद' ढयासु जा(सु), दीधउ चउसालो ।

निढ्ढर्ढल संयढ गुणहि जासु, रंजिय ढूढालो ॥

वारिय चेइयवास वास, थापिय मुणिवर केरु ।

सूरि 'जिणेसर' गुरुराय, दीपइ अधिकेरु ॥६॥

'श्रीजिणचंद' मुणिन्द चंद, जिम सोहइ सप्पह ।

विवरिय जेण नवंग चंग, पयडी थंमण पहु ॥

निय वयणिहि गुण कहइ जासु, सीमंधर जिणवर ।

सलहिज्जइ सिरि 'अभयदेव', सो सूरि पुरन्दर ॥७॥

'वागडिया' 'दस स(ह)स' सार, सावइ पडिबोहिय ।

'चित्रोड़ी' 'चामंड' चंड, जसु दरसणि मोहिय ॥

'पिण्डविसोही' विचार सार, पयरण निम्माविय ।

'जिणवल्लह' सो जाणीयइ ए, जण नयण सुहाविय ॥८॥

भास

'अंबा' एवि पयास करि, जाणी जुगहपहाणो ।

'नागदेवि (व?)' जो मुणिपवर वाणी अमिय समागो ॥९॥

अहे अमी समाण वखाण जासु, सुणिवा सु(र) आवइ ।

चउसठि जोगणि जासु नामि, नहु तणु (किणि?) संतावइ ॥

जुगवर श्री 'जिणदत्तसूरि', महियलि जाणीजई ।

निम्मल मणि दीपति भाल, 'जिणचंद' नमिज्जइ ॥१०॥

राजसभा छतीस वाद, कियउ जइ जइ कारो ।

'बवेरक' पद ठवण जासु, सुप्रसिद्ध अपारो ॥

सहगुरु श्री 'जिनपत्तिसूरि', गाजइ अलवेसर ।

सूरि 'जिणेसर' 'जिणपबोह', 'जिणचंद' जईसर ॥११॥

चंपक जिम वणराय मांहि, परिमल भरि महकइ ।

कस्तूरी घनसार कमल, केवडुउ वहकइ ॥

तिम सोहइ 'जिनकुशल सूरि', महिमा गुण मणहर ।

तयणंतरि 'जिनपद्मसूरि', जिणशासणि गणहर ॥१२॥

भास

लवधिवन्त 'जिनलवधि' गुरु, पाटिहिं सिरि 'जिणचंदो' ।

उदय करण जिण उदयवंत, श्री'जिणराज'मुणिन्दो ॥१३॥

अहे श्री 'जिनराज' मुणिन्द पाटि, गयणंगणि चंदो ।

खरतरगण सिंगार हार, जण नयणाणंदो ॥

सायर जिम गंभीर धीर, आगम संपन्नउ ।

सहिगुरु श्री 'जिनभद्रसूरि', कलि गोयम मन्नउ ॥१४॥

तसु पाटि'जिणचंद सूरि', जिनसमुद्र सूरिन्दो ।

तसु पाटिहिं 'जिनहंस सूरि', किरि पूनम चन्दो ॥

श्री'जिनमाणिक सूरि' तसु, पाटिहि गुण भरियउ ।

चिरं जीवउ जगि विजयवन्त, संघहि परिवरियउ ॥१५॥

जद्रूमंडलि अचल मेरु, दिणयर दीपंतउ ।

गिरुउ खरतर संघ एह, तां जगि जयवंतउ ॥

वाणारसि सिरि 'खेमहंस', गणिवर सुपसाइ !

खेलाखेली फाग वंधि, सहगुरु गुण भावइ ॥१६॥

॥ इति गुर्वावली फाग संपूर्णा ॥

चारित्रसिंह कृत
(२) गुर्वावली

सिव सुखकर रे, पास जिणेसर पय नमउ,
 गोयम गुरु रे, चरण कमल मधुकर रमउ ।
 कवि जननी रे, दिउ मुझ शुभ मति निरमली,
 रंगि गाइसुरे, सुबिहित गच्छ गुरावली ॥
 सुबिहित गच्छ गुरावली किर, जेम भवियण गाइयइ ।
 बहु सिद्धि रिद्धि निधान उत्तम,हेलि सिवपुर पाइयइ ।
 जे नाण दर्शन चरण उज्जल, 'चउदसयवावन' वली ।
 गणधार सवि तै भावि वंदो, एह निर्मल मनि रली ॥१॥
 सिव रमणी रे, वर सिरि वीर जिणेसरु,
 गुण गण निधि रे, 'गोयम'स्वामी गणहरु ।
 उपगारी रे सुखकारी भवियण तणइ,
 इक जोहा रे, तेहनां गुण कहु किम थुणइ ॥
 किम थुणइ तेहना गुण महोदधि, कवहि पार न पावए ।
 जिसु मधुर ध्वनि कर देव दानव, किन्नरी गुण गावए ॥
 जसु नाम जिह्वा झरइ अमृत, पढम मंगल कारणो,
 सो वीर जिणवर पढम गणधर, जयो दुख निवारणो ॥२॥
 'गच्छाधिप' रे, 'सोहम' सामी गुण निलो,
 तसु पाटहि रे 'जंवू सामी'जग तिलो ।
 वर कंचण रे, कोटि 'नवाणू' परिहरी,
 सुभ भावइ रे, परणी जिह संयम सिरि ॥

संयमश्री जिहि हेलि परणी, चरण करण सु धारओ ।

मय अट्ट वारण मान गंजण, भविय दुत्तर तारओ ।

सोभाग सुन्दर सुगुण मन्दिर, मुक्ति कमला कामिनी ।

जिह नाथ पामी अतलेने? छइ, भइय शुभ गुण गामिनी ॥३॥

तदनन्तर रे, 'प्रभव स्वामि' श्रुतकेवली,

सिव पदति रे, भवियह भाखी अति भली ।

'सिजंभव' रे, सामी गुण गणधार ए,

मिथ्या मत रे, पाप तिमिर भर वार ए ॥

वार ए कुमत कुसंग दूषण, भाव भेय दिवायरो ।

'जसभद्' गणहर नाण दंसण, चरण गुणगण सायरो ।

'संभूतिविजय' प्रधान मुनिपती, प्रबल कलिमल खंडणो ।

श्री 'भद्रबाहु' सुबाहु संजम, जैन शासन मंडणो ॥ ४ ॥

श्री 'थूलिभद्र' रे, वाम कामभड भंजणो,

उपसम रस रे, सागर मुनि गण रंजणो ।

जसु उत्तम रे, सुजस पडह जगि वाज ए,

अति निरमल रे, शील सबल दल गाज ए ॥

गाजए दुक्कर सुविधि-कारी, जासु गुण पूरी मही ।

रवि चक्र तलि वर सील सुभ वलि, जेह सम सरिखो नही ।

प्रतिबोधि कोश्या मधुर वयणिहि, किद्ध उत्तम साविया ।

सो ब्रह्मचारो सुकृत-धारी, भावि प्रणमो भाविया ॥ ५ ॥

तसु अनुक्रमि रे, 'अज्जमहागिरि' जगि जयो,

जिणकप्पह रे, तुलणाकारी सो भयउ ।

तसु सविनय रे, 'अञ्ज सुहृथी' जाणिये,

'संप्रति' नृप रे, सावय जासु वखाणियइ ॥

वखाणिये जगि जासु उत्तम, लब्धि महिमा अति घणो ।

श्री 'अञ्जसंती' थिवर कहियइ, तासु पाट्टिहि गच्छ घणो ।

'हरिभद्र' आरिज सुमति वासित, 'साम अञ्ज' मुणीसरो ।

'पन्नवण सुत' उद्धार कारी, जयो सो जगि जुगवरो ॥ ६ ॥

हिव आरिजरे, 'संडिल' नाम जइसरु, श्री 'रेवत रे मित्र' मुणिंद जुगोसरु ।

धर्मागिर रे धर्माचारिज सोहए, वर संजम रे सील सुगुण जग मोहए ।

मोहए रतनत्रय विभूषित, 'अञ्जगुत्त' मुणीसरा,

गुण रयण रोहण भविय मोहण, 'अञ्जसमुद्' गणीसरा ।

सिरि 'अञ्जमंगु' सुधम्म पयडण, पवर दिणयर दीपए ।

सिरि 'अञ्ज सोहम' थविर हरिवल, मोह कुञ्जर जीपए ॥७॥

गुण सागर रे, 'भद्रगुप्त' मुनि नायगो,

भवियण जण रे, समकित सुरतरु दायगो ।

'सींहगिरि' गुरु रे, अंतेवासी राजए,

जा ईसर रे, देस पूरव-धर छाजए ॥

छाजए वाला मयणमाला, रुव दंसणि नवि चलयो ।

वर कणय कोडि हेलि छोडी, मयण मय भड जिणि मलयड ।

सिरि 'वयर स्वामी' सिद्धि धामी, फलिय सिव सुह आगमो ।

निकलंक चारित्र धवल निर्मल, सिंघ जुग पवरागमो ॥८॥

श्री आरिज रे, 'रक्षित' जिणमय भासए,

नव पूरव रे, साधिक शुभ मति वासए ।

'दुर्बलिकापक्ष' प्रधान दिग्नेसरु, श्री 'आरिजनन्दि' मुणिद गणेसरु ॥

गणेसरु सिर 'नागहत्थी' मान माया चूरणो,

'रेवंत' गणधर 'ब्रह्मदीपी' सूरि वंछिय पूरणो ।

'संडिल' जइवर परम सुहकर, 'हेमवंत' महा मुणी ।

सिर 'नागअज्जुण' नाम वाचक, अमिय सम सुन्दर झूणी ॥ ६ ॥

'श्रीगोविन्द' रे वाचक पदवी हिव लहइ,

सम दम खम रे, चरण करण भर निरवहइ ।

श्रुत जल निधि रे, 'दिन्नसंभूइ' वायगो,

'लोकह हित' रे, सहगुरु शुभ मति वायगो ॥

वायगो भासइ हियइ वासइ, 'दूष्यगणि' जगि निरमला ।

वर चरण खंती गुप्ति मुत्ती, नाण निश्चय उजला ॥

श्री 'उमास्वाति' सुनाम वाचक, प्रवर उपसम रतिधरो ।

'पंचसय' पयरण परम वियरण, पसमरइ सुइ गुणधरो ॥१०॥

हिव 'जिनभद्र' रे, क्षमासमण नामइ गणी,

श्री 'हरिभद्र' रे सूरिसर जगि दिनमणी ॥

अंगीकृत रे, जिन मत 'देव सूरेश्वर' ।

श्री 'नेमिचन्द्र' रे, सूरिराय दुरयह हरु ॥

दुरिय हरु सुखकर सुविहित, सूरि 'उद्योतन' गुरो,

श्री सूरिमंत्र प्रभाव प्रकटित, 'वर्द्धमान' गुणाकरो ॥

दुह कुमत छेदी सुविधि वेदी, मिच्छतम तम दिणयरो,

जिणधम्म दंसी अति जसंसी, भविय कयरवस सहरो ॥११॥

जे सुहृगुरु रे, उग्र विहारे विहरता,

‘अणहिल्लपुर’ रे पाटणि पहुता विहरता ॥

चियवासी, रे महिमा खंडण तिह कियउ,

‘दुल्लभ’ नृप रे ‘खरतर’ विरुद तिहां दीयउ ॥

तिह दियउ खरतर विरुद उत्तम, नाम जग मांहि विस्तरइ,

आदरइ जिनमत भावि भवियण, सुविधि मारग विस्तरइ ॥

चियवासी मयगल सवल दल छल, केसरी पद पाव ए,

श्री ‘जैनईश्वर सूरि’ सुविहित, सुजस रेह रहावए ॥१२॥

हिव सुविहारे, चक्र चतुर चिन्तामणी,

मिथ्याभर रे, तिमिर विहंडन दिनमणी ॥

जिन प्रबचन रे, वचन विलास रसालए,

वन मधुकर रे, अति संवेग रसालए ॥

‘संवेगरंग विसाल साला’, नाम प्रकरण जिह कह्यो,

भव पाप पंक पखालि निरमल, नीर संजम तप धरयो ॥

‘जिनचंद्र सूरि’ नवांग विवरण, रयण कोस पयास(ए)णो,

श्री ‘अभयदेव’ सुणिद दिनपति, परम गुण गण भासणो ॥१३॥

हिव तप जप रे, ज्ञान ध्यान गुण उजला,

आतम जय रे, चरणु सुधारसु निरमला ।

‘जिनवल्लभ’ रे, सुविहित मारग दाख ए,

विधि थापक रे, कुमति उजूत्र वि दाख ए ॥

दाख ए गंग तरंग सुवचन, अविधि तरु भंजण करी,

संवेग रंग तरंग सागर, नवल आगल गुणसरी ।

तसु पाटि श्री ‘जिनदत्त सूरि’ गुरु, ‘युगप्रधान’ सुहायरो ।

चारित्र चूडामणि समुञ्जल, 'जैनचन्द्र' सूरीसरो ॥१४॥
 तासु पाटिहि रे, वालइ चंद कि चंदणो,
 श्री 'जिनपति' रे, सूरीसर जगि मंडणो ।
 'जिनईश्वर' रे 'जिनप्रबोध' सूरीसर,
 नव सुन्द(र)रे, श्री 'जिनचन्द्र' सुधा करु ॥
 श्री 'जैनचन्द्र' सुधाकरु जल, कुशल कमला कारगो,
 'जिनकुशल सूरि' सुरिंद संकट, दुख दोहग वारगो ।
 'जिनपदम' सूरि विलास अविचल, पडम आतम थाप ए ।
 'जिनलब्धि' लब्धि निधान 'जिनचन्द्र', सूरि सुभ मति आप ए ॥१५॥
 उदयाचल रे, उदय 'जिनोदय' सुहगुरु,
 सुखदायी रे, श्री 'जिनराज' कलाधर ।
 भद्रंकर रे, श्री 'जिनभद्र' सुणीसर,
 'चंद्रायण' रे, 'चन्दसूरि' गुरु गणहरू ॥
 गणधार मोह विकार विरहित, 'जिनसमुद्र' यतीश्वर ।
 'जिनहंस सूरीसर' सुमंगल, करण दुह दालिद हरु ।
 श्री 'जैनमाणिक' सुगुण माणिक, खीरसागर अनुपमो,
 जय सुखकारी दुखहारी, कप्पतरु वर जंगमो ॥१६॥
 श्री 'सोहम' रे, स्वामि ने अनुक्रम भयो,
 तेसठमइ रे, पाटइ ए जुगवर जयो ।
 सूरीसर रे, श्री 'जिनचन्द्र' सुसोह ए,
 वयरागी ए, उपसम धर मन मोह ए ॥

मोह ए भवियण जणह मानस, एह परम जगीसरु,

वर ध्यान सुमति निधान सुन्दर, नवल 'करुणा रस भरु ।

पण विषय विषम विकार गंजण, भाव भड भय जीप ए ।

सो सुविधचारी शीलधारी, जैन शासन दीप ए ॥१७॥

गंभीरिम रे, उवमा सागर गुरु तणी,

किम पावइ रे जिह तइं महिमा अति घणी ।

मह मूलिक रे, रत्नत्रय जिह जाणीयइ,

सम दम रस रे निरमल नीर वखाणियै ॥

वखाणियै जिह सबल संयम, रंग लहरी गहगहइ,

सुध्यान वडवानल सुगुण मय, नदी पूर जिहां बहै ।

एक इह अचरिज भयउ हम मनि, सुणहु कवियण इम कहइ ।

'जिनचंदसूरि' सुरिन्द पटतर, कहउ जलनिधि किम लहइ ॥१८॥

इह सुहगुरु रे, गुण गण वर्णन किम सकै,

बहु आगम रे, पाठी तउ पुणि ते थकै ।

इह कारणि रे, श्री गुरु सम को किम तुलइ,

किह पीतलि रे, कंचन सम सरि किम मुलइ ॥

किम मुलइ रयणी दिन समाणी, बहुय सरवर सागरा,

नक्षत्र ससहर सूर कातर, उखर भू रयणागरा ।

सोभाग रंग सुरंग चंगिम, चरण गुण, गण निरमला,

'जिनचन्द्र सूरि' प्रताप अविचल, दिन दिनइ चढ़ती कला ॥१९॥

'डिलि' मंडलि रे, 'रुस्तक' नगर सोहामणो,

तिहा श्री संघ रे, सोहइ अति रलियामणो ।

ऊमाहो रे, निवसइ गुरु दंसण तणो,

मन महि जिम रे, चातक घन तिम अति घणो ॥

अति घणो भाव उल्लास उच्छव, सधन धन सो अवसरो,

सा धन्न वेला सु धन मेला, जत्थ दीसइ सुहगुरो ।

जे भावि वंदइ तेह नन्दइ, दुख छन्दइ बहु परै,

संगहइ समकित शुद्ध सोवन, सुगुरु उच्छव जे करइ ॥२०॥

मन मोहन रे, गुण रोहण धरणी धरु,

पूर्व ऋषि रे, उजवाळइ जगदीसरु ।

चिर प्रतपो रे, श्री 'जिनचंद्र' यतीसरु,

जां दिनकर रे, ससहर सुर वर भूधरु ॥

सुर भूधरु जां लगइ अविचल, खीरसागर महियलै,

जयवन्त गुरु गच्छपति गणधर, प्रकट तेजइ इणि कलइ ।

'मतिभद्र' वाचक सोस 'चारित्र, -सिंह' गणि इम जंप ए ।

गुरु नाम सुणतां भावि भणतां, होइ सिव सुख संप ए ॥२१॥



गुर्वावली नं० ३

ढाल—गीता छन्द नी ।

भारति भगवति रे, तुं वसि मुख कजे मेरइ,

सहगुरु सुरतरु रे, गाइसुं सुजस नवेरइ ।

सहगुरु गाइसुं सुविहित यति पति, सिरि 'उद्योतनसूरि' वरो ।

तसु पाट पुरन्दर सोहग सुन्दर, 'वद्धमानसूरि' युग प्रवरो ।

'अणहिलपुर' 'दुर्लभ' राय अंगाणि, जिणि मठपत पण जीतउ ।

क्रिया कठोर 'जिनेश्वरसूर' ति, 'खरतर' विरुद वदीतउ ॥१॥

विधि सु विरचित रे, जिणि 'संवेगरंगशाला' ।

गुरु 'जिनचन्द सूरि' रे, तेज तरणि सुविशाला ।

सुविशाल सुथंभण पास प्रकाशक, नव अंग विवरण करण न(व?)रो ।

श्री 'अभयदेव सूरि' वर तसु पाटइ, श्री 'जिनवल्लभ सूरि' गुरो ॥

'अंबिका देवो' देसित युगवर, 'जिनदत्त सूरि' अदीणो ।

नरमणि मंडित 'जिनचंद' पदि, 'जिनपति' सूरि प्रवीणो ॥२॥

'नेमिचन्द' नन्दन रे, सूरि 'जिनेसर' सारा,

सूरि सिरोमणि रे जिन प्रबोध उदारा ।

सुविचार उदारा 'जिनचन्दसूरि', 'जिनकुशल सूरि' 'जिनपद्म' मुणी

श्री 'जिनलब्धि सूरि' 'जिणचन्द', 'सुगुरु जिणोदय' सूरि मुणो ।

'जिनराज' मुनिप (ति) 'जिनभद्र' यतीसर,

श्री 'जिणचन्द सूरि' 'जिनसमुद्र' वसी ।

श्री 'जिनहंस सूरि' मुनि पुंगव श्री 'जिनमाणिक सूरि' शशी ॥३॥

तसु पदि परिगडउ रे, गुण मणि रोहण सोहइ ।

'रीहड' कुलतिलउ रे, सकल सुजन मन मोहइ ।

मोहइ वचन विलास अमृत रस, 'श्रीवंत' साह जनेता ।

'सिरियादे' उरि रत्न अमूलक, श्री खरतर गच्छ नेता ।

"नयरंग" भणइ विसद विधि वेदी, संघ सहित निरदंदी ।

श्री 'जिनचन्द' सूरि सूरीश्वर, चिर नन्दउ आणन्दी ॥ ४ ॥

कविवर समयसुन्दर कृत

(४) खरतर गुरु पट्टावली

प्रणमी वीर जिणेसर देव, सारइ सुरनर किन्नर सेव ।

श्री 'खरतर' गुरु पट्टावली, नाम मात्र प्रभणुं मन रली ॥ १ ॥

उदयउ श्री 'उद्योतन' सूरि, 'वर्द्धमान' विद्या भर पूरि ।

सूरि 'जिणेसर' सुरितरु समो, श्री 'जिनचन्द सूरिश्वर' नमइ ॥२॥

अभयदेव सूरि सुखकार, श्री 'जिनवल्लभ' किरिया सार ।

युगप्रधान 'जिनदत्त सूरिंद', नरमणि मंडित श्री 'जिनचंद' ॥३॥

श्री 'जिणपति' सूरिश्वर' राय, सूरि जिणेसर प्रणमुं पाय ।

'जिनप्रबोध' गुरु समरुं सदा, श्री 'जिनचन्द' मुनीश्वर मुदा ॥४॥

कुशल करण श्री 'कुशल' मुणिंद, श्री 'जिनपदम सूरि' सुखकंद ।

लब्धिवंत श्री 'लब्धि' सूरिस, श्री 'जिनचंद नमुं निसदीस ॥५॥

सूरि 'जिनोदय' उदयउभाण, श्री 'जिनराज' नमुं सुविहाण ।

श्री 'जिनभद्र' सूरिश्वर भलउ, श्री 'जिनचंद सकल गुण निलउ ॥६॥

श्री 'जिनसमुद्र सूरि' गच्छपती, श्री 'जिनहंस' सूरिश्वर यती ।

'जिनमाणकसूरि' पाटे थयउ, श्री 'जिनचंद सूरिश्वर जयो ॥७॥

ए चउवीसे खरतर पाट, जे समरइ नर नारी थाट ।


ते पामइ मनवंछित कोडि, 'समयसुंदर' पभणइ करजोडी ॥८॥

इति श्री खरतर २४ गुरु पट्टावली समाप्ता लिखिताच पं० समय-
सुंदरेण ॥ सुन्दर बड़े बड़े अक्षरों में लिखित ।

(जय० भं० नं० २६ गुटका)

कविवर गुणविनय कृत

(५) खरतरगच्छ गुर्वावली



प्रणमं पहिली श्री 'वर्द्धमान', बीजो श्री 'गौतम' शुभ वान ।

त्रीजो श्री 'सुधरम' गणधार, चोथो 'जंबू' स्वामि विचार ॥१॥

पंचम श्री 'प्रभव' प्रभु थुंगुं, श्री 'शर्यभव' छठो भणुं ।

'यशोभद्र' सत्तम गणधार, श्री 'संभूतिविजय' सुखकार ॥२॥
'कोसा' वेड्या वश नवि पडयो, 'थूलभद्र' मुझ मनमें चढयो ।

दशम 'सुहस्तिसूरि' उदार, 'संयति' नृप प्रतिबोधनहार ॥३॥
श्री 'सुस्थित' मुनि इग्यारमो, 'इन्द्रदिन्न' बारम नितु नमो ।

तेरम 'दिन्नसूरि' दीपतो, 'सींहगिरी' सुर गुरु जीपतो ॥४॥
पनरम नरम वाणि जेहनी, रूप कला सोहइ देहनी ।

दस पूर्व धर धोरी जिस्यो, 'वयरिस्वामि' मुझ हीयडे वस्यो ॥५॥
सोलम लघुवय जिण व्रत लीध, 'वज्रसेन' स्वामि सुप्रसिद्ध ।

सतरम 'चन्दसूरि' मुणि चन्द, 'सामन्तभद्र सूरि' सुखकन्द ॥६॥
'देवसूरि' प्रगमं सुपवित्त, 'कुमद्रचन्द्र'वादे जिण जित्त ।

वीसमो श्री 'प्रद्योतनसूरि', जगि उद्योत कियो जिणि भूरि ॥७॥
सप्रभाव 'शांतिस्तव' कारि, 'मानदेव' गुरु महिमा धारी ।

श्री 'देवेन्द्रसूरि' गुण निलउ, सिव पह जिण देखाड्यो भलो ॥८॥
'भक्तामर' 'भयहर' हित धरी, स्तवन कीयो जिण करुणा करी ।

ते श्री 'मानतुंगसूरीश', 'वीरसूरि' राजे निसदीस ॥९॥

ढाल—श्री 'जयदेवसूरीसरू', पंचवीसम प्रभ जाणि रे ।

'देवानन्द' वखाणियइ, छावीसम मनि आणी रे ॥ १० ॥ ए०
एहवा सदगुरु गाइये, मन शुद्धि करीय त्रिकालो रे ।

संयम सरवरि झीलता, षटकाया प्रतिपालो रे ॥११॥ ए०
'विक्रमसूरि' दिवाकरू, तसु पाटि 'नरसिंह सूरि' रे ।

श्री 'समुद्र सूरीश्वरू', महकइ सुजस कपूर रे ॥ १२ ॥ ए०
'मानदेव' त्रीसम हुयो, श्री 'विवुधप्रभसूरि' रे ।

'जयानन्द' बत्रीसमो, राजइ सुगुण पडूरि रे ॥ १३ ॥ ए०
श्री 'रविप्रभ' रवि सारखो, तेजइ करि 'मतिमद्र' रे ।

'यशोभद्र' चउत्रीसमो, पइत्रीसम 'जिनिमद्र' रे ॥ १४ ॥ ए०
श्री 'हरिभद्र' छत्रीसमो, सइत्रीसम 'देवचन्द्र' रे ।

'नेमिचन्द्र' अडत्रीसमो, उदयो जाणि दिणन्द रे ॥ १५ ॥ ए०
ढाल:—श्री 'उद्योतन' मुनिवरू, श्री वर्द्धमान महन्तो रे ।

'विमल' दण्डनायक जिणे, प्रतिबोध्यो जयवन्तो रे ॥१६ ॥
युगप्रधान गुरु जाणिवा ॥
'खरतर' विरुद जिणइ लह्यो, 'दुर्लभ' राज नी साखइ रे ।

सूरि 'जिणेसर' जगि जयो, कीरति सवि जसु भाखइ रे ॥१७॥यु
श्री 'जिनचन्द्र' यतीसरू, 'अभयदेव' गणधारो रे ।

नव अंग विवरण जिणि कीया, जिण शासन सिणगारो रे॥१८॥यु

ढाल:—चामुंडा जिणि बूझवी, श्रुतसागर तसु पाटइ रे ।

श्री 'जिनवल्लभ' गुरु थया, महीयल मोटइ थाटइ रे ॥१९॥ यु०॥
जीती चौसठ योगिनी, जिणि श्री 'जिनदत्तसूरि' रे ।

नाम ग्रहण तेहनो कोयउ, विकट संकट सवि चूरइ रे ॥२०॥यु०॥

श्री 'जिनचन्द्र सूरीसर' सांभलो, नरमणि मण्डित भालोजी ।
 तेहनइ पाटइ श्री'जिनपति'थया,सकल साधु भूपाल जी॥२१॥धन०॥
 धन धन श्रीखरतर गच्छ चिरजयो, जिहां एहवा मुनिराजो रे ।
 शुद्ध क्रिया आगम में जे कही, ते भाखइ सिव काजो जी ।२२॥धन०॥
 सूरि 'जिगेसर' सरस्वति मुख वसइ, जसु महिमा नो निवासो जी ।
 'जिनप्रबोध' प्रतिबोधन जे करइ,अमृत वचन विलासोजी ॥२३॥धन०
 'श्रीजिनचन्द्र' यतीसर तेहथो,'श्रीजिनकुशल' प्रधानोजी ।
 जसु अतिशय करि त्रिभुवन पूरियो,कुण हुवइ एह समानोजी॥२४॥ध
 'बाल धवल सरस्वती' विरुद्ध करी, लाधी जिण विख्यातो जी ।
 'पद्म सूरीसर' तसु पाटइ थयो, लवधि सूरि सुवदीतो जी ॥२५॥धन
 श्री 'जिनचन्द्र' 'जिनोदय' यतीवरु, धोरम धर 'जिनरायो' जी ।
 श्री 'जिनभद्र' थयो सुविहित धणी, भवसागर वर पाजो जी ॥२६॥ध
 'जिनचन्द्र' 'समुद्र' सूरीसर सारिखो,कुण हुवइ ऋषि गुण पूरि जी ।
 श्री 'जिनहंस' मुनीसर मानोयइ, श्री 'जिनमाणिक' सूरि जी ॥२७॥
 पातिसाहि अकवर प्रतिबोधीयो, अमर पडह जगि दिद्धो जी ।
 पंचनदी जिणि साधी साहसइ, चन्द्र धवल जस सिद्धोजी ॥२८॥ध०
 'युगप्रधान' पद साहइ जसु दीयो, श्री 'जिनचन्द्र' सूरिदो ।
 उवारी 'खंभायत' माछली, चिरजयो जां रवि चन्दो जी ॥२९॥धन०
 वीर थकी अनुक्रमि पट्टइ हुआ, जे जे श्री गच्छ धारो जी ।
 नाम प्रही ते प्रभण्या एहना, कुग पामइ गुण पारो जी ॥३०॥धन०॥
 'जेसलमेरु' विभूषण 'पास' जी, सुप्रसादइ अभिरामो जी ।
 श्री 'जयसोम' सुगुरु सोसइमुदा, 'गुणविनय'गणि शुभ कामो जी॥३१॥

॥ इति ॥

॥ श्री जिनरंगसूरि गीतानि ॥



॥ ढाल—हंसला गीतनी जाति ॥

(१)

मनमोहन महिमा निलउ, श्री रंगविजय उवझायन रे ।

सेवत सुरतरु सम बडइ, सबहि कइ मनि भाय न रे ॥१॥म०॥
संवत 'सोल अठहत्तरइ', जेसलमेरु मंझारि न रे ।

फागुण वदि सत्तमि दिनइ, संयम ल्यइ शुभ वार न रे ॥२॥म०॥
अनुपम रूप कला निला, ज्ञानचरण आधार न रे ।

भविण्य नर प्रति बूझवइ, परिहर विषय विकार न रे ॥३॥म०॥
निज गच्छ उन्नति कारणइ, श्री जिनराज सुरिन्द न रे ।

पाठक पद दीधउ विधइ, प्रणमइ मुनि ना वृन्द न रे ॥४॥ म०॥
कुमति मतंगज केसरो, महिमागर मतिवन्त न रे ।

मानइ मोटा महिपती, महिमा मेरु महन्त न रे ॥५॥म०॥
'सिंधुड' वंश दिनेसरु, 'सांकरशाह' मलहार न रे ।

'सिन्दूर दे' उर हंसलउ, 'खरतरगच्छ' सिणगार न ॥६॥म०॥
बड शाखा जिम विस्तरउ, प्रतपउ जां रवि चन्द न रे ।

'राजहंस' गणि वोनवइ, देज्यो परम आणंदन रे ॥७॥म०॥

॥ इतिश्री पाठक गीतम् , कृतं पं० राजहंस गणिना ॥

(२)

खरतर गच्छ युवराजियउ, थाप्यउ श्री जिनराज न रे ।

पाठक रंगविजय जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रे ॥ १ ॥

भविष्यण वांदउ भावस्यूं, जिम पायउ सुख सार न रे ।

रूप कला गुण आगलउ, निर्मल सुजस भंडार न रे ॥२॥ भ०॥
सरस सुकोमल देसना, मोहइ सहूय संसार न रे ।

कूड़ कपट हीयइ नहीं, सहुको नइ हिनकार न रे ॥३॥ भ०॥
होडि करइ गुरु नी जिके, ते जायइ द्रह बोडि न रे ।

सुख पायइ ते सासता,जे सेव करइ कर जोडि न रे ॥४॥ भ०॥
गुरु गुण गावइ मन सूधइ, नाम जपइ निशि दीश न रे ।

‘ज्ञानकुशल’ कहइ तेहनी, पूजइ मनह जगीश न रे ॥५॥ भ०॥

॥ युगप्रधान पद गीतम् ॥

(३)

‘जिनराजसूरि’ पाटोधरू, दसच्यार विद्या जाण ।

वचन सुधारस वरसतौ, मानै सहुको आण ॥ १ ॥

मोरी सही ए वांदोनी, जिनरंग, आणी मनमें रंग ।

वाणी गंग तरंग । मो०

पातिशाह परख्यो जेहने, दीधो करि फुरमाण ।

सात सोवे (सुवा ?) माहरो, करज्यो वचन प्रमाण ॥२॥ मो०॥

तसु पुत्र दीपे पाटवी, ‘दारा’ स को सुलताण ।

युगप्रधान पदवी तणो, करि दीधो निसाण ॥३॥ मो०॥

‘नेमीदास’ ‘सौंधड’ जाणीजइ, ‘श्रीमाली’ जाति सुजाण ।

मा(सा?)ह पंचायण अति भलउ, गुरु रागी गुण जाण ॥४॥मो॥
पैसारो भलिभांति सुं, कीयो निराण रे काज ।

हाथी सिणगार्या भला, घोड़ा मुखमली साज ॥५॥मो॥
बाजा बजाया तरा (?), नेजा वणाया तूर ।

दान देइ याचक भणि, दादाजी रे हजूर ॥ ६ ॥मो॥
श्रीपूज आया उपासरै, श्री संघ सगले साथ ।

मन रंग महाजन लोकमें, नालेर दीधा हाथि ॥७॥ मो॥
सूहव वधावै मोतीयै, गुहली गावै गीत ।

केइ उवारै कापड़ा, राखै कुल री रीत ॥८॥ मो॥
संवत ‘सतरदाहोतरे’, श्री संघ आणंद आण ।

‘युगप्रधान’ पद थापीया, ‘मालपुरै’ मंडाण ॥९॥ मो॥
वादी तणा मद जीपतौ, महिमा तणो भंडार ।

दूर कीया दुरजन जिणइ, खरतर गळ सिणगार ॥१०॥मो॥
धन मात जस ‘सिंदूर दे’, धन पिता ‘सांकरसीह’ ।

धन गोत्र ‘सिंधुड’ परगडो, धन मोरी ए जीह ॥११॥मो॥
‘कमलरत्न’ इम वीनवे, मुझ आज अधिक आणंद ।

चिरजीवो गुरु ऐ सही, जांलगि ध्रु रवि चन्द ॥१५॥मो॥

॥ श्री कमलहर्ष कवि कृत ॥

श्रीजिनरतनसूरि निर्वर्ण रास



सरसति सामणि चरण कमल नमी, हीयडइ सुगुरु धरेवि ।

श्री 'जिनरतन सूरिसर' गुरु तणा, गुण गाऊं संखेवि ॥ १ ॥

'श्रीजिनरतनसूरिसर' समरिये ॥

महियल मोटड 'मरुधर' देस मइ, 'शुभ सेरुणा' गाम ।

धूना(धनी?)लोक वसइ सुखीयां जिहां, धरमी अति अभिराम ॥२॥श्री०॥

वसइ तिहां वर शाह 'तिलोकसी', चावड चतुर सुजाण ।

'ओसवाल' वंशे उन्नति करू, जुगति करइ वखाण ॥ ३ ॥श्री०॥

तासु घरणि 'तारा दे' (दी) पती, सीलवती सुचंग ।

रूपवन्त शोभा में आगलो, सरस सुकोमल अङ्ग ॥ ४ ॥श्री०॥

रतन अमोलख जिणइ जनमियो, कुल मण्डण कुल भाण ।

मात-पिता बन्धव सहु हरखिया, जाणइ राणो राण ॥ ५ ॥श्री०॥

'आठ वरस' नइ मन माहि उपनो, लघु वय पिण वैराग ।

माया ममता सगली छांडिनै, दिन २ चढतइ वान (भाग?) ॥६॥श्री०॥

श्री 'जिनराज सूरिश्वरु' गुरु कन्है, आणी मन आणन्द ।

निज 'बांधव' 'माता' तीने मिली, लीधी दीख मुणिद ॥ ७ ॥श्री०॥

शास्त्र अनेक भण्या थोडइ दिनइ, बुद्धि तणइ विस्तार ।

चउद वरसं नइ संयम आदर्यो, सफल गिणी अवतार ॥ ८ ॥श्री०॥

निज उपदेसइ भवियण बूझवइ, करइ अनेक विहार ।

पाल (इ) मन सुधइ मुनिवर भलउ, चारित्र निरतीचार ॥ ६ ॥ श्री० ॥

गुण अनेक सुणी श्री पुजजी, तेडावि निज पास ।

‘अहमदावाद’ नगर मांहे आपियउ, ‘पाठिक पद’ उल्हास ॥ १० ॥ श्री० ॥

जुगते भलिपर ‘जयमल’ ‘तेजसी’, अवसर लही एकन्त ।

आगंद सुं उच्छव कीधउ तिहां, खरच्यउ धन धरि खंत ॥ ११ ॥ श्री० ॥

‘पाटण’ नगरइ पूज्य पधारिया, चतुर रखा चउमास ।

सूत्र सिद्धांत अनेक सुणावतां, सहु नी पूरइ आस ॥ ११ ॥ श्री० ॥

संवत ‘सतरइ सय’ वरसइ भलइ, श्री ‘जिनराज सूरिस’ ।

सईहथ ‘रतन सूरिस’ थापीया, मनि धरि अधिक जगीस ॥ १३ ॥ श्री० ॥

‘अषाढा सुदि नवमी’ शुभ दिनइ, थिर निज पाटइ थापि ।

श्री ‘जिनराज’ सरगि पधारिया, त्रिविधि खमावि पाप ॥ १४ ॥ श्री० ॥

श्री ‘जिनरतन’ तणी मानी सहु, देस प्रदेशइ आण ।

ठामि २ सिंघइ तेडावीया, गणिता जन्म प्रमाण ॥ १५ ॥ श्री० ॥

ढालः—तूंगीया गिर शिखर सोहइ, एहनी ।

चउमासि पारण करी सदगुरु, कीयो तेथी विहार रे ।

आविया ‘पालहणपुरइ’ पूजजी, कीयउ उच्छव सार रे ॥ १ ॥

आज धन ‘जिनरतन’ वांछा, गया पातक दूर रे ।

श्रीसंघ सगलउ मनि हरख्यउ, प्रकट पुण्य पढूर रे ॥ २ ॥ आ० ॥

‘सोवनगिरी’ श्री संघ आप्रहि, आवीया गणधार रे ।

पइसार उच्छव सबल कीधउ, सीठ (सेठ?) ‘पीथइ’ सार रे ॥ ३ ॥ आ० ॥

संघ नइ वांदिवि सुपरइ, पूज्यजी पटधार रे ।

विचरता 'मरुधर' देस मांहे, साधु नइ परिवार रे ॥४॥ आ०॥

संघ आग्रह आविया हिव, पूज्य 'बीकानेर' रे ।

'नथमल' 'वेणइ' उच्छव कीधउ, खरचीयो धन ढेर रे ॥५॥ आ०॥

उपदेस निज प्रतिबोध श्रावक, करता उप्र विहार रे ।

'वीरमपुरइ' चउमास आव्या, संघ आग्रह सार रे ॥६॥ आ०॥

चउमास पारण आविया हिव, 'बाहडमेर' सुजाण रे ।

चउमास राख्या संघ मिलकर, पूज्यजी परमाण रे ॥७॥ आ०॥

तिहां थी विचरी 'कोटडइ' मइ, चतुर करी चउमास रे ।

पारणइ 'जेसलमेर' श्रावक, तेडीया उल्हास रे ॥८॥ आ०॥

पइसार उच्छव 'गोप' कीधो, लीयउ लखमी साह रे ।

याचकां बहुलउ दान दीधउ, मन धरी उच्छह रे ॥९॥ आ०॥

संघ आग्रह च्यारि कीधा, पूज्यजी चउमास रे ।

धन-धन 'जेसलमेरि' श्रावक, लोक मय (नइ?) साबास रे ॥१०॥ आ०॥

'आगरा' नइ संघ आग्रह, घणा कीध विशेष रे ।

'आगरइ' गच्छराज आव्या, श्राविकां मन देख रे ॥११॥ आ०॥

हुकम 'बेगम' तणउ पामी, 'मानसिंह' महिराण रे ।

पइसार उच्छव अधिक कीधउ, मेलीया रायराण रे ॥ १२ ॥ आ०

हरखीया मन मांहि सहु श्राविक, वरतीया जयकार रे ।

याचकां वांछित दान दीधउ, प्रबल पुन्य प्रकार रे ॥१३॥ आ०॥

तप नियम व्रत पचखांण करतां, धारतां धर्म ध्यान रे ।

निज गुणे सगले श्रावकां मन, रंजीया असमान रे ॥१४॥ आ०॥

चउमास चावी तिन कीधी, पूजजी परसिद्ध रे ।

चउमास चौथी वले राख्या, संघ आप्रह किद्ध रे ॥१५॥ आ०॥
दिन दिन चढतउ सुजस महियल, गुण अधिकइ गच्छराज रे ।

दुत्तर दुखसायर पडतां, जगत जाणे जिहाज रे ॥ १६ ॥ आ०॥

करजोडी इम विनवुं एहनो ढालः—

इण विधि इम रहतां थकां, पूजजी नइ हीडोलइ असमाधि ।

कारण जोगइ उपनी, करमे पिण हो हिव अवसार लाध ॥ १ ॥

तुम्ह विण पूजजी किम सरइ ।

‘आषाढा सुदि दसम’ थी, वपु बाधी हो वेदन विकराल ।

ध्यान एक अरिहन्त नो, मनि राखइ हो छंडी जंजाल ॥ २ ॥ तु०॥

वडरागइ मन वालियउ, नवि कीधा हो ओषध उपचार ।

संवेगी सिर सेहरो, ‘चउरासी’ हो गच्छ मइ श्रीकार ॥ ३ ॥ तु०॥

अल्प आउखो जाणीनइ, पोतानउ हो पूजजी तिण वार ।

सइंमुख अणशण आदर्यो, सवि छंडी हो पातक आचार ॥४॥ तु०॥

क्रोध लोभ माया तजी, तजीया बलि हो आठे मद मोह ।

पापस्थानक सवि परिहर्यां, जगमांहि हो अति बधती सोह ॥५॥तु०॥

मन वचन कायाई करी, बलि लगा हो व्रत ना दूषण जेह ।

ते आलोयां आंपणा, गच्छ नायक हो गिरुआ गुण गेह ॥ ६ ॥ तु०॥

सरण च्यारे उच्चरी, आराधी हो सूधा गुरु देव ।

कलमल पाप पखालिनइ, षट् जीवन हो पाली नित मेव ॥ ७ ॥ तु०॥

जीव अनेक छोडाविया, याचक मिली हो धन खरची अनन्त ।

दुखीयां दान दिवउ घणो, धन २ धन हो मुनि लोक कहन्त ॥८॥तु०॥

संवत 'सतरइ सय भलइ, इग्यारे' हो 'श्रावणि वदि सार' ।
 'सोमवार' 'सातम' दिनइ, सोभागी हो पहले पहर मंझार ॥६॥तु०॥
 'चउरासी' लख जीवनइ, खमावी हो आलोइ पाप ।
 'हरषलाभ'नइ हरखस्युं,निज पाटइ हो अविचल थिर थाप ॥१०॥तु०॥
 निरमल चित नवकार नउ, मुखि कहतां हो धरता सुभध्यान ।
 श्रोपूज्यजी संवेगी हो, पहुंता अमर विमान ॥ ११ ॥ तु०॥
 करे अनोपम कोकही, मांहीं मुखमल हो बड़ सूफ विछाय ।
 चोया चन्दन अरगजा, कस्तूरी हो केसर चरचाय ॥१२॥ तु०॥
 विधि विधि वाजित्र वाजता, वइसारी हो जाणे देव विमान ।
 हयवर गयवर हीसतां, सहु लोकहु (हो)करता गुण गान ॥१३॥तु०॥
ढाल—वाल्हेसर मुझ वीनती गोडीचा राय एहनी ।
 बइठो आमण दुमणो सोभागी,ए ताहरउ परिवार हो । सोभागी० ।
 परदेसी जिमि छांडिने सो०, जइये किम गणधार हो । सो० । १ ।
 दरसण द्यो गुरु माहरां सो०,
 सहु श्रावक श्राविका । सो० । जोवइ तुमची वाट हो । सो० ।
 ए वेला नहीं ढील नी सो०, सुन्दर रूप सुघाट हो । सो० । २ ।
 वेला थइ वखाणनी सो०, मिलीया सहु रायरांण हो । सो० ।
 आवी वइसो पूठीयइ सो०, वार म ल्याबो जाण हो । सो० । ३ ।
 आवी वइठा एकठा सो०, पंडित पूळण काज हो । सो० ।
 वेगउ उत्तर द्यउ तुम्हें सो०, गरुआ श्री गच्छराज हो । सो० । ४ ।
 एक वेली सुबिचार नइ, बोलउ बोल रसाल हो । सो० ।
 वाट जोवइ जिम मेह नी सो०, उभा वाल गोपाल हो । सो० । ५ ।

इतना दिवस लगइ हुंती सो०, मन मई सहु नइ आस हो । सो० ।
 तई तउ भूल तिका करी सो०, चाल्या छोडी निरास हो । सो० । ६।
 शिष्य सहु बालावी नइ सो०, फेरयउ माथइ हाथ हो० । सो० ।
 ते वेला स्युं बीसरी सो०, करि बीजा नउ हाथ हो । सो० । ७।
 आवण अवधि न कही सो०, नाण्यउ मन मइ नेह हो । सो० ।
 अनवइ (?) जेम विचारी नइ सो०, छिनमें दीधी छेह हो ॥सो०॥८॥
 चउमासु पिण जाणि नइ सो०, संक न आणी कांइ हो ।सो०।
 अधविचइ म मकी करी सो०, कुण कहु छांडो जाइ हो ।सो०॥९।
 देव विमाने मोहीयउ सो०, पूठी खवरि न कीध हो । सो० ।
 इहां तो लोभ न को हुंतो सो०, तिहां लोभइ चित दीध हो ।सो०॥१०।
 आलस क्रिण ही बात नउ सो०, नवि हुंतउ तिल मात हो । सो० ।

दोष तुम्हारउ को नहीं सो०.....॥११॥

मन थी भावन मुंकतउ सो०, एक समइ पिण एम हो । सो० ।

ते पिण भाव विसारियउ सो०, बीजा सुं धरे प्रेम हो० ॥सो०॥१२।
 पल भर (पिण) सरतो नहीं सो०, पूज परखइ निसदीस हो । सो० ।

जमवारोकिम जाइस्यइ सो०, महि मोटा जगदीस हो ।सो०॥१३।
 खिण २ मई गुण संभरइ सो०, आठ पोहर दिन राति हो । सो० ।

कुण आगलि कहि दाखवुं सो०, तेहनी वीगत बात हो ।सो०॥१४।
 वीसार्या निवि वीसरइ सो०, सदगुरु ना गुण गाम हो । सो० ।

समरइ सहु साचइ मनइ सो०, नित नित लेइ नाम हो ।सो०॥१५।
 परतिख इग पंचम अरइ सो०, सूरि सकल सिरताज हो । सो० ।

तुझ सरिखउ जग को नहीं सो०, वइरागी मुनिराज हो ।सो०॥१६।

गच्छपति तो आगइ हुआ सो०, होस्यइ वलि छइ जेह हो ।सो०।

पिण तो सम संसार मइ सो०, नबि दीसइ गुण गेह हो ।सो०।१७
बखतावर विद्यानिलउ सो०, सूत्र सिद्धांत प्रवीण हो । सो० ।

कलियुग माहे जुवतां सो०, अधिको धरम धुरीण हो ।सो०।१८।
तई तउ ताहरउ निरवाहीयउ सो०, जनम लगइय समान हो ।सो०।

सींहण पण व्रत आदर्यो सो०, पाल्यउ सींह समान हो ।सो०।१९।
त्रिभुवन मइ ताहरी क्षमा सो०, साराहइ संसार हो० । सो० ।

कलि माहे इक तुं हूओ सो०, निरलोभो गणधार हो ।सो०।२०।
महियल मइ यश ताहरो सो०, कहतां नावे पार हो । सो० ।

गुण अधिका गच्छराज ना सो०, केता करूं बखाण हो ।सो०।२१।
रास सरस इम आदिस्यउ सो०, पूज्य तणउ निरवाण हो ।सो०।

भाव घणइ परमोद सु सो०, करज्यो खेम कल्याण हो ।सो०।२२।
'श्रावण सुदि इग्यारसइ' सो०, थिर शुभ थावर वार हो । सो० ।

'मानविजय' सोस इम भणइ सो०, 'कमलहरष' सुखकार हो ।सो०।२३।
अति जयवंतउ 'आगरइ' सो०, खरतर संघ सुखकार हो । सो० ।

सुख संपत देज्यो सदा सो०, धरि मन शुद्ध विचार हो ।सो०।२४।
भणतां गुणतां भावस्यु सो०, रास सरस इक चित्त सो० ।

नवनिधि सिद्धि माहमां बधइ सो०, था(य)इ जन्म पवित्र हो ।सो०।२५।
॥ इति श्री श्री जिनरतनसूरि निर्वाण रास समाप्तम् ॥

सं० १७११ वर्षे कार्तिक सुदि ७ दिने सोम वासरे लिखतं पाटण
मध्ये मानजी करमसी कस्य लिखतं ॥ साध्वी विद्यासिद्धि साध्वी-
समयांसिद्धि पठनार्थं । पत्र ३

(बीकानेर वृहद्-ज्ञानभंडार)

श्री जिनरतनसूरि गीतानि

(१)

काल अनन्तानन्त एहनी ढाल—

‘श्री जिनरतन सूरिश’, पूज वांदेवा हो मुझ मन छइ सही ।
 देखण तुझ दीदार, आवइ चतुर्विध हो श्रीसंघ सामउ उमही ॥ १ ॥
 गुरुया श्री गच्छराजा, खरतर गच्छ मइं...पूज दीपइ सदा ।
 प्रतपइ अधिक पडूर, जिण मुख दीठइ हो सुख होवइ मुदा ॥ २ ॥
 ‘लुणिया’ वंश विख्यात, साह ‘तिलोकसी’ हो कुल सिर सहेरउ ।
 ‘तेजल’ देवि मल्हार, हंस तणी परि हो सहगुरु अवतर्यउ ॥ ३ ॥
 ‘पाटण’ नयर प्रसिद्ध, श्री ‘जिनराजइ’ हो सई हथि थापीयउ ।
 संवेगी सिरदार, अधिकउ जाणी हो गुरु पद आपियउ ॥ ४ ॥
 मुख जिसउ पूनिमचंद, वाणि सुधारस हो निज मुख वरसतउ ।
 करतउ उग्र विहार, भव्य जोवानइ हो नित प्रतिबोधतउ ॥ ५ ॥
 ताहरी त्रिभुवन मांहि, मस्तक आणज हो मन सूधी धरइ ।
 युगवर वीर जिणन्द, तेह तणी परि हो उत्कृष्टी करइ ॥ ६ ॥
 (प्रण) मइ भवियण लोक, तुझ मुख देख्यां हो पाप सबे टल्या ।
 ‘राजविजय’ गुरु शिष्य, ‘रूपहर्ष’ भणि हो बंछित मुझ फल्या ॥ ७ ॥

(२) रागः—ढाल—नायकारो

श्री गच्छ नायक सेवियइ रे, ‘श्री जिनरतन’ सूरिंद रे । सुगुरुजी ।
 पूज्य नइ वधावउ मोतिया रे लाल, आणी मन आणंद रे । सुगुरुजी ॥ १ ॥

आवड तुम्ह इण देस मइ रे लाल० । आ० ।
 'लूणिया' वंसइ लखपती रे, तिलोकसी' साह मल्हार रे ।सु०
 'तारादे' उरि हंसलउ रे लाल, कामगवी अनुहार रे । सु० ।२। आ०।
 श्री 'जिनराज सूरीसरइ' रे, सईहथ दीधउ पाट रे । स० ।
 चड वखती वइरागीयउ रे लाल, कलि गौतम नउ घाट रे ।स०।३।आ०।
 शीलइ करि थूलभद्र समउ रे, रूपइ वइर कुमार रे ।स०।
 पालइ पंच महाव्रतू रे लाल, लोभ तउ नहीय लिंगार रे ।स०।४।आ०।
 वाणी सुधारस वरसतउ रे, सजल जलद अनुहार रे । स० ।
 आगम सूत्र अरथ भरयउ रे लाल, श्री खरतर गणधार रे ।स०।५।आ०।
 श्री संघ हरष अछइ घणउ रे, वंदिवा तुम्हारा पाय रे । स० ।
 तुझ मुख कमल निहालिवा रे लाल, चाह धरइ राणाराय रे ।स०।६।
 'जिनराज' पाटइ चिर जयउ रे, सूहव छइ आसीस रे । स० ।
 'खेमहरष' मुनि इम भणइ रे, लाल जीवउ कोडि वरीस रे ।स०।७।आ०।

(३) रागः—मल्हार, ढाल व दलो री

'श्री जिनरतन' सूरिंदा, दीपइ मुख पूनिम चंदा । सहगुरु वंदउ वे ।१।
 'लूणिया' वंस विराजइ, दिन २ ए अधिक दिवाजइ । स० । २ ।
 'पाटण' मइ पद पायउ, सब श्रावक जन मन भायउ । स० । ३ ।
 'तिलोकसी' शाह मल्हारा, 'तारा दे' उरि अवतारा । स० । ४ ।
 गुणे गौतम गणधारा, गुरु रूपइ वइरकुमारा । स० । ५ ।
 शीलइ तउ थूलभद्र सोहइ, छत्रीस गुणे मन मोहइ । स० । ६ ।
 आगम अरथ भंडारा, जिण शासण मइ सिणगारा । स० । ७ ।

वाणी सुधारस वरसइ, सुणिवा कुं जन मन नरसइ । स० । ८ ।
 इम 'खेमहरष' गुण बोलइ, पूज्यजी के कोइ न तोलइ । स० । ९ ।
 (किरहोरमें श्राविका रजी पठनार्थ कविके स्वयं लिखित पत्र ३ संग्रहमें)

(४) ढाल—पोपट पंखियानी

सुण रे पंथिया कव आवइ गच्छराज, सफल विहाणउ आज ।

सरिया वंछित काज, भेट्या श्री गच्छराज ।

सुणि रे पंथिया कव (आवइ) गच्छराज । आंकणी ।

उभी जोवूं वाटडी, आइ कहइ कोई सुइइ ।

सोवन जीभ वधामणी, देसुं पंथो हो तुइ । १ । सु० ।

सुमति गुपति धरता थका, पालइ शुद्ध आचार ।

किरिया आचरता थका, साथइ बहु अणगार । २ । सु० ।

'लूणीया गोत्रइ दीपता, साह तिलोकसी जाणि ।

'तारादे' जननी भञ्जी, सुन जनम्या गुग खानि । ३ । सु० ।

भावइ संजम आदर्यउ, जननी सुत सुखकाजि ।

जिणवर भाषित मारगइ, दीख्या आ 'जिनराज' । ४ । सु० ।

संवत 'सतरहिसइ' भलइ, मास 'आषाढ' प्रमाण ।

श्री 'जिनराजइ' थापिया, सुकलइ 'सप्तमि' जाणि । ५ । सु० ।

गामागर पुर विहरता, जलवर नी परि जाणि ।

भवियण नइ पडिबोधता, भेटउ ऊगत भाण । ६ । सु० ।

'कनकसिंह' गणिवर कहइ, दिन दिन थुं आसीस ।

श्री जिनरतन सुरिंइजी, प्रतपउ कोडि वरीस । ७ । सु० ।

इति श्री गुरु गीतम् (पत्र १ हमारे संग्रहमें तत्कालीन लि०)

॥ जिन रत्नसूरि पट्टधर जिनचन्द्रसूरि गीतानि ॥

(१)

‘श्री जिनचन्द्र सूरिसरू’ रे, गच्छ नायक गुण जाण रे । सोभागी ।
महियल मई महिमा घणी रे लाल, जाणइ राणो राण रे सो०॥१॥श्री०
सुन्दर रूप सुहामणो रे, बखतावर वड़ भाग रे । सो० ।

‘बार वरस’ नइ ऊपनउ रे लाल, लघुवइ मनि वइ राग रे सो०॥२॥श्री
श्री ‘जिनरत्न’ सूरिसर आपियउ रे, सई हथ संयम भार रे ॥सो०॥
श्री संघइ उच्छव क्रियउ रे लाल, ‘जेसलमेर’ मझार रे सो० ॥३॥श्री
गौतम जिम गुण गहगदइ रे, साइ ‘सहस्रमल’ नन्द रे । सो० ।

‘गणधर गौतइ’ गुग निलो रे लाल, दरसण परमानन्द रे । सो॥४॥श्री
श्री ‘जिनरत्न सूरिसरइ’ रे, दीधउ अविचल पाट रे । सो० ।

वधतइ वरस ‘अठार’ मइ रे लाल, सेवइ मुनिवर थाट रे ।सो॥५॥श्री
‘सिन्दूर दे’ सुत चिर जयउ रे लाल, गच्छ खरतर सिणगार रे ।सो०
शीतल चन्द तणी परइ रे लाल, संवेगो सिरदार रे । सो० ॥६॥श्री०
श्री ‘जिनरत्न’ पटोथरू रे, सहुनो पूरइ आस रे । सो० ।

धर मन हर्ष ऊमाहलउ रे लाल, पभगइ ‘त्रिद्याविलास’ रे ।सो०॥७॥श्री

॥ इति श्री वर्तमान श्री जिनचन्द्र सूरि गीतम् ॥

॥ साध्वी रत्नमाला वाचनार्थम् ॥

(२)

श्री‘जिनचन्द्र’ सूरिश्वर वंदीयई रे, गरूयउ गळपति गुणमणि गेह रे ।
मोहनगारी मूरति ताहरी रे, घडोय विधाता सईंहथि एह रे । १॥श्री०
वदनि कमल सरसति वासउ कीयो रे,

अड सिद्धि आवि रही जसु हाथि रे ।

कर दाहिण सिर थापइ जेहनइ रे, ते नर पामइ वंछित आधि रे ।२।श्री०
 ईति उपद्रव को न हुवइ किहां रे, जिहां किणि विचरइ श्री गछराज रे ।
 धरि २ मंगल होवइ नवनवा रे, जावइ भावठि सगली भाज रे ।३।श्री०
 धन-धन आवक नइ वलि आविका रे, भावइ आवि सुणइ उपदेस रे ।
 पामी धरमलाभ गुरु आसिकारे, शता सुखनउ जाणि निवेस रे ।४।श्री०
 जोतां नयणे बीजा गच्छपति रे, ते नावइ जुगवर ताहरी जोडि रे ।
 खजूया कोडि मिलई जउ एकठारे, तउकिम थायइ सूरिज होडि रे ।५।श्री०
 श्री'जिनरतन' आदेसइ आविया रे, रंगइ 'राजनगर' चउमास रे ।
 वयणे* सगुरु तणे पदवी लही रे, चिहु दिशि प्रगट्यउ पुण्य प्रकाश रे ।६।
 'नाहटा' वंशइ 'जइमल' 'तेजसी' रे, देव गुरु भगती माता तास रे ।
 हरखई 'कसतूरां' उछव करी रे, शोभा वधारी जगमई खास रे ।७।श्री०
 कुल उजवालक 'गणधर' गोतमइ रे, 'सहस करण' सुपीयार दे' नंद रे ।
 सुप्रसन्न हुइ जोवइ जिण सामुंहउ रे, तेहना जावइ दोहग दंद रे ।८।
 धू शशि गिर अविचल जालंगइ रे, तां लगि प्रतपउ गच्छाधीश रे ।
 वाचक'रूपहरष'सुपसाउले रे, 'हरषचन्द्र' पभणइ अधिक जगीस रे ।९।

इति श्री गुरु गीतम् (सं० १७३० आसू वदि ८ बीकानेरे लि०
 पत्र २ हमारे संग्रहमें)

(३)

जीहो पंथी कहि संदेसडउ, जीहो पूज्यजी नइ पाइ लागि । जीहो० ।
 गुरु दरसन तू देखतां जीहो, जागस्यइ तुरा भागि । १ ।

*मानजीकृत गीतमें भी

सहमुख (इ)श्रीपूजजी रे, अमृत एहवी वाणि ।

पाटइ एहनउ थापज्यो रे, करेज्यो वचन प्रमाण । ४ । मे० ।

चतुर नर वंदु श्री 'जिनचन्द्र'
 जीहो अमृत आवणी देस ना , जीहो सांभलता दुख जाय ।
 जीहो तिण कारणि तूं जाई नइ.जीहो करेज्यो वचन प्रमाण ।२।जी०।
 वचन प्रमाण कीधा हुंता जी, घर माहि नवि निधि थाइ । जी० ।
 गुरु प्रणम्यां सुख संपजइ, जीहो कुमति कदाग्रह जाइ । ३ । जी० ।
 'वीकानयरइ' जाणीयइ रे, जी० बहु रिधिनउ भंडार । जी० ।
 तिणगाम मांहि दीपतउ जी, 'सहसकरण' सुखकार । ४ । जी० ।
 'राजलदे' कुखि उपनउ जी हो, नामइ 'श्री जिनचन्द्र' । जीहो ।
 वइरागि तिणि व्रत लीयउ, मनि धरि अधिक आणंद । ५ । जी० ।
 विद्या सुरगुरु सारिखउ जी हो, रूपइ वइरकुमार ।
 श्री 'जिनरत्न' पाटइ सही, बहु सुखनउ दातार । ६ । व० । जी० ।
 चिर जीवउ गळ राजीयउ, खरतर गळ नउ इन्द्र । जी० ।
 पण्डित 'करमसी' इम कहइ जी, प्रतपउ जां रवि चन्द्र । ७ ।

(४)

सुगुरु बधावउ सृहव मोतियां, श्री 'जिणचंद' मुणिन्द ।
 सकल कला करि शोभता, जाण कि पूनम चन्द ॥ १ ॥ सु० ॥
 लघु वय संयम जिण लीयउ, सूत्र अरथ नउ जाण ।
 पूज पद पायउ जिण परगडउ, पूरव पुण्य प्रमाण ॥ २ ॥ सु० ॥
 'श्री जिनरत्न सूरि' सइ हथइं, श्री संघ तणइ समक्ष ।
 पाटइ थाप्या हे प्रेम सुं, मति मन्त जाणि नइ मुख्य ॥ ३ ॥ सु० ॥
 'चोपडा' वंशइ चिर जयउ, 'सदिसू' शाह सुतन ।
 मात 'सुपियारे' जनमियउ, सहुको कहइ धन धन्न ॥ ४ ॥ सु० ॥
 श्री 'जिन कुशल सूरि' सानिधइ प्रतिपउ कोडि बरीस ।
 बधतइ दावइ गुरु बयो, 'कल्याणहर्ष' दइ आशीस ॥ ५ ॥ सु० ॥

(५)

पंचनदी साधन कवित्त

उछलती जल अकल बोल, कल्लोल छिलंती ।
 बलती बलती बेल झाग अत्थाग झिलंती ।
 भमरेटे भयभीत भभकती तटे भिडंती ।
 पडती जुडती पवन ज अनम जड ऊर्थेडती ।
 जप जाप आप परताप जप, सुरि मंत्र सानिध सबल ।
 'जिनरतन' पाट 'जिगचन्द्र' जुगत, 'पंच नदी' साधी प्रबल । १ ।
 ॥ कवित्त पंचनदी साधी तिण समय रो (१८ वीं शताब्दी लि०)

वाचक अमरविजय गुण वर्णन कवित्त

साच शील संतोष, साधु लछन सकजाई ।
 बरषत अमृत बचन, विपुल विद्या वरदाई ।
 'उदयतिलक' गुरु आप, हरष सुं दीयो बोध हित ।
 पुन्य थान निज परसि, चौपडै कीयो विमल चित्त ।
 सज्जन सुभाव सुख सुं सदा, शास्त्र हेत बूझे सकल ।
 वाचक वदां वखतैत वर, 'अमरसिंह' तुझ यश अचल ॥१॥
 (जयचन्द्रजी के भण्डारस्थ उपरोक्त पत्र से)

जिन सुखसूरि गीतम्

—**—

(१)

ढालः—रसोयानी

सहु मिलि सूहव आवउ मन रली, गावौ गुरु गच्छराय । सोभागी० ।
 विधि सुं वंदौ 'जिनसुख सूरि' नइ, जसुं प्रणम्या सुख थाय ।सो०।१।स
 'बहरा' गोत्र विराजइ अति भला, 'रूपचंद्र' शाह मल्हार । सो० ।
 'रतनादे' माता उर ऊपनउ, खरतरगछ सिणगार ।२। सो० ।सहु०।
 श्री 'जिनचंद्र' सूरीसर सइंहथइ, थाप्या अविचल पाट । सो० ।
 'सूरत' विंदर श्री संघ नी साखइ, सुविहित मुनि जन थाट ।३।सो०।
 चारित लघुवय माहे आदरयउ, तप जप सुं बहु लीन । सो० ।
 आगम अरथ विचार समुद समउ, विद्या चउद प्रवीण ।४।सो०।।
 सोभागी गुण रागी अति घणुं, वड वखती गुण खाणि । सो० ।
 कठिन क्रिया सुविहित गछ साचवइ, मीठी अमृत वाणि ॥५।सो०।।
 सोम पणइ करि चंद्र सुहामणा, प्रतपइ तेज दिणंद । सो० ।
 रूप कला करि अधिक विराजतउ, मोहइ भवियण वृन्द ॥६।सो०।।
 सूरि गुणे छत्तीसे शोभता, वड वखती वड मान । सो० ।
 लोक महाजन माने वड वडा, राउ राणा सुलतान ॥७।सो०।सहु०।
 दिन २ वधतो दउलति सुं वधउ, कीरति देस प्रदेश । सो० ।
 सुजस चिहुं खंड चावउ विसतरउ, आण अधिक सुविशेष । ८ सहु०।

संघ मनोरथ पूरण सुरतरु, 'जिन सुखसूरि' महंत । सो० ।
 इणपरि 'सुमतिविमल' असीस वृद्ध, पूरवइ मननी रे खंति । ६सहु०॥
 ॥ इति श्री 'जिनसुख सूरि' गीतम्, श्राविका जगीजी वाचनार्थ ॥
 (तत्कालीन लि० पत्र २ हमारे संग्रहसे)

(२)

उदय थयो धन धन दिन आजनो, प्रगट्यउ पुण्य पडूरो जी ।
 बंधा आचारिज चढती कला, नामे 'जिनसुख सूरु' जी ॥३०॥१॥
 'सूरत' शहरे हो जिनचंद सूरिजी, आप्यो आपणो पाटो जी ।
 महोत्सव गाजै बाजै मांडिया, गीतांरा गहगाटो जी ॥ ३० ॥ २
 'पारिख' शाह भला पुण्यातमा, 'सामीदास' 'सुरदासोजी' ।
 पद ठवणो कीधो मन प्रेम सुं, वित्त खरच्या सुविलासो जी ॥३०॥३॥
 रूडी विध कीधा रातीजुगा, साहमी वत्सल सारो जी ।
 पट्टकूले कीधी पहिरामणी, सहु संघ नइ श्रीकारो जी ॥ ३० ॥ ४ ॥
 संवत 'सतरै बासठै' समै, उच्छव बहु 'आसाढो' जी ।
 'सुदि इग्यारस' पद महोत्सव सज्यो, चंद कला जस चाढो जी ।३५.
 'सहिंचो' 'बहुरा' जगि सलहिये, 'पीचो' नख परसंसो जी ।
 मात पिता 'रूपचंद' 'सरूपदे', तेहनइ कुल अवतंसो जी ॥ ३० ॥६॥
 प्रतपो एहु घणा जुग गच्छपति, श्री 'जिनसुख सुरिन्दो' जी ।
 ओ 'धरमसी' कहुं श्री संघ नइ, सदा अधिक करो आणंदो जी ।३०॥७

जिनसुखसूरि निर्वाण गीतम्

(३)

ढाल—झबूकडानी

सहीयां चालौ गुरु वांदिवा, सजि करि सोल सिंगार ।
सहेली भाव सुं केसर भरीय कचोलडी, महि मेली घनसार ।स०।१॥
‘सतरैसै असोयै’ समै, ‘जेठ किसन’ जग जाण ।स० ।
अणशण करि आराधना, पास्यौ पद निरवाण ।स० । २ ।
‘जिनचन्द सूरि’ पाटोधरू, ‘श्री जिनसुख सूरिन्द’ ।स० ।
दरसण दौलति संपजै, प्रणम्यां परमाणंद ।स० । ३ ।
पद थाप्यौ निज हाथ सुं, ‘श्री जिनभक्ति’ सूरीस ।स० ।
खरचै संघ धन खांति सुं, इह कहै आसीस ।स० । ४ ।
‘रिणी’ नगर रलीयामणो, श्रावक सहु विधि जाण ।स० ।
देस प्रदेशै दीपता, मन मोटै महिराण ।स० । ५ ।
थूंम तणी थिर थापना, मोटै करै महिराण ।स० ।
हरष घणै संघ हेतु सुं, आसत अधिकी आण ।स० । ६ ।
‘माह शुक्ल छट्ट’ नै दिनें, शुभ महरत सोमवार ।स० ।
‘श्री जिनभक्ति’ प्रतिष्ठिया, हरख्या सहू नर नार ।स० । ७ ।
सहीय सहेली सवि मिली, पहिर पटम्बर चीर ।स० ।
गुण गावौ गळराय ना, मेरु तणी परे धीर ।स० । ८ ।
नामै नवनिधि संपजै, आरती अलगी थाय ।स० ।
कर जोडी ‘वेलजी’ कहै, लुलि २ लागे पांय ॥ सहेली भाव सुं० ९ ॥

जिनभक्तिसूरि गीतम्

हालः—आषाढै भैरुं आवै ए देशी ।

‘जिनभक्ति’ जतीसर वंदौ, चढतो कळा दोपति चंदौ रे । जि० ।
 खरतर गच्छ नायक राजै, छत्रीस गुणे करि छाजै रे । १ । जि० ।
 ओ ‘जिणसुख सूरि’ सनाथै, दीधौ पद आपणें हाथे रे । जि० ।
 श्री ‘रिणीपुर’ संघ सवायौ, महोछव कीधो मन भायौ रे । २ जि० ।
 ‘सेठीया’ वंसै सुखदाई, श्री जिन धर्म सोभ सवाई रे । जि० ।
 ‘हरिचन्द्र’ पिता धर्मधीरौ, ‘हरिसुखदे’ उदरै हीरौ रे । ३ । जि० ।
 लघुवय जिण चारित लीधौ, सद्गुरु नै सुप्रसन्न कीधौ रे । जि० ।
 विद्या जसु हुइ वरदाइ, पुन्यै गुरु पदवो पाई रे । ४ । जि० ।
 प्रगट्यौ जश देस प्रदेसै, वरते आज्ञा सुविसेसै रे । जि० ।
 वांटै सहु देस बधाइ, खरतर गच्छपति सुखदाई । ५ । जि० ।
 संवत ‘सतरै उगुण्यासी, जेष्ट वदि त्रीज’ पुण्य प्रकासी रे । जि० ।
 सहु सुजस रिणी संघ साध्या, इम कहै ‘धर्मसी’ उपाध्या रे । ६ जि० ।



ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह



श्री जिनभक्तिसूरिजी

(बाबू विजय सिंहजी नाहरके सौजन्यसे)

॥वाचनाचार्य सुखसागर गीतम्॥

राग —कड़खारी

वाचनाचार्य 'सुखसागर' वंदियै,

सुगुण सोभाग जसु जगि सवायो ।

अङ्ग उच्छरङ्ग धरि नारि नर नित नमै,

कठिन किरिया करण इलि कहायो ॥ १ ॥ वा० ॥

पूज्य आदेश वलि 'शंभणो' वांदिवा,

नयरि 'खंभाइतै' अधिक सुख वास ।

संघ नी आण सुप्रमाण करि पडिकम्या,

चतुर चित चंग सूं चरम चौमास ॥२॥वा०॥

करिय चौमास अति खाश आणंद सूं,

निज वचन रंजव्या सकल नर नारी ।

ज्ञान परमाण निज आयु तुच्छ जाणिन,

साधु व्रत साचवइ वलिय संभारि ॥ ३ ॥ वा० ॥

प्रथम पोरसि अनै वलिय (सं० १७२५) 'मिगसर', तणी

'कसिण चवदस' अनै 'सोम' (शुभ) वार ।

ऊंचो चढूं एहवउ वयण मुख सुं कह्यो,

ऊंच गति जाणना एह आचार ॥ ४ ॥ वा० ॥

करिय अणसण अनै वलिय आराधना,

सकल जीव राशि शुभ चित खमावी ।

मन वचन काय ए त्रिकरण शुद्ध सुं,

भाव धरि भावना वार भावी ॥ ५ ॥ वा० ॥

एक मन भज्जन भगवंत नउ करतहिं,

सुणतहिं उत्तराध्ययन वाणि ।

सावचेत आप श्री संव वैठा थकां,

स्वर्ग गति लहिय पुण्यवन्त प्राणी ॥ ६ ॥ वा० ॥

वादियां गंजणो सकल जण रंजणो,

प्रगट घट ज्ञान बहु जाण पूरो ।

दुःख दालिद्र हरि सुख संपत्ति करइ,

सुप्रसन्न सेवकां हुइ सनूरो ॥ ७ ॥ वा० ॥

भाग बड़ भेटयइ राग मन लाइ नइ,

गाइ नइ सुगुण शोभा बड़ाई ।

कुंकमे केसर पूजतां पाटुका अधिक,

धरि ऋद्धि नव निद्धि आई ॥ ८ ॥ वा० ॥

संव सुखदाय मन लाय सुख सागरा,

नागरा नित नमइ शीस नामी ।

गणि 'समयहर्ष' नित सुगुरु गुण गावतां

सिद्धि नव निद्धि बहु वृद्धि पामी ॥ ९ ॥ वा० ॥

॥ इति गुरु गीतम् ॥



हीरकीर्ति परम्परा

॥ कवित्त ॥

‘पदमहेम’ गुरु प्रवर, सदा सेवक सुख आपै ।

‘दानराज’ दिल साच, सेवतां संकट कापै ॥

‘निलय सुन्दर’ वाचक सुगुरु, साहिव सुखकारी ।

‘हर्षराज’ गुणवन्त, ‘हीरकीरति’ हितकारी ॥

पांचे सुगुरु पांच मेरु सम, पंचानुत्तरनो परै ।

दीजियै सुख संतान रिद्धि, ‘राजलाभ’ वीनति करै ॥१॥

वाचक प्रवर ‘राम जो’, बड़ो मुनिवर वखतावर ।

नामै नवनिधि होइ, ‘राजहर्ष’ गुण आगर ॥

पण्डित चतुर प्रवीण, जुगति जाणन जोरावर ।

‘तिलक पद्म’ ‘दानराज,’ ‘हीरकीरति’ पाटोधर ॥

इम ऋद्ध वृद्धि आणंद करौ, सुख सन्तति द्यौ संपदा ।

‘राजलाभ’ कइ गुरु जी हुज्यो, सेवक नुं सुप्रसन्न सदा ॥२॥

॥ संवत् १७५० वर्षे मितो माघ सुदि ५ दिने ॥

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥




वा० हीरकीर्ति स्वर्गगमन गीतम्

श्री 'हीरकीरति' वाचक प्रणमो, सुर मणि सुरतरु सुरधेन समो ।
 अरियण दुख दोहग दूरि गमइ, धरि नवनिधि लिखमो रंग रमइ । १ ।
 सुख संपति दायक उपगारी, सेवक जन नइ सानिध कारी ।
 लब्धइ गुरु गोयम गणधारी, नित ध्यान धरू हुं बलिहारी । २ ।
 गुरु चरण करण बह्व व्रत पालइ, तप जप करि अशुभ करम टालइ ।
 पूरव मुनिवर मारग चालइ, निज देव सुगुरु मनि संभालइ । ३ ।
 श्री 'गोलबला' वंसइ दीपइ, तेजइ करि दिनकर नइ जोपइ ।
 महियल मंडल महिमा जागइ, सेवक लुलि पाये लागइ । ४ ।
 सिद्धंत अरथ गुण भंडार, छ(व) काय वल्ल प्रति हितकार ।
 सुमिती अजव मद्दव सार, मुत्ती संजम तप निरधार । ५ ।
 अणदीधउ न लीयइ साच बदइ, आर्किवन (दश) विध सील हवइ ।
 आहार तणा दूषण टालइ, वइतालीस सुद्धि क्रिया पालइ । ६ ।
 शाखा जगगुरु जिनचन्द्र तणइ, महिमा जस वास संसार थुणइ ।
 गणि 'दानराज' पाटै उदयो, वाचक वर 'हीरकीरति जयो' । ७ ।
 संवत 'सतरइ गुणतीस' समइ, रहिया चौमासउ अंत समय ।
 'आवण सुदि चउदस' जोधाणइ' ज्ञानइ करि आऊखो जाणइ । ८ ।
 चोरासी योनि खमावि सहू, लख पाप अठार आलोय बहू ।
 अपनै मुख अणशण आदरीयो, निज चित्तमें ध्यान धरम धरीयो । ९ ।
 नवकार महामंत्र संभाली, गति असुभ करम दूरे टाली ।
 अणशण पहर वि आराधी, सुह झांणइ सुर पदवी लाधी । १० ।

सत्वरइ 'गुणतीसइ' 'माइ' मासइ, 'तेरस' दिवसइ मन उल्हासइ ।
 'वदि' महुरत शशि सुभ वार, पगला 'थाप्या' जयजय कार । ११ ।
 श्री 'पदमहेम' वाचक प्रवरू, श्री 'दानराज' सोहाग करू ।
 श्री 'निलयसुंदर' 'हरषराज' मुदा, प्रणमो श्री 'हीरकीरति' सदा । १२ ।
 पांचै गुरुना पगला सोहइ, (पंच) परमेसर जिम मन मोहै ।
 समर्यां सेवक दरसण दीजै, सुख संतति उदै उन्नति कीजै । १३ ।
 पांचे गुरुगा पूज्यां ! पगला, दुख आरति रोग ! टलइ सगला ।
 घरि वड्ढां आइ मिलइ कमला, गुरु तूठां थोक सहू सवला । १४ ।
 पय पूजो गुरु हिय भाव करो, केसर चन्दन सु चित्त धरी ।
 सदगुरु सुपसायइ रंगरली, लहे पुत्र कलत्र समृद्ध वली । १५ ।
 दिन दिन आणंद सुमति दाता, गुरु चरणै अहनिस जे राता ।
 मनवंछित पूरण कामगवो, सेवक सुखदायक अधिक छवी । १६ ।
 साचउ साहिव तुंहिज मेरो, हुं खिजमतगार भगत तेरो ।
 सुपसायइ गुरु नव निह संप(ज)इ, गणि 'राजलाभ' सेवक जंपइ । १७ ।
 ॥ इति श्री ॥



उपा० भावप्रमोद स्वर्गगमन गीतम्



नं० १

जिसौ भाव जोगी जती जोग तत्त जांगतौ, वैण वखाणतौ अमृत वाणि ।
साझीयौ तिसौ अबसाण २ सिव, जंपै अरिहंति मनि अंति जाणी॥१॥
व्याकरण तर्क सिद्धंत वेदन्त री, जीह वदतौ सदा भेद जुओ ।
भाव शिष 'भाव परमोद' चो भाव सुद्ध,

हुं तौ आछौ तिसौ मरण हुआ ॥२॥

गल्लै चोरासीये न छै कोइ ईयै गुणि, अबण सुनीयो न को एम सीधो ।
(भावपरमोद) जिम मुखा भगवंत भणै,

लीयां जस लाह स्वर्गलोक लीयो ॥३॥

वरसि 'जुग वेद मुनि इंद १७४४ 'गुरु' 'माह वदि',

बात अखियात जुग सात वचिसी ।

बड पाठक तणी घणी महिमा वसु,

रात दिन बडा कवि पात रचिसी ॥४॥

नं० २ कडखामें

विरदे वखाणी जै जी 'भावपरमोद' कुल रो भाण ।

जग मांहि जाणिजै जी, परधान पुरुष प्रमाण । टेक

परधान सुजस निधान प्रगडउ, वाधतै मुखि वान ।

असमान मानं गुमानं अमली, मांण दीयण सु दांन ।

ऊतथां नाथणा नडण अनडां, पूजतै निज प्रांण ।

दीपतो सरव गुण जाण दीपै, खरतरै दीवांण ॥१॥वि०॥

व्याकरण वेद पुराण वदतौ, सकल जैन सिद्धन्त ।
 ब्रह्मज्ञान आतम धरम वित्त, उपधान जोग विधन्त ।
 आगम पेंतालीस अरथे, कथे कांइ न कांण ।
 पाठक पदवी धार पृथि(वि) में, एहवै अहिनाण ॥ २ ॥ वि० ॥
 थूलभद्र नारद जिसौ धीरम, सील सत्त सरूप ।
 'जिनरतन' सूरि पडूरि जैनु, इखै वुद्धि अनूप ।
 तिम 'चंद' रै पिण छंदि चलतौ, वडिम आगेवाण ॥
 पाट पति छत्रपति पाव पूजै, रीझवै रावराण ॥ ३ ॥ वि० ॥
 'जिनराज सूरि' जिहाज जिन धरम, भट्टारक मुनिभूप ।
 शिष्य तास 'भावविजै' समो भ्रम, गच्छ चोरासी रूप ।
 'भाव विनय' तिणरै पाट भणिजै, वडिम गुग वखांण ।
 एतलां वंस राजहंस ओपम, सलहिजै सुविहाण ॥ ४ ॥ वि० ॥
 बांचतो वाणि वखांणि अविरल, अमृत धारा एम ।
 नव नवा नव रस वचन निरुपम, जलहरां ध्वनि जेम ।
 जस सुजस पंकज वास पसरि, प्रथी रै परिमाण ।
 रवि चंद्र नै ध्रू(व) मेरु रहिसी, सुजस रा सहिनाण ॥ ५ ॥ वि० ॥
 जिण बाल वय ब्रह्म चारु चारित्र, लीयो जती व्रत योग ।
 वय तरुण पण मन में न वंछया, भला वंछित भोग ।
 तत पंच सावत नेम जत सत, वाच रुद्र ब्रह्मांण ।
 मुकीयो नहीं अरिहंत मुख हूं, अंत रै अवसाण ॥ ६ ॥ वि० ॥
 आराधना सीधंत उचरे, शुद्ध सरणा च्यार ।
 ननि क्रोध कपट मिथ्यातमूके, लोभ नहींय लिगार ।

नहीं कोइ बैर विरोध किणसुं, मोह नहीं अतिमाण ।
 परलोक इंद्रापुरि पहोतो, पचखि भव. (पच)खाण ॥ ७ ॥ वि० ॥
 संवत 'सतरैसे चमाले', 'माह वदि' गुरुवार ।
 'पंचमि' तिथ वलि पहुर पिछलै, सीख मति करि सार ।
 भरि वीख लांबो चरम भव चवी, देवता जिम डाण ।
 तप जप चै परताप पर-भवि, पहुंचस्यै निरवाण ॥ ८ ॥ वि० ॥
 इति श्री भावप्रमोदोपाध्यायनामंत्यावस्थायामुपरि अष्टकं संपूर्ण ।
 (कृपाचंद्र सूरि ज्ञान भंडारस्थ गुटकेसे)

❀ जैनयती गुण वर्णन ❀

केइ तो समस्त न्याय ग्रन्थमें दुरस्त देखे,
 फारसीमें रस्त गुस्त पूजै छत्रपती है ।
 किस्त करै तपकी प्रशस्त धरै योग ध्यान,
 हस्त कै विलोकवै कुं सामुद्रिक मती है ।
 पूज कै गृहस्तके वस्त्रके जु प्राहक हैं,
 चुस्त है कलामें, हस्त करामात छती है ।
 'खेतसो' कहत षट्दर्शनमें खबरदार,
 जैनमें जबर्दस्त ऐसे मस्त 'जती' हैं ।

(१८ वीं शताब्दी लि० पत्र जय० भं०)

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

कविदास (जैनदास) की हस्तलिपि

(कविदास स्वयं लिखित जैनदास के
संग्रहकी प्रतिका संभव रूप)

कविवर जिनहर्ष गीतम् ।



॥ दोहा ॥

सरसति चरण नमी करी, गास्युं श्री ऋषिराय ।
 श्री 'जिनहर्ष' मोटो यति, समय अनुसार कहिवाय ॥१॥
 मंद मतौने जे थयो, उपगारी सिरदार ।
 सरस जोडिकला करी, कर्यो ज्ञान विस्तार ॥२॥
 उपगारी जगि एहवा, गुणवंता व्रत धार ।
 तेहना गुण गातां थकां, हुइ सफल अवतार ॥३॥

वाडी ते गुडां गामनी ॥ देशी ॥

श्री जिनहर्ष मुनीश्वर गाईये, पाईये वंछित सीद्ध ।
 दुसम काल मांहिं पणि दीपती, किरिया शुद्धी कीध ॥१॥ श्रीजि० ॥
 शुद्ध क्रिया मारग अभ्यासता, तजता मायारे मोस ।
 रोस धरइ नही केहस्युं मुनीवरू, सुंदरं चित्तइं नही सोस
 ॥२॥श्रीजि०॥

पंच महाव्रत पालै प्रेमस्युं, न धरै द्वेष न राग ।
 कपट लपेट चपेटा परिहरइ, निरमल मन मैं वइराग ॥३॥श्री॥
 सरल गुणै दूरिं हठ जेहनें, ज्ञाने शठता (र) दूरि ।
 ममता मान नही मनि जेहने, समता साधु नुं नूर ॥४॥श्री॥

मंदमती नें शास्त्र वंचावता, आपता ज्ञान नो पंथ ।
 जोडिक्कला मांहि मन राखतो, निरलोभी निग्रंथ ॥५॥श्री॥
 शत्रुंजयमहातम आदि भला, तेहना कीधा रे रास ।
 जिन स्तुति छंद छप्पया चउपई, कीधा भल भला भास ॥६॥श्री॥
 निज शक्ति इम ज्ञान विस्तारीयुं, अप्रमत्त गुणना निवास ।
 ईर्या सुमति सुनिवर चालता, भाषासुमति स्युं भाष ॥७॥श्री॥
 एषणासुमति आहारइं चित्त धर्युं, नही किहांइं प्रतिबंध ।
 निरीह पणै मन लूखू जेहनुं, नही को कलेशनो धंध ॥८॥श्री॥
 गच्छनो ममत्व नही पण जेहनें, रुडा निस्पृह वंत ।
 शांतो दांत गुणे अलंकरु, शोभागी सत्यवंत ॥९॥श्री॥

(२)

श्रीजिनहरष मुनीश्वर वंदीइ, गीतारथ गुणवंत ।
 गच्छ चुरासीइं जाणइ जेहने, मानइं सहु जन संत ॥१॥
 पंचाचार आचारइं चालता, नत्र विध ब्रह्मचर्यधार ।
 आवश्यकदिक करणी उद्यमइं, करता शक्ति विस्तारि ॥२॥
 आज कालिनारे कपटी थया, मांडी डाक डमाल ।
 निज पर आतमने धूतारता, एहवो न धरयोरे चाल ॥३॥
 आज तो ज्ञान अभ्यास अधिकलै, किरिया तिहां अणगार ।
 ते 'जिनहरष' मांहि गुण पामीइ, निंदै तेह गमार ॥४॥
 आप मती अज्ञान क्रिया करी, त्रा(द?)डूकइ जिम सांड ।
 हुं गीतारथ इम मुख भाखता, खुलनुं थाइरे षांड ॥५॥

कामिनि कांचन तजवां सोहिलां, सोहलुं तजवुं गेह ।
 पणि जन अनुवृत्ति तजवी दोहली, 'जिनहरषई' तजी तेह ॥६॥
 श्रीसाहायिक पणि सुभ आवी मलया, श्री'वृद्धिविजय' अणगार ।
 व्याधि उपन्नइरे सेवा बहु करी, पूरण पुण्य अवतार ॥७॥
 आराधना करावइ साधुनै, जिन आज्ञा परमाण ।
 लख चुरासीरे योनि जीव मावतां, ध्याता रूडुंख ध्यान ॥८॥
 पंच परमेष्ठीरे चित्तइ ध्याइतां, गया स्वर्गे मुनिराय ।
 मांडवी कीधोरे रूडी आवके, निहरण काम कराय ॥९॥
 'पाटण' मांहिरे धन ए मुनिवरुं, विचर्या काल विशेष ।
 अखंडपणै व्रत अंत समइ ताइं, धरता सुभ मति रेख ॥१०॥
 धन 'जिनहरप' नाम सुहामगु, धन २ ए मुनिराय ।
 नाम सुहावइ निस्पृह साधनुं, 'कवीयग' इम गुणगाय ॥११॥



* कवियण कृत *

देव विलास ।

(देवचंद्रजी महाराजनो रास)

सुकृत प्रेमराज्ञी वने,—प्रोलासन चिद्दहंस ;
 ते तेम रि(हृ?)दये अक्षता, 'आदिनाथ अवतंस ॥ १ ॥
 'कुरु' देशे करुणानिधि, उत्पन्न 'श्रीजिनशान्ति',
 शान्ति थइ सवि जनपदे, कार्तस्वर जस कान्ति ॥ २ ॥
 ब्रह्मचारोच्चूडामणि, योगीश्वरमें चंद ,
 तारक राजुलनारिनो, प्रणमुं 'नेमिजिणंद' ॥ ३ ॥
 यशनामिक कृत्य ताहरुं, पुरीसादाणी विरुद,
 वामाकुल वडभागीयो, 'पारसनाथ' मरह ॥ ४ ॥
 जिनशासननो भूपति, 'वद्धमान' जिनभाण,
 दूषम पंचम आरके, सकल प्रवर्त्ते आण ॥ ५ ॥
 पंच परमेष्ठि जिनवरा, प्रणमु हुं द्विणकाल,
 अन्य एकोनविंशति जिना, तस प्रणमुं सुविशाल ॥ ६ ॥
 सरसती व(र)सती मुखकजे, 'माघ' कविने साध्य,
 'कालिदास' मूरख प्रते, कीयो कवि कीधा पद्य ॥ ७ ॥
 'मल्लवादी' तुज सांनिधे, जीत्या बौद्ध अनेक,
 तुज दरिसणे पद लब्धिनी, उत्पन्न थइ विवेक ॥ ८ ॥

तिम माताना सहाय्यथी, गाजी मर्द 'देवचंद्र',
 'देवविलास' रचुं भलुं, खरतरगच्छे दिणंद ॥ ६ ॥
 कोइ देवाणुप्रिय कहे, ए स्तवना करे किम,
 स्या ? गुण जोइ वरणवे, श्युं? बोले जिम तिम ॥ १० ॥
 पंचमकाले 'देवचंद्र' ना, गुण दाखिवनें यत्र,
 यथार्थपणे (कहो) मुज प्रते, तो सत्य मानु अत्र ॥ ११ ॥
 सांभलि मूढशिरोमणि, अछता गुण कहे जेह,
 प्रशंस किम कोविद करे, गुण कहुं सांभलि तेह ॥ १२ ॥
 पंचमकाले 'देवचंद्रजी', गंधहस्ति जे तुल्य,
 प्रभावक श्रीवीरनो, थयो अधुना बहुमूल्य ॥ १३ ॥
 रत्नाकरसिंधु सदृश, चतुर्विध संघ जिन भूप,
 कही गया ते सत्य छे, सांभल तास रुरूप ॥ १४ ॥

ढाल—कपुर होये अति उजलुंरे ए देशी ।

श्री देवचंद्रजीना गुण कहुरे, सांभल ! चतुर सुजाण ।
 घटता गुणनी प्ररूपणारे, कहेवाने सावधानरे ।
 भविका सांभलो मूकी प्रसाद । टक । ॥ १ ॥
 प्रथम गुणे सत्य जल्पनारे१, बीजे गुणे बुद्धिमान ।
 त्रीजे गुणे ज्ञानवंततारे३, चोथे शास्त्रमें ध्यानरे ४ । भविका० सां० । २ ।
 पंचम गुणे निःकपटतारे५, गुण छठे नही क्रोध६ ।
 संजल नो ते जांणीयेरे, नही अनंता नी योधरे । भवि० ॥ सां० ॥ ३ ॥
 अहंकार नही गुण सातमेरे, ७ आठमे सूत्रनी व्यक्ति ८ ।
 जीवद्रव्यनी प्ररूपणारे, जाणे तेहनी युक्तिरे ॥ भ० ॥ सां० ॥ ४ ॥

सकल आगम हृदये रम्यारे, तेहना भांगा जेह ।
 'कर्मग्रंथ' 'कम्मपयडी' ना रे, स्वप्नमां अर्थना नेहरे । भ०।सां० ५ ।
 नवमें सकल ते शास्त्रना रे, ६ पारंगामी पृज्य ।
 अलंकार कौमुदी भाष्यजेरे, अष्टादश कोश ना गुह्यरे । भ०।सां० ।६।
 सकल भाषामें प्रवीणतारे, पिंगल कृत शेष नाग ।
 काव्यादिक नैषध भलां रे, स्वरोदय शास्त्रे अथाग रे । भ० । सां० ।७।
 जोतिष सिद्धान्त शिरोमणि रे, न्यायशास्त्रे प्रवीण ।
 साहित्य शास्त्रे सुरतरु रे, स्वपरशास्त्रे लीण रे । भ० । सां० ।८।
 दशमे गुणे दानेश्वरी रे, १० दीनने करे उपगार ।
 एकादशे विद्यातणी रे, ११ दानशालानो प्यार रे । भ० । सां० । ९ ।
 गळ चोरासी मुनिवरु रे, लेवा आवे विद्यादान ।
 नाकारो नही मुखथकी रे, नय उपनां विधान रे । भ० । सां० । १० ।
 अपर मिथ्यात्वी जीवडारे, तेहनी विद्यानो पोस ।
 अपूर्व शास्त्रनी वाचना रे, देतां न करे सोस रे । भ० । सां० । ११ ।
 विद्यादानथी अधिकता रे, नही कोइ अवर ते दान ।
 न करे प्रमाद भणावतां रे, व्यसन ना नही तोफान रे । भ० ।सां०।१२।
 पुस्तक संचय द्वादश गुणे रे, १२ जीर्णने करे नूतन ।
 स्वगणमें अपर गणे रे, प्रतिष्ठाधारक जन रे । भ० । सां० । १३ ।
 वाचक पदवी त्रयोदश गुणे रे, १३ चौदमे वादीजीत, १४
 पनरमे जेहना उपदेशथीरे, १५ चैत्यनूत(न)नो प्रीति । भ०। सां० ।१४।
 सोलमे वचनातिशयथो रे, १६ द्रव्य (ख)रचाव्यो धर्मथान ।
 सप्तदशे राजेन्द्र पाय नम्यो रे, आज्ञा माने प्रधानरे । भ० । सां० ।१५।

मारि उपद्रव टालीओ रे, अष्टादशे गुणे जेह १८
 देश देशे गुण कीर्त्तिनी रे, प्रवर्त्त विख्यातनुं गेह रे । भ० सां० १६ ।
 एकोनविंशति गुणगणे रे, आजानवाहु देवचंद्र १६ ।
 क्रिया उद्धार वीसमे गुणे रे, अवधि जाणे सुरेन्द्र रे । भ० सां० १७ ।
 जिम शेषनागने शिरमणि रे, तेहना गुण छे अनन्त ।
 तिम देवचंद्र मणि मंजुरे, (मस्तकेरे) एकवीस गुण महंत रे । भ० सां० १८ ।
 प्रभाविक पुरुष आगे थयारे, अधुना तेहने तुल्य ।
 ए गुण वावीस स्थूलतारे, सूक्ष्म गुण बहुमूल्य रे । भ० सां० १९ ।
 पढम ढाल ए गुणतणी रे, कवियणे भाखी जेह ।
 अल्पभवी हस्ये ते सहहेरे, एहवा पुरिस थोडा जगरेहरे । भ० सां० २० ।

दुहा—

प्रथल ढाल ए गुणतणी, कवियण भाखी जेह,
 विपक्षीने जाणवा, मनमें जाणे तेह । ॥ १ ॥
 गुणतो सर्वत्र प्रगट छे, देश विदेश विख्यात ,
 कवियणनी अधिकाइता, स्युं ? एहमे छे वात । ॥ २ ॥
 कवियण कहे एक जीभतें, किम गुणवर्णन जाय,
 सागरमें पाणी घणो, गागरमें (न) समाय ॥ ३ ॥
 वला कोइ भवि पुलस्ये, कवण ज्ञाति कुण जाति,
 मातपिता किहां एहनां, ते संभलावो भांति ॥ ४ ॥
 देश किहां किहां जन्मभू, कुंण गुरुना ए शिष्य,
 कुण श्रीपूज्य वारे हुवा, भलो उलटे लीधि दीक्ष ॥ ५ ॥

विद्याविशारद किहां थया, किम सरस्वती प्रसन्न,

किहां साधना कीधी भली, सुणतां चित्त प्रसन्न ॥ ६ ॥

देवचन्द्रना वचनथो, किम खरचाणो द्रव्य,

किम भूपति पाये नभ्या, ते विरतंत कहु भव्य ॥ ७ ॥

सर्व गुण गणनी वारता, भाषे कवियण जेह,

सांभलजो भविजन तुमे, पावन थाये देह ॥ ८ ॥

देशी हमीरानी ।

थाली आकारे थिर भलो, जंबुद्वीप विदीत । विवेकी ।

तेह में भरतक्षेत्र रम्यता, आरज देश सुप्रतीत ॥ वि० ॥ १ ॥

भवियण भाव धरो सुणो ॥ वि० ॥

मरुस्थल देश तिहां सुन्द्ररु, तेह में 'विकानेर' द्रंग ॥ वि० ॥

तेहने निकट एक रम्यता, ग्राम अछे सुभ चंग ॥ वि० ॥ २ ॥ था० ॥

रिद्धिवंत महाजन घणा, रिद्धेकरी समृद्ध; ॥ वि० ॥

अमारोशब्दनी घोषणा, सुखीआ जन सुबुद्धि ॥ वि० ॥ ३ ॥ था० ॥

'ओशवंशे' ज्ञाति जाणीये, 'लुंणीयो' गोत्र सुजात ॥ वि० ॥

साह श्री 'तुलसीदासनी', धर्मबुद्धि विख्यात ॥ वि० ॥ ४ ॥ था० ॥

'तुलसीदास' नी भार्या, 'धनबाइ' पुन्यवंत । विवेकी ।

शील आचारे सोभती, सत्यवक्ता क्षमावंत ॥ वि० ॥ ५ ॥ था० ॥

यथाशक्ति क्रय विक्रयता, व्यवहारनुं जे धाम ॥ वि० ॥

दम्पती प्रीतिपरम्परा, धर्म खरचे दाम ॥ वि० ॥ ६ ॥ था० ॥

सुविहितगच्छमें जामली, वाचकमें शिरदार ॥ वि० ॥

वाचक 'राजसागर' सुधी, जैन काजी मनोहार ॥ वि० ॥ ७ ॥ था० ॥

अनुक्रमे गुरु तिहां आवीया, वांदावा दम्पति ताम ॥ वि० ॥
 'धनवाइ' श्री गुरुने कहे, सुगो गुरु सुगुणतुं धाम ॥ वि० ॥ ८ ॥ था० ॥
 पुत्र हस्ये जेह माहरे, वोहरावीस धरी भाव ॥ वि० ॥
 यथार्थ वयण नी जल्पता, सुगुरुये जाण्यो प्रस्ताव ॥ वि० ॥ ६ ॥ था० ॥
 विहार करे गुरु तिहां थकी, गर्भ वधे दिन दिन ॥ वि० ॥
 शुभयोगे शुभमुहूर्ते, सुपन लह्युं एक दिन ॥ वि० ॥ १० ॥ था० ॥
 शय्यामें सुतां थकां, किंचित् जागृत निंद ॥ वि० ॥
 मेरु पर्वत उपरे, मिली चौसठ इन्द्र ॥ वि० ॥
 जिन पडिमानो ओछव करे, मिलीया देव ना वृन्द ॥ वि० ॥ ११ ॥ था० ॥
 अर्चा करता प्रभुतणी, एहवुं सुपने दीठ ॥ वि० ॥
 औरावण पर बेसीने, देता सहूने दान ॥ वि० ॥ १२ ॥ था० ॥
 एहवुं सुपन ते देखीने, थया जाग्रत तत्काल ॥ वि० ॥
 अरुणोदय थयो तत्क्षिणे, मनमें थयो उजमाल ॥ वि० ॥ १३ ॥ था० ॥
 उत्तम सुपन जे देखीउ, पण प्राकृतने पास ॥ वि० ॥
 कहेवुं मुजने नवि घटे, जे बोले तेह फले आस ॥ वि० ॥ १४ ॥ था० ॥
 दृष्टांत इहां 'मूलदेव नो, सुपन लह्युं हतुं चन्द्र ॥ वि० ॥
 मुखकजमें प्रवेशतां, ते थयो नरनो इन्द्र ॥ वि० ॥ १५ ॥ था० ॥
 जटिल एके ते चंद्रमा, मुखमें करतो प्रवेश ॥ वि० ॥
 मूरखने फल पुछतां, भोजन लह्युं सुविवेक ॥ वि० ॥ १६ ॥ था० ॥
 यादृश तादृश आगले, सुपन तपो अवदात ॥ वि० ॥
 कहे (ते)ने पश्चात्ताप उपजे, ए शास्त्रे विख्यात ॥ वि० ॥ १७ ॥ था० ॥

अनुक्रमे विहार करताथका, 'श्री जिनचंद' सूरिश । ॥वि०॥
 तेह गामे पधारीया, जेहनी प्रबल जगीस । । वि० । १८ । था० ।
 विधिस्युं वांदे दंपति, 'धनवाइ' कहे तास । । वि० ।
 हस्त जूओ स्वामी मुजतणो, आगल सुखनुं धाम(वास?)।वि० १९ था०
 एक पुत्र विद्यमान छे, अन्य सगर्भा दीठ । । वि० ।
 श्रुतज्ञाने जाणीओ, पुत्र दुजो हशे इष्ट । । वि० । २० । था० ।
 ए बीजा पुत्रने अम देज्यो, पण वाचकने दीधु वचन । वि० ।
 बीजा ढालमें कवि कहे, मन मां(न्या) नानुं मनन । वि० २१।था० ।

दृहाः—सोरठा

दंपती श्री गुरुपास, करजोडी करे विनती,
 तुम उपर विश्वास, यथार्थ कहो श्रीस्वामीजी ॥ १ ॥
 सुपनाध्यायना ग्रन्थ, काह्या गुरुए तत्खिणे,
 सत्य बोले निग्रन्थ, लाभानुलाभ ते जोइने ॥ २ ॥
 श्री गुरु शिर धुणावीयुं, चमत्कृति थइ चित्त ,
 सामान्य घर ए सुपन स्युं ? पण इहां एहवि थीति ॥ ३॥
 हे देवाणुप्रिय ! सांभलो, सुपन तणो जे अर्थ ,
 शास्त्र अनुसारे हुं कहुं, नवि बोलुं अमे व्यर्थ ॥ ४ ॥

देशी—मनमोहनां जिनराया

तुम धरणीमे गजपतिदीठो, तेजो शास्त्रे कळो गरीठोरे ।
 कुंवर थास्ये लाडकडो, हारि सुपनप्रभावे थास्येरे ।
 गज पर बेसीने दान, बलि अनमिष सेवे विधानरे । । १ कुं० ।

दोग्य कारण छे ए सुपने, देवे जो प्रभावे ए तप(म?)नेरे । कुं०
 छत्रपति थाये ए पुत्र के, पत्रपति धर्मनुं सूत्रे । कुं०॥२॥
 जो राज राजेसरी थास्ये, सर्वदेशनो ईश इशस । कुं०
 जो पत्रपतिनुं पद पामे, तो देश विहार सुठामेरे । कुं०॥३॥
 गुरु तब ते जाणो गजराज, तेपरि बेससें शिरताजरे । कुं०
 देवतारूप जन चाकरीये, सिंह बालकने वली पाखरीयेरे । कुं०॥४॥
 दान देस्ये ते विद्यादान, बुद्धि अभयदान निदानरे । कुं०
 जिन ओछव करता इन्द्र, दीठुं वृन्दारक वृन्दरे । कुं०॥५॥
 जिनशासननो होस्ये थंभ, विद्यानो होस्ये सर कुंभ । कुं०
 चैत्य न्युतन पडिमा थापन, तेजस्वीमें तपननो तापनरे । कुं०॥६॥
 दंपति कहे मुनिराज, सांभलता न धरस्यो लाजरे । कुं०
 क्रोधभाव न आणस्यो चित्त, पुत्र तेजस्विमें आदित्यरे । कुं०॥७॥
 तुम रांक तणे घर रत्न, रहेस्ये नही करस्ये यत्नरे । कुं०
 दंपति मनमांहि चिते, धार्युं छे वोहरावानुं निमित्तरे । कुं०॥८॥
 संवत सत्तर (४६)छेताला वरषे, जन्म्यो ते पुत्र छ(छे?) हरषेरे । कुं०
 गुण निष्पन्न ते नाम निधान, 'देवचंद्र' अभिधानरे । कुं०॥९॥
 वरस थया ते पुत्रने आठ, धारे ते विज्ञानना पाठरे । कुं०
 कवियण भाखी त्रीजी ढाल, आगल वात रसालरे । कुं०॥१०॥

दूहा

अनुक्रमे विहार करता थका, आव्या पाठक तत्र,

'राजसागर शिरोमणि', अर्भक प्रसव्यो यत्र ॥ १ ॥

गुरु देखी हर्षित थया, बहुराव्यो पुत्र रतन,
 धर्मलाभ गुरु तव दीये, करजो पुत्र जतन ॥ २ ॥
 वाचक श्री 'राजसागर', कोविदमें शिरताज,
 दिन केतलाएक गया पछी, मन चित्यु शुभकाज ॥३॥
 दीक्षा देवी शिष्यने, सुभ महुरत जोइ जोस,
 सुभ चीघडीए देखीने, तो थाये संतोष ॥ ४ ॥
 संघ सकलने तेडीने, दीक्षानी कही वात,
 वचन प्रमाण करे तिहां, उलस्यां सहूनां गात्र ॥ ५ ॥
 शुभ ओछव महोछवे, दीक्षा दीये गुरुराय,
 संवत 'छपने' जाणीये, लघु दीक्षा दीये गुरुराय ॥ ६ ॥
 श्री 'जिनचंदसूरीश्वरे', वडी दीक्षा दीये सार,
 'राजविमल' अभिधा दीउ, श्रीजीनो घणो प्यार ॥७॥
 'राजसागरजी'ये हितधरी, सरस्वतीकेरो मंत्र,
 आपुं शिष्य 'देवचंद ने', मनमें कीधो तंत्र ॥ ८ ॥
 गाम 'बेलाडु' जाणीये, 'वेणातट' सुभरम्य,
 भूमिगृहमें राखीने, साधन करे तारतम्य ॥ ९ ॥
 थइ प्रसन्न सरस्वती, रसनाघ्रे कीयो वास,
 भगवानो उद्यम करे, श्री गुरुसाहाज्य उलास ॥ १० ॥

देशी—वारी म्हारा साहिबा

देवचंद्र अणगारने हो लाल, सुभ शास्त्र तणा अभ्यासरे,
 देखीने ठरे लोयणा ।
 प्रथम षडावश्यक भणे हो लोल, के(ते?)पछी जैनशैलीनो वासरे । दे० ॥ ११ ॥

सूत्र सिद्धान्त भणावीया हो०, वीरजिनजीए भाख्या जेहरे । दे०
स्वमार्गमें पोषक थया हो०, टाले मिथ्यामतनुं गेहरे । २ दे०
अन्यदर्शनना शास्त्रनो हो०, भणवाने करता उद्यमरे । दे०
वैयाकरण पंचकाव्यना हो०, अर्थ करे करावे सुगम्यरे । ३ दे०
नैषध नाटक ज्योतिष शिखे हो०, अष्टादश जोया कोषरे । दे०
कौमुदी महाभाष्य मनोरमा हो०, पिंगल स्वरोदय तोषरे । ४ दे०
भाखा (भाष्य ?) ग्रन्थ जे कठिणता हो०,

तत्वारथ आवश्यकवृहद्वृत्ति हो । दे०
'हेमाचार्य'कृत शास्त्रनारे, हो०, 'हरिभद्र' 'जस' कृत ग्रन्थ चित्तरे । ५ दे०
षट्कर्मग्रन्थ अवगाहता हो०, कम्मपयडोये प्रकृति संवंधरे । दे०
इत्यादिक शास्त्रे भला हो०, जैन आमनाये कीध सुगंधरे । ६ दे०
सकलशास्त्रे लायक थया हो०, जेहने थयुं मइ सुइ ज्ञानरे । दे०
संवत् सतर चुमोतरे (१७७४) हो०, वाचक 'राजसागर' देवलोकरे । ७ दे०
संवत् सतर पंचोतरे (१७७५) हो०, पाठक ज्ञानधर(म) देवलोकरे ।
मरट '(मरोट?)' ग्रामे गुरुये भलो हो ला०, 'आगमसार' कीधो ग्रन्थरे ।
'विमलदास' पुत्री दोग्य भली हो०, 'माइजी' 'अमाइजी' शुभ पुष्परे । ८ दे०
दोग्य पुत्रीने कारणे हो०, कीधो ग्रन्थ ते आगमसाररे । दे०
संवत् सतर सीतोतरे (१७७७) हो०, गुजरात आग्या देवचंदरे । ९ दे०
पाटण मांहि पधारीया हो०, व्याख्याने मिले जनवृन्दरे । १० दे०
कवियण कहे चोथी ढालमें हो०, कब्बो एह विरलंत प्रसिद्धरे । दे०
आगल हवे भवि सांभलोरे हो०, धर्मकरणीनी वृद्धिरे । ११ दे०

दूहा

पाटणमें देवचंद्रजी, जैनागमनी वाणि,
 वांची भवीजन आगले, स्याद्वाद युक्त वखाण ॥ १ ॥
 'श्रीमाली' कुलसेहरो, नगरशेठ विख्यात,
 राय^१राणा जस आज्ञा करे, प्रमाण सर्वे वात ॥ २ ॥
 नामे 'तेजसी' 'दोसीजी', धन समृद्धे पूर,
 आरवक 'पूर्णमागच्छ' नो,—जैनधरमनुं नूर ॥ ३ ॥
 कोविदमें अप्रेसरी, श्री 'भावप्रभसूरि',
 पुस्तकनो संप्रदाय बहुल,—छात्र भण्या जिहां भूरि ॥४॥
 ते गुरुना उपदेशथी, भराव्यो सहसकूट,
 'तेजसी' 'दोसीने' घरे, क्रद्धि समृद्ध अखूट ॥ ५ ॥
 ते सेठ 'तेजसी' घरे, 'देवचंद्र' मुनिराज,
 तव तिहां शेठ प्रत्ये कहे, हे देवाणुप्रिय ताज ॥ ६ ॥
 सहसकूटना सहस जिन, तेहना जे अभिधान,
 गुरु मुखे तमे धार्या हस्ये, के हवे धारस्यो कान ॥७॥
 मीठे वयणे गुरु कहे, सांभलीयुं तव सेठ,
 स्वामी हुं जाणुं नहीं, चमत्कृति थइ द्रढ ॥ ८ ॥
 एहवे अवसरे तिहां हता, संवेगी शिरदार,
 'ज्ञानविमल सूरिजी', तिहां गया शेठ उदार ॥ ९ ॥
 विधिस्थुं वांदी पुछीयुं, सह(स)कूट सहस्रनाम,
 आगमें थी पृथकता, निकासो सुभधाम ॥ १० ॥

‘ज्ञानविमलसूरि’ कहे, सहस्रकूटनां नाम,

अवसरे प्राये जणावस्युं, कहेस्युं नाम ने ठाम ॥११ ॥

सकलशास्त्रे उपयोगता, तिहां उपयोग न कोइ,

आगम कुंची जाणवी, ते तो विरला कोइ ॥ १२ ॥

ए देशी :—माहरी सहीरे समाणी ।

एक दिन श्री ‘पाटण’ मझार, ‘स्याहानो पोर्लिं’ उडार रे ।

सहस्रजिननो रघीयो, ‘देवचन्द्र’ वयगे उलसीयो रे ॥ १स०॥ टेक ॥

ते पोर्लि चोमुखवाडी पास, सहुनी पूरे आस रे ॥स०॥१॥

सतरभेदी पूजा रचाणी, प्रभु गुणनी स्तवना मचाणी रे ।स०

‘ज्ञानविमल सूरि’ पूजामें आव्या, श्रावकने मन भाव्या रे ॥स० २॥

तिहां वली यात्राये ‘देवचन्द्र’, आव्या बहुजनने वृन्द रे ।स०

प्रभुने प्रणाम करीने वेठा, प्रमुध्यान धरे ते गरीठा रे ॥स० ३॥

एहवे तिहां शठ दर्शन करवा, संसार समुद्रने तरवारे ।स०

प्रश्न करे शेट ‘ज्ञानविमलने’, सहस्रकूट नाम अमलनेरे ॥स०४॥

बहु दिन थया तुम अवलोकन करतां, इम धर्मनां कार्य किम सरतारें।स०

प्राये सहस्रकूटना नामनी नास्ति, कदाचि कोइ शास्त्रे अस्तितरे ।स० ५।

ज्ञानसमसेर तणा झलकारा, देवचन्द्र बोल्या तेणिवाररे ।स०

श्रीजी तुमे मृषा किम बोलो, चित्तथी वात ते बोलोरे (खोलोरे)॥स०६॥

प्रभु मन्दिरमें यथार्थनी व्यक्ति, किम उपजे श्रावक भक्तिरे ।स०

तुमे कोविदमें कहेवाओ श्रेष्ठ, अयथार्थ कहो ते नेष्टरे । ॥स०७॥

तव 'ज्ञानविमलजी' ऋषी बोल्या, तुमे शास्त्र आगम नवी खोल्यारे ।
 तमे तो मरुस्थलीयाना वासी, तुमे वाक्य बोलोने विमासीरे ॥स०८॥
 शास्त्र अभ्यास कर्यो होय जेहने, पूछोये वाक्य ते तेहनेरे ।स०।
 तुमे एह वार्त्तामां नही गम्य, अमे कहोये ते तुम निसभ्येरे । ॥स०९॥
 इम परस्पर वाद करतां, तव शेठ बोल्या हर्ष भरमारै ।स०।
 श्रीजी तमे अयथार्थ न बोलो, एह बातनो करवो निचोलोरे ॥स०१०॥
 'ज्ञानविमल' कहे सुणो 'देवचंद्र', तुमने चर्चानो उपछंदरे ।स०।
 जो तुमे बोलो छो तो तुमे लावो, सहसकूट जिन नाम संभलावोरे ॥११॥
 तव 'देवचंद्र' कहे सुगुरु पसाये, सत्य युक्ति हवे न खसायरे ।स०।
 तव 'देवचंद्रजी' शिष्यने साहमुं, जोइलावो सहसजिननुं नामुंरे ॥स०१२॥
 सुविनीत सुलक्ष्णे विद्वान, गुरुभक्तिमांही निधानरे ।स०।
 'मनरुपजी' रजोहरणथो, पत्र आपे गुरुजीने तत्ररे । ॥स०१३॥
 'ज्ञानविमलसूरि' तव वांची, एह 'खड(र?) तरे' मारो फांचीरे ।स०।
 सत्कुलगुरुनो एह छे शिष्य, जेहनी जगमांहि छे अभिख्यरे ॥स० १४॥
 शास्त्रमयादाये सहसनाम, साखयुक्त ते नाम सुठामरे ।स०।
 मौन रहीने पुछे ज्ञान, तुमे केहना शिष्य निधानरे ।स० १५।
 'उपाध्याय' राजसागरजीना शिष्य, मिंठी वाणी जेहवो इक्षुरे ।स०।
 नम्रता गुण करी बोले ज्ञान, 'देवचंद्र' ने आप्या मानरे ।स० १६।
 तुम वाचकतो जैनना काजी, तुमे जैनना थंभ छो गाजीरे ।स०।
 आदि घर छे ते(त?)मारुं भव्य, तुमे पण किम न होये कव्यरे ।स०१७।
 इणिपरे परस्पर युक्ति मिलीया, शेठ 'तेजसी'ना कारज फलीयारे ।
 सहसकूटनां नाम अप्रसस्ति(द्वि?)देवचंद्रे कीधा प्रसस्तिरे । (प्रसिद्धि)

प्रतिष्ठा तिहां कीधी भव्य, ओच्छव कीधा नवनच्यरे । स० ।
 'क्रियाउधार' कीधो 'देवचंद्र', काळ्या पाप परिग्रहफंदरे । स० १६।
 ढाल कही ए पांचमी रुडी, ए वात न जाणस्यो कूडीरे । स० ।
 कवियण कहे आगल संबंध, वली सोनुंने सुगंधरे । स० २०।

दोहा ।

क्रिया उद्धार 'देवचंद्रजी', कीधो मनथी जेह,
 ए परिग्रह सवि कारिमो, अंते दुःखनुं गेह ॥ १ ॥
 नव नंद नी नव डुंगरी, कीधो सोवनराशि,
 साथे कोइ आवी नहीं, जूठी धरवी आसि ॥ २ ॥
 धन धन श्री 'शालिभद्रजी', धन धन धन्नो मुजात,
 अगणित ऋद्धिने परिहरी, ए कांइ थोडी वात ॥ ३ ॥
 वत्रीस कोटिसोवनतणी, 'धन्नो' काकंदी जेह,
 मूकी श्री जिन 'वीरनी', दीक्षा लीधी नेह ॥ ४ ॥
 देवचंद्र मनमें चितवे, हुं पामर मनमांहि,
 मूर्छा धरुं ते फोक सवि, सत्य प्रभु मारग वांहि (मांहि ?) ॥ ५ ॥
 संवत 'सतरसत्यासीये', आव्या 'अमदावाद,'
 लोक सहु तिहा वांदवा, आव्या मन आल्हाद ॥ ६ ॥
 'नागोरीसरा(य)' जिहां अछे, तिहां ठवीया मुनिराज,
 निर्लोभी निष्कपटता, सकल साधुशिरताज ॥ ७ ॥
 साधु श्री 'देवचंद्रजी', स्यादवादनी युक्ति,
 जीवद्रव्यना भावने, देखाडे ते व्यक्ति ॥ ८ ॥

त्रीजुं थानिक कहे जिनवरजी, नाम अदत्तादान,
 अणदीधी वस्तुनी जयणा, धरवानो करो स्यान ॥ ६ ॥ जि० ॥
 चोरी व्यसने दुरगनि पामे, तेहनो कोइ न साखी,
 चोरद्रव्य खातां नृप जो जाणे, जिम भोजनमां माखी ॥ १० जि० ॥
 तृण जाच्युं कल्पे साधुने, नवि ले अदत्तादान,
 चोर तणो वली संग न कीजे, इम कहे जिन वर्धमान ॥ ११ जि० ॥
 पापस्थानक चोथुं भवि जाणो, ब्रह्मचर्य मनमां धारो,
 रूपवंत रामा देखीने, मन नवि कीजे विकारो ॥ १२ ॥ जि० ॥
 विषयी नर रामाए राचे, ते दुःख पामे नरके,
 लोह पुनली धखावे अंगने, आलिंगावे धरके ॥ १३ ॥ जि० ॥
 विषवल्ली सदृश छे ललना, तेहनो संग न कीजे,
 मनमां कपट चपट करे जनने, शुभ प्राणी किम रीझे ॥ १४ ॥ जि० ॥
 रावण मुंज आदे देइ भूपा, नारी थी विगुआणा,
 सीता सुदर्शन सोल सतीना, जगमे जस गवाणा ॥ १५ ॥ जि० ॥
 स्त्रीसंगे नव लाख हणाइ, जीवतणी बहुराशि,
 ब्रह्मचर्य चोखुं चित्त न धरे तो, पामे नरकनो वास ॥ १६ ॥ जि० ॥
 पांचमुं थानिक परिग्रहनुं, करीये तेहनो प्रमाण,
 ग्रन्थो नहो ते निग्रन्थ कहीये, निःद्रव्ये मुनि सुजाण ॥ १७ ॥ जि० ॥
 क्रोध मान माया लोभ जाणो, राग द्वेष कलइ न कीजे,
 अभ्याख्यान पैशुन रति वनो, अरति परपरिवाद न लीजे ॥ १८ जि० ॥
 पापधानक अढारमुं भाखुं, मिथ्यात्वशल्य नवि धरीये,
 सत्तरे थी ए भारे कहीये, मिथ्यात्वे केम तरीये ॥ १९ ॥ जि० ॥

मिथ्यात्वशलय काढीने प्राणी, समकितमांहि भलीये ,
 जिनवर भाषित वचन स(र)दहीये, भव भव फेरा टलीए ॥२०॥जि०॥
 नैगम संग्रह आदे देइ,—सप्तनयनी (ने?) (सप्त) भंगी ,
 तेहनी रचना करता गुरुजी, अपवादने उत्संगी ॥ २१ ॥जि०॥
 च्यार निखेपे सूत्र वाचना, नाम द्रव्य ठवण भाव ,
 कुमति ठवणादिकने उवेख, किम निक्षेप जमाव ॥ २२ ॥जि०॥
 जीव अजीव पुण्य पाप आदे देइ, 'श्री नवतत्त्वनी' वाचा,
 भेद भेद करीने भविने, समजावे अर्थ ते साचा ॥ २३ ॥जि०॥
 गुणठाणां चतुर्दश कहीये, मिथ्या सास(स्वाद?)न मीस्से ,
 ए आदि प्रकृतियो बधी, कर्मग्रन्थथो लहीस्ये ॥ २४ ॥जि०॥
 देशना वाणी देवचंद्र भाखे, भवियणने हितकारी ,
 छठी ढाल ए कवियणे भाखी, सुगुरु मल्या उपगारी ॥ २५ ॥जि०॥

दूहा

भगवइ सूत्रनी वाचना, सांभले जनना वृन्द,
 वाणी मिठी पियुष सम, भाखे श्री देवचंद्र ॥ १ ॥
 'माणिकलालजो' जालिमी, हुंढकनो मन पास,
 तेहने गुरुए बुझव्यो, टाली मिथ्यात्वनी का(वा?)स ॥ २ ॥
 नौ(नू?)तन चैत्य करावीने, पडीमा थापी तासि(आवा)स,
 देवचंद्र उपदेशथी, ओछव हुया उलास ॥ ३ ॥
 श्री 'शांतिनाथनी पोल' में, भूमिगृहमें बिंब,
 सहसफणा आदे देइ, सहसकोड जिनबिंब ॥ ४ ॥

तेहनी प्रतिष्ठा तिहां करी, धन खरचाणां पूर,

जैनधरम प्रकासीयो, दिन दिन चढते नूर ॥ ५ ॥

संवत सतर ओगगीस (एग्न्याऐंशो?) १७७६ में, चातुर्मास खंभात,

तिहांना भविने बुझव्या, जेहना (बहु) अवदात ॥६॥

ढाल—रसीयानो देशी

श्री देवचंद्र मुनौंद्र ते जैन नो, स्तंभ सदृश थयो सत्य । सुज्ञानी,
देशना में श्री 'शत्रुंजय' तीर्थनो, महिमा प्रकाशे नित्य । सु० ।

तीर्थ महिमा शत्रुंजयनी सृणो ॥ १ ॥

श्री सिद्धाचल महिमा मोटकी, श्री ऋपभ जिणंदनी वाणी। सु० ।
मुक्ति गमननुं तीरथ ए अछे, सास्वत तीर्थ प्रमाण ।सु० । २ ।तीरथ०।
दुःखम आरो पंचमो जिन कछो, एकविसति सहस वर्ष । सु० ।
बार योजन श्री शत्रुंजयगिरि, एहनं कुंण कहे रहस्य ॥३॥ ती० ॥
कांकरे कांकरे साधु सिद्ध थया, भरते कीयोरे उद्धार ॥ सु० ॥
'कर्माशा (ह)' आदे देइ जाणीए, सोल उद्धार उदार ॥ ४ ॥ ती० ॥
तीर्थ माहात्म्यनी प्ररूपणा गुरु तणी, सांभले श्रावकजन्न । सु० ।
सिद्धाचल उपर नवनवा चैत्यनी, जीणौंदार करे सुदिन्न ।सु० ५ ती०
कारखानो तिहां सिद्धाचल उपरे, मंडाव्यो महाजन्न । सु० ।
द्रव्य खरचाये अगणित गिरि उपरे, उलसित थायेरे तन्न ।सु० ६ ती०
संवत सत्तर(१७८१)एकासीये, व्यासीये व्यासीये कारीगरे काम । सु०
चित्रकार सुधातां काम ते, दृषद् उज्वलतारे नाम ॥सु०॥७॥ ती० ॥
फिरीने श्री गुरु 'शजनगरे' भलां, तिहां भविने उपदेश । सु० ।
बिनतो 'सुरति' वंदिर नी भली, चोमासानीरे विशेष ।सु० ८ ती० ॥

श्री 'देवचंद्रजी' 'सुरति' बंदिरे, कीधा भविने उपगार । सु० ।
 'पंचासिये' 'छयासीये' 'सत्यासीये', जाणीये बुद्धितणा जे भंडार । सु० १६
 'पालीताणे' प्रनिष्ठा करी भली, खरच्यो द्रव्य भरपूर । सु० ।
 'बधुसाये' चैत्य 'शत्रुंजय' उपरे, प्रतिष्ठा 'देवचंद्र' नी भूरि । सु० १० ती० ।
 पुनरपि श्री गुरु 'राजनगर' प्रत्ये, आव्या चोमासुं रे सार । सु० ।
 संवत 'सत्तर (८८) अठ्यासीय' मांहि, पंडित मांहि शरदार । सु० ११ ती० ।
 वाचक श्री 'दीपचंद्रजी' प्रत्ये, उप(र)नी व्याधिनी (?) व्याधी । सु० ।
 'आसाढ़' सुदि वीज दीने ते जाणीये, पुहता स्वर्ग प्रधान । सु० १२ ती० ।
 'तपगच्छ' मांहे विनीत विचक्षण, श्री 'विवेकविजय' मुनींद्र । सु० ।
 भगवा उद्यम करता विनयी घगुं, उद्यमे भगावे 'देवचंद्र' । सु० १३ ती० ।
 गुरुसदृश मन जाणे 'विवेकजी', खिजमतिमें निसदिन्न । सु० ।
 विनयादिक गुण श्री गुरु देखीने, 'विवेकजी' उपर मन्न । सु० १४ ती० ।
 'अमदावाद' मे एकसमे भलो, 'आणंदराम' साह श्रेष्ठ । सु० ।
 'रननभंडारी' ना अग्रेस्वरी, जेहना मनसेरे इष्ट । सु० । १५ ती० ।
 श्रीगुरुने वली 'आणंदराम' ने, चर्चा थायरे नित्य । सु० ।
 चर्चाए ते जीत्यो गुरुजीए, 'आगंदनी' गुरुपरि प्रीति । सु० १६ ती० ।
 'कवियण' भाखी सातमी ढाल ए, पंचम आरारेमांहि । सु० ।
 एहवा पुरुष थोडा प्रसुमार्गना, प्रकाश करवाने उछांहि । सु० १७ ती० ।

दूहा

शाहा श्री 'आणंदरामजी', गुरुनी गुरुता देखि,

भंडारी 'रत्नसिंघ' आगले, प्रसंशा करी सुविशेष ॥ १ ॥

गुरु ज्ञानी शिरोमणि, जिनधर्मे वृषभ समान,

‘मरुस्थल’ थी इहां आवीआ, सकलविद्यातुं निधान ॥ २ ॥

‘रतनसिंह’ गुरु वांदवा, आव्यो आलय तास,

नय उपनय संभलावीने, मन प्रसन्न कर्युं तास ॥ २ ॥

देशी:—धन धन श्री ऋषिराय अनाथी

पूजा अरचा ‘रतन भंडारी’, करता श्रीजिनवरनीरे ।

श्री ‘देवचंद्रजी’ना उपदेशथी, शिवमंदिरनी निसरणीरे ॥१॥

धन धन ए गुरुरायने वयणे, जिनशासन दीपाव्योरे ।

पंचम आरे उत्तमकरणी, गुजरातिनो सो (सु?) वो नमाव्योरे । टेकर

बिंब प्रतिष्ठा बहुली थाये, सत्तर भेदी पूजारे ।

भंडारीजी लाहो लेता, ए गुरु सम नही दूजारे ॥धन० ॥३॥

विधि योगे ते ‘राजनगर’में, मृगी उपद्रव व्याप्योरे ।

गुरुने भंडारी सर्व व्यवहारी, अरज करी सीस नमाव्योरे ॥धन०॥४॥

स्वामी उपद्रव ‘राजनगर’में, थयो छे सर्व दुःख कर्तारे ।

तुम बेठा अमे केहने कहीये, तुमे छो दुःखना हत्तारे । ॥धन० ॥५॥

जैनमार्गना मंत्र यंत्रादिक, करीने खीला गाड्यारे ।

मृगी उपद्रव नाठो दुरि, लोकना दुःख नसाड्यारे । ॥धन० ॥६॥

जिनशासननो उदय ते करता, दुःखम आरे ‘देवचंद्र’रे ।

प्रशंसा सघले शासन केरी, टाल्यो दुःखनो दंदरे । ॥धन०॥७॥

एहवे समे ‘रणकुंजी’ आव्या, बहुलुं सैन्य लेइनेरे ।

युद्ध करवा ‘भंडारी’ साथे, आव्यो नगारुं देइनेरे । ॥धन०॥८॥

‘रतनसिंह’ भंडारी तत्षिण, आव्यो श्री गुरु पासेरे ।

कांइ करणो दल बहोतज आयो, में छां थांके विस्वासेरे ॥धन० ॥९॥

फिकर मत करो 'भंडारीजी', प्रभुजी आछो करस्येरे ।	
जीत वाद थाहरो अब होस्ये, करणी पार उतरस्येरे	॥धन०११०॥
चमत्कार श्री जिन आम्नायनो, गुरुजीये ते दीधोरे ।	
फतेह करीने आज्यो वहिला, थांको कारज सीधोरे	॥धन०१११॥
'रतनसंघजी' सैन्य लेइने, युद्ध करवाने सांहमोरे ।	
'रणकुंजी' साथे तोपखाने, चाल्यो न करे खामोरे	॥धन०११२॥
परस्पर युद्धे 'रणकुंजी' हार्यो, थई भंडारी नी जीतरे ।	
ए सर्व 'देवचंद्र' गुरुपसाये, हेमाचार्य कुमारपाल प्रीतरे	॥धन०११३॥
'धोलका' वासी सेठ 'जयचंदे', 'पुरिसोतम' योगीरे ।	
गुरुने लावी पायो लगाड्यो, जैनधर्मनो भोगीरे	॥धन०११४॥
योगिंद्र एक गिर 'पुरुसोत्तम'ने, (नो?) मिथ्यात्व श्लयने काह्योरे ।	
बुझविने जिनधर्म मार्गमां, श्रुतिये मन तस वाल्योरे	॥धन०११५॥
'पंचाणुंड' 'पालीताणे' आव्या, 'छनुंये' 'सत्ताणुंये' 'नवानगरे'रे ।	
'ढुढक' टोला 'देवचंद्रे' जीत्यां, चैत्य चाल्यां सर्व झगररे ॥धन०११६॥	
'नवानगरे' चैत्य जे मोटां, ढुढके जे हता लोप्यारे ।	
अर्चा पूजा निवारण कीधी, ते सघला फिरी थाप्यारे	॥धन०११७॥
'परधरी' गाम में ठाकुर बुझव्यो, गुरुनी आज्ञा मानेरे ।	
'कवियणे' आठमी ढाल ते रुडी, ए वात न जाणो कुडिरे ॥धन०११८॥	

दोहा ।

पुनरपि 'पालीताणे' गुरु, पुनरपि 'नुतन' नम्र मांहि ।

संवत (१८०२-३) अठार 'दोय' 'त्रिणमां', 'राणावाव' उछांहिं ॥ १ ॥

तत्रना अधीशने, रोग भगंदर जेह ।

टाल्यो तत्खिण गुरुजिई, गुरु उपर बहु नेह ॥ २ ॥

संवत 'अष्टादश च्यार'में, 'भावनगर' मझार ।

मेता 'ठाकुरसी' भलो, दुंढकनो बहु पास । (प्यार ?) ॥ ३ ॥

श्री 'देवचंद्रे' बुझवी, शुभमार्गिनो वास,

तत्रना ठाकुर तणी, मत कीधी जैन पास ॥ ४ ॥

संवत 'अष्टादश च्यार मे, 'पालीताणो' गाम ।

मृगी टाली गुरुजीये, श्रीगुरुजीने नाम ।

॥ ५ ॥

संवत 'अष्टादश' 'पंच' 'षष्ठ'में, 'लींबडी' गाम उदार ।

'डोसो वोहोरो' साहा 'धारसी', अन्य श्रावक मनोहार ॥ ६ ॥

साहा श्री 'जयचंद' जाणोये, साहा 'जेठा' बुद्धिवंत ।

'रही कपासी' आदि देइ, भणाव्या गुरुई तंत ॥ ७ ॥

गुरुइं सहु प्रतिबोधीया, जैनधर्ममें सत्य ।

गुरु उपगार न वीसारता, धर्म खर्चे वित्त ॥ ८ ॥

'लिंबडी' 'धांगंद्रा' गाम ए, अन्य 'चुडा' वली गाम;

प्रतिष्ठा त्रिण थइ विवनी, द्रव्य खरच्या अभिराम ॥ ९ ॥

'धांगंद्रे' जिनविवनी, थइ प्रतिष्ठासार,

'सुखानंदजी' तिहां मल्या, 'देवचंद्र'नो प्यार ॥ १० ॥

देशी:— ललनानी छे ॥

संवत 'अठारने आठमें', गुजरातिथी काह्यो संघ ।ललना०।

श्रीगुरुना गुरु उपदेशथी, शत्रुंजयनो अभंग ॥ १० ॥ १ ॥

गुरुवयणां ते सहदो ॥टेक॥

गिरि उपर उल्लव थया, खरच्यां बहुलां द्रव्य ।

पूजा अरचा बहुविधि, अनुमोदे ते भव्य ॥ ल० ॥२ गुरु०॥

उभी सोरठ जानरा, करता ते भविजन्न । ल० ।

‘अष्टादश’ ‘नव’ ‘दशमें’, श्री गुजराति चोमास ॥ ल० ॥३ गुरु० ॥

संवत ‘दश अष्टादशें’, ‘कचरासाहाजीइं’ संघ । ल० ।

श्री शत्रुंजय तीर्थनो, साथे पधार्या देवचन्द्र ॥ ल० ॥४ गुरु०॥

साह ‘मोतीया’ ‘लालचंद’, जाणीइ जैनमारगमें प्रवीण । ल० ।

श्राविका अवल ते भक्तिमां, दानेश्वरीमां नहीं खीण ॥ल० ॥५ गुरु०॥

.....॥६॥

संघमें श्री ‘देवचन्द्रजी’, अन्य व्यवहारीया साथ । ल० ।

श्री ‘शत्रुंजय’ गिरि आवीया, लेवा धर्मनुं पाथ ॥ ल० ॥७ गुरु०॥

प्रतिष्ठा जिनविंबनो, गुरुजिइं कियी तत्र । ल० ।

साठी सहस्त्र द्रव्य खरचोयो, गुरु वचनें ते यत्र ॥ ल० ॥८ गुरु०॥

संवत ‘अठार इग्यार’में, प्रतिष्ठा ‘लींबडी’ मध्य । ल० ।

‘वढवाणे’ श्रावक हुंडकी, बुझव्या खरची रुद्धि ॥ ल० ॥९ गुरु०॥

चैत्य कराव्यां सुंदर, जिन अर्चाना ठाठ । ल० ।

प्रभाविक पुरुष ‘देवचन्द्रजी’, धन्य एहनी मात ॥ल० ॥१० गुरु०॥

शिष्य सुविनीत पासे भला, श्री ‘मनरुप’ जी दक्ष । ल० ।

‘विजयचन्द्र’ बुद्धिये प्रबलता, न्याय शास्त्रना पक्ष ॥ल०॥११ गुरु०॥

वादी अनेक ते जीतीया, गच्छ चोरासीना साध । ल० ।

भणे तर्कवादी भलो, श्री ‘देवचन्द्रनो’ हाथ ॥ल० ॥१२ गुरु०॥

‘मनरूपजी’ ना शिष्य दोउं, ‘वक्तुजी’ ‘रायचन्द’ । ल० ।
 गुरुभक्ति आज्ञा धरे, सेवामें सुखकन्द ॥ ल० ॥ १३ गुरु० ॥
 संवत ‘अठार ना वारमें’, गुरु आव्या ‘राजद्रंग’ । ल० ।
 गछनायकने तेडावीआ, महाछव कीधा अभंग ॥ ल० ॥ १४ गुरु० ॥
 ‘वाचकपद’ ‘देवचन्द’ने, गछपति देवे सार । ल० ।
 महाज्ञने द्रव्य खरच्यो बहु, एह संबंध उदार ॥ ल० ॥ १५ गुरु० ॥
 नवमी ढाल सोहामणी, कवियण भाखी एह । ल० ।
 एक जीभे गुण वर्णतां, कहितां नावे छेह ॥ ल० ॥ १६ गुरु० ॥

॥ दूहा ॥

वाचक श्री ‘देवचन्द्रजी’, देशना पीयूष समान;
 जीव द्रव्यना भेदस्युं, नय उपनय प्रधान ॥ १ ॥
 अंथ भला ‘हरिभद्र’ ना, वाचक ‘जस’ कृत जेह;
 ‘गोमटसार’ ‘दिगंबरों’, वाचना करे हित नेह ॥ २ ॥
 ‘मुलताने’ ‘देवचन्द्रजी’, वली अन्य ‘वीकानेर’;
 चोमासां गुरु तिहां करी, ज्ञानतणी समसेर ॥ ३ ॥
 नवाग्रन्थ जहेने कर्या, टीका सांहत तेह युक्त;
 ‘देसनासार’ ‘नयचक्र’, शुभ ‘ज्ञानसार’नी भक्ति ॥ ४ ॥
 ‘अष्टकटीका’ युक्तिथी, ‘कर्मग्रंथ’ वली जेह;
 तेहनी टीका वादि देइ, ग्रन्थ कर्या बहुनेह ॥ ५ ॥
 ‘राजनगरे’ ‘देवचन्द्रजी’, ‘दोसीवाडा’ मांहि;
 थांका लोक व्याख्यानमें, सांभलता उछाहिं ॥ ६ ॥

एकदिन वायुप्रकोपथो, वमनादिकनी ब्याधि,

अकस्मात् उत्पन्न थइ, शरीरे थइ असमाधि ॥ ७ ॥

शास्त्र मरण दोउ कह्यां, पंडित मरण छे जेह,

बाल मरण तो दुसरो, उत्तम पण्डित मृत्यु बेह ॥ ८ ॥

तव शरीरनि क्षीक्षणा, (श्लोणता?) शिथिल थयां अंगोपांग,

बुद्धि करीने जाणीइं, अनित्य पदारथरंग ॥ ९ ॥

पुद्गल तो अनित्यता, अनादिनो स्वभाव,

मूरख तेपरि रंग धरे, पण्डित धरे विभाव ॥ १० ॥

निज शिष्योने तेडीने, दे शिक्षा हितकार,

मुज अवस्था क्षीण छे, ए पुद्गल व्यवहार ॥ ११ ॥

ढालः—निंदलडी बैरण हुय रही, ए देशी

शिष्य शिरोमणी जाणीइं, 'मनरूपजी' हो वाचक गुणवंत,

चतुर चाणाक्य शिरोमणि, गुरु उपर बहु भक्तिवंत,

धन धन ए गुरु वंदीए ॥ १ ॥

धन्य एहनी चतुराइने, गुरु बेठां हो श्रावक करे सेव,

पदकज सेवे जेहना, आज्ञा माने हो नित नित मेव ॥ २ ध० ॥

विनयी विचक्षणे पण्डिते, गुणालंकृत हो जेहनुं भयुं गात्र,

श्रीगुरु मनमें चिंतवें, मुझ 'मनरूप' हो शिष्य घणु सुपात्र ।३। ध० ।

'मनरूप' शिष्य विद्यमानता, 'रायचंदजी' हो दुजला पूज्य,

गुरुसेवामें विनयी घणुं, विद्याना हो जेह जाणे गुह्य । ४। ध० ।

श्री 'रूपचंद' शिष्य सुशीलता, 'विजयचंदजी' हो पाठक गुणयुक्त,

विद्या भरे हस्ति मलपतो, मेघध्वनि सम हो उद्घोषणा छंद,

द्वितीय शिष्य 'विजयचंदजी', तर्कवादे हो जीत्या वादीवृन्द । ५। ध० ॥

तस सीस द्योय सुसीलता, पूज्य पूजा हो 'सभाचंद' 'विवेक',
 गुरुनो प्रेम शिष्य उपरे, गुरु विद्यमाने हो वादी कीया भेक ॥६७०॥
 शिक्षा देवे उपाध्यायजी, सर्वशिष्यने हो कहे धारी प्रेम,
 समयानुसारे विचरज्यो, पापवुद्धि हो नवि धरस्यो वेम ॥७७०॥
 पग प्रमाणे सोडि ताणज्यो, श्री संघनी हो धारज्यो तमे आण,
 वहिज्यो सूरिनी आज्ञा, सूत्र शास्त्रे हो तुमे धरज्यो ज्ञान ॥८७०॥
 तूज समरथ छो मुज पुठे, मुझ चिंता हो नास्ति लवलेस,
 सपरिवार ए ताहरे खोले छे, हो मुक्या सुविशेष ॥९७०॥
 तव 'मनरूप' जी गुरु प्रत्ये, कहे वाणी हो जोडी हाथ,
 गुरुजी तूमे वडभागीया, पामर अमे हो पण शिर तुम हाथ ॥१०७०॥
 सकल शिष्य भेला करी, गुरुजीये हो सहुने थाप्यो हाथ ।
 प्रयाण अवस्था अम तणी, वाणी केहवी हो जेहवो गंगापाथ ॥११७०॥
 दशवैकालिक उत्तराध्ययननां, अध्ययनने सांभले गुरुराय ।
 यथार्थ सर्व मन जाणता, अरिहंतनो हो ध्यान धरे चित्तलाय ॥१२७०॥
 संवत 'अठार वारमे', 'भाद्रपद' मासे हो 'अमावस्या' दिन,
 प्रहर एक रजनी जातां, देवगति लहे 'देवचंद्र' धन धन्य ॥१३७०॥
 मोटे आडंबरे मांडवी, चोरासो गच्छना हो श्रावक मल्या वृन्द,
 अगर चंद्रने काण्टे भली, चिंता रचिता हो महाजन सुखकंद ॥१४७०॥
 प्रतिपदाए दहन दीयुं, गुरु पूठी द्रव्य घणो खरचंत,
 तिथियो जमाडि व्होलता, जाणे अषाढो हो घने करी वरसंत ॥१५७०॥
 ए देवचंद्रना वयणथी, द्रव्य खरच्या हो अगणीत सुभठाम,
 धम धन खरचाइयुं, एहवा गुरुना हो कीधा गुणधाम ॥१६७०॥

दशमी ढाल सोहामणी, नाम धरीयुं हो गायो देवविलास ।
आसन्न सिद्धि जे थया, कोइक भवे होस्ये मुक्तिनो वास । १७ ध०

ढुहा

सात आठ भव एहवा, जा धरसें एह जीव ,
भाव बाल्यकाल विध्वंसना, धर्म यौवनमें सदीव ॥१॥
अनुमाने करी जाणीये, द्रव्यथकी विशेष ,
सात आठ भव उलंघीने, शिव कमलाने पेख ॥२॥
प्रभु मारग विस्तारवा, द्रव्य भावथी शुद्ध ,
विश्व आल्हादकारी थयो, जिनवाणीनी बुद्ध ॥३॥
श्री जिनबिंबनी थापना, करवा निज सुबुद्धि ,
च्यार निक्षेपा युक्तस्थुं, स्याद्वाद भाखे शुद्ध ॥४॥
एक पाइए साचे सकल, तस चाले करामात ,
गाजी मर्द ए जैननो, मिथ्यात्वी कीया महात ॥५॥

रागः—धनाश्री पांभी ते प्रतिबोध ए देशी


श्री देवचंद्र ऋषिराय स्वर्गेरे (२) पहीता ते सुभ ध्यानथीरे ।१।
सूरय (सूर्य?) चंद्र नै इंद्र अवधिरे (२) देखी मन चिते एहवुरे ।२।
जिनशासननो थंभ देवचंदरे (२) अमरपुरीमें अवतयारे ।३।
देश देशमां वात पोहोतीरे (२) सांभली भवि विलखा थयारे ।४।
कल्पतरुसम एह देवचंदरे (२) सरिखा पुरुष थोडा हस्येरे ।५।
मस्तकें मणि हती जेह गुरुनेरे (२) दहन समय उछली पडीरे ।६।
ते गइ पृथ्वी मध्य कोइनेरे (२) हाथे ते आवी नहीरे ।७।
महाजन शिष्य समुदाय भेला थइरे (२) स्तुप कराव्यो गुरुतणीरे ।८।

- प्रतिष्ठा करी तत्र पादुकारे (२) पूजा प्रभावना बहु विधिरे १६।
 केतले दिन वाचक 'मनरूप' रे (२) स्वर्ग गति गुरुने मिल्यारे १७।
 'रायचंद्र' शिष्य निधान गुरुनारे (२) विरह खम्यो जाये नहीरे १११।
 मन चिंते 'रायचंद्र' ए सविरे (२) अनित्यता श्री गुरुये कह्यारे ११२।
 पल्योपम पुरव आयु ते पण रे (२) पूरां थयां शास्त्रे कह्यारे ११३।
 आ पण प्राकृत जीव जुठारे (२) स्नेह धरवो ते मूढतारे ११४।
 तित्थयर गणधर जेह सुरपतिरे (२) चक्री केसवराम एहनेरे ११५।
 कृतांते संहार्यां सर्वां का गणनारे (२) इयर जननी जाणवारे ११६।
 इम मन चिंती रायचंद्र गुरुनीरे (२) स्तवना नामनी मन धरेरे ११७।
 गुरु सरखो नही इष्ट दीवोरे (२) गुरुइ ज्ञान देखाडीयुंरे ११८।
 गुरु पुठे 'रायचंद्र' पद्धतिरे (२) चलवे व्याख्याननी संपदारे ११९।
 गुरु जेहवी किहांथी वुद्धि गुरुनारे (२) ज्ञान विंदु किंचित स्पशतारे ।
 जैनशैलीमां प्रवीण 'रायचंद्र' रे (२) गुरुपसाये तादृश थयारे १२१।
 मनमां नही शंकलेश कोइथीरे (२) बाग्वाद कोइथी नवि करेरे १२२।
 सुविहितमार्गानो जाण 'रायचंद्र' रे (२) शीलादिक गुण संग्रह्यारे १२३।
 आठ मां मोहनीकर्म व्रतमें रे (२) चोथु व्रत जीतवुं दोहिलुंरे १२४।
 शील तणेरे प्रभाव संकट (सवि)टले (२) नासे तत्क्षिण ए थकीरे १२५।
 जनमां जेहनो सोभाग्य अक्षयरे (२) रिद्धि वृद्धि अणगणिततारे १२६।
 एक दिन श्री 'रायचंद्र' कविनेरे (२) कहे अम गुरु स्तवना कगोरे १२७।
 अमे जो करीयें स्तव एह अणघटेरे (२) स्वकीर्त्ति करवी अयोग्यतारे
 ते माटे कह्युं तुम्ह स्तवनारे (२) तुम वुद्धि प्रमाणे योजनारे १२८।
 'कवियणे' 'देवविलास' कोधो (२) मन हर्षित उद्दस्योरे १३०।

- कीधो 'देवविलास' शुभदिनेरे (२) जयपताका विस्तरी रे । ३१
 संवत् १८२५ 'अठार पचोस आसोसुदिरे' (२) 'अष्टमी' रविवारे रच्योरे
 स्तोकमें देवविलास कोधोरे (२) किंचित् गुण प्रहीने स्तब्धोरे । ३३
 वोहोलो छे अधिकार जोतारें (२) ग्रंथ थाये मोटो घणोरे । ३४
 भणस्ये 'देवविलास' सांभलेरे (२) तस घरे कमला विस्तरैरे । ३५

कलस

श्री 'वीर' जिनवर 'सोहम' गणधर, 'जंबु' मुनिवर अनुक्रमे,
 'खरतरगच्छ' उद्योतकारक, श्री 'जिनदत्त' सूरयोपमे ।
 तास पाट 'जिनकुशल' सूरि, 'जिनचंद्र' (१) सूरि तसपटे,
 'शुगप्रधान' नो विरुद जेहनो, नामथी दुःकृत कटे ॥ १ ॥
 गच्छ स्तंभक उपाध्यायजी, 'पुण्यप्रधान' (२) प्रधानता,
 सुमति धारी 'सुमति' (३) पाठक, 'साधुरंग' (४) वाचक भृता ।
 श्री 'राजसागर' (५) उपाध्यायजी, 'ज्ञानधर्म' (६) पाठक थया ;
 सुकृती 'दीपचंद्र' (७) पाठक५, 'देवचंद्र' (८) पाठक जय जया ॥ २ ॥
 'मनरूप' वाचक (९) 'विजयचंद्रजी', पाठकनो पद भाग्यता,
 'मनरूप' पदकज मेरुगिरिवर, 'रायचंद्र' (१०) रवि उद्गता ।
 सुज्ञानतायें विनयवंते, बुद्धि युक्ति सुरगुरु,
 चंद्र सूर ध्रु तार तारक, रहो अविचल जयकरु ॥ ३ ॥
 इति श्री देवचंद्रजीनो निर्वाण रास संपूर्ण



श्री जिनलाम्बूरिजी

(बाब विजय सिंहजी नाहरके सौजन्यसे)

॥ श्री जिनलाभ सूरि गीतानि ॥

ढाल—जंचो-नीची सरवरीयैरी पाल, एदेसी लहकमें ।

(१)

आज सुहावो जी दीह, आज नै वधावोजी अम्ह घर आंगणैजी ।
 अंग उमाहो जो आज, सहगुरु हे आया आणन्द अति घगै जी ॥१॥
 आवो हे सहियर साथ, सजि सजि हे सोल शृङ्गार सुहामणाजी ।
 जंगम तीरथ एह, वंदन कीजइ हो छीजइ दुख घणा जी ॥२॥
 धन धन सोइज देश, धन धन गाम नयर ते जाणियइ जी ।
 जिहां विचरै गच्छ राण, भाण प्रतापी हे मुजस बखाणियइ जी ॥३॥
 धन 'पंचाइन' तात, धन 'पदमा दे' हो मान महीतलै जी ।
 'बोहित्थ वंश' विख्यात, कुल उजवालण पूज जी इण कल्लै जी ॥४॥
 सवि सिणगार्या हे हाट, प्रोलि रचाई हो च्यारु फावती जी ।
 वदै सकोइ जीह, श्री जिन-शासन महिमा दीपनी जी ॥५॥
 मिलीया हे महाजन लोक, उच्छव मंड्यो हो अति आडम्बरे जी ।
 दे मन वंछित दान, याचकजन धन धन जस उच्चरै जी ॥६॥
 गोरी गावै जी गीत, फरहर गयणंगणि धज फरहरइ जी ।
 कोतिल बलि गज वाजि, खुरिय करंता हो आगल संचरै जी ॥७॥
 दुन्दुभि ढोल दमाम, झलरि भुंगल भेर नफेरीयां जी ।
 वाजै वाजित्र सार, फूलडै विछाई हो 'वीकपुर' सेरिया जी ॥८॥
 हीर अनै बलि चीर, माणिक मोती हो वारीजै छता जी ।
 पथरीजै पटकूल, मुनिपति आवै हो गज गति मलयना जी ॥९॥

पूज पधार्या हे पाट अमिय समाणी हो वाणी उपदिसैं जी ।
 सुणि सुणि श्रवण सहेज बहु नर नारी हे हियडउ उलसै जी ॥१०॥
 जां शशि सायर सूर जां धुर मेरु महीधर थिर रहै जी ।
 श्री 'जिनलाभ' सूरीश, तां चिर प्रतपो हो मुनि'माणक'कहै जी ॥११॥

(२)

एक सन्देशो पंथी माहरो, जाइनें वीनविजे करजोड़ । गरुआ पूजजीहो
 महिर करोनइ गच्छपति आविजै, वांदणरौ म्हांने कोड़ ॥ग०॥१॥
 वहिला पधारो 'थलवट' देशमें, श्री संघ जोवै थांरी वाट ॥ग०॥
 ढोल न कीजै हो पूज इण वान री, साथै मुनिवर थाट ॥ग०॥२॥
 'कच्छ' धरा सुं हो पूज्य पधारि नै, नाइसक्या इण ठाइ ॥ग०॥
 म्हे पिण जाण्यो जिण थानै राखिया, विचही में विलमाइ ॥ग०॥३॥
 'जेसलमेरा' श्रावक जोइनै, पूज रह्या लोभाइ ॥ग०॥
 मुंह मीठां सुं मनडो मोहियो जी, दूजा नावै दाइ ॥ग०॥४॥
 म्हां तो कागल साहिवा जी मोकल्या, लिख लिख अरज अछेह ॥ग०॥
 तौ पिण पाछौ जा(व)व न आवियो, पूज खरा निसनेह ॥ग०॥५॥
 मनमें ऊमाहो गच्छपति छै घणुं, सुणिवा थांहरी वाणि ॥ग०॥
 नाम तुम्हीणो खिण नहीं वीसरुं, वंदावौ हित आणि ॥ग०॥६॥
 पाटोधर मानीजै माहरी वीनति, श्री खरतर गच्छ ईश ॥ग०॥
 'बीकाणै' चौमासो कीजियै, श्री 'जिनलाभ' सूरीश ॥ग०॥७॥
 अरज अम्हीणी पूज्य अवधारिज्यो, सूरीसर सिरि इंद ॥ग०॥
 वेकर जोड़ी त्रिकरण भाव सुं, वंदै मुनि 'देवचंद' ॥ग०॥८॥
 ॥इति श्री पूज्यजां री भास सम्पूर्णम् ॥ लिखितं पं० जीवन० छोटै
 स्याला मध्ये कोठारियां रै खण मध्ये ॥ शुभं भवतु, कल्याण मस्तु ॥

(३)

जिण शासन शिणगारा, बंदो खरतर गणधार हे ।

सहियां सदगुरु वेग बधावो ।

सदगुरु वेग बधावो, मिल मङ्गल भास मल्हावा हे ॥स०॥१॥

धन धन 'मारु' देश, धन थलवट मांडल वेश हे ॥स०॥

धन 'पंचाङ्गण' तात, धन धन 'पदमादे' मात हे ॥स०॥२॥

'बोहित्थ' वंश सवायो, जिहां पुरुष रत्न ए जायो हे ॥स०॥

'मांडवी' नगर मझार, होय रद्या जय जयकार हे ॥स०॥३॥

घुरय निसाणे छाई, बांटै श्री संघ बधाई हे ॥स०॥

गोरी मंगल गावें मोत्यां, भर थाल बधावें हे ॥स०॥४॥

श्री 'जिनभक्ति' सुरिन्दा, पाट थाप्या जाणै इन्दा हे ॥स०॥

निलवट चढतै नूर, जाणे ऊगो अभिनव सूर हे ॥स०॥५॥

लघु वय चारित लोनौ, गुण देखी गुरु पद दीनौ हे ॥स०॥

सदगुरु हुंती सवायौ, जिण खरतर गच्छ दीपायो हे ॥स०॥६॥

पूरबली पुण्याइ, एतो मोटी पदवी पाइ हे ॥स०॥

पंच महाव्रत धारो, थारो रहणोरी बलिहारी हे ॥स०॥७॥

रूपे देव कुमार, एतो लवधि तणा भण्डार हे । स० ।

पालै पंचाचार, गुरु गोतम रै अवतार हे । स० ॥८॥

.....।

मीठो सदगुरु वाणी, सांभलता चित्त समाणी हे । स० ॥ ९ ॥

'श्री जिन लाभ' सुरिन्द, प्रतपो जिम सूरिज चंद हे ॥स०॥

चित्त धरि अधिक जगोश, इम 'वसतो' दे आशोस हे ॥स० ॥१०॥

(४)

* श्री जिनलाभ सूरि निर्वाण गीतम् *



ढाल—आदि जिणिंद मया करो एहनी ।
 देश सकल सिर सौभतौ, थलवट सुथिर सुजाणो रे ।
 जिहां 'विक्रमपुर' परगडौ, तिहां प्रगट्या मुनि भाणो रे । १ ।
 गुणवन्ता गुरु वंदोयै । आंकडी० ।
 सुमती शाह 'पंचायण', 'पदमादेवी' नन्दा रे ।
 'वोहित' वंश विभूषण, लाल अमोल अमंदा रे । २ गु० ।
 श्री 'जिनमक्ति' सूरीसरू, श्री खरतर गछराया रे ।
 तासु संयोगे आदर्यौ, संजम शोभ सवाया रे । ३ । गु० ।
 अरथ सहित सदगुरु दीयड, 'लक्ष्मीलाभ' सुनामो रे ।
 वरस 'अठार चउडोत्तरै', पाम्यौ पाम्यौ पद अभिरामो रे । ४ ।
 श्री 'जिनलाभ' सूरीसरू गछनायक गुणरागी रे ।
 पंचम काले परगडा, श्रुतधर सीम सोभागी रे । ५ । गु० ।
 देश विदेशे विचरता, बहु भवियण प्रतिबोधी रे ।
 सकल कलुषता टालता, आतम धरम विरोधी रे । ६ । गु० ।
 नगर 'गुढै' गुरु आवीया, 'चउतीसै' चउमासै रे ।
 तिहां निज समय प्रकाशने, पहुंचता सुर आवासै रे । ७ । गु० ।
 चरण कमलकी थापना, अतिसयवंत विराजै रे ।
 दास 'क्षमाकल्याण' नौ, वंदन हुओ शुभ काजै रे । ८ । गु० ।
 इति श्री जिनलाभ सूरि सदगुरु सिझाय (पत्र १ तत्कालीन, संग्रहमें)

॥ जिनलाभसूरि पट्टधर जिनचन्द्रसूरि गीत ॥

(१)

हाल—आज रो सुज्ञानी स्वामी जोर वण्यो राज ।

‘जिनचंद्र सूरि’ गुरु वंदियै जी राज, वंदियै वंदियै वंदिय जी राज जि०
सहु गच्छपति सिर सेहरोजी राज, खरतर गच्छ सिणगार । म्हां०रा०राज ।

श्री ‘जिनलाभ’ पटोथरूजी राज, ‘ओस वंश’ अवतार । म्हां०१।जि०।
लघु वय संयम आदर्योजी राज, ‘मरुधर’ देश मझार । म्हां०रा०।

अनुक्रम गुरु पद पामियाजी राज, सूत्र सिद्धंत आधार । म्हां०२।जि०।
देश घणा वन्दावताजी राज, गया ‘पूर्व कै देश’ । म्हां०।

‘समेत शिखर’ ‘पावापुरी’ जी राज, कीनी जात्र अशेष । म्हां०।३।जि०।
चौमासो कीनौ तिहां जी राज, ‘अजीमगंज’ मझार । म्हां०।

भव्य जन कुं प्रतिबोधताजी राज, मोह्यो जे नगर उदार । म्हां०जि०४।
आचरज पद शोभता जो राज, छत्तीस गुण अभिराम । म्हां०।

सुमत पांच कुं पालता जी राज, तीन गुपतिका धाम । म्हां०।जि०।५।।
छ काय का पीहर भलाजी राज, सात महाभय वार । म्हां० ।

आठ प्रमाद महाबलो जी राज, दूर क्रिया सुविचार । म्हां । जि०।६।।
श्रावक ‘वीकानेर’ का जी राज, वीनति करै वारो वार । म्हां ।

पूज जी इहां पथारियै जी राज, महर कगी गणधार । म्हां ।। जि० ७।।
‘बच्छावत’ कुल दीपताजी राज, ‘रूपचंद’ जी कौ नंद । म्हां० ।

‘केसर’ कूखे ऊपनाजी राज, राज करो ध्रुव चंद । म्हां ।। जि०।८।।
वरस ‘अठार पचास’ में जी राज, ‘वद वैसाख’ मझार । म्हां० ।

‘चारित्र नंदन’ वीनवइ जी राज, ‘आठम’ तिथि ‘गुरुवार’ । म्हां।जि०९।

(२)

ढालः-म्हारेो सहियां हो अमर बधावो गज मोतियां०

म्हांग पूजजी हो, श्री 'जिनचन्द्र सूरि' राजियां, खरतर गच्छरा भाण ।

म्हारा पूजजी हो, दिन दिन तुम चढती कला, प्रतपोजी कोडि कल्याण

श्री 'जिनचन्द्र' सूरि पटधरू ॥ आंकणी ॥१॥

म्हां० धन धन धन वेला घडी, धन सायत सुप्रमाण ।

दरसण सदू रु निरखस्यां, सुणम्यां मुख नी वाण ॥२॥म्हां॥श्री०॥

म्हां० पूरब नै पुण्ये पामियौ, श्री सदगुरु नौ पाट ।

शील गुणे करि शोभता, बरतावे धर्म वाट ॥३॥म्हां०॥श्री०॥

'ओस वंश' अति दीपतौ, 'बच्छावत' बलि गोत्र ।

पिता 'रूपचंद' गुणनिलौ, मात 'केसरदे' पुत्र ॥ ४ ॥ म्हं ॥ श्री ॥

म्हां० मरुधर देश सुहामणो, 'गुढा नगर' मझार ।

म्हां० श्री 'जिनलाभ' सैहथ दियौ, सूरि मंत्र गणधार ॥म्हां०श्री०॥५॥

म्हां० संघ सकल उत्सव कियो, बरत्यो जय जयकार ।

म्हां० सूहव बधावै गज मोतियां, सजि सजि सोल श्रङ्गार ॥म्हां०॥६॥

म्हां० चंद चंद चढती कला, बखत विलंद गच्छगज ।

म्हां० गौतम ज्युं गुणनिध सही, प्रतपो अविचल राज ॥म्हां०श्री०॥७॥

म्हां० वाणि सुधारस बरसतां, हरखै भवि जन मोर ।

म्हां० धर्मगुरु दै धर्म देसना, नासै करम कठोर ॥म्हां०॥श्री०॥८॥

म्हां० वर्तमान गुरु विचरता, 'श्री जिनचन्द्र सूरीश' ।

म्हां० दर्शन देखण अलजयो, पूरो मनह जगीश ॥म्हां०॥श्री०॥९॥

म्हां० 'सिन्धु देश' में दीपतौ, 'हालां नगर' निमेव ।
 म्हां० शुद्ध मन श्रावक श्राविका, देव सुगुरु करै सेव ॥म्हां०॥श्री०१०
 म्हां० धन धन ग्राम नगर जिके, जिहां विचरै गच्छराण ।
 म्हां० धन श्रावक ने श्राविका, श्री मुख संभलै वाण ॥म्हां०॥श्री०११
 म्हां० अम्ह मन हरख घणो अछै, सदगुरु सुणवा वाण ।
 म्हां० साधु समक्षे परिवर्या, आवो श्री गच्छराण ॥म्हां०॥श्री०१२॥
 म्हां० श्रीमुख कमल निहारवा, अम्ह मन छै बहु आश ।
 म्हां० श्री सदगुरु हिव पूरजो, आवेजो चउमास ॥म्हां०॥श्री०१३॥
 धन दिन ते सकलो घडो, मुख नी सुणस्यां वाण ।
 म्हां० सदगुरु सेवा सारस्यां, जीवत जन्म प्रमाण ॥म्हां०॥श्री०१४॥
 म्हां० संवत 'अठार चौतीस' में, 'माधव' मास मझार ।
 म्हां० वर्त्तमान सदगुरु तणा, गुण गायां निस्तार ॥म्हां०॥१५॥श्री०१५॥
 इम बहुविध वीनति करी, अवधारो गच्छराय ।
 म्हां० "कनकधर्म" कहै दंडणा, अवधारो महाराय ॥म्हां०॥१६॥श्री०१६॥




जिनहर्षसूरि गीतम्

ढाल :—जाति सोहिलानी

पहिरी पोसाखां सखियां पांगुरी रे, सुन्दर सजि सिणगार ।
 गिरुआजी गच्छपति आया ढूकड़ारे, देखण हर्ष अपार ॥१॥
 चालो हे सहेली पूजजी नै वांदस्यां हे, 'श्रीजिनहर्ष' सूरिन्द्र ।
 चंद पटोधर गच्छ चौरासियां हे, दीपत जेमदिणन्द ॥२॥चा०॥
 पूज्य सामेलै श्रावक श्राविका हे, हय गय बहु परिवार ।
 सिणगार्या सारा रूडी परै हे, मारग हाट बाजार ॥३॥चा०॥
 कौतुक देखण बहु भेला थया हे, अन्य मती पिण लोक ।
 दर्शन देखत सहु राजी थया हे, रवि दर्शन जिम कोक ॥४॥चा०॥
 चहल घणी 'बीकाणै' रे चोहटै हे, लोक मिल्या लख कोड़ ।
 अंग ऊमाहो पूजजी नै वांदवा हे, लाग रह्यो मन कोड़ ॥५॥चा०॥
 उत्सव देखी मन हर्षित थयो हे, रथव्यां च्योतरणिंद (?)
 शास्त्र यथोक्त गुणेकर ओलखथारे, एतो धरम नरेन्द्र ॥६॥चा०॥
 'बोहरा' गोत्र जगतमें दीपता हे, सेठ 'तिलोक चन्द' धन्न ।
 धन माताये 'तारादे' जनमियारे, अनुपम पुत्र रतन्न ॥७॥चा०॥
 भावे बधावो माणक मोतियां हे, दे दे प्रदिक्षण तीन ।
 वारे आवत्तौ पूजजीने वांदणा हे, क्रोधादक होय छीन ॥८॥चा०॥
 पूज पधारो 'बीकाणै' रे पूठिये हे, बांचो सूत्र बखाण ।
 भाव बधारो..... हे ज्युं होय परम कल्याण ॥९॥चा०॥
 वांदो देव 'बीकाणै' दीपना हे, पूजो चिन्तामणि पाय ।
 आदीसर बावो नित भेटिये हे, ज्युं तृषणा दूर नसाय ॥१०॥चा०॥
 सज्जन बधज्यो पूज पधारता हे, दुर्जन होवो रे विध्वंश ।
 राज करो पूज ध्रू ल्या शाश्वतो हे, विनवै 'महिमाहंस' ॥११॥चा०॥

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह



श्री जिनहर्षमूर्तिजी

(बाबू विजय सिंहजी नादरके सौजन्यसे)

श्रीजिन सौभाग्यसूरि भास ।



ढाल—घोड़ी तो आइ थारा देसमें एहनी देशी
 'करणा दे' कूखे ऊपना, सदगुरुजी पिता 'करमचंद' (वि)ख्यात हो ।
 गच्छ नायक 'सौभाग्यसूरि' हो सदगुरुजी ।आ० ॥१॥
 श्री'जिनहर्ष' पाटोधरु सदगुरुजी, श्री'जिनसौभाग्य' सूर हो॥२॥ग०
 चीठी घातण चालीया सदगुरुजी, थे वचनां रां सूर हो ॥ग०॥३॥
 उवां तो कूड़ कपट कियो सदगुरुजी,थे कूड़कपट सुं हुवा दूर हो॥ग०४
 'बीकानेर' पधारज्यो सदगुरुजी, थांलूं कौल कियो 'रतनेश'हो॥ग०५
 थांका पुण्य थांके खनै सदगुरुजी, पुण्य प्रबल जग मांहि हो॥ग०॥६॥
 'बीकानेर' पधारिया सदगुरुजी, थांसुं एकांत किया 'रतनेश' हो॥ग० ७
 भलांइ विराजो पाटियै सदगुरुजी, थे म्हांरा गुरुदेव हो ॥ग०॥८॥
 तखत दियो गुरु वचन थी सदगुरुजी, श्रीसंघ मिल 'रतनेश' हो॥ग० ९
 नोबतरखाना बाजिया सदगुरुजी, बाज्या मङ्गल तूर हो ॥ग०॥१०॥
 गोत्र 'खजानची' दीपता सदगुरुजी, 'लालचंद' बुधवान हो॥ग०॥११॥
 महोच्छव कीनो अति भलो सदगुरुजी,दीनो अढलक दान हो॥ग०१२॥
 कोड़ वरस लगै पालज्यो सदगुरुजी, बड़ खरतर गच्छ राज हो॥ग०१३
 'कोठारी' वंश दीपावज्यो सदगुरुजी, ज्यां लंग सूरज चंद हो ॥ग१४
 बीजानै वादां नहों सदगुरुजी, थे म्हांरा गच्छराज हो ॥ग०॥१५॥
 संवत् 'अठारै बाणवे' सदगुरुजी, 'सुदसातम' गुरुवार' हो॥ग०॥१६॥
 'मिगसर' पाट विराजिया सदगुरुजी, खूब थया गहगाट हो॥ग०॥१७॥

॥ इति श्री भास सम्पूर्णम् ॥

श्रीजिन महेन्द्रसूरि भास ।



(१)

ढाल—आज नौ हजारी ढोलो पाहुणो ।

वारि जाऊं पूज. म्हांरी वीनति, सुणजो अधिके चाव । सुगुरु म्हांरा हो ।

म्हां दिश थे करज्यो मया, धरो पद्म सकोमल पाव ॥ सु० ॥ १ ॥

पूजजी पधारो म्हांरा देशमें ।

लायज्योजी मुनिवर लाजरा, सूरतवंत सज्योत

घण जाणीता गुण घणा, दिल रजण थै स्योत ॥ सु० ॥ २ ॥

वादल तंबू चंपा बागमें, म्हेतो खड़ा किया इण खात । सु०

धूप पडै धरती तपै, गच्छपति गोरै गात ॥ सु० ॥ ३ ॥

राज सभामें राजता, नित नित चढते नूर । सु०

गावै यश याचक घणा, हिन्दूपति आप हजूर ॥ सु० ॥ ४ ॥

लिख 'परवानो' मोकलै, थानै 'उदयापुर' नौ 'राण' । सु०

कई दिनां रौ कोड़ छै म्हानै, भेटण 'खरतर' भाण ॥ सु० ॥ ५ ॥

हाथीड़ा तो मेळुं राणे रावरा, ओठोड़ा सज सिणगार । सु०

पग पग मेळुं पूजजीने पालखी, पग पग रथ असवार ॥ सु० ॥ ६ ॥

मोह्य रेयाजी 'मरुधर' मेड़तं, अधिका गढ़ 'अम्बेर' । सु०

'बीकाणे'री आइ पूजजी नै वीनति, झाला दे 'जेमलमेर' ॥ सु० ॥ ७ ॥

लुल लुल लेसां थारा वारणा, थारें पग पग करतां पेश । सु०

एकरस्युं म्हांरे आइज्यो थेतो, देखोनी 'जोधाने' रो देश ॥ सु० ॥ ८ ॥

पाटोधर पांव पधारिया, सूरीश्वर मिरताज ।सु०।
 गहरो गुमानी ज्ञानी गच्छपति, म्हांरी मानी अरज महाराज।।सु०६।।
 जालम 'खरतर' राजवी गुरु, साचो गच्छ सिणगार ।सु०।
 भलके हे सहियां चंपो भालमें, मै तो दीठो अजब दीदार ।।सु०।।१०।।
 सूरज गच्छ चौरासिया, थानै भलाइ कहै बड़ भाग ।सु०।
 आज सवाइ अभिमानमें, म्हारो रीझथो मन घणो राग ।।सु०।।११।।
 अमीय रसायन आपरो, मीठी वाण मुणिन्द ।सु०।
 तखत तपे जिनहर्ष रै, श्री 'जिनमहेन्द्र' सुरिन्द ।।सु०।।१२।।
 दिलभर दर्शन देखनै, सफल करै संसार ।सु०।
 'राजकरण' नितराजरे, पाय लागै हर्ष अपार ।।सु०।।१३।।

(२)

आज बधाई आवियो म्हांरे, मारु देश मझार हो राज ।
 दीधी बधाई दोडनै म्हांरे, पूजजी आप पधारो हो राज ।।
 आज बधावो हे सखी, गहरो गच्छपति गज मोतीडे हो राज।।१ आ०
 मांगी दू बधावणी तोने, पथोड़ा लाख पसाव हो राज ।
 वले संघ जोतां बाटड़ी, थे तो आवी आज सुणाय हो राज।।२।।अ०।।
 घण थट हरिया वागमें, एतो भलहलीयो जश भाण हो राज ।
 आवो हे सहेली आपे निरखस्यां, एतो खरतरगच्छ रो राणहो राज।।३ आ०
 धवल मङ्गल करण ढोलमें ऐतो जंगी ढोल घुराया हो राज ।।आ०।।४।।

पुर पैसारे पधारिया, एतो पूजजी पौषध शाला हो राज ।
 गहमाती अति घणो आतो, कूहक रही करनाल हो राज ॥आ०॥५॥
 भांभल भोली भामणी, एतो गौराङ्गी चढी गोख हो राज ।
 दर्शन सदगुरु देखवः, एतो झांख रहीय झरोख हो राज ॥आ०॥६॥
 भांभल नैणा भालीयो, एतो गच्छषति गुण रो गाढो हो राज ।
 पालै चारित निर्मलो, एतो लाइक चौरास्यां रो लाडो हो राजा ॥आ०७॥
 रतिपति रूपे रीझिया, एतो नरनारी ना थाट हो राज ।
 शील शिरोमणि सेहरो, प्रतपो जिनहर्ष पाट हो राज ॥आ०॥८॥
 'सुन्दरा' देवी जन्मियो, लाखीणो नग लाल हो राज ।
 सुत 'रुघनाथ' शाहरौ, गाहे दौयण गज ढाल हो राज ॥आ०॥९॥
 रहणी करणी राजरी, आतो म्हारे मन्डे मानी हो राज ।
 खीर सायर भारी क्षमा, ६ तो गौतम जेहड़ा ज्ञानी हो राज ॥आ०१०॥
 चिरजीवो राजस करो, श्री'जिनमहेन्द्र' सूरिन्द्र हो राज ।
 'राज'सदाइ राजनै, एतो इसड़ी दै आशीस हो राज ॥आ०॥११॥
 ॥ इति भास सम्पूर्णम् ।



महोपाध्याय राजसोमाष्टकम्



श्रेयस्कारि सतां यदाशु चरितं, सामोदमाकर्णितं ।

कर्णाभ्यां सततं मतं मतिभृतां, सद्भूत भावान्वितम् ॥

विभ्राणास्तदनन्त कांति कलिताः कारुण्य लीलाश्रिताः ।

श्रीमत्पाठक राजसोमगुरवस्ते संतु मोदप्रदाः ॥१॥

येषां चारु सुखोद्भूताः सुललिता वाचो निशम्योल्लस-

द्रूपं वीक्ष्य पुनः प्रमोद जनकं लावण्य लीलागृहम् ॥

प्राप्तानंद कदंबकेन मनसा स्वस्य श्रुतीनां दशा-

मष्टानांच विनिर्मितं फल युनां मेने ध्रुवं शाश्वतम् ॥२॥

चित्तं सर्वं सुपर्वणामपि विशद्वाचस्पतेर्भाषितं ।

माधुर्येण तिरश्चकार सहसा नादीनवं यद्वचः ॥

शास्त्रासक्तधियां सदैव सुधियां चेतश्चमत्कारकृत् ।

दुर्वादि द्विरदौघ दर्पं दलने शादूलं विक्रोडितम् ॥३॥शा० छंदा॥

प्राप्त प्रदोषोदयमंकगर्भिर्भतं ? चंद्रं दधच्चारु तयैकमम्बरम् ।

आमोद संदोह मनारतं मतं चैतन्य भाजां विननोति चेतसि-

(यदितिशेषः) ॥४॥

संभाव्यते तन्मधुरं निराश्रवं नित्योदः तद्द्वितयं विराजतं ।

श्रीराजसोमोत्तम नाम विश्रुते यत्रास्पदे किं खलु तस्य वर्गनम् ॥५॥

वंदे समप्रावयवानवद्यतां वीक्ष्यानुरक्तैरिव पेशलैर्गुणैः ।

हित्वामिथो द्वेषमलंकृत स्थितीन् योगीन्द्र वंशाहितलक्षणान्गुरून् ॥६॥

इन्द्रवंशावृत्तम् ॥

विशद गुण निधानं साधुवर्ग प्रधानं ।

कृत कुमत पिधानं सत्कृतौ सावधानम् ॥

धृतिरुचिर विधानं, सर्व विद्या दधानं ।

गुरुमनघ विधानं प्राप्यतं सन्निधानम् ॥७॥

पद्मबंध ॥

प्रणमत गुरुभक्त्या भक्तलोका विशुद्धै-

रति निभृत यशोभिः शोभमानं विमानम् ॥

विजित निखिल लोकोद्दाम कामस्य जेतुः ।

स्फुट शुभ मति माला मालिनी यस्य वृत्तिः ॥८॥युग्मं॥

मालिनीवृत्तम् ॥

इत्थं श्रीराजसोमाख्या महोपपद पाठकाः ।


संस्तुताः संतु चिद्दान क्षमाःकल्याणकांक्षिणाम् ॥९॥

इति विद्यागुरुणामष्टकम् । पं० रायचंद्रजिद्धर्षचंद्र जित्कृतेऽष्टक

मिदं लिखितं पं० खुस्यालचंद्रेण (पत्र १ महिमा० बं० नं० ७४)



वाचनाचार्य-अमृत धर्माष्टकम् ।



श्रीवाचनाचार्यपद प्रतिष्ठा गणीश्वरा भूरिगुणैर्गारिष्ठाः ।
 सत्य प्रतिज्ञामृतधर्म संज्ञाः जयन्तु ते सद्गुरवो गुणज्ञाः ॥ १ ॥
 गणाधिप ओजिनभक्तिमूरि, प्रशिष्य संघात सुविश्रुतानाम् ।
 येषां जनिः श्रीमति वृद्धशाखे उकेश वंशेऽजनि कल्लदेशे ॥ २ ॥
 भट्टारक श्री जिनलाभ सूरयः श्रीयुक्त प्रीत्यादिम सागराश्च ये ।
 आसन् सतीर्थ्याः क्लि तद्विनेयतामवाप्य यैः प्राप्रमर्निदितं पदम् ॥३॥
 शत्रुं जयाद्युत्तम तीर्थयात्रया सिद्धांतयोगोद्धहनेन हारिणा ।
 संवेग रंगाहत चेतसा पुनः पवित्रितं यैर्निजजन्म जीवितम् ॥ ४ ॥
 जिनेन्द्र चैत्य प्रकरो मनोगमो वरेण्य हेम्नः कल्लौर्विराजितः ।
 व्यधापि(यि?) संघेन च पूर्वं मंडले येषां हितेषामुपदेशतः स्फुटम् ॥५॥
 प्रभूतजंतून् प्रतिबोध्य ये पुनः स्वर्गगता जेसलमेरुसत्पुरे ।
 समाधिना चंद्र शराष्टभूमिते संवत्सरे माघ सिताष्टमी तिथौ ॥ ६ ॥
 स्थानाङ्ग सूत्रोक्त वचोनुसाराद्विज्ञायते देवगतिस्तुयेषाम् ।
 यतो मुखादात्म विनिर्गमोभूत्लाक्षात्तु विज्ञानभृतो विदंति ॥ ७ ॥
 एवं विधाः श्रीगुरुवः सुनिर्भरं कृपापराः सर्वजनेषु साम्प्रतम् ।
 क्षमादि कल्याण गणिं प्रति स्वयं प्रमादकृद्द्राग् ददतु स्वदर्शनम् ॥ ८ ॥
 इति श्रीमदमृतधर्म गुरुणामष्टकम् ।



उपाध्याय क्षमा कल्याणाष्टकम् ।

(१)

चिदब्धेः पारङ्गः स्फुरदमल पङ्के रुह मुखो,

मुदानंत ध्यायी मुनि गणवरो मारशमनः ।

सदा सिद्धांतार्थं प्रकटन परो वाक्पति समः,

क्षमाकल्याणोऽसौ नयनसृतिगामी भवतु मे ॥१॥

गुरो तवांब्रिदर्शनं मदीय मानसे मुदे ।

भवेद्यथैव केकिनां गिरौ पयोद लोकनम् ॥२॥

महोक्कलयदीयगां निपीय कर्णं संपुटैः ।

भवंति मोदसंयुताः जनाः सुशर्म भागिनः ॥३॥

तपः पुंज युजोऽजस्रं ध्यान संमग्न चेतसः ।

क्षमाकल्याण सन्नाम्नो गुरुन्वन्दे गुरुद्युतीन् ॥४॥

गुरुं ज्ञानप्रदं नौमि सद्धर्माचार चंचुरं ।

यदक्षि करुणा दृष्टैः पूतोऽधर्मी भवत्वरं ॥५॥

विरामं विपदां शश्वत्स्मरतां भूमि मण्डले ।

वन्दारु नर मन्दारमुपासे गुरु पत्कजं ॥६॥


मोह मास्थत्सदा सेव्योहृद्वाक् संहननैर्मया ।

योयं गांयेयं वर्णाभिः सौजन्याद् वनौचिरं ॥७॥

काम मोह राग रोष दुष्ट दाव वारिदस्य ।

दर्शनं जनावहारि अस्तुमे सुपाठकस्य ॥८॥

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह



उपाध्याय क्षमाकरव्याणजी

(श्रीहरिसागरसुरिजीकी कृपासे प्राप्त)

यद्वाणी मुद्रमातनोति कृतिनां, पूनात्मनां नित्यशः ।

सद्वीजंवृषशाखिनः सुरसरिन्नीराजुना सन्ततं ॥

योगारूढ मुनीद्र मानस सरो वासं विधाय स्थिता ।

तां पीत्वा जलदाम्बु चातक इवहृन्मे यथाहृष्यति ॥६॥

※ परलोक गतानां श्री गुरूणां स्तवः ※

(२)

सर्वं शास्त्रार्थं वक्तृणां, गुरूणां गुरु तेजसाम् ।

क्षमा कल्याण साधूनां, विरहोमे समागतः ॥१॥

तेनाहं दुःखितोजऽस्रं विचरामि महीतले ।

संस्मृत्य तद्गिरोगुर्वी, धैर्य्यं मादाय संस्थितः ॥२॥

वीकानेर पुरे रम्ये, चातुर्वर्ण्यं विभूषिते ।

क्षमाकल्याण विद्वांसो, ज्ञान दीप्रास्तपखिनः ॥३॥

अग्न्यद्रि करि भू वर्षे, (१८७३) पौष मासादिमे दले* ।

चतुर्दशो दिन प्रांते सुरलोक गर्तिगताः ॥४॥युग्मं ॥

वन्देहं श्रीगुरून्नित्यं भक्ति नम्रेण वर्ष्मणा ।

मदुपकार कृताः श्रेण्यः स्मर्यन्ते सततं मया ॥५॥

गृहं पवित्री कुरुमे दयालो, गुरो सदापाद सरोजन्यासैः ।

लुतोहि जाड्यं मनसिस्थितं वै, संस्कारवत्या च गिरा सदात्वं

श्रीःस्तात् सतां सदा ॥६॥

पूजा अरचा मंड पाट पटंबर, वाजत झालर संख वती ।
 परानो ऐम स कोई पयपै, न्यात कहै धन धन नीती ॥
 बड़वा रस कोसै सार बखाणौ, जस जोर हुवो चहुं कुंट जेती ॥५०॥
 कर कोड सहोड करै कव कीरत, ध्यान धरै को ग्यान ध्रती ।
 दीयै दान घगा सनमान सदताही, पुज जणोसुर पाइ वती ॥
 ईधकार करै जीणवार सुजाणे, आण न कोईण ईड इनी ॥ ५० ॥

॥ कवित्त ॥

खरतर गच्छ जस खटण, पाट उजवाल बड़े प्रव(ण?) ।
 'हरखचंद' हरा हेन, वरा 'जीवण' जी वाटण ॥
 'सुन्दरदास' सपूत, बले 'वस्तपाल' वखाणुं ।
 'दीपचंद' दरियाव ओपमा 'अरजन' जाणुं ॥
 'जीवणदास' पुठ खटण सुजस, बड़ शाखा जिम विस्तरौ ।
 परवार पुत 'धमडेश' रो, रवि जितरौ अविचल रहौ ॥१॥
 ॥ श्री ॥ ३० ॥ श्री जयमाणिक्य जीरौ ए कवित्त छे ॥

॥ जैन-न्याय ग्रन्थ पठन सम्बन्धी सवैया ॥

स्याद वाद जै (जय?) पताका 'नयचक्र' 'नै (नय?) रहस्य'
 'पंचअस्तिका यं' 'रत्नआकरावतारिकां' ।
 कठिन 'प्रमेय कौल मारतंड' 'सम्मति' सुं,
 'अष्टसहस्री' वादि गजकी विदारिका ।
 'न्याय कुसुमाञ्जलि' जु 'तरकरहस्यदीपो(का)',
 'स्यादवाद-मंजरी' विचार युक्ति धारिका ।
 केइ 'किरणावली' से तर्क शास्त्र जैन मांझि,
 कहा नैयायिकादि पढो शास्त्र पारका ॥१॥

❀ ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह ❀

द्वितीय विभाग

(खरतरगच्छको शाखाओं सम्बन्धी ऐतिहासिक काव्य)

वेगड खरतरगच्छ गुर्वावली



पणमिय वीर जिणंद चंद, कय सुकय पवेसो ।

खरतर सुरतरु गच्छ स्वच्छ, गणहर पभणेसो ।

तसु पय पंकय भमर सम, रसजि गोयम गणहर ।

तिणि अनुक्रमि सिरि नेमिचंद मुणि, मुणिगुण मुणिहर ॥ १ ॥

सिरि 'उद्योतन' 'वद्धमान', सिरि सूरि 'जिणेसर' ।

थंभणपुर सिरि 'अभयदेव', पयडिय परमेसर ।

'जिणवल्लह' 'जिनदत्त' सूरि, 'जिणचंद' मुणीसर ।

'जिणपति' सूरि पसाय वास, पहु सूरि 'जिणेसर' ॥ २ ॥

भवभय भंजण 'जिणप्रबोध', सूरिहिं सुपसंसिय ।

आगम छंद प्रमाण जाण, तप तेउ दिवायर ।

सिरि 'जिन कुशल' मुणिंद चंद, धोरिम गुण सायर ॥ ३ ॥

भाव(ठ)—भंजण कप्प रुक्ख, 'जिन पद्म' मुणीसर ।

सब सिद्धि बुद्धि समिद्धि वृद्धि, 'जिणलद्धि' जइसर ।

पाप ताप संताप ताप, मलयानिल आगर ।

सूरि शिरोमणि राजहंस, 'जिणचंद' गुणागर ॥ ४ ॥

बोहिय आधक लाख साख, सिव मुख सुख दायक ।

महियलि महिमामाण जाण तोलइ नहु नायक ।

‘झंझण’ पुत्त पवित्र चित्त, किर्त्तिहिं कलि गंजण ।

सूरि ‘जिणेसर’ सूरि राउ, रायह मण रंजण ॥ ५ ॥

‘भीम’ नरेसर राज काज, भाजन अइ सुंदर ।

वेगड नंदन चंद कुंद, असु महिमा मंदर ।

सिरि ‘जिनशेखर सूरि’ भूरि, पइ नमइ नरेसर ।

काम कोह अरि भंग संग जंगम अलवेसर ॥ ६ ॥

संपइ नवनिध विहित हेतु, विहरइ मुहि मंडलि ।


थापइ जिणवर धम्म कम्म, जुत्तउ मुणि मंडलि ।

जां गयणंगणि ‘चंद सूरि’, प्रतपइं चिर काल ।

तां लग सिरि ‘जिणधम्म सूरि’, नंदउ सुविशाल ॥ ७ ॥



॥ श्री जिनेश्वर सूरि गीत ॥



सूरि भिरोमणि गुण निलो, गुरु गोयम अवतार हो ।

सदगुरु तुं कलियुग सुरतरु समो, वांछित पूरणहार हो ॥ १ ॥

सदगुरु पूर मनोरथ संघना, आपो आणंद पूर हो । सद० ।

विघन निवारो वेगळा, चित विंता चकचूर हो ॥ सद० ॥ २ ॥

तुं 'वेगड' विरुदे वडो, 'छाजहडां' कुल छात्र हो ।

गच्छ खरतर नो राजियो, तुं सिंगड वर गात्र हो ॥सद०॥३॥

मद चूर्यो 'मालू' तणो, गुरु नो लीधो पाट हो ।

सम वरण ! लीधो सहु, दुरजन गया दह वाट हो ॥सद०॥४॥

आराधी आणंद सुं, वाराही त्रि राय हो ।

धरणेन्द्र पिण परगट कियो, प्रगटी अति महिमाय हो ॥सद०॥५॥

परतो पूर्यो 'खानं' नो, 'अणहिल वाडइ' मांहि हो ।

महाजन बंद मुक्कावीयो, मेल्यो संघ उछाह हो ॥सद०॥६॥

'राजनगर' नई पांगुर्या, प्रतिबोध्यो 'महमद' हो ।

पद ठवणो परगट कियो, दुख दुरजन गया रद हो ॥सद०॥७॥

सोंगड सोंग वधारिया, अति ऊंचा असमान हो ।

धोंगड भाइ पांचसई, घोडा दीधा दान हो ॥सद०॥८॥

सवा कोटि धन खरचीयो, हरख्यो 'महमद शाह' हो ।

विरुद दियो वेगड तणो, प्रगट थयो जग मांहि हो ॥सद०॥९॥

गुरु आ (सा?) वक बहु वेगडा, वलि वेगड पतिशाह हो ।

विरुद्ध धर्यो गुरु ताहरो, तुझ सम बड कुण थाय हो ॥सद०॥१०

श्री 'साचउर' पधारीया, मुं (पुं)हता गच्छ उछरंग हो ।

'वेगड' 'थूलग' गोत्र वे, मांहो मांहि सुरंग हो ॥सद०॥११॥

'राडद्रही' थी आवीया, 'लखमसीह' मंत्रीस हो ।

संघ सहित गुरु वंदीया, पहुंती मनह जगीस हो ॥सद०॥१२॥

'भरम' पुत्र विहरावीयो, राखण कुल नी रीत हो ।

च्यार चौमासा राखीया, पाली धर्म नी प्रीत हो ॥सद०॥१३॥

संवत 'चउद त्रीसा' समै, गुरु संथारो कीध हो ।

सरग थयो 'सकतीपुरै', वेगड धन जस लीध हो ॥सद०॥१४॥

पाटे थाप्यो 'भरम' नें, कर अधिको गहगाट हो ।

थुंभ मंडाव्यो ताहिरो, जा 'जोसा(धा?)ण' री वाट हो ॥सद०॥१५॥

लोक खलक आवे घणा, दादा तुझ दीवाण हो० ।

जे जे आस्या चित्तवइ, ते ते चढइ प्रमाण हो ॥सद०॥१६॥

षट पुत्री उपर दियो, 'तिलोकसी' नइ पुत्र हो ।

पूर्यो परतो मन तणो, राख्यो घर नो सूत्र हो ॥सद०॥१७॥

तू 'झाझण' सुत गुण निलो, 'झबकु' मात मल्हार हो ।

'जिणचंद्र' सूरि पाटइ दिनकरु, गच्छ वेगड सिंगगार हो॥सद०॥१८॥


स(ह)गुरु 'जिणोसर सूरजी', अरज एक अवधार हो ।

सदगुरु उदय करेज्यो संघ मई, बहु धन सुत परिवार हो ॥सद०॥१९॥

'पोस सुदि तेरस' नइ दिनइं, यात्रा कीधी उदार हो ।

श्री 'जिनसमुद्र' सूरिंद नइं, करज्यो जयजयकार हो ॥सद०॥२०॥

॥ श्री जिनचंद्र सूरि गीत ॥



रागः—मारू

आज फल्यो म्हारइं आंबलोरे, परतख सुरतरु जाण ।

कामधेनु आवी घरे रे, आज भले सुविहाण । पधार्या पूज्यजी रे।
श्री 'जिनचंद्र सूरिंद' पधार्या पूज्यजी रे ।

श्री चंद्र कुलांबर चंद्र पधार्या, श्री खरतर गच्छ नरिंद । पू० ॥ १ ॥
श्री वेगड गच्छ इंद पधार्या पूज्यजी रे ।

ढोल दमामा वाजीया रे, वाज्या भेर निसाण ।
सुमति जन हरषित थया रे, कुमति पड्यो भंडाण ॥ ५० ॥ २ ॥
घरि घरि गूडी उल्लइ रे, तलीया तोरण वार ।

पाखंडी कांनई कीया रे, वेगड गच्छ जयकार । गच्छ खरतरजू३
सूहव बधावो मोतीयइ रे, भर भर थाल विशाल ।

खोटा कूड कदाग्रही रे, ते नाठा तत्काल ॥ ५० ॥ ४ ॥
वडई नगर 'साचोर' मई रे, श्री पूज उग्यो भाण ।

तारां ज्युं झाखां थया रे, खोटा अ(उ)र अजाण ॥ ५० ॥ ५ ॥
पाटि विराज्या पूज्यजीरे, सुललित वाण (वखाण) ।

अशुद्ध प्ररूपक मयलडा रे, त्यांना गळीयां माण ॥ ५० ॥ ६ ॥
'बाफणा' गोत्र कळां निलोरे, शाह 'रूपसी' नो नंद ।

“श्री जिन समुद्र” कहइ पूज्यजी रे, प्रतपो ज्युं रविचंद्र । ५० ॥ ७ ॥

॥ जिनसमुद्र सूरि गीतम् ॥



ढाल—कडखड, राग गुंढ रामगिरि सोरठ अरगजो

सुधन दिन आज जिन समुद्र सूरिंद आयो, सूरिंद आयो ।

वडो गच्छराज सिरताज वर बड वखत,

तखत 'सूरेत' मइं अति सुहायो ॥ १ ॥

आवीयइं पूज्य आणंद हुआ अधिक,

इन्द्रि पिण तुरत दरसण दिखायो ।

अशुभ दालद्र तणी दूर आरति टली,

सकल संपद मिली सुजस पायो ॥ २ ॥

उदय उदयराज तन सकल कीधो उदय,

वान वेगड गळइ अति वधायो ।

जांचकां ॥दान दीधा भली जुगत सुं,

सप्त क्षेत्रे वलि सुवित्त वायो ॥ ३ ॥

सवल साम्हो सजे स गुरु निज आणीया,

शाह 'छतराज' मनमइ उमायो ।

गेहणी सकल हरषइ करी गह गही,

बिबिध मणि मोतीया सुं वधायो ॥ ४ ॥

पूज पद ठवण संघ पूज पर भावना,

करे निज वंश 'छाजहड' सुभायो ।

गंग गुण दत्त राजड जिसा कृत करी,

चंद लग सुजस नामो चढायो ॥ ५ ॥ सु० ॥

छहां वरणां दीयइं दान दानी छतो, कलियुगइ करण साचो कहायो ।

सगुरु 'जिनसमुद्र सूरिंद' गौतम जिसौ,

धरमवंतइ खरइं चित ध्यायो ॥ ६ ॥

चतुर जिण चतुर विध संघ पहिरावीया,

जगत्र मई सुजस पडहो वजायो ।

मूठ धर्म मूल पख चित मईं धारता,

जैन शासन तणो जय जगायो ॥ ७ ॥

गुरे 'जिनसमुद्र सूरिंद' साचो गुरु,

शाह 'छत्रराज' सेठइ सवायो ।

विह्वे वड शाख ध्रौ जेम वाधो सदा,

गुणीय "माइदास" इम सुजस गायो ॥ ८ ॥ सु० ॥



खरतरगच्छ पिप्पलक शाखा

॥ गुरु पट्टावली चउपइ ॥



समरुं सरसति गौतम पाय, प्रणमं सहिगुरु खगतर राय ।

जसु नामइं होयइ संपदा, समरंता नावइ आपदा ॥ १ ॥

पहिला प्रणमं 'उद्योतन' सूरि, बीजा 'वद्धमान' पुन्य पूरि ।

करि उपवास आराहि देवी, सूरि मंत्र आप्यो तसु हेवि ॥२॥

वहिरमाण 'श्रीमंधर' स्वामि, सोधावि आव्यउ शिर नामि ।

गौतम प्रतइं वीरइं उपदिश्यउ, सूरि मंत्र सुधउ जिन कछउ ॥३॥

श्री 'सीमंधर' कहइ देवता, धुरि जिन नाम देज्यो थापतां ।

तास पट्टि 'जिनेश्वर सूरि', नामइं दुख वली जाइ दूरि ॥४॥

'पाटण' नयर 'दुल्लभ' राय यदा, वाद हूओ मढपति स्युं तदा ।

संवत 'दस असीयइ' वली, खरतर विरुद दीयइ मनिरली ॥५॥

चउथइ पट्टि 'जिनचंद्र सूरिद', 'अभयदेव' पंचमइ सुणिद ।

नवंगि वृति पास थंभणउ, प्रगटयउ रोग गयुं तनु तणउ ॥६॥

श्री 'जिनवल्लभ' छट्टइ जाणी, क्रियावंत गुण अयिक वखाणी ।

श्री 'जिनदत्त सूरि' सातमउ, चोसाठि योगणी जसु पय नमइ ॥७॥

वावन वीर नदो वलि पंच, माणभद्र स्युं थापी संच ।

व्यंतर वीज मनावी आण, थूंभ 'अजमेरु' सोहइ जिम भाण ॥८॥

श्री 'जिनचंद्र सूरि' आठमइ, नरमणि धारक 'दिल्ली' तपइ ।

तास शीस 'जिनपति' सूरिद, नवमइ पट्टि नमुं सुखकंद ॥९॥

'जिन प्रवोध 'जिनेश्वर सूरि', श्री 'जिनचंद्र सूरि' यश पूरि ।

वंदु श्री 'जिनकुशल' सुणिद, कामकुंभ सुरतरु मणिकंद ॥१०॥

चउदसमइ 'जिनपद्म सूरिस', 'लब्धि सूरि' 'जिनचंद' सुणीश ।
सत्तर(स)मइ 'जिनोदय' सूरि, श्री 'जिनराज सूरि' गुण भूरि ॥११॥
पाटि प्रभाकर मुकुट समान, श्री 'जिनवर्द्धन सूरि' सुजाण ।

शीलइ सुदरसण जंबू कुमार, जसु महिमा नवि लाभइ पार ॥१२॥
श्री 'जिनचंद सूरि' वीसमइ, समता समर (स) इंद्री दमइ ।

वंदो श्री 'जिनसागर सूरि', जास पसाइ विघन सवि दूरि ॥१२॥
चउरासी प्रतिष्ठा कीद्ध, 'अहमदाबाद' थूम सुप्रसिद्ध ।

तासु पदइ 'जिनसुंदर सूरि', श्री 'जिनहर्ष सूरि' सुय पूरि ॥१४॥
पंचवीस मइ 'जिनचंद्र सूरिंद', तेज करि नइ जाणइ चंद ।

श्री 'जिनशील सूरि' भावइ नमो, संकट विकट थकी उपसमउ ॥१५॥
श्री 'जिनकीर्त्ति' सूरि सुरीश, जग थलउ जसु करइ प्रशंस ।

श्री 'जिनसिंह' सूरि तसु पट्टइ भणुं, धन आवइ समरंता घणुं ॥१६॥
वर्त्तमान वंदो गुरुपाय, श्री 'जिनचंद' सूरिसर राय ।

जिन शासन उदयउ ए भाण, वादी भंजण सिंह समाण ॥१७॥
ए खरतर गुरु पट्टावली, कोधी चउपइ मन नी रली ।

ओगणत्रोश ए गुरुना नाम, लेतो मनवंछित थाये काम ॥१८॥
प्रह उठी नरनारी जेह, भणइ गुणइ रिद्धि पामइ तेह ।

'राजसुंदर' मुनिवर इम भणइ, संघ सहु नइ आणंद करइ ॥१९॥
इति श्री गुरु पट्टावली चउपइ समाप्त ॥ आ० कीलाइ पठनार्थे ॥
मो० द० दे० ॥

यह पट्टावली श्री जिनचंदके शिष्य पं० राजसुंदरने देवकुल
पाटनमें सं० १६६६ वैशाख वदि ६ सोम आ० थोभणदे के लिये
लिखी है । (देवकुलपाटक तृतीयावृत्ति पृ० १६)

शाह लाधा कृत
श्री जिन शिवचंद सूरि रास

(रचना संवत् १७६५ आश्विन शुक्ल पंचमी, राजनगर)

दूहा :—

शासन नायक समरीये, श्री 'वर्द्धमान' जिनचंद ।

प्रणमं तेहना पद युगल, जिम लहुं परिमाणंद ॥ १ ॥

'गौतम' प्रमुख जे मुनिवरा, श्री (सोहम) गणराय ।

'जंबू' 'प्रभवा' प्रमुखने, प्रणमंता सुख थाय ॥ २ ॥

श्री वीर पटोधर परमगुरु, युगप्रधान मुनिराय ।

यावत् 'दुपसह सूरो' लगें, प्रणमं तेहना पाय ॥ ३ ॥

तास परंपर जाणीये, सुविहित गच्छ सिरदार ।

'जिनदत्त' ने 'जिनकुशल' जी, सूरि हुवा सुखकार ॥ ४ ॥

तस पद अनुक्रमे जाणीये, 'जिन वर्द्धमान सूरिंद' ।

'जिन धर्म सूरी' पाटोधरु, 'जिनचंद सूरी' मुणिंद ॥ ५ ॥

'शिवचंद सूरि' जाणीये, देश प्रदेश (पाठा० प्रसिद्ध) छे नाम ।

खरतरगच्छ सिर सेहरो, संवेगी गुणधाम ॥ ६ ॥

तस गुण गण नी वर्णना, धुर थो उत्पति सार ।

नाम ठाम कही दाखवुं, ते सुणज्यो नर नारि ॥ ७ ॥

ढाल (१)—श्रेणिक मन अचरज थयो । ए देशी ।

मरुधर देश मनोहरु, नगर तिहां 'भिनमालो' रे ।

राजा राज करे तिहां, 'अजित सिंघ' भूपालो रे मरु० ॥१॥

गढ़ मढ़ मंदिर शोभता, वन वाड़ी आरामो रे ।

सुखीया लोक वसे तिहां, करे धरमा ना कामो रे ॥मरु०॥२॥

तेह नगर मांहे वसे, साह 'पदमसी' नामो रे ।

'ओश(वाल)वंश'साखा बडी, 'रांका' गोत्र अभिरामो रे॥मरु०॥३॥

तस घरणी 'पदमा' सती, श्राविका चतुर सुजाणो रे ।

सुत प्रश्रव्यो शुभ योग(ति) थी, 'सिवचंद' नाम प्रमाणो रे ।मरु०॥४॥

कुमर वधे दिन दिन प्रतइ, सेठजी हृदय विमासे रे ।

पूत्र निसाले मोकळूं, अध्यापक ने पासे रे ॥ मरु० ॥ ५ ॥

भणी गुणी प्रोढा (पाठा० मोटा) थयां, बोले मधुरी भाषो रे ।

संसारिक सुख भोगना, कुमर नें नहीं अभिलाषो रे ।मरु०॥६॥

इणे अवशर गुरु विचरता, तिणहीज नगरीमें आव्या रे ।

श्री 'जिनधर्म सूरिंद' जी, श्रावक जन मन भाव्या रे ।मरु०॥७॥

पइसारो महोछव करी, नगर मांहे पधरावे रे ।

श्रावक श्राविका तिहां मिली, गीत ज्ञान गुण गावे रे ।मरु०॥८॥

धन धन ते दिन आज नो, धन ते वेला जाणो रे ।

जेणे दिन सदगुरु वांदीयइ, कीजिये जन्म प्रमाणो रे ।मरु०॥९॥

दूहा—थिर चित जाणी परषदा, गुरुजी दीये उपदेश ।

जीवाजीव स्वरूप ना, भाख्या सकल विशेष ॥ १ ॥

वाणी श्री जिनराज नी मीठी अमीय समाण ।

दीधी सदगुरु देशना, रीझ्या चतुर सुजाण ॥ २ ॥

शाह 'पदमसो' कुंअरे, धर्म सुणी तिणि वार ।

वयरगें चित्त वासीयो, जाणी अथिर संसार ॥ ३ ॥

कुमर कहे श्री गुरु प्रते, करजोडी मनोहार ।

दीक्षा आपो मुझ भणी, उतारो भवपार ॥ ४ ॥

जिम सुख देवाणुप्रिये, तिम कीजे सुविचार ।

अनुमत लेह कुमरजी, हवे लेसे संयम भार ॥ ५ ॥

ढाल बीजी—जी रे जी रे स्वामी समोसर्या० । ए देशी० ।

अनुमति द्यो मुझ तातजी, लेसुं संजम भारो रे ।

ए संसार असार मां, सार धरम सुखकारो रे । अनु० । १ ।

वचन सुगी निज पुत्र नां, मात पिता दुख पावे रे ।

संयम छै वळ दाहिलुं, सु होय नाम धरावे रे । अनु० । २ ।

अति आग्रह अनुमति दीयइ, मात पिता मन पाखै रे ।

उ छव सुं व्रत आदरे, संघ चतुरविध साखै रे । अनु० । ३ ।

संवत 'सतर त्रहसठे', लीये दीक्षा मन भावे रे ।

'तेर वरस' ना कुमर पणे, नरनारि गुण गावै रे । अनु० । ४ ।

मन वच काया वश करी, रंगे चारित्र लीधो रे ।

पाले व्रत निरमल पणे, मनह मनोरथ सीधो रे । अनु० । ५ ।

मासकल्प तिहां किण रही, श्री पूज्य कीधो विहारो रे ।

गाम नगर प्रतिबोधता, करता भवि उपगारो रे । अनु० । ६ ।

कुमर भणे अति उलटै, गुरु पासै मन खातै रे ।

ज्ञानावरणी क्षय उपशमे, भणीया सूत्र सिद्धान्तो रे । अनु० । ७ ।

व्याकरण नाममाला भण्या, वलि भण्या काव्य ना ग्रन्थो रे ।

व्याय तर्क सवि सोखीया, धरता साधुनो पंथोरे । अनु० । ८ ॥
गीतारथ गणधर थया, लायक चतुर सुजाणो रे ।

वयरगें मन भावता, पाळे श्री गुरु आणो रे । अनु० । ९ ॥
दूहा—पाट योग जाणी करी, श्री गुरु करे विचार ।

पद आपुं 'सिवचंद'ने, तो होय जय जयकार ॥ १ ॥
निज समय जाणो करी, श्री गुरु कीध विहार ।

'उदयपुरे' पाडधारीया, उच्छव थया अपार ॥ २ ॥
निज देहे बाधा लही, समय (पाठा० संयमें) थया सावधान ।

अणशण आराधन करी, पास्यां देव विमान ॥ ३ ॥
संवत 'सतर छहोत्तरे', 'वैशाख' मास मझार ।

'सुदि सातम' शुभ योगे तिहां, आपुं (प्युं) पद श्रीकार ॥ ४ ॥
श्री 'जिनधर्म सूरिंद' नें, पाटे प्रगट्यो भाण ।

श्री 'जिनचंद सूरीश्वरू', प्रतपे पुण्य प्रमाण ॥ ५ ॥
ढाल ३—नींदलडी वयरण हुइ रही । ए देशी० ।

भावे हो भवियण सांभलो, 'सिवचंदजी'नो हो (भलो) रास रसालके ।
जे नित गावै भाव सुं, तस बाधे हो घर मंगल मालके ॥ १ ॥

अवशर लाहो लीजिये । आंकणी० ।
आवक 'उदयापुर' तणा, पद महोछव हो करवा मन रंग के ।
समय लही निज गुरु तणो, धन खरचे हो धरमे दृढ़ रंग के । अनु० । २ ॥
'दोसी भिक्षु'सुत तिणे (समे) करे, वीनति हो कुशल संघ एमके ।
रे हरे श्रीगुरु नो अवसर कीहां, अमो करसुं हो पद महोछव प्रेमके ॥ ३ ॥

संवत् 'सतर छीउतरे', मास 'माधव हो सुदि सातम' सारके ।
 राणा 'संग्राम' ना राज्य में, करे उछव हो आवकतिग वार के ।अ०।५।
 श्री संघ भगति करे अति भलो, बहु विधना हो मीठा पकवानके ।
 शाल दाल घृत घोल सुं, वली आपे हो बहु फोफु पानके ।अ०।५।
 पहेरामणी मन मोद सुं, 'कुशले' 'जोये' हो कीधा गहगाट के ।
 जस लीधो जगमें घणो, संतोषीया हो वली चारण भाट के ।अ०।६।
 श्री 'जिनचंद्र' सूरीश्वरू, नित्य दीपे हो जेसो अभिनव सूर के ।
 वयरगी लागी घणुं, सोभागी हो सज्जन गुणे पूर के ।अ०।७।
 तिहां शिष्य 'हीरसागर' कीयो, अति आग्रह हो तिहां रखा चौमासके ।
 श्री गुरु दीये धर्म देशना, सुणतां होये हो सुख परम उलासके ।अ०।८।
 धरम उद्योत थया घणा, करे आविका हो तप व्रत पचखांण के ।
 संघ भगति परभावना, थया उछव हो लखा परम कल्याण के ।अ०।९।

दोहा—चार्नुमास पूरण थये, विहार करे गुरु राय ।

'गुर्जर देश' पाउधारिया, उछव अधिका थाय । १ ।

संवत् 'सतर अठोतरे' कर्यो क्रिया उद्धार ।

वयरगो मन वासीयउ, कीधो गछ परिहार । २ ।

आतम साधन साधना, देता भवि उपदेश ।

करता यात्रा जिणंदनी, विचरे देश विदेश । ३ ।

जस नामी 'सिवचंद्र' जी, चार्नुं चिहुं खंड नाम ।

संवेगी सिर सेहरो, कीधा उत्तम काम । ४ ।

ढाल (४):—नयरी अयोध्या थी संचर्या ए देशी ।

गुज्जर देश थी पधारीया ए, यात्र करण मन लाय । मनोरथ सविफल्या ए,
‘शत्रुंजय’ गिरवर भणी ए, भेटवा आदि जिन पाय, मनो० । १ ।
चार मास झाझेरडा ए, रह्या ‘विमल गिर’ पास । मनो० ।

नव्याणु यात्रा करी ए, पोहोती मन तणी आस । मनो० । २ ।
तिहां थी ‘गिरनारे’ जइ ए, भेटीया नेमि जिणंद ।

‘जुनेगढ़’ यात्रा करी ए, सूरी श्री ‘जिनचंद’ । म० । ३ ।
गामाणुगामे विहरता ए, आवीया नयर ‘खंभात’ । म० ।

चोमासुं तिहां किण रह्या ए, यात्रा करी भली भांति । म० । ४ ।
चरचा धर्म तणी करे ए, अरचे जिनवर देव । म० ।

समझू श्रावक श्राविका ए, धरम सुणे नित्य मेव । म० । ५ ।
तप पचखाण घगा थया ए, उपनो हरष अपार । म० ।

तिहां थी विचरता आवीया ए, ‘अहमदाबाद’ मझार । म० । ६ ।
बिम्ब प्रतिष्ठा घणी थइ (पाठा० करी) ए, बली थया जैन विहार । म० ।

ते सवि गुरु उपदेश थी ए, समझ्या बहु नर नारि । म० । ७ ।
तिहां थी ‘मारुवाड’ देश मां ए, कीधी ‘अर्बुद’ यात्र । म० ।

‘समेत सिखर’ भणी संचर्या ए, करता निरमल गात्र । म० । ८ ।
कल्याणक जिन वीसना ए, बीसे टुंके तेम (पाठा० तास) । म० ।

यात्रा करी मन मोद सुं, बाध्यो अति घणो प्रेम । म० । ९ ।

दोहा—‘समेतसिखर’ नी यातरा, कीधी अधिक उछाह ।

श्री पार्श्वनाथ जिन भेटीया, नगरो ‘बणारसी’ मांह । ११ ।

‘पावापुरी’ में पाउधारीया, जिहां श्री वीर निर्वाण ।

‘चंपापुरी’ मांहे वांदीया, श्री वासपूज्य जिनभाण । २ ।

‘राजप्रही’ वैभारगिरि, यात्रा करी संघ साथ ।

‘हथीणापुर’ जिन वांदीया, शांति कुंधु अरनाथ । ३ ।

‘दि(दं)ली’ चौमासु रही, करना यात्र विशेष ।

विहार करतां पुनरपि, आव्या वली ‘गुर्जर देश’ । ४ ।

ढाल (५):—पाटोधर पाटीये पधारो । ए देशी ।

जिन यात्रा करी गुरु आव्या, श्रावक श्राविका मन भाव्या ।

पटोधर वांदीये गुरूराया, जस प्रगमे राणाराया । प० । १ । आं० ।

‘भगसालो’ ‘कपूर’ ने पासे, तिहां ‘सिवचंद’ जी चौमासे । पटो० ।

जस प्रणमें राणा राया, पटोधर वांदीये गुरूराया । आंकणी० ।

देशना दीये मधुरी वाणी, सुणतां सुख लहै भवि प्राणी । पटो० ।

बांचे ‘भगवती’ सूत्र वखाणै, समझ्या तिहां जाण सुजाण । प० । २ ।

ज्ञान भगति थइ अति सारी, जिन वचन की जाऊं बलिहारी । प० ।

मली श्राविका जिन गुण गावे, भरी मोती ए थाल वधावे । प० । ३ ।

गहुंली करे गुरूजी नें आगे, शुद्ध बोध बीज फल मांगे । प० ।

श्रावक करे धर्म नी चरचा, जिहां जिन पद नी थाये अरचा । प० । ४ ।

नव कल्पे कीधो विहार, शुद्ध धरम तणा दातार । प० ।

ईति उपद्रव दूरें कीधो, ‘सिवचंदजी’ ये यश लीधो । प० । ५ ।

पुनरपि मन मांहे विचारे, करुं यात्रा सिद्धाचल सार । प० ।

‘राजनगर’ थी कीधो विहार, करी यात्रा ‘सेत्रुंज’ ‘गिरनार’ । प० । ६ ।

तिहां थी रखा 'दीवे' चोमासुं, जेहनुं धरमें चित्त वासुं । ५० ।
 पुनरपि 'सिद्धाचल' आवे, गिर फरस्या मन ने भावे । ५० । ७ ।
 थई यात्रा जिनेश्वर केरी, गुरू मुगति रमणी कीधी नेरी । ५० ।
 जिनगुण निरख्या नित्य हेरी, टाली भव भ्रमण नी फेरी । ५० । ८ ।
 'घोघे' वन्दिर जिन वांदी, करो करम तणी गति मंदी । ५० ।
 'भावनगरे' देव जुहार्या, दुख दालिद्र दूरे निवार्या । ५० । ९ ।

दोहा ।

संवत् 'सतर चोराणुंयै', 'माह' मास सुखकार ।

'भावनगर' थी आवीया, नयर 'खम्भात' मंझार ॥ १ ॥

गुरू गुणरागी श्रावके, दीधो आदर मान ।

गुरूजी दीये धर्म देशना, तात्विक सुधा समान ॥ २ ॥

द्वेष करी (पाठा० धरि) कोइ दुष्ट नर, कुमति दुर्भवी जेह ।

यवनाधिप आगल जइ, दुष्ट वचन कहे तेह ॥ ३ ॥

सुणीय वचन नर मोकल्या, गुरूनें तेडी ताम ।

यवन कहें अम आपीये, तुम पासे छै दाम ॥ ४ ॥

दाम अमे राखुं नहीं, राखुं भगवंत नाम ।

कोप्यो यवनाधिप कहै, खींचो एहनी चाम ॥ ५ ॥

पूरव वयर संयोग थी, यवन करे अति जोर ।

ध्यान धरे अरिहंत नुं, न करे मुख थी सोर ॥ ६ ॥

संचित कर्म विपाकनां, उदयागत अवधार ।

सहे परिसह 'शिवचन्दजो', ते सुणजो नरनार ॥ ७ ॥

ढाल (६) :—बेवे मुनिवर विहरण पांगुर्याजो । एदेशी० ।

'जिनचन्द सूरी' मन मांहे चिन्तवेरे, हवे तुं रखेथाय कायर जीवरे ।

एह थी नरग निगोद मांहे घणीरे, तेतो वेदन सही सदीवरे ॥ १ ॥

धन धन मुनी सम भावे रह्या रे, तेह नी जइये निल्य बलिहार रे ।

दुःकर परीसह जे अहियासने रे, ते मुनी पाभ्या भव नो पाररे॥ध०॥

‘खंधग’ मुनीना जे शिष्य पांचसैरे, पालक पापीयें दीधा दुःखरे ।

घाणी घाली मुनीवर पीलीयारे, ते मुनि(प्रणम्या) अविचल सुख रे ॥धन०॥३

‘गजमुकमाल’ मुनी महाकालमें रे, स्मसाने रहीया काउसगजो ।

‘सोमल ससरे’ शीस प्रजालियोजी, ते मुनि प्रणम्या (पाठा० पाभ्या)

सुख अपवर्ग जो ॥ध०॥४॥

‘सुकोशल’ मुनिवर संभारीयेजो, जेहना जीवित जन्म प्रमाण रे ।

बाघणे अंग विंदार्युं साधुनुंजी, परिसह सही पहुंता निरवाण हो ॥ध०॥

‘दमदन्त’ राजऋषि काउसग रह्याजी, कौरव कटक हणै इंटाल जो ।

परिसह सही शुद्ध ध्याने साधुजो रे; ते पण मुगते गया ततकाल जो

॥ध०॥६॥

‘खंधग’ ऋषिनें खाल उतारतांजी, कठीन अहीयासें परिसह साधु जो ।

ते मुनी ध्यानें कर्म खपावीनेजी, पाभ्या शिवपद सुख निरबाध जो

॥ध०॥७॥

इत्यादिक मुनिवर संभारताजी, धरता निजपद निरमल ध्यान जो ।

जड चेतन नी भावे भिन्नताजी, वेदक चेतनता सम ज्ञान जो ॥ध०॥८॥

तत्वरमण निज वासित वासनाजी, ज्ञानादिक त्रिक शुद्ध जो ।

जडता ना गुण जडमें राखताजी, जेहनी आगम नैगम बुद्धजो ॥ध०॥९॥

पुद्गल आप्पा (थप्पा) लक्षणे जी, पुद्गल परिचय कीनो भिन्न जो ।

अन्त समय एहवी आत्मदशाजी, जे राखे ते प्राणी धन्न जो ॥ध०१०॥

कोपातुर यवन रजनो समे जी, दीधा दुख अनेक प्रकार जो ।
 तोहे पण न चल्या निज ध्यान थी जी, सहेता नाडी दंड प्रहार जो ।११
 हस्त चरण ना नख दुरे कीया जी, व्यापी वेदन तेण अनेक जो ।
 हायों यवन महादुष्टात्मा जो, जो राखी पूरव मुनी नी टेक जो ।१२
 जिम जिम वेदन व्यापे अति घणोजी, तिम सम वेदे आतमराम जो ।
 इम जे मुनिवर सम(ता) भावे रमे जी, तेहने होज्यो नित परणाम जो
दूहा :—प्रात समय आवक सुगो, पासे आव्या जाम ।

यवन कहै झांखो थइ, ले जाउ निज धाम ।१।
 'रूपा बोहरा' ने घरे, तेडी लाव्या ताम ।

हाहाकार नगरे थयो, दुष्ट ना मुख थया स्याम ।२।
 'नायसागर' नीझामता, नीरखि परिणिति शांति ।

उत्तराध्यन आदे बहु, संभलावे सिद्धांत ।३।
 सकल जीव खमाविनइ, सरणा कोधा च्यार ।

सल्य निवारी मन थकी, पचख्या चारे अहार ।४।
 अणशण आराधन करी, चढ़ते मन परिणाम ।

समतावंत धीरज गुणे, साध्युं आतम काम ।५।
 चोथुं व्रत कोइ आदरे, कोइ नीलवण परिहार ।

अगडी नीम केइ उचरे, केइ आवक व्रत बार ।६।
 संघ मुख्य 'सिवचन्द्र' जी, वचन कहे सुप्रसिद्ध ।

'हीरसागर' ने गळ तणी, भलो भलामण दीध ।७।
 संवत 'सतर चोराणुयें', वैशाख मास मझार ।

षष्टि दिन कविवार तिहां, सिद्ध योग सुखकार ।८।

प्रथम पोहोर मांहे तिहां, धरता जिननुं ध्यान ।

काल करी प्रायें चतुर पाम्या देव विमान ॥६॥

ढाल ७ :—माइ धन सम्पन्न ए, धनजीवी तोरी आज । ए देशी०
धन धीरज दृढता, धन धन सम परिणाम ।

जेणे परिसह सही ने, राख्युं जग मांहै नाम ॥११॥

बलिहारी तोरी बुद्धि ने, बलहारि तुम ज्ञान ।

जेणे आतम भावे, आराध्युं शुभ ध्यान ॥२॥

बलिहारी तुम कुल ने, बलिहारी तुम वंश ।

शासन अजुआली, अजुयाल्यो निज हंस ॥३॥

गुरू कुमर पणे रह्या, तेर वरस घर वास ।

शिष्य विनय पणें रह्या, तेर वरस गुरू पास ॥

गच्छनायक पदवी, भोगवी, वरस अढार ।

आयु पूरण पाली, वरस चुमालीस सार ॥४॥

धन धन 'शिवचन्दजी', धन धन तुझ अवतार ।

इम थोके थोके, गुण गावे नर नार ।

करे श्रावक मली तिहां, मांडवी मोटे मंडाण ।

कंचनमय कलसे, जाणें अमर विमाण ॥५॥

तिहां जोवा मलोया हिन्दु मलेछ अपार ।

गाय धवल मंगल, दीये ढोल तणा ढमकार ॥

जय जय नन्दा कहे, लीये डंडा रस सार ।

भेर भूगल साथे, सरणाइ रणकार ॥६॥

वली अगर उखेवे, सोवन फूलें वधावे ।

इम उछव थाते, वन मांहि लेइ आवे ॥

सुकडने अगर सुं, कीधो देही संस्कार ।

निरबाण महोछव, इणि परे कीधो उदार ॥७॥

पुरषोत्तम पूरो, सूरो सयल विवेक ।

जेणे गळ अजुयाली, राखी धर्मनी टेक ॥

तिहां थूम करावी, आवके उछव कीधो ।

वली पगला भरावी, 'रूपे वोहरे' जस लीधो ॥८॥

तिम 'राजनगर' में, थूम करी अति सार ।

तिहां थाण्या पगला, 'बहिरामपुर' मंझार ॥

अति उछव थाये, भगति करे नर नार ।

इम गुरूगुण गावें, तस घर जय जयकार ॥९॥

अति आप्रह कीधो, 'हीरसागरे' हित आणी ।

करी रासनी रचना, साते ढाल प्रमाण ॥

'करूया मति' गळपति, साहजी 'लाधो' कविराय ।

तिणे रास रच्यो ए, सुगत भगत सुखथाय ॥१०॥

कलशः—

इम रास कीधो सुजस लीधो, आदि अन्त यथा सुणी ।

'शिवचन्द्रजी' गळपति केरो, भावजो भवि गुणमणी ॥

संवत 'सतरेसें पंचाणुं', 'आसो' मास सोहामणो ।

'सुदि पंचमी' सुरगुरू वारे, ए रच्यो रास रलीयामणो ॥

निरवाण भाव उलास साथें, 'राजनगर' मांहि कीयउ ।

कहे शाहजी 'लाधो' 'हीर' आप्रह थी, रास एह करी दीयउ ॥१॥

इति श्री शिवचन्द्रजी नो रास समाप्त ॥छ॥ प० ५ नि० म० ला० ॥

प्रति नं० २ पुष्पिका लेख—

सम्बत् १८४० ना आसु वदि ४ दिने श्री भुजनगर मध्ये लिखते । गाथा १०५ लिखतं देवचन्द्र गणिनां लिखतं श्रीवृहत्खरतर-गच्छे खेम शाखायां श्रीकच्छदेशे श्रीशांति प्रसादात् वाच्यमान हेतवे । मेरु महीधर जां लगे जां लग उगत सूर, तां लग ए पोथी सदा रहे जो ए सुख पूर ॥ श्री रस्तु । कल्याणमस्तु ॥ श्री श्री

(पत्र ६ अंजारसे विद्वद मुनिवर्य लब्धि मुनि जो द्वारा प्राप्त)

आद्यपक्षीय (खरतरगच्छीय) आचार्यशाखा

जिनचंद सूरि पट्टधर श्री जिनहर्ष सूरि गीतम्



सखि देख्यउ हे सुपनउ मईं आज, श्री गच्छराज पधारिया ।

सखि सगलां हे साधां सिरताज, श्री 'जिनहरख' सूरिश्वरु ॥१॥

सखि चालउ हे करनी गज गेलि, ढेल तणी पर ढलकती ।

सखि म्हांका सदगुरु मोहनवेलि, वाणि अमीरस उपदिसइ ॥२॥

सखि सजती हे सोलह शृंगार, ओढी सुरंगी चूनडी ।

सखि शीसह धर कलश उदार, मोत्यां थाल बधामणउ ॥३॥

सखि जुगवर चवद विद्या रा जाण, जाणी तल सारइ जगइ ।

सखि मानइ हे सहु राजा राण, पाटइ श्री 'जिनचंद' कइ ॥४॥

सखि दीपइ 'दोसी' वंश दिणन्द, 'भगतादे' उयरइ धर्या ।

सखि जीवउ 'भादाजी' रउ नद, 'कीरतवर्द्धन' इम कहइ ॥५॥



लघु आचार्य शाखा

॥ श्री जिनसागर सूरि गीतम् ॥



श्री संघ करइ अरदास हो, बेकर जोड़ी आपणै भावसुं हो । पूनजी ।
 पूरे मननी आस हो, एकरसउ वंदावउ आविनइ हो ॥ पू० ॥ १ ॥
 तइं जाण्यउ अथिर संसार हो, संयम मारग 'लघुवय' आदर्यो हो । पू०
 आगम नउ भण्डार हो, जाण प्रवीण क्रिया नी खप करइ हो । पू० ॥ २ ॥
 तूं साधु शिरोमणि देखिहो, पाट तणइ जोगि 'जिनचंद सूरि' कथोहो ।
 तइं राखी जगमइं रेख हो, पाट बइसतां उपसम आदर्यो हो । पू० ॥ ३ ॥
 एकाल तणउ परभाव हो, गुण करतां पिण अवगुण उपजइ हो । पू०
 दूध भजइ विष भाव हो, विषधर मुख खिण मांहि जातां समो हो । पू० ४
 नगर 'अहमदाबाद' हो, दोषी माणस दोष दिखाड़ियो हो । पू० ।
 धरम तणइ परसाद हो, निकलङ्क कनक तणी परि तूं थयो हो । पू० ५
 थारउ सबलो जस सोभाग हो, चिहुं खंड कीरति पसरि चौगुणी हो ।
 तुम्ह उपरि अधिको राग हो, चतुर विचक्षण धरमी माणसां हो । पू० ६
 जे वेचइ मणिका काच हो, ते सी कीमत जाणे पाचिनी हो । पू० ।
 कदाग्रही मिथ्या वाच हो, कुगुरु न छंडइ सुगुरु न आदरइ हो । पू० ७
 तूं शीलवन्त निलोभ हो, श्री 'जिनसागर सूरि' सुगुरु तणी हो । पू०
 'जयकीरति' करइ सुशोभ हो, अविचल मेरु तणी परि प्रतपज्यो हो । ८ ॥

॥ श्री जिनधर्म सूरि गीतम् ॥



१ ढाल :—सोहिलानी

आया श्री गुरु राय, श्री खरतर गच्छ राजिया ।

श्री 'जिन धर्म सुरिन्द', मङ्गल वाजा बाजिया ॥१॥

पेसारे मंडाण, 'गिरधर' शाह उच्छव करइ ।

'बीकानेर' मझार, इण विध पूज जी पग धरइ ॥२॥

श्री 'संघ' साम्हो जाइ, आणी मन उल्लट घणे ।

लुलि लुलि वांदइ पाय, सो दिन ते लेखै गिणै ॥३॥

सिर धर पूरण कुंभ, सूहव आवै मलपती ।

भर भर मोती थाल, बधावे गुरु गच्छपती ॥४॥

पग पग हुवे गहगाट, घर घर रंग बधामणा ।

झालर रा झणकार, संख शब्द सोहामणा ॥ ५ ॥

कीधी प्रोल उत्तङ्ग, नर नारी मन मोहनी ।

नाना विधि ना रंग, तिण कर दीसइ सोहती ॥६॥

सिणगार्या सब हाट ऊंची गुडी फरहरइ ।

दूधे बूढा मेह, याचक जण यश उच्चरइ ॥७॥

प्रथम जिणेसर भेटि, आया पूज उपासरे ।

सांभलि गुरु उपदेश, सहुको पहुंता निज घरे ॥८॥

सोहलानी ए ढाल, मिल मिल गावे गोरडी ।

'ज्ञान हर्ष' कहै एम०, सफल फली आश मोरडी ॥९॥

२ ढाल :—बिछुआनी

महिर करो मुझ ऊपरै, गुरुआ श्री गणधार रे लाल ।
 'भणशाली' कुल सेहरो, मात 'मिरगा' सुखकार रे लाल ॥१॥म०॥
 सुन्दर सूरति नाहरी, दीठां आवै दाय रे लाल ।
 मधुकर मोह्यो मालती, अवरन को सुहाय रे लाल ॥ २ ॥ म० ॥
 सूर गुणे करि सोहता, षट् जीव ना प्रतिपाल रे लाल ।
 रूपे वयर तणी परे, कलि गौतम अवतार रे लाल ॥ ३ ॥ म० ॥
 साधु संघाते परिवर्या, जिहां विचरै श्री गुरु राय रे लाल ।
 सुख सम्पति आणन्द हवइ, वरते जय जय कार रे लाल ॥४॥म०॥
 श्री 'जिनसागर सूरि' जी, सइं हथ थाप्या पाट रे लाल ।
 श्री 'जिन धर्म सूरिश्वरु', दिन दिन हवइ गहगाट रे लाल ॥५॥म०॥
 'राजनगर' रलियामणो, पद महोलव कीयो सार रे लाल ।
 'विमला दे' ने 'देवकी', गुण गण मणि आधार रे लाल ॥ ६ ॥ म० ॥
 गच्छ चौरासी निरखिया, कुण करें ए गुरु होड रे लाल ।
 'ज्ञानहर्ष' शिष्य वीनवै, 'माधव' बे कर जोड़ रे लाल ॥ ७ ॥ म० ॥



जिनधर्मसूरि पट्टधर जिनचंद्रसूरि गीतम् ।



१—देशी दरजणरा गोतरी ॥

सुणि सहियर मुझ बातड़ी, तुझ नै कहुं हित आणी । हे बहिनी ।

आचारज गच्छ रायनी, सुणिवा जइयइ वाणि । हे बहिनी ॥१॥

सूरतड़ी मन मोही रह्यउ ॥ आंकड़ी ॥

सहगुरु बेसी पाटियइ, वाचै सूत्र सिद्धन्त । हे बहिनी ।

मोहन गारी मुंहपत्ति, सुन्दर मुख सोहन्त । हे बहिनी ॥२॥

गहूंली सद्गुरु आगलै, करियै नवनवी भांति । हे बहिनी ।

सुगुरु बधावां मोतीये, मन मांहि धरि खांति । हे बहिनी ॥३॥

बैसी मन विहसो करी, सांभलां सरस बखाण । हे बहिनी ।

भाव भेद सूधा कहै, पण्डित चतुर सुजाण । हे बहिनी ॥४॥

साधु तणी रहणो रहइ, पालै शुद्ध आचार । हे बहिनी ।

सूरि गुणे करि शोभतो, श्री खरतर गणधार । हे बहिनी ॥ ५ ॥

‘बुहरा’ वंश विराजतो, ‘सांवल’ शाह सुविल्यात । हे बहिनी ।

रतन अम्लिक उर धर्यौ, ‘साहिबदे’ जसु माता । हे बहिनी ॥ ६ ॥

श्री‘जिनधर्मसूरि’ पाटवी, श्री ‘जिनचन्द्रसूरीश’ । हे बहिनी ।

अविचल राज पालो सदा, पभणै ‘पुण्य’ आशीस । हे बहिनी ॥ ७ ॥

लिखितं सम्बत् १७७६ वर्ष वैसाख सुदी १२ भौमे ।

जिन युक्ति सूरि पट्टधर जिनचंद्र सूरि गीतम् ।

पूजजी पधार्या मारु देशमें, दूधां बूठाजो मेह । गुणवन्ता हो गच्छपति ।

श्रीसंघ बांदे हो अधिक उच्छाह सुं, मन धरि धर्म सनेह ॥१॥

गुणवन्ता हो गच्छपति, श्रीजिनचन्द्र सूरौ सुखकरु ॥ आंकडी ॥
 मिलि मिली आवो हे सखर सहेलियां, भरि मोतियडे थाल ॥गु०॥
 वांदण जास्यां हे खरतर गच्छ धणी, जीव दया प्रतिपाल ॥२॥गु०॥
 संघ साम्हेले हो साम्हा संचरै, मन धरि अधिक आणन्द ॥गु०॥
 बाजा बाजै हो गाजै अम्बरै, गच्छपति ना गुण वृन्द ॥३॥गु०॥
 गुणियण गावे हो गुण पूजजो तणा, बोले मुख जै जै बोल ॥गु०॥
 कीरति थारी हो गंगाजल जिसी, दस दिशि करै कल्लोल ॥४॥गु०॥
 पग पग कीजे हो हरख गूहली, दीजै वंछित दान ॥गु०॥
 सूरव गावै हो मङ्गल सोहला, गिडि, धूं धूं घुरे निसाण ॥५॥गु०॥
 नर नारी ना हो परिकर बहु मिलै, वंदण भणी विशेष ॥गु०॥
 आय विराज्या हो पूजजी पाटिये, द्यौ धर्मरा उपदेश ॥६॥गु०॥
 नवरस सरस सुधारस वरसतो, गरजती जलद समान ॥गु०॥
 सुणतां लागै हो श्रवण सुहामणी, इसी म्हारै पूजजी री वाण ॥७॥गु०॥
 नित नित नवला हो हरख बधामणा, पूरव पुण्य प्रमाण ॥गु०॥
 जिण दिशि देशे हो पूज्य समोसरे, तिण दिश नवे निघान ॥८॥गु०॥
 पंचाचार हो पूज्य सदा धरै, पूज्य सुमति गुपति सोहन्त ॥गु०॥
 गुण छत्तीसे हो अंग विराजता, पूज भविजन मन मोहन्त ॥९॥गु०॥
 चद ज्युं दीसे हो नित चढती कला, 'जिन युक्ति सूरि' जी रे पाट ॥गु०॥
 श्री गौयम जिम बहु लब्धे भर्या, सोहे मुनिवर थाट ॥१०॥गु०॥
 धन 'बीलाडा' हो संघ सराहिये, पूज रह्या चोमास ॥गु०॥
 जिन शासन नी हो थई प्रभावना, सफल फली सहु आश ॥११॥गु०॥
 मात "जसोदा" हो नन्दन जाणिये, 'भागवन्द' सुत सुविचार ॥गु०॥
 युगप्रधान हो जगमें अवतर्या, गोत्र 'रीहड़' सिणगार ॥गु०॥
 पूज प्रतपो हो जां रवि चन्द्रमा, हो पूज जीवो कोड़ बरीस ॥गु०॥
 इम निज मनमें हो हरख धरी घणो, 'आलम' द्यौ असीस ॥१३॥गु०॥

॥ इति श्री पूज्यजी गीतम् ॥

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह

तृतीय विभाग

(तपागच्छीय ऐतिहासिक काव्य संचय)

॥ शिवचूला गणिनी विज्ञप्ति ॥

शासनदेव ते मन धरिए, चउवीस जिन पय अणुसरीए ।

गोयमस्वामि पसायलुए, अमें गा(इ)सि श्री गुरुणी विवाहलुए ॥१॥

‘प्रागह’ वंश सिंगारुए, ‘गेहा’ गण गुणह भंडारुए ।

दानिहिं मानिहिं उदारुए, जसु जंपय जय जयकारुए ॥ २ ॥

तसु घरणी ‘विल्हण दे’ मति ए, सदाचार संपन्न शीयलवती ए ।

जिणहि जाया वयरागरु ए, स्त्री रयणहिं गुण मणि आगरुए ॥३॥

कुंअर गुणह भंडारुए, ‘जिनकीरति सूरि’ सा वीरुए ।

‘राजलच्छि’ बहन तसु नामुए, लोह पवतणि करुं पणामुए ॥४॥

‘सिवचूला’ सति सिंगारुए, जसु विस्तर जगि उदारुए ।

रुप लावण्य मनोहरुए, तप तेजिहिं पाव तिमिर हरुए ॥५॥

चारित्र पात्र गुरु जाणिए, श्री गच्छह भार धुरि आणीए ।

तिणे अवसर श्री संघ मन रुलीए, विचार जोईं ते मनि रुलीए ॥६॥

‘महत्तर’ पद उच्छाहुए, तवखिण पतउ ‘महादे’ साहूए ।

विनव्या श्री गुरुराउए, मउ मनि घणउ उमाहूए ॥७॥

किउ पसायो श्री संघ मिलीए, आणंदिउ नाचइ बली बलीए ।

लिलुग्र न ‘वैशाखुए’ ‘चउद ज्याणुइ’ ति पहिले पाखीए ॥८॥

‘मेडपाट’ महोत्सव करीए, ‘देउलपुरी’ जंग सुवि (चि?) विस्तरुए ।

आवइ श्रीसंघ दह दिशि तणाए, आवरा जइ साहमा अति घणाए ॥९॥

मंडप मोटा मंडाणाए, तिहां बइसइ चतुर सुजाणुए ।

नाचइए निरुपम पात्रुए, जसु जोतां गहगहइ गात्रुए ॥१०॥
चउरी चउहिं पखि चमर ढेलइए, पोसालइना दिशि विस्तरइए ।

मंगल धवल महलावइए, श्री'शवचूला' महत्तर गायसिंए ॥११॥
च्यारइ भगवन् आणंदपुरे, तेहवे वास खिवइ 'सोमसुन्दरसूरे' ।

महत्तर उवज्जाय पदवीए, वित विचय 'महा दे' संघवीए ॥१२॥
सुभासु लकुटा र(रा?)सुए, गुण गाइए 'शवचूला' महत्तरीए ।

'रत्नशेखर' वाचक वरुए, पन्यास गणीश अति विस्तरुए ॥१३॥
दीक्षा महोत्सव अपारुए, तिहिं वरतइ जयजयकारुए ।

पंचशब्द तिहां बाजइए, तिणें नादें अम्बर गाजइए ॥१४॥
बन्दिदय जन जय उच्चरइए, तिहिं मांगतजन दालिइ हरुए ।

तलीया तोरण उच्छलइए, तिहां घरघर गुडि विस्तरइए ॥१५॥
श्रीसंघ मन पुगि रलीए, गुणगाइ गोरडी सवि मिलिए ।

दक्षीण देव सिरि महलावइए, साह सुपत्र खेत्रे धन वावरइए ॥१६॥
देवहिं गुरुभक्ति थुणीए, खेत्र 'शाहपुर' आपणीए ।

दरसनस्युं गुणधारुए, वस्तु पहिरावइ अतिहिं अपारुए ॥१७॥
श्रीसंघ पंचंगि मडदीए, साह 'महादे' इणिपरें जस लीए ।

रंजिय सयल सभा जणुए, संतोषिय साहमि भगत जनुए ॥१८॥
करणी अनुपम ते करइए, तस किरति दह दिसि विस्तरीए ।

महत्तर नाम विशालुए, तस उपमा चन्दनवालुए ॥१९॥
द्र पदि तारा मृगावतीए, सीता य मन्दोदरी सरसतीए ।


सोल सती सानिध करइए, भणयवाघ (भणवाथी?)
श्रीसंघ दुरिया हरइए ॥२०॥

[इति श्री जिनकीर्ति सूरि महत्तरा श्रीशवचूला गणि प्रवर्तिनो
राजलच्छो गणिर्विज्ञप्तिकाः, आविका हीरादे योग्यं]

(खरतर गच्छीय प्रवर्तक मुनिवर्य सुखसागरजोसे प्राप्त)

कवि गुणविजय कृत

विजयसिंहसूरि विजयप्रकाश रास



प्रथमनाथ पृथ्वी तणो, प्रणमुं प्रथम जिणंद ।

माता 'मरु देवी' तणो, नन्दन नयणानन्द ॥१॥

'सीरोही' मुख मण्डणो, दुख नो खण्डणहार ।

'ऋषभदेव' साहिब सबरु, वांछित फल दातार ॥२॥

गजगति जिनपति जे धरइ, गज लांछन निसदीस ।

'हीर विजयसूरि' हाथस्युं, ब्रे थाण्यो जगदीस ॥३॥

'अजितनाथ' जग जीपतो, दौलतीकर दीदार ।

'ओसवंश' नइ देहरइ, जपतां जय जयकार ॥४॥

'शांति' शांतिकर सोलमो, परम पुण्य अंकूर ।

नगर शिरोमणि 'शिवपुरी', सूहवि शिर सिन्दूर ॥५॥

'कमठ' काठ थो काढिओ, जिणि जलतो भुजङ्गिद ।

लाख चुंआलीस घर धणी, ते क्रीधो 'धरणौंद ॥६॥

ते दुख चिन्ता चूरणो, पूरण पूरइ आस ।

प्रहउठि प्रभु प्रणमिइ, श्री'जीराउलि' पास ॥७॥

शासन साहिब सेवीयइ, समरथ साहस धीर ।

'बंभणवाडि' मंडणो, वीर वाड महावीर ॥८॥

वचन सुधारस वरसती, सरसति दिउ मति माय ।

'कमल विजय' गुरु पद कमल, प्रणमुं परम पसाय ॥९॥

‘हीर’ पाटि ‘जेसिंगजी’, पाटि प्रगट जगीस ।

श्री‘विजयदेव’ सूरिसरु, जीवो कोडि वरोस ॥१०॥

तिणि निज पाटि थापीओ, कुमति मतंगगज सीह ।

‘विजयसिंह सूरिसरु’, सकल सूरि सिर लीह ॥११॥

रास रचुरलीयामणो, मनि आणी उल्लास ।

‘विजयसिंह सूरि’ तणो, सुणयो ‘विजय प्रकाश’ ॥१२॥

सावधान सज्जन सुणो, पहिला दिउ दुइ कान ।

खंडानी पृथ्वी कही, विद्यानां छइ दांन ॥१३॥

ढाल :—राग देशाख ।

अटार कोडा कोडि सागर जेह,, युगला धरम निवारक जेह ।

‘ऋषभदेव’ हुआ गुण गेह, धनुष पंचसइ सोवन देह ॥१४॥

‘आदीश्वर’ निं सुत शत एक, ‘भरतादिक’ नामिं सुविवेक ।

आप पाट ‘भरतेसर’ आप्यो, ‘बहली देश’ ‘वाहूबलि’ थाप्यो ॥१५॥

‘भरत’ तणा अठाणुं भाइ, तेमां एक‘मरुदेव’ सबाई ।

तिणि निज नामि वसाव्यो देश, तेह भणी भणियइ ‘मरु देश’ ॥१६॥

ईति अनोति नहीं लवलेस, धर्म तणो ते कहिइ देस ।

चोर चरड नी न पडइ धाडि,..... ॥१७॥

बड़ा बड़ा जिहां छइ व्यवहारी, सत्रूकार करइ अनिवारी ।

मोटा तीरथ नी जिहां सेवा, मोतीचूर मिठाइ मेवा ॥१८॥

राजा पिण जिहां धरम करावइ, परमेसर नी पूजा मंडावइ ।

सहजिं जीव अमारि पलावइ, आहेडा उपरि नवि आवइ ॥१९॥

सूर सुभट मांटी मुंछाला, करि झलकइ करवाल कराला ।

व्यापारी दीसइ दुंढाला, घरि घरि सुभिख सुगाला ॥२०॥

देस मोटो तिम मोटा कोस, भोला लोक नहीं मनि रोस ।

बोलइ भाषा प्राहिं अटारी, कडि बांधइ बहु लोक कटारी ॥२१॥

लोक धरइ हाथि हथिआर, वाणिग पणि झूठा झूझार ।

रण विदतां पणि पाछा पग नापइ, साहमो साहमणिं नइ थिर थापइ ॥२२॥

कपट विहूणी बोलइ गाढ़िइं, गरढी पणि जिहां घुंघट काढ़इ ।

विधवा पणि पहरइ करि चूडि, राव रसोइ राधइं रूढ़ी ॥२३॥

प्रहो पाहुणइं सबल सजाइ, राय रांणा नी परि भुंजाइ ।

पाटभक्त मनमां नहीं द्रोह, स्वामिभक्त स्युं अधिको मोह ॥२४॥

पुण्यवन्त प्राहिं नहि खुंट, वाहण साहण चढ़वा उंट ।

जिहां थाकइ तिहां लिइ विश्राम, चोर चखार तणुं नहीं नाम ॥२५॥

लोक लाख लीलाइं चालइ, सोना रूपी (या) हाथि उछालइ ।

दुस्मन नइ सिर देवा दोट, मोटा 'मारूआडि' नवकोट ॥२६॥

प्रथम कोट 'मंडोवर' ए ठांम, हव (णां) 'जोधनयर' अभिरांम ।

बोजो 'अबुद' गढ ते जाण्यो, त्रीजो गढ 'जालोर' वखाण्यो ॥२७॥

चोथो गढ ते 'बाहडमेर', पांचमो 'पारकरो' नहीं फेर ।

'जेसजिमेरि' छठो कोट, जिणि लागइ नहिं बइरी चोट ॥२८॥

'कोटडइ' सातमो कोट वडेरो, आठमो कोट कह्यो 'अजमेरो' ।

कोइ 'पुष्कर' कोइ कहइ 'फलवद्धी, नवकोटी 'मारू आडि' प्रसिद्धी ॥२९॥

दोहा

धन 'मंडोवर' मरुधरा, जिहां 'मंडोवर' 'पास' ।

'गुणवि नइ' कहइ प्रभु पूजतां, पूरइ मननी आस ॥३०॥

आज सफल दिन मुझ हु(य)उ, अबहुं हु(य)उ सनाथ ।

'गुणविजय' कहइ जब मुझ मलयो, 'फलवधि' 'पारसनाथ' ॥३१॥

ढाल :—चौपाइ ।

‘मरू’ मण्डल मांहि ‘मेडतु’, दालिद्र दुख दूरिं फेडतउ ।

तेहनी कीरति जग मां घगी, एहवी लोक वात मइं सुणी ॥३२॥

जिन शासन मांहि बोलया वार, चक्रवर्ती ‘भरतादिक’ उदार ।

तिम शिव सासनि चक्री होइ, च्यार उपरि अधिका बलिदोइ ॥३३॥

तेमां धुरि ‘मांनधाता’ भण्यो, चक्रवर्ती ते मूर्लि जण्यो ।

तव माता पहुती परलोक, राजलोक सघलइ तव शोक ॥३४॥

किम ए बाल वृद्धि पावस्यइ, इंद्र कहइ मुझ निंथा(श्रा?) वसइ ।

तिण कारणि ‘मांनधाता’ कह्यउ, चक्रवर्ती पहलिउ गहगह्यो ॥३५॥

दान देवा घरि सास्हो जाय, ते मोटो हुउ महाराय ।

कोडा कोडि बरस तसु आय, प्रजा तगुं पीहर कहवाय ॥३६॥

कृत युग मां ते (हुयउ) प्रसिद्ध, इन्द्रइ राज्य थापना किद्ध ।

तिणिं नगर वाम्युं ‘मेडतुं’, लीलाइं लखमी तेडतुं ॥३७॥

‘मेडतुं’ते ‘मानधाता पुरी’, जेहथी लाजी ‘अलकापुरि’ ।

जे मांटइ तिहां धनपति एक, इणि नगरि धनवन्त अनेक ॥३८॥

लोक वात एहवी सांभलि, साच्युं ते जाणइ केवली ।

‘मेडता’ नी महिमा अति घगी, तिण वेला ‘मेडतीआ’ घणी ॥३९॥

चउपट चहुटां केरि ओली, गढ़ मड़ मन्दिर मोटी प्रोलि ।

घरि घरि उछरंग कल्लोल, बाजइ मादल भुगल ढोल ॥४०॥

चिहु दिसि सजल सरोवर घणां, देराणी जेठाणी तणां ।

कुंडल सरवर सोहामणुं, जाणे कुण्डल धरणी तणुं ॥४१॥

गाजइ गयवर हय (व)र घट्ट, व्यवहारीआं नणा गज घट्ट ।

वनवाडी ओपइ आराम, पासइ 'फलवधि' तीरथ ठाम ॥४२॥
देश देश ना आवइ लोक, दादइ दीठइ नासइ सोक ।

परता पूरइ 'पास कुमार', राति दिवस उघाडा बार ॥४३॥
इस्युं तीरथ नहीं भूमोतलइ, माणस लाख एक जिहां मिलइ ।

पोस दसमी जिन जन्म कल्याण, 'मेडता' पासि इस्युं अहिनाण ॥४४॥
'मेडतुं' दीठइ मन उलसइ, देवलोक ते दूरि वसइ ।

'मेडतुं' देखी लंका खिसी, पाणी आणइ 'वाणारसी' ॥४५॥
शिखर बद्ध ऊंचा प्रासाद, नन्दीश्वर स्युं मांडइ वाद ।

सतरभेद पूजा मंडाण, रसिया श्रावक सुणइ वखाण ॥४६॥
महाजन निं मनि मोटी दया, रांक ढीक उपरि बहु मया ।

ठामि २ तिहां सत्रुकार, तिणि नगरी नित दय दयकार ॥४७॥
तेणि नगरि महाजन मां बडो, 'चोरवेडिया' कुळ नुं दीवडो ।

'ओसवाल' अति अरडकमल, साह 'मांडण' नन्दन 'नथमल्ल' ॥४८॥
तस घरि लक्ष्मी वासो वसइ, रूपि रति पति नइ ते हसइ ।

नाथू नइ घर गज गामिणी, 'नायक दे' नामि कामिनी ॥४९॥
मणि माणक मोटा मालिआ, सोना रूपां नी थालियां ।

सालि दालि सखरां सांलणां, उपरि घल घल घी अति घणां ॥५०॥
'फुळां' दादी दिइ बहु दान, साहमी साहमणि नइ सन्मान ।

साधु साधवी घरि आवंती, पाणी नी परि घी विहरंति ॥५१॥
मीठाई मेवा भरपूर, चोआ चंदन अगर कपूर ।

'नायक दे' नवयौवन नारिं, 'नाथू' सुख विलसइ संसारि ॥५२॥

पुण्यइ पामों ऋद्धि अपार, जग जण जंपइ जै जैकार ।

‘सालिभद्र’ सम सुख भोगवइ, सुखि समार्धि दिन जोगवइ ॥५३

‘नायक दे’ नंदन दुइ जण्या, सकल कला गुण सहजि भण्या ।

‘जेसौ’ नइ ‘केसौ’ तिस नाम, ‘दशरथ’ घरि जिम ‘लखमण’ ‘राम’ ॥५४॥
त्रीजो सुत जायौ तिण बलि, मात तात पुहती मनगलो ।

‘मेडता’ मांहि हुआ आणंद, ‘कर्मचंद’ नामइ कुल चंद ॥ ५५ ॥

‘कपूरचंद’ चोथा नुं नाम, ‘पंचायण’ ते पंचम ठाम ।

‘नाथू’ ना नंदण गुण भया, जाणिकि पांच पांडव अवतर्या ॥५६॥

दोहा—

पांडव पांचइ मांहि जिम, विचलो सुत सिरदार ।

तिम ‘नाथू’ नंदन विचि, ‘कर्मचंद’ सुविचार ॥५७॥

विक्रम ‘संवत सोलमइ’ उपरि ‘च्युंआलीस’ ।

शाके ‘पनर नवोत्तरइ’ पूइ सजन जगोस ॥ ५८ ॥

उजल पखि फागुण तणइ, बोज दिवसि रविवार ।

उत्तर भद्र पदा तणइ, चोथा चरण मझार ॥ ५९ ॥

राजयोग रलीयामणइ, फाग रमइ नर नारि ।

‘कर्मचंद’ कुंवर जणयो, जगि हुआ जय जयकार ॥६०॥

कक लगन मूरति भवनि, तिहां गुरु उंबइ ठामि ।

बइठो तिणि तूठो दिइं, गुरु पदवी अभिराम ॥६१॥

त्रीजइ राहु सु खेत्रीउ, कन्या राशि निवास ।

भाई भुज बलि दीपतौ, दुसमन थाइ दास ॥६२॥

रवि कवि बुध ए आठमइ, कुंभि लगन बईट्ट ।

नवमइ भवनिं केतु कुज, पूरण चंद्र पइट्ट ॥६३॥

मेखिं शनि नीचउ कह्यउ, दशमइ भवनि उदार ।

पणि फल उचा नुं दिइं, केंद्र ठामि सुखकार ॥६४॥

ए शुभ वेला अवतर्यो, 'कर्मचंद' सुखकंद ।

सुखि समाधि वाधतुं, बीज थकी जिम चंद ॥६५॥

ढाल :—राग गौडो ।

इक दिन इम चिंतइ, नायक दे भरतार,

सुख सेजिं सूतो, जाग्यो रयणि मझार ।

मई पूर्व भव कांइ, कीधां पुण्य अपार,

तेणिं सहो पाम्यां, सुख सघला संसार ॥ ६६ ॥

मुझ मंदिर मइडी, मणि माणक ना हार,

नित नवां पहरवा, नित नवला आहार ।

नितु २ घर आवइ, अगथ गरथ भंडार,

वलि पाम्या परिघल, पुत्र कलत्र परिवार ॥ ६७ ॥

इणि भवि नवि कीधउ, सूयो श्री जिन धर्म,

विष (य) रसि हुंसी, कीधा कोड कुकर्म ।

'धन्तो' 'कयवन्नो', 'सालिभद्र' सुकमाल,

जोड धर्मिइ तरिया, वलि 'अवंति सुकमाल' ॥ ६८ ॥

ए विषय तणि रसि, प्राणी नइं बहु रंग,

जिम नयण तणइ रसि, दीवइ पडइ पतंग ।

रागि करि वेध्यो, बींध्यो वाण कुरंग,

अम्बाडी पाडइ, करिणी मद मातंग ॥ ६९ ॥

आलोयण नी विधि, गीतारथ समझाइ ।

दिई अगीतार्थ तु, साम्हो पाप भराइ ॥ ७५ ॥

आलोयण काजि, वीस वरस पडखीजइ,

तिम जोअण सातसइ, गीतारथ शोधीजइ ।

तिणि कारणि तप गछ नायक गुरु निं पासि ।

लेयो आलोयण, अवसरि मनि उल्लासि ॥७६॥

बलतु तव बोलइ, 'नायकदे' नु नाथ ।

ते दूर देशान्तरि, छइ तपगछ ना नाथ ॥

तुम्है पणि गछ मांहि, मोटा पण्डित राय ।

देस्यो आलोयण, तउ छोडुं तुम्ह पाय ॥७७॥

तव 'कमल विजय' गुरु, शास्त्र शाखि सब जाणी ।

'नाथू' मति दीठी, धर्म राग रंगाणी ॥

आलोयण दीधी, (मनधरी) बहु जगीस ।

उपवास छट्ट बहु, अट्टम तिम एकवीस ॥७८॥

'नायक दे' नायक, जोडी दुइ निज पाणी ।

तव बोलइ करस्युं, ए प्रमाण तुम्ह वाणी ॥

बलि तुम्ह पसायई, हु(य)उ निर्मल प्राणी ।

आज थकी अभिग्रह, ठामि भात नइ पाणी ॥७९॥

आलोयण करतां चेत्यो, चतुर सुजाण ।

पूछइ निज नारी, तिम भाइ 'सुरताण' ॥

मुझ कछुं करी नइ, लीजइ संजम जोग ।

जेहथी पामीजइ, अजरामर सुर भोग ॥८०॥

दोहा ।

साह 'मांडण' कुल जलधि नुं, हस्तिमल 'नथमल्ल' ।

विषम विषय रसि नवि छल्यो, चोखइ चित्त छयल ॥८१॥

निज कुटम्ब तेडी करी, 'नाथू' कहइ निरधार ।

तुम्हे सहु(हुब्र)उ इकमना, लेस्युं संयम भार ॥८२॥

'कर्मचन्द' कुअर प्रमुख, सहु कहइ ए वात ।

अम्ह प्रमाण छइ तातजो, न करूं धर्म विघात ॥८३॥

जिम आलोयण अवशरि, मिल्या सुगुरु निकलङ्क ।

तिम हवि गळ नायक मिलइ, तो व्रत ल्युं निशङ्क ॥८४॥

ढाल राग तोडी:—

इसा अवसरि 'लाहुर' सहरि करि, दुइ चउमासि ।

'विजयसेन सूरि' 'मेडतइ', आव्या जित कासी ॥

'नाथू' पांचइ पुत्र लेइ, गुरु नइ वंदावइ ।

'कर्मचन्द' मुख चन्द, देखि गुरुजी बोलावइ ॥८५॥

गळपति जंपति ए उदार, बालक शुभ लक्षण ।

जे चारिन्न लेस्यइ सही, तो थास्यइ विचक्षण ॥

'नाथू' शाह चो भाव, संभलि मुनि नाथ ।

हरख्या चित मांहि ज्युं, चढइ चिंतामणि हाथ ॥८६॥

गुरु कहइ 'नाथू' साह ! सुणो, चौमासा मांहि ।

'हीरजी' दर्शन तणइ हेतु, पहुंचुं उछाहिं ॥

'कर्मचन्द्र' कुंअर कुटम्ब सहु, साथ समेला ।

समय लेइ तु आवयो, थायो अम्ह भेला ॥८७॥

सीख देइ 'मेडता' थकी, 'सादडी' पधारइ ।

पर्व पजून्नण पारणइ, 'राणपुर' जोहारइ ॥

जंगम थावर तीर्थ दोइ, मिलिआ 'वरकाणइ' ।

'जालोरउ' संघ वंदवा, आव्यो जग जाणइ ॥८८॥

'कमल विजय' गुरु तिहां चउमासि, पूज्यना पग वंदइ ।

'बीझो' वानु संघ रंगि, नाचइ नव छंदइ ॥

तिहां थो गुरु 'जेसंघजी', 'सीरोही' आवइ ।

अनुक्रमि साम्हो संघ आवि, 'पाटण' पधरावइ ॥८९॥

पुण्यवन्त 'पाटण' प्रसिद्ध, नगरी सिरताज ।

तिहां 'हीरजी' निर्वाण जाणी, रहइ 'तप' गछ राज ॥

हवइ सुणउ जे 'मेडतइ', हुआ मंडाण ।

चारित्र लेतां 'कर्मचन्द्र', उदयउ जग भाण ॥९०॥

जीमणवार जलेबीइं, बहु गाम जीमाडइ ।

'नायक दे' पति पांति खंति, करि मोटी मांडइ ॥

सोना रूपा ना कचोल, थाली सुविशाली ।

सालि दालि शुचि सालणां, घल घल घी नाली ॥९१॥

दही करम्बउ घोल झोल, उपरि तम्बोल ।

नागरवेलि सोपारी पारी, यलि कुंकम रोल ॥

चन्दन केसर छांटणा, माणस लख मिलीया ।

वागा लाल गुलाल जाणि, केसूडा फलिआ ॥९२॥

मिल्या महाजन मांडवइ, वइठा बहु टोला ।

चालीसां दिवसां लगइ, लीधा बन्नउला ॥

देव तणो घन भक्ति युक्ति, गुरु गुरुणो तेड्या ।

साहमी साहमिणी संविभाग, करि पातक फेड्या ॥६३॥

सणगार्या सब हाट पाट, चहुटा चउरासी ।

रूडो गूडो बहुत तेज, नेजा उल्लासी ॥

‘मेडतीआ’ म हराण तेणि, दीघा नीसाण ।

वाजइ मङ्गल तूर पूर, पडइ कुमती प्राण ॥६४॥

धवल गीत गाइं अपार, गोरी गुण उ(ओ?)री ।

‘कर्मचन्द्र’ मुखचन्द्र देखि, नाचंति चकोरी ॥

भड (ट्ट) भोजिग बहु भट्ट नट्ट, बोलइ विरुदाली ।

लंख मंख खेलन्ति खग्र, कर देता ताली ॥६५॥

‘कर्मचन्द’ कुंअर उदार, शृङ्गार करावइ ।

तिम बिहु बांधव मात तात, ‘सुरताण’ सुहावइ ॥

माथइ मउड विसाल भाल, कुण्डल दुइ दोपइ ।

हियडइ मोती तण (उ) हार, गंगाजल जीपइ ॥६६॥

बाजू बंधन बहरखा, कर कंकण जडोआ ।

दीख्या लेवा काज सज, सिंधुर शिरि चढिआ ॥

बोलइ इम गुण लोक थोक, परदेसी पाथू ।

छत्रीसे वरसे छयदा, धन २ ए नाथू ॥६७॥

धन २ कुअर ‘कर्मचन्द’, धन २ ए भाइ ।

धन २ शाह ‘सुरताण’ धन, ‘नायक’ दे माइ ॥

भुगल भेरि नफेरी नाइ, बाजइ सरणाइ ।

एक भणइ ए ‘वस्तुपाल’, ए ‘भोज’ सवाइ ॥६८॥

थानकि २ थाकणे, दीजइ जे मागइ ।

पंच वर्ण दयां भरी, वलि चालइ आगइ ।

कप्पड कीधा कोट चोट, दमामे दीधी ।

‘ओसवाल’ भूआल धन, इम कीरति कीधी ॥६६॥

याचक नई धन कन कनक दान, देइ दालिद खंडइ ।

इम आडम्बर परिवर्या, आव्या वन खंडइ ।

त्रिण प्रदक्षिण समोसरण, विधिस्थुं गुरु वंदइ ।

‘कर्मचंद’ सकटुंब लेइ, चारित्र आणंदइ ॥१००॥

दोहा:—

‘कर्मचंद’ रवि ऊगतइ, तप गण गयण उद्योत ।

दुरित तिमिर दूरिं किआ, तिम कुमती खद्योत ॥ १ ॥

‘मांडण’ कुल मंडण करइ, ‘मरुमंडलि’ उलास ।

संवत ‘सोलइ बावनइ, बीज’ दिवसि ‘माह’ मास ॥ २ ॥

‘जेसौ’ थिर थापी घरे, तिम ‘पंचायण’ पुत्र ।

छती ऋद्धि छांडी लिउं, छइ (६) माणसे चारित्र ॥ ३ ॥

ढाल राग धन्याश्री:—

तिहां थो ते मुनि चालइ, विषय कषाय नइ पालइ ।

आव्या गूजर देस, पाटणि कीद्व प्रवेस ॥ ४ ॥

‘विजयसेन’ सूरिराय, प्रणमि पातक जाय ।

ते छइ नइ (६) दीधी दिक्षा, ग्रहणा सेवना शिक्षा ॥५॥

‘नेमिविजय’ ‘नाथू’ जाण, ‘सूरविजय’ ‘सुरतांग’ ।

‘कर्मचन्द’ मुनि नाम, ‘कनकविजय’ गुणधाम ॥ ६ ॥

‘केसा’मुनि तणुं नाम, ‘कीर्त्ति विजय’ अभिराम ।

‘कपूरचन्द’ ते लहि(य)इ, ‘कुंअरविजय’ मुनि कहि(य)इ ॥७॥
सघला मां सिरदार, ‘कनक विजय’ अणगार ।

ए मोटउ महाभाग, श्रीआचारज लाग ॥ ८ ॥

पोतानुं पटधारी, ‘विजयदेव’ गणधारी ।

तेहनइ ते शिष्य दीनो, जडिउ कनक नगीनो ॥ ९ ॥

‘कनक विजय’ मुनि चेलो, कलपलता तणु वेलो ।

‘विजयदेवसूरि’ पासि, सगला शास्त्र अभ्यासि ॥ १० ॥

गुरु नुं पास न मुकइ, विनय बड़ा नो न चूकइ ।

नाममाला नइ व्याकरण, कीधा कंठ आभरण ॥ ११ ॥

जोतिष तर्क विचार, जाणइ अंग इग्यार ।

‘पण्डित’ पदवी विशिष्टा, ‘सोल सत्तरि’ प्रतिष्टा ॥ १२ ॥

‘विसा’ ‘वदो’ वित्त वावइ, ‘अम्हदावाद’ सोहावइ ।

खरची अति घणी आधि, ‘विजयसेन सूरि’ हाथि ॥१३॥

‘ज्ञेसिंग’ नुं निरवाण, ‘खंभाइति’ जग भाण ।

पाटि पटोधर पूरो, ‘विजयदेव सूरि’ सूरउ ॥ १४ ॥

‘जेसिंगजी’ पाट दीपइ, तेजि सूरज जीपइ ।

पूरइ संघ जगोस, ‘श्रीविजयदेव सूरीस’ ॥ १५ ॥

भलउ भटारक भावइ, ‘पाटणि’ चउमासु आवइ ।

सोल तिहुतरा वर्षि, ‘लाली’ आविका हर्षी ॥ १६ ॥

प्रौढ प्रतिष्टा ते मंडइ, दानि दालिद खंडइ ।

पोस बहुल छट्टि सार, नहीं जिहां दोष अठार ॥१७॥

“श्रीविजयदेव” सूरिंदइ, सकल संघजि आणंदइ ।

‘कनकविजय’ कविराय, कीधा श्री उवझाय ॥ १८ ॥

इम जे गुरु नि आराधइ, ते सुख संपति साधइ ।

‘विजयदेव’ गणधार, भूतलि करइ विहार ॥ १९ ॥

साहि ‘सलेम’ उदार, करवा सुगुरु दीदार ।

‘मांडवगढ़’ गुरु तेड्या, कुमति ना मद फेड्या ॥ २० ॥

देखी ‘तपगछ नाह’, खुसी भयो पातिसाह ।

जगगुरुके पटि पूरे, बड़े ‘विजय देव’ सूरै ॥ २१ ॥

शाहि ‘जहांगीरी थापइ, नाम ‘महातपा’ आपइ ।

चंडके गुरु मोटे, तोडि करइ तेहु खोटे ॥ २२ ॥

गुहिरा निसाण गाजइ, पातिशाही बाजा बाजइ ।

मिलीया ‘मालवी’ संघ, ‘दक्षिणी’ श्रावक संघ ॥ २३ ॥

पांभरी दोइ पग लागा, केइ केसरि आदिई वागा ।

मिसरु मलमल साइ, पगि पटकूल विछाइ ॥ २४ ॥

वींटी वेढ़ गांठोडा, बलि दोधा घणा घोड़ा ।

श्रावक श्राविका आवइ, मोती थाले बधावइ ॥ २५ ॥

लोक लाख गुरु पूजइ, तेहना पातिक धूजइ ।

गुरुजी नइ पटि दीवउ, ‘विजयदेव’ चिरंजीवउ ॥ २६ ॥

दोहा

‘विजय देव’ गुरु गाजता, ‘गूजर’ देशि विहार ।

अनुक्रमि करता आविया, ‘सोरठ’ देश मंझार ॥ २७ ॥

‘विमलाचल’ तीरथ बडउ, सकल तीर्थ शृंगार ।

जिहां श्री‘ऋषभ’ समोसर्या, पूर्व नवाणुं वार ॥ २८ ॥

‘गुण विजय’ कहइ श्रो‘सिद्धगिरि’, ध्यान धरत गत पाप ।

बलवन्त बइठो जिहां धणो, ‘बाहूबलि’ नुं बाप ॥ २६ ॥

जे नर धरि बइठा करइ, श्रोशत्रुंजय जाप ।

‘गुणविजय’ कहइ तेहना टलइ, सहस पल्योपम पाप ॥ ३० ॥

‘गुणविजय’ कहइ शेत्रुंज तणी, आखडी मोटो मर्म ।

लाख पल्योपम संचिया, टलइ निकाचित कर्म ॥ ३१ ॥

‘गुणविजय’ कहइ ‘विमलाचलि’, पंचकोडि परिवार ।

चैत्री दिन केवल लह्यउ, ‘पुण्डरीक’ गणधार ॥३२॥

‘गुणविजय’ कहइ जग मां बडा, ‘शत्रुंजय’ ‘गिरिनारि’ ।

इक शिरि ‘आदिसर’ चह्यउ, इक शिरि ‘नेमि’ कुमार ॥ ३३ ॥

ढाल—राग सामेरी

‘शत्रुंजय’ जिनवर वंदइ, गुरुजी निज पाप निकंदइ ।

दुइ ‘दीव’ करी चोमास, पूरी ‘सोरठनी’ आस ॥ ३४ ॥

‘हीरजी’ नी परि पूजाणो, तिहां ‘तप गळ’ केरो रांणउ ।

‘गिरनार’ देखी(दुःख) भेटइ, राजलि (धि?) राजा जिन भेटइ ॥३५॥

बलि ‘नवइ नगरि’ गुरु आवइ, सामहिआं संघ करावइ ।

जामी दुइ सहस वखाणी, इक साम्हेलि खरचाणी ॥ ३६ ॥

तिहां थी बवि (चलि?) पूज्य पधारइ, ‘शत्रुंजय’ देव जुहारइ ।

‘खंभाइति’ अति उल्लासि, तिहां थी आव्या चउमासइ ॥ ३७ ॥

तिहां त्रिण प्रतिष्ठा सार, रुपइआ चउइ हजार ।

खरच्या ‘खंभाइत’ मांदि, श्रीसंघ अधिक उल्लाहि ॥ ३८ ॥

तिहां थी आव्यउ उल्लासइ, 'साबली' नगरि 'माह' मासि ।

'अजुआली छट्टि' बखाणी,॥३९॥

तीन मास लगइ गुरु मौनी, अमारि पलावइ 'सोनी' ।

संघ मुख्य 'रतनसी' साह, लीधो लखमी नु लाह ॥ ४० ॥

श्री'कनक विजय' उवझाय, बखाण करइ मुनिराय ।

पालइ निज गुरुनो आण, थास्यइ ते तपगळ भाण ॥४१॥

गुरुजीह विधानिं बइठा, पातक पायालिं पइठा ।

छट्ट(अ)ठ्ठम करइ अनेक, उवपवस (उपवास?) घणा सुविवेक ॥ ४२ ॥

आंबिल करी धवलई धानि, पूरव दिसि बइसइ ध्यानि ।

पचखाण जणावा माटिं, आपइ अक्षर लिखी पाटि ॥ ४३ ॥

आवक तिहां अगर कपूर, उगाहइ परिमल पूर ।

इण परि आचारय मंत्र, आराधइ पूज्य पवित्र ॥ ४४ ॥

वैसाख मास जब आवइ, सुहिणइ सुर वात जणावइ ।

वाचक निं निजपट आपउ, गळ भार 'कनकजी' नइ थापउ ॥४५॥

ए वाणि सुणी गुरु हरख्या, जिम शीतल जल थी तरस्या ।

मह(य)लिं बहु मंगल कीजइ, गुरु आया 'आखातीजइ' ॥४६॥

आवइ तिहां संघ अपार, अंग पूजा ना अंवार ।

दुख दालिद दूरी गमाया, याचक घर सुभर भराया ॥४७॥

'साबली' नइ 'इडरि' जुइ, प्रासाद प्रतिष्ठा हुइ ।

'राय' देशि शोभा लीधी, गुरु दोइ चौमासी कीधी ॥४८॥

इबइ 'राजनगरि' गुरु आवइ, चउमासुं संघ करावइ ।

बीजुं 'बीबीपुर' मांहि, गुरु चतुर चउमासुं चाहइ ॥४९॥

‘पारणि पुंजाउत’ आवइ, ‘सीरोही’ सोह चडावइ ।

अभिनव उदयो ‘तेजपाल’, प्रागवंश तिलक ‘तेजपाल’ ॥५०॥
 राय ‘अख्यराज’ बडह बीर, तेहनि घरि जेह वजीर ।

ते शाह तिहां किणि आवइ, गुरुनि वंदइ मनि भावइ ॥५१॥
 करइ यात्र ‘विमल गिरी’ केरी, जिणि भाजइ भवनी फेरी ।

आवइ ‘कमीपुर’ फेरी, ढमकावइ ढोल नफेरी ॥५२॥
 पूज्य जी नइ कहइ परधान, एतलुं दिउं मुझनिं मान ।

करि मेल वधारो वानो, गुरुराज कह्युं ए मानो ॥५३॥
 गुरु कहइ अम्ह मनि नहीं खेस, टालउ तुम्हे सयल किलेस ।

तिहां लिखित भाषित करि लीधा, साहि सहु को निं दीधा ॥५४॥
 ए लिखित थकी जे चूकइ, तेहनिं जगदीसर मुकइ ।

मांहो मांहि मेल कराव्यउ, पुण्यइ भंडार भराव्यउ ॥५५॥
 आचारज ‘विजयाणंदि’, गुरु जी बांच्या आणंदइ ।

श्री ‘नंदीविजय’ उवझाय, जेहनु मोटउ भडवाय ॥५६॥
 ‘धनविजय’ ‘धर्मविजय’ नाम, वाचक दुइ अति अभिराम ।

इत्यादिक मुनि जग जाणया, पुणिं गुरु चरणे आणया ॥५७॥
 साह कहइ ‘सीरोही’ पधारउ, बलि वीनति ए अवधारो ।

‘तेजपाल’ सीरोही आवइ, ‘श्रीविजय देव’ गुण गावइ ॥५८॥

दोहा

‘राजनगर’ थी विचरता. करता संघ कल्याण ।

‘गायदेसि’ गुरु आविया, जिहां राजा ‘कल्याण’ ॥५९॥
 ‘विजयदेव सूरि’ वड वखत, वाचक पंच समेलि ।

‘ईडरगिरि’ शिर ‘ऋषभ जिन’, भेटयइ हुइ रंग रेलि ॥६०॥

‘इडरगढ़’ मुख मंडणउ, साहिब सुख दातार ।

‘गुणविजय’ कहइ मंगल करउ, ‘सुमंगला’ भरतार ॥६१॥

‘रायदेश’ रलिआमणउ ‘इडरगढ़’ सिरदार ।

घरि २ उत्सव अति घणा, फाग रमइ नरनारि ॥६२॥

ढाल—फागनी

तपगढको गुरु राजीयो, रमइ पुण्यनुं फाग ।ललना ।

परणो समता सुन्दरी, जिनआंणा वर वाग । ललनां

पुण्य फाग गुरु जी रमइ ॥६३॥

पहिलुं पाप पखाळवा, नेम तप निर्मल नीर ।ल०।

चुआं चंदन चित भलुं, छांटइ चारित्र चीर ॥ल०।पु०।६४॥

परंपरा आगम बडउ, चढवा तुंग तुरंग ।ल०।

ज्ञान ध्यान नेजा घणा, लीला लहरि तरंग ॥ल०।६५॥

सकल संघ सेना मिली, वाजइ जग जस ढोल ।ल०।

वाचक पंडित उंबरा, सूरा साधु अडोल ॥ल०। पु० ।६६॥

इक दिनि गुरुनि वीनवइ, ‘तपागळ’ परिवार ।ल०।

एक अम्हारी वीनति, अवधारउ गणधार ।ल०।पु०। ६७॥

तपागळ मेल तुम्हे करी, कीधुं उत्तम काज ।ल०।

हवइ एक इहां थापीइ, आचारिज युवराज ॥ल०।पु०।६८॥

आज अंबा रायण फल्या, आयउ मास वसंत ।

चंपक केतक मालती, वासंती विकसंत ॥ल०।पु०।६९॥

तिम अम्ह आशा वेलडी, सफल करउ मुनिराज ।ल०।

‘कनकविजय’ वाचक वरु, करउ पटोधर आज ॥ल०।पु०।७०॥

वलता गळ भूपति भगइ, जोउ महुरत सुद्धि ।ल०।

आचारय वाचक वलि, वलि जोसी बडु बुद्धि ॥ल०।पु०।७१॥

मन मान्युं महरत मल्युं, शकुनादिक नी शाखि ।ल०।

‘अजुवाली छट्टि’ अति भली, वडि मास ‘वैशाखि’ ॥ल०।पु०।७२॥

गुरुजी नइ सहू वीनवइ, ए छइ दिवस पवित्र ।ल०।

सोमवार सुहामणा, रुंडु पुष्य नक्षत्र ॥ल०।पु०।७३॥

‘ईडर’संघ शिरोमणि, ‘सोनपाल’ ‘सोमचन्द’ ।

अधिकारी सा ‘सूरजी’, सुत ‘सादूल’ अमंद ॥ ल० ।पु०।७४॥

‘सहसमल’ ‘सुन्दर’ भला, ‘सहजू’ ‘सोमा’ जोडि ।ल०।

‘धन जी’ ‘मनजी’ ‘इंदुजी’, ‘अमीचंद’ नहि खोडि ॥ल०।पु०।७५॥

वासी ‘राजनगर’ तणा, संघवी ‘कमलसीह’ । ल० ।

‘पारिख’ ‘अहमदपुर’ तणा, ‘वेला’ सुत ‘चांपसींह’ ।ल०।पुण्य०।७६।

‘पारिख’ ‘देवजी’ ‘सूरजी’, ‘थान सींग’ ‘रा(य)सींग’ । ल० ।

साह ‘भामा’ ‘तोलहा’ भला, साह ‘चतुर्भुज सिंघ’ ।ल०।पुण्य०। ७७ ।

‘जागा’ ‘जसू’ ‘जेठा’ भला, भाई गुरु ना होइ । ल० ।

‘कोठारी’ ‘मंडण’ मुखी, ‘बछराज’ रहिआ जोइ ।ल०।पुण्य०।७८।

‘कर्मसीह’ नइ ‘धर्मसी’, ‘तेजपाल’ समउ न कोइ । ल० ।

‘अखयराज’ राचा वरू, मंत्री ‘समरथ’ सोइ ।ल०।पुण्य०।७९।

मंत्रि ‘लखू’ नइ ‘भीमजी’, ‘भामा’ ‘भोजा’ जोइ ।ल०।

‘फडिआ’ ‘मालजी’ ‘भाणजी’, ‘लखा’ ‘चोथिआ’ दोइ ।ल०।पुण्य०।८०

‘गांधी’ ‘वीरजी’ ‘मेघजी’, तिम वलि ‘वीरजी’ साह ।ल०।

‘देवकरण’ ‘पारिख’ ‘जसू’, उ करडि उछाह ।ल०।पुण्य०।८१।

‘भाणजी’ शाह ‘सूरजी’, तिम वली ‘तेजपाल’ । ल०

इत्यादिक ‘इडर’ तणउ, मिल्यउ संघ सुविशाल । ल०पुण्य०।८२।

‘द्यावड’ संघ सहु मिल्यो, ‘अहिम नगर’ नुं संघ ।

‘सावली’ नुं संघ सामठउ, ‘पदमसिंह’ ‘चांपसीह’ । ल०पुण्य०।८३।

साह ‘नाकर’ सुत हवि तिहां, ‘सहजू’ साह उदार । ल०

दानि मानि आगलउ, ‘ईडर’ शोभाकार । ल०पुण्य०।८४।

शिणगारी निज घर घगुं, तेह्या ‘तपगल’ नाथ । ल०

पट्ट देवानिं कारणिं, संघ चतुर्विध साथि । ल०पुण्य०।८५।

इण अवसरि बोलविआ, ‘धर्मविजय’ उवझाय । ल०

‘लावण्यविजय’ नामइं वलि, वारू वाचक कहाय । ल०पुण्य०।८६।

वर चारित ‘चारित्रविजय’, वाचक कुल कोटीर । ल०

चोथा पण्डित परगडा, ‘कुशलविजय’ वजीर । ल०पुण्य०।८७।

‘कनकविजय’ वाचक तुम्हो, तेडउ एणिं आवासि । ल०

तब ते च्यारे मलपता, पुहता वाचक पास । ल०पुण्य०।८८।

ऊठउ तुम्ह तुठउ गुरु, निज पद दिइं सुविवेक । ल० ।

विजयवंत वाचक वदइ, गुरुनिं शिष्य अनेक । ल०पुण्य०।८९।

तुम्हे कहउ छउ ते सहो, पणि तुम्ह पुण्य अपार । ल० ।

लछि आवती लीजीइं, गुरुजी छइ गल भार । ल०पुण्य०।९०।

इम गुरु चरणे आणिया, माणस देखइ थाट । ल०

‘होरइ’ जिम ‘जेसिंधजी’, तिम थाप्या गुरु पाटि । ल०पुण्य०।९१।

वास थाल तब आणीउ, सा० ‘सहजू’ अभिराम । ल०

वास ठवइ गुरुजी करइ, ‘विजयसिंह सूरि’ नाम । ल०पुण्य०।९२

‘कोरतिविजय’ ‘लावण्यविजय’, वाचक पद दोइ दीद्व ।

आठ विवुध पद थापीआ, मया सुगुरु इम कीद्व । ल०पुण्य०।९३।
श्रीफल करी प्रभावना, जीमण वार अवार ।

महमूद्दी ‘सहजू’ तिहां, खरची पंच हजार । ल०पुण्य०।९४।
‘कल्याणमल्ल’ राय रञ्जिआ, ‘इडर नगर’ मझार । ल०।

सा० ‘सहजू’ उत्सव करइ, वरत्यो जयजयकार । ल०पुण्य०।९५।
वलि ज्येठ मांहि तिहां, बिम्ब प्रतिष्ठा एक । ल० ।

सा० ‘रहीआ’ उत्सव करइ, खरचइ द्रव्य अनेक । ल०पुण्य०।९६।
बीजइ पखवाडइ वली, अमराउत जस लिद्व । ल०।

‘पारिख’ ‘देवजो’ नो घरि, पूज्य प्रतिष्ठा किद्व । ल०पुण्य०।९७।
संवत ‘सोल इक्यासो(य)इ’, उत्सव हुआ आणंद । ल०।

‘विजय देव सूरी’ थापीआ, ‘विजयसिंह’ सूरिंद । ल०पुण्य०।९८।
धवल मंगल दिइ कुल वडू, बाजइ ढोल नीसाण । ल०।

‘विजय देव’ गुरु पाटवो, प्रगटिउ तप गळ भाण । ल०पुण्य०।९९।
गुरु आचारज जोडली, ‘इडरगढ़’ चडमासि । ल०।

राय ‘कल्याणइं’ राखीआ, पहुंचाडो मन आसि । ल०पुण्य०।२००।

दोहा :—

एहवइ ‘सीर (ही)’ थकी, तेडइ सा ‘तेजपाल’ ।

‘आबू’ पूज्यं पधारिइं, चैत्र मास सुर साल ॥१॥
तेह वोनति मन धरी, गुरुजी करइ बिहार ।

संघ लोक बहुला मिलइ, उत्सव करइ अपार ॥२॥
साम्हा आवइ ‘साहजो’, ‘दोसी’ ‘जोधा’ जोडि ।

संघवी ‘मेहाजल’ मिली, गुरु पूजइ कर जाडि ॥३॥

गुरु उपरि करइ लंछणा, साह दिइं तरल तुरंग ।

घणा संघ स्युं गुरु करइ, 'आबू' यात्रा जंग ॥४॥

'गुण विजय' कहइ जग जस लि(य)उ, धन २ 'विमल' नरिंद ।

जिण 'अबुय' गिरि थापीउ, 'मरु देवी' नुं नंद ॥५॥

'अर्बुद' गिरि तीरथ करी, 'बंधणवाडि' वीर ।

सुगुरु 'सीरोही' आविया, जाणे अभिनवौ'हीर' ॥६॥

चौमासुं गुरुजी करइ, 'सीरोही' सुखठाम ।

'तेजपाल' शाह प्रमुख सहु, संघ करइ शुभ काम ॥७॥

विजय दसमी दिन दीपतुं, 'विजयदेव' गुरु पास ।

'विजयसिंह सूरी' तणो, गायउ 'विजय प्रकाश' ॥८॥

राग :—धन्याश्री ।

महावीर जिनपाटि धुरंधर, स्वामि 'सुधर्मा' सोहइजी ।

'जंबू' 'प्रभव' 'शय्यभव' सूरीय, 'यसोभद्र' मन मोहइजी ॥

इम अनुक्रमि 'जगचंद्र' महामुनि, च्युंआलीसमि पाटिजी ।

'तपा' विरुइ तस राणइ थाण्युं, मेदपाटि 'आघाटि' ॥९॥

तिणि तप गणि गुणवन्निं पाटिं, 'देवसुंदर' सुखकारीजी ।

पंचासम पाटिइं गुरु सुन्दर, 'सोमसुन्दर' गणधारीजी ॥

तेह थकी छपन्नमि पाटिं, 'आणंदविमल' मुणि इंदोजी ।

'तपागळ' जेणि निरमल कीधउ, जिसो आसोइ चंदोजी ॥१०॥

सत्तावनमि पाटि परम गुरु, 'विजयज्ञान' वैरागीजी ।

अट्टावनमि पाटि हीरो, 'हीरजी' गुरु सोभागीजी ॥

उगुणसट्टमि पाटि पुरन्दर, 'विजयसेन' गळ धोरीजी ।

पाटि साट्टिमइ 'विजयदेव' गुरु, गुण गावइ सुर गोरीजी ॥११॥

'हीर' 'जेसंगजी' पाट दीपावइ, 'विजयदेव सूरि' सोंहोजी ।

पूजा नाम कर्म तप धर्मिइ, राखइ तप गळ लोहोजी ॥

तस पट दोपक रति पतिजी, एऊ 'विजयसिंह' सूरिसोजी ।

इकसठमि पाटि पुरषोत्तम, पूरइ संघ जगीसोजी ॥१२॥

'सोलत्र्यासीआ' वर्षि हर्षि, 'सीरोही' सुख पायउजी ।

'ऋषभदेव' प्रभु, पाय पसायइ, 'विजयसिंह सूरि' गायोजी ॥

'कमल विजय' जय मंडित पंडित, 'विद्याविजय' गुरु चेलोजी ।

'गुणविजय' पण्डित एम पयंपइ, वाधउ तपगळ वेलोजी ॥१३॥

इति श्रीविजयसिंह सूरि विजय प्रकाश नाम रासि (संपूर्ण)

(पत्र ११ श्री तत्कालीन लिखित, जयचंद भण्डार बं० नः ६६)



ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह चतुर्थ विभाग

(विभाग नं० १ की अनुपूर्ति)

कवि पल्ह विरचिता

जेसलमेर भाण्डागारे ताड़पत्रीया खरतर पट्टावली

॥ श्री जिनदत्त सूरि स्तुतिः ॥



जिण दिट्ठइं आणंदुं१ चडइ अइर रहसु चउगुणु ।

जिण दिट्ठइं झडहडइ पाउ तणु निम्मल हुइ पुणु ॥

जिण दिट्ठइ सुहु होइ कट्टु पुव्वुक्किउ नासइ ।

जिण दिट्ठइ हुइ रिद्धि दूरि दारिहु पणासइ३ ॥

जिण दिट्ठइ हुइ सुइ४ धम्ममइ अबुहहु काइ उइखहु५ ।

पहु नव फणि मंडिउ 'पास' जिणु 'अजयमेरि' किन पिक्खहु६ ॥१॥

मयण मकरि धरि धणुहु बाण पुणि पंच म पयडहि ।

रूविण७ पिम्म पयावि बंभ हरि हरु मन(त) विनडहि ॥

रूउ८ पिम्मु ता बाण मयण ता दरिसहि थणुहरु ।

नम(व) फणि मंडिउ सीसि जाव नहु पक्खहि जिणवरु ॥

१ आनंद, २ अहरहउ, ३ पनासइ, ४ छह, ५ उइ खहहु, ६ पिक्खहहु,
७ भूविण, ८ भूउ

जइ पडिहसि 'पास' जिणिंद वसि नाणवंत६ निम्मल रयण ।

न सु धणुहरु बाण न रूव१० नहि न रूय११पिंमु हुइ हइमयण ॥२॥

नम (व) फणि 'पास' जिणिंदु गढिउ अन्नलि जु दिट्टु ।

'अजयमेरि' 'संभरि१२नरिंदु' ता नियमणि तुट्टु ॥

कंचणमउ अइ१३ कलसु सिहरि साणउ रञ्जविअउ ।

जणु सुतरणि तउ१४ तवइ तिबु (त्थु) आयासि सउन्नउ ॥

जा वुक्कमिसिण ढक्कारविण करु१५ उब्भिवि फरहरइ धय१६ ।

'जिणदत्तसूरि' धर धम(व)लि जसि तापसिद्धि सुर भुयणि१७ कय ॥३

'देवसूरि पहु' 'नेमिचंदु' बहु गुणिहिं पसिद्धउ ।

'उज्जोयणु' तह 'वद्धमाणु' 'खरतर' वर लट्टउ ॥

सुगुरु 'जिणेसरसूरि' नियमि 'जिणचंदु' सुसंजमि१८ ।

'अभयदेउ' सव्वंगु नाणि 'जिणवल्लु' आगमि ॥

'जिणदत्तसूरि' ठिउ पट्टि तहि जिण उज्जोइउजिण-वयणु ।

सावइहिं परिकिखवि परिवरिउ मुल्लि महग्घउ जिव१९रयणु ॥४॥

वणुहर धयवड२० वरिय सारि सिंगार सुसज्जिय ।

सोहग्गिण गुडगुडिय पंच(व)र पडिम निमज्जिय ॥

ति(नि)यइ (रू)अ तेअ ग्गलिय२१ पिंम पडिक्कार निरुत्तिय ।

रइ रणरह सुच्चलिय२२ गरुय माणिण म अमन्निय२३ ॥

करि कडयड२४ मुणि महिवइहिं रहिय रूवय संपुन्न भय ।

'जिणदत्तसूरि सीहह' भयण मयण करडि२५ घड विहडि गय ॥५॥

९ दंत, १० भूव, ११ भुय, १२ संभारि, १३ अह, १४ तओ, १५ कर
उज्जिवि, १६ धर, १७ भवणि, १८ सुसंयमि, १९ जिम २० धरय, २१
आगलिय, २२ सुचलिय, २३ मइ अन्निय, २४ कडसड, २५ हुकर धियइ,

तव तलप्फ भीसणह धम्म धीरिमसुरिमर६ सुविसालह ।

संजम सिर भासुरह दुसहद(व)य दाढ़ करालह ॥

नाण नयण दारुणह नियम निरु२७ नहर समिद्धह ।

कम्म कोय(व)निट्टरह२८ विमलपह पुंछ पसिद्धह ॥

उपसमण उयर२६ धर दुव्विसह गुण गुंजारव जीहह ।

‘जिणदत्तसूरी’ अणुसरहु पय पावक-रडि-घड-सीहह ॥६॥

जर-जल-बहल-रउदु लोह-लहरिहिं गज्जंतउ ।

मोह मच्छ उच्छल्लिउ कोव कल्लोल वहंतउ ॥

मयमयरिहि परिवरिउ वंच बहु वेल दुसंचरु ।

गव्व३० गरुय गंभीरु असुह आवत्त भयंकरु ॥

संसार समुदु३१ जु एरिसउ जसु पुणु पिक्खिवि दरियइ ।

‘जिणदत्तसूरी’ उवएसु मुणि पर तरंडइ३३ तरियइ ॥७॥

सावय किवि कोयलिय केवि खरह३४ (य?) रिय पसिद्धिय ।

ठाइ ठाइ लक्खियइ३५ मूढ निय वित्ति विरुद्धिय ॥

दरहिं न किंपि परत्र३६ वेविसु परुप्परु जुज्झहि ।

सुगुरु कुगुरु मणि मुणिवि न किवि पटंतुरु बुज्झहिं ॥

‘जिणदत्तसूरी’ जिन नमहि पय पउम मच्चु३७(गव्वु) नियमणि वहहि

संसार उयहि दुत्तरि पडिय ‘तिनहु’३८ तरंडइ चाडि तरिहि ॥८॥

तव-संजम-सयनियम-धम्म-कंमिण वावरियउ ।

लोह-कोह मय-मोह तहव सव्विह परिहरियउ ॥

२६ सूवि, २७ सनहर, २८ निट्टुरह, २९ उपर, ३० गंध, ३१ समुदु,
३२ सुणित, ३३ सुतरियइ, ३४ खरतरिय, ३५ लक्खियहिं, ३६ परत्त,
३७ सच्चु, ३८ जिनहु

विसम छंदलक्खणिण सत्थ अत्थत्थ विसालह ।

‘जिणवल्लह’ गुरुभक्तिवंतु पयडुड कलिकालह ॥

अन्नहि वि गुणिहि संपुन्न तणु दीन दुहिय उद्धरणु धर ।

‘जिणदत्तसूरि’ ‘पर पल्हभ(?)णु तत्तवंतु सलहियइ धर ॥६॥

वक्खणिणियइ त परम तत्तु जिण पाउ पणासइ ।

आरहियइ त ‘वीरनाहु’ कइ ‘पल्हु’ पयासइ ॥

धम्मु तु दय संजुत्तु जेण वरगइ पाविज्जइ ।

चाउ त अणखंडियउ जु बंदिणु सलहिज्जइ ॥

जइ ठाउ३६ त उत्तिमु सुणिवरहवि (पवर वसहिहो चउर नर ।

तिम सुगुरु सिरोमणि सूरिवर ‘खरतर सिरि’ ‘जिणदत्त’ वर ॥१०॥

१ इति श्री पट्टावली षट् पदानि । संवत् ११७० वर्षे अश्व युगाद्य पद्ये ११ तिथौ श्री मद्धारानगर्यां श्री खरतर गच्छे विधिमार्गं प्रकाशि वसतिवासि श्री जिणदत्त सूरीणां शिष्येण जिनरक्षित साधुना लिखितानि ।

२ इति श्री पट्टावली ॥ संवत् ११७१ वर्षे पत्तन महानगरे श्री जयसिंह देव विजयिराज्ये श्री खरतरगच्छे योगीन्द्र युगप्रधान वसति वासि जिनदत्त सूरीणां शिष्येण ब्रह्मचंद्र गणिना लिखिता ॥ शुभं भवतु श्री मत्पाइर्वनाथाय नमः सिद्धिरस्तु ॥



॥ श्री नेमिचन्द्र भण्डारि कृत ॥

जिन वल्लभ सूरि गुरु गुणवर्णन



॥६०॥ पणमवि सामि वीरजिणु, गणहर गोयमसामि ।

सुधरम सामिय तुलनि, सरणु जुगप्रधान सिवगामि ॥१॥

तित्थु रणुद्ध स मुणिरयणु, जुगप्रधान क्रमि पत्तु ।

जिणवल्लह सूरि जुगपवर, जसु निम्मलउ चरित्तु ॥२॥

तसु सुहगुरु गुणकित्तणइ, सुरराओवि असमत्थो ।

तो भत्ति-भर तर लिओ, कहिउ कहिसुं हियत्थु ॥३॥

कह भवसायर दुहपवरु, कह पत्तउ मणुयत्तु ।

कह जिणवल्लहसूरि वयणु, जाणिउं समय-पवित्तओ ॥४॥

कह सुबोह मणउल्लसिय, कह सुद्धउ सामन्नु ।

जुगसमिला नाएण मइए, पत्तउ जिण-विहि-तत्तु ॥५॥

जिणवल्लहसूरि सुहगुरुहे, बलिकिज्जउ सुरगुरुराय ।

जसु वयणे विजाणियइ, तुट्टइ कम्म-कसाय ॥६॥

मूढा मिल्हहु मूढ पढु, लागहु सुद्धइ धम्मि ।

जो जणवल्लहसूरि कहिओ, गच्छहु जिम सिवघरंमि ॥७॥

अथोर माय-पिय-बंधवह, अथोर रिद्धि गिहवासु ।

जिणवल्लहसूरि पय नमओ, तोडइ भव-दुह-पासु ॥८॥

परमप्यणय न केवि गुरु, निम्मल धम्मह हुंति ।

सव्व तिदस पुर मन्नियइं, जे जिणवयण मिलंति ॥६॥

गुरु गुरु गाइवि रंजियइं, मूढा लोउ अयाणु ।

न मुणइ जं जिण आण विणु, गुरु होइ सत्तु समाणु ॥१०॥

जिम सरुणाईय माणुसह, कोइ करइ शिरलेओ ।

न मुणइ जं जिण-भासियओ, तिम कुगुरुह संजोओ ॥११॥

हुंडा अवसप्यणि भसम गहु, दूसम काल किलिहु ।

जिणवल्लहसूरि भडु नमहु, जेण उसुत्तु न सिट्टउ ॥१२॥

जो जिह कुलगुरु आइयउ, तहि ते भत्ति करंति ।

विरला जोइवि जिणवयणु, जहिं गुण तहिं रच्चंति ॥१३॥

हाहा दूसम काल बलु, खल-वक्कत्तण जोइ ।

नामेणइ सुविहिय तणइ, मित्तु वि वयरिओ होइ ॥ १४ ॥

तिहि चेडाहि विहउं नमओ, सुमुणिय परम उआह ।

हियउइ जिण विहिक्कु पर, अनुसुद्धउ गुण जाह ॥१५॥

जे जिणवरु पहु होलियइ, जणु रंजियइ ह्यासुं ।

सो वि सुगुरु पणमंतह, कुट्टिल हियइ ह्यासु ॥ १६ ॥

मरिय भवे जिओ वीर जिणु, इकि उसुत्त लवेणु ।

कोडाकोडि सागर भमिओ, किं न सुणहु मोहेण ॥१७॥

तव संजम सुत्तेण सउ, सव्ववि सहलउ होइ ।

सो वि उसुत्तलवेण सउ, भव-दुह-लक्खहं देइ ॥ १८ ॥

माया मोह चएउ जण, दुलहउं जिण विहि-धम्मं ।

जो जिणवल्लह सूरि कहिओ, सिग्घं देइ शिव-संमुं ॥१९॥

संसओ कोइ म करहु मणि, संसइ हुइ मिच्छत्तु ।

जिणवल्लहसूरि जुग पवरु, नमहु सु त्रिजग-पवित्तु ॥२०॥

जई जिणवल्लहसूरि गुरु, नय दिठओ नयणेहिं ।

जुगपहाणउ विजाणियए, निछई गुण-चरिएहिं ॥२१ ॥

ते धन्ना सुकयत्थ नरा, ते संसार तरंति ।

जे जिणवल्लहसूरि तणिय, आणा सिरे वहंति ॥ २२ ॥

तेहिं न रोगो दोहग्गु तहु, तह मंगल कल्लाणु ।

जे जिणवल्लहसूरि थुणिहि, तिन्नि संझ सुविहाणु ॥२३॥

सुविहिय मुणि चूडा-रयणु , जिणवल्लह तुह गुणराओ ।

इक्क जीह किम संथुणेउं, भोलओ भक्ति सुहाओ ॥ २४ ॥

संपइ ते मन्नामि गुरु, उगइ उगइ सूर ।

जे जिणवल्लह पउ कहहि, गमइ अमग्गउ दूरि ॥ २५ ॥

इक्क जिणवल्लह जाणियइ, सट्ठुवि मुणियइ धम्मं ।

अनसुहु गुरु सवि मानयइ, तित्थ जिम धरइ सुहंसु ॥२६॥

इय जिणवल्लह थुइ भणिय, मुणियइ करइ कल्लाणु ।

देओ बोहि चउवीस जिण, सासय-सोक्खु-निहाणु ॥ २७ ॥

जिणवल्लह क्रमि जाणियइ, हिवमइ तसु सुशीसु ।

जिणदत्तसूरि गुरु जुगपवरो, उद्धरियउ गुरुवंसो ॥२८॥

तिणि नियपइ पुण ठावियओ, बालओ सींह किसोरु ।

पर-मयगल-बल-दलणु, जिणचंदसूरि मुणीसरु ॥ २९ ॥

तस सुपट्टि हिव गुरु जयओ, जिणपति सूरि मुणिराओ ।

जिणमय विहिउज्जोय करु, दिणयर जिम विक्खाओ ॥३०॥

पारतंतुविहि विसयसुहु, वीरजिणेसर वयणु ।

जिणवइ सूरि गुरु हिव कहओ, मिच्छइ अन्नन्न कवणु ॥३१॥
धन्न तइं पुरवर पट्टणइं, धन्न ति देश विचित्त ।

जहिं विहरइ जिणवइसुगुरु, देसण करइ पवित्त ॥३२॥
कवण सु होसइ देसडओ, कवण सु तिहि स मुहुत्त ।

जहिं वंदिनु जिणवइ सुगुरु, निसुण सुधम्मह तत्त ॥३३॥
सल्लुद्धार करेसु हउ, पालि सुदड्ढ सम्मत्तो ।

नेमिचंद इम विनवइए, सुहगुरु-गुण-गण-रत्त(त्तो) ॥३४॥
नंदउ विहि जिण मंदिरहिं, नन्दउ विहि समुदाओ ।

नंदउ जिणपत्तिसूरि गुरु, विहि जिण धम्म पसाओ ॥३५॥

इति नेमिचंद भंडारि कृत गुरु गुणवर्णन ॥



कवि ज्ञानहर्ष कृत
श्रीजिनदत्तसूरि अवदात छप्पय



.....वत ज्ञान रिक्ख थिर ॥२१॥

जनम भयउ व्रातकउ, नामदियउ चाचक ताकउ ।

दुआदस वरस जब भए, कर्यउ राज 'कनवज' अवाकउ ॥

चढे 'सीह' 'द्वारिका', जाति करणण कुं निश्चल ।

लयउ कुंयर 'आसथान', राणी जादुं'कउ अट्टल ॥

राव 'वरनाथ' साहसीक मणि, जाति चले 'सीह' 'द्वारिका' ।

'ज्ञानहर्ष' लहे पंचसै सुहड़, परभु पर दल मारका ॥२२॥

अस्सुवार सइ पंच लेहु, 'सीहउ' यू चल्ले ।

पट्ट थप्पि लहु अनुज, सुहड़ संग रक्खे भल्ले ॥

सबहु सुं करि भिक्ख,....स 'द्वारामति' डेरे ।

दिद्ध 'सीह' महाराज, सुप्भ(ब्ब?) महुरत सबेरे ॥

'आसथान' कुंवर आसाढ सिधि, लेहु संग दरकूच चलि ।

'ज्ञानहर्ष' कहइ तिस वार विच, भयउ इक्क अचरिज्ज इलि ॥२३॥

'सीह' आए 'मरुदेस', सुपन इक्क देख्यउ रानी ।

वृक्ष पाहर सब देस, हम्म अन्तरि बीटानी ॥

वयण सुणि 'सीह' यू, चोट वाही हुइ समुहां ।

दिवस ऊगत 'सीह' कहत, हुइगउ केर अपणउ जहां तहां ॥

मम करहु राणी क्रोध हम, नींद गमावण हेत हूय ।

ज्ञान ह् अवदति तिस हेत करि, भए राव वर सब्ब भूय ॥२४॥

अत्र आख्यान कवित्त ।

‘मारुयारि’ कइ देसि, सहिर ‘पल्लीपुर’ अक्खुं ।

तहां हइ पुर नाह, वं(वं?)भ ‘जस्सोहर’ दक्खुं ॥

‘खेरनगर’ ‘महेश’, ‘गुहिल-वंशी’ हइ राजा ।

मारण ‘पल्लीनगर’, चह्यउ सो करत दिवाजा ॥

तिनवार ‘वंभ जस्सोहरू’, वदइ क्युंहि ‘पल्ली’ रहइ ।

कोऊ रखुं आणि आषाढ सिधि, ‘ज्ञानहर्ष’ कवि यूं कहइ ॥२५॥

‘पल्लीनगर’ चउमास, रहे खरतर गच्छ नायक ।

तिन गुरु कउ जस बहुत सुण्यउ, विप(प्र ?) लोकां वाइक ॥

ताकउ नाम ‘जिनदत्त सूरि’, मंत्र धारी सूर वर ।

पंच नदी पंच पीर, साधि लिद्धउ सुर कउ वर ॥

‘माणभद्’ जक्ख हाजर रहइ, तरउ खरउ सेवा करइ ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहइ गुरु कित्त बहु, पार न सुर गुरु नहु करइ ॥२६॥

गुरु पहुंचे ‘मुलतान’, पीर पंच आए.नाम सुणि ।

पत्थर पारे पीर, गुरु वरसे कंचण मणि ॥

पीर ग्रहे गुरु पाइ, संघ पइसारउ कीनउ ।

मूयउ मुगल कउ पूत, जीउ गुरु घाले दीनउ ॥

सहु लोग देखि अचरिज भए, इन गुरुका अवदात बहु ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहत ‘जिणदत्त’ की, करत देव कीरत सहु ॥२७॥

गुरु करत बखाण, धरे आगे चउसठि गिणी ।

छोटेसे पाटले, आइ बइठी तिहां जोगिणि ॥

चउसठि तिय कइ रूप, आई गुरु छलवइ कुं ।

गुरु यू तिण कूं छली, लेहु उठा पटलइ कुं ॥

पट्टले रहे आसण चढ़े, करामत गुरुकी बड़ी ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहत कर जोड़ि कर, रही देव चउसठ खड़ी ॥२८॥

करहु दूर पाटले, गुरु हारे हम तुम्ह पइ ।

चाहोजइ कछु बात, लेहु गुरु यू तुम हम पइ ॥

कहइ गुरु हम साधु, लोभ ममता नहीं करनां ।

परतिख भइ तब देव, रूप बहु चउसठि भइनां ॥

वर सात दइत हरखित भइ, सहु लोगां सुणतां समुख ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहत अवदात यउ, परसिध हइ सब लोक मुख ॥२९॥

हइ हइ देव वर सत्ता, नाम गुरु लेतां बिजुरी ।

परइ नहीं किस परइ, प्रथम अ्यउ वर दइ सगरी ॥

गाम नगर मणिमत्थ, एकु हुइगउ तुम्ह आवग ।

तुम आवग ‘सिन्धु’ गयउ, ख.ट ल्यावइ व्यापारग ॥

वर चउथउ भूत प्रेत ज्वर, आधि व्याधि सबही टरइ ।

‘जिनदत्तसूरि’ मुखि जप्पतां, ‘ज्ञानहर्ष’ कवि उच्चरइ ॥३०॥

चोर धाड़ि संकट मिटति, गुरु नामे पञ्चम वर ।

छट्टउ जलहुं तरइ, जउ लूं मुख समरइ सदगुर ॥

सातमउ वर साधवी, ऋतु नावइ खरतर की ।

अ्यउ वर दे पग परी, बात सहु कही कइ उरकी ॥

समरतां आइ खड़ी रहइ, वीर बावन्ने परवरी ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहत निस निति प्रतइ, करइ नृत्य चउसठ सुरी ॥३१॥

‘उज्जेनी’ गुरु गए, देखि थांभउ गुरु हरखे ।।

जप्यउ मन्त्र करि ध्यान, लिद्ध पोथी आकरखे ।।

तिस बिच सोवन भिद्ध, गुरु बहु विद्या पाइ ।

‘चित्रोर’ कह भण्डार, तहां गुरु जाइ रखाइ ।।

उस पोथी की बात, ‘कुंयरपाल’ राजा सुणी ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहइ ‘पाटणनगर’ नवलख असवारां धणी ॥३२॥

‘कुंयरपाल’ जिनधर्म, हइ आवक पूनम गच्छ ।

आवक सर्व बुलाइ, संघ नायक खरतर गच्छ ।।

गुरु यू कुं तुम लिखउ, हेम सिध पोथी आवइ ।

कागद संघ दरहाल, भेज पोथी मंगावइ ।।

गुरु लिख्यउ वचन पोथी परइ, छोर न पोथी बांचनी ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहइ भण्डार बिच, रख कह पोथी पूजनी ॥३३॥

गुरु ‘कुंयरपाल’ कउ, ‘हेम’ नामइ आचारिज ।

तिण पइ पोथी धरी, छोरि बांचउ गुरु आरिज ।।

कहत गुरु हम वतइ, अ्या छोरी नवि जावइ ।

साधवी गुरु की भइन, छोरितां आँख गमावइ ।।

पुस्तकिक उडि भण्डार बिच, ‘जेसलमेरन’ कह परी ।

‘ज्ञानहर्ष’ कहत तिस जाइगा, रक्खइ बहु चउसठ सुरी ॥३४॥

परकमणइ बिच बीज, परत रक्खी गुरु ततखिण ।


‘बिंपुर’ परी मृगी, गमी गुरु स्तोत्र तंज्यउ भण ।।

पतरइसइ गृह नहां, महेसरी डागा लूण्या ।

परबोधे आवक, ।।

१७वीं शताब्दी लि० (इस प्रतिका सातवां मध्य पत्र हमारे संग्रहमें)

ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह




श्री जितेश्वर मृगिजी

(श्री जितपति मृगि शिष्य)

Copyright Sarabhai M. Nawab.

कवि सोममूर्ति गणि कृत
श्रीजिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाह
वर्णन रास ।



चित्तामणि मण१ चित्तियत्थे, २ सुहियइ३ धरेविणु पास जिणु ।
जुगपवरु 'जिणेसरसूरि' सुणिराउ, थुणिसु हउं४ भत्ति आपणउं५ गुरु १।
निय हियइ६ ठवहु वर उमोतिय हारु, सुगुरु- 'जिणेसरसूरि' चरियं ।
भविय जण जेण सा मुत्ति वर कामिणी, तुम्ह वरणंमि उक्कंठियए ॥२
नयरु 'मरुकोटु' मरुदेसु सिरिवर मउडु, सोहए६ रयण कंचण पहाणु ।
जत्थ वज्जंति नय भेरि भंकारओ, १० पडिउ अन्नस्स११ हियए
धसक्को१२ ॥३॥

कंत दसण कला वे लि आवासु१३, महुर वाणी (य) अभियं झरंतो ।

रेहए तत्थ भण्डारिओ पुन्निमा, १४ चंद जिम 'नेमिचंदो' ॥४॥

सयल जण नयण आणंद अभिय-छडा, रूव लावणण सोहगचंग१५ ।

पणइणी 'लखमिणी' तासु वक्खाणि, १६

पवर गुण गण रयण एग१७ खाणि ॥५॥

१० मणि, २० वि वियत्थे, ३० छुहियय, ४० इड, ५० आपणउं, ६०
हियय, ७० मोतिया, ८० मोतिये ८०इ, ९० सोहइ, १०० अंकारउ, ११० अ नय-
स्स, १२० धसक्को, १३० आ तासु, १४० राउ पुनिम, १५० चंद, १६० वर-
काणि, १७० एक थाणि ।

वार पञ्चताल१८ विक्रम१६ संवच्छरे, मगसिर सुद्ध एगारसीए२० ।

‘लखमा’ए विहि पुत्तु उपन्नु, नेमिचंद कुल मंडणउ [ए+] ॥दि॥

‘अंबा’ए विहि सुमिणउ२१ दिन्नु,२२

एउ२३ अम्हाणउ२४ मणि२५ धरिवि२६ + ।

‘अंबडु’२७ नामु२८ तसु कियउं२९ पियरेहि,

रंग भरि गरूय-वद्धावणाए३० ॥७॥

घातः—अत्थि पुहविहि अत्थि पुहविहि नयरु ‘मरुकोटु’,३१

भंडारिउ तहि३२ वसए, ‘नेमिचंदु’ गुण रयण सायरु ।

तस भञ्जा ‘लखमिणि’, पवर सील+[वंत] लावन्न मणहर ॥

तह३३ उप्पन्नउ पुत्तु वरो,३४ रूविणि३५ देवकुमारु ।

‘अंबडु’ नाउं३६ पयट्टियउ,३७ हूयउ जय जय कारु ॥८॥

अन्नि३८ दिसहो अंबडु कुयरु, पभणइ३९ मायह४० अगगइ धीरु ।

इहु संसारु दुहह४१ भंडारु,

ता हउं४२ मेलिहसु४३ अत्तिहि४४ असारु४५ ॥ ९ ॥

परणिसु संजम४६ सिरि वरनारी,

माइ माइए४७ मज्झु४८ मणह पियारी ।

१८b पंचेताल, १९b विक्रम a विक्रम, २०b इकारसीए, २१b छमिणए, २२b दोनु, २३b c एहु, २४b cअम्हारउ, २९a मणु bमनि, २६b cघरेवि, २७b cअंबडो, २८b नाउं, २९b कियड, ३०b cवद्धावणाए ।

३१c गरुकोटु, ३२a तह, + ab प्रति, ३३c तह उपन्न, ३४a पुत्तुवरु, ३५a bरूविण, ३६a नामु, ३७a पयट्टिय, ३८b अन्निहि दिवसिहि अंबडु कुमर, c अन्निदिवसिहुउ अंबडु कुमरो, ३९a पभणय, ४०b माया आगइ धीरु (c रोह), ४१a b दुह, ४२a c ता हउ, ४३a मिलिहसु, ४४a अत, ४५c असारो, ४६c संयमसिरि, ४७c माए b माइ, ४८b सुझ,

जासु पसाइण वं छिउ४९ सिज्झए,५०

वलि व न संमारंमि पडिज्जए५१ ॥ १० ॥

इहु निसुणेविणु 'अंबड' वयणु, पभणड माया संभलि लाडण ।

तुहु नवि५२ जाणइ बालउ भोलउ,

इहु५३ व्रतु होइसइ५४ खरउ५५ दुहेलउ ॥ ११ ॥

मेरु धरेविणु५६ निय भुयदंडिहि,५७

जलहि तरेवउ५८ अप्पुणि बाहहि५९ ।

हिंडेवउ असि धारह६० उय(व?)रि, लोह चिगा चावेवा इणिपरि ॥१२॥

ता तुहु६१ रहि घर कहियइ लागि, जं तुह भावइ६२ वच्छ६३ तु मागि ।

किंपि न भावइ६४ विणु संजमसिरि,

माइ६५ भणइ जं रूडउ६६ तं करि ॥ १३ ॥

घातः—भणइ 'अंबडु' भणइ 'अंबडु' एहु संसारु ।

गुरु दुक्ख भरिपूरियउ,६७ माइ माइ ता वेगि मिलिहसु६८ ।

परणेविणु६९ दिक्खसिरि,७० विषिह भंगि हउं सुक्ख माणिसु ।

माइ७१ भणइ दुक्करु चरणु, तुहु पुणि अइ सुकुमालु ।

कुमर भणइ दुक्करह७२ विणु, नहु छलियइ७३ कलि कालु७४ ॥ १४ ॥

४९a वंछिय b वंछिओ, ५०a सिज्झए b सीझए, ५१a पडिज्जय b पडिजए,

५२a तुइ b तुहुं, ५३a एहु, ५४b होसइ, c होसए ५५a खरओ दुहेलओ,

५६b c धरेवउ, ५७a भूयदंडिहि, ५८b तरेवओ, ५९a अप्पण बाहइ c आपुण

बाहुहि, ६०a धारा उयरि c धारहं उवरे ।

६१a तुइ c तुहुं, ६२a भावि, ६३c वंछित. ६४c भावए, ६५c माय,

६६b.c रूयडउं, ६७b भरिपूरिवउ, ६८a मलिहसु c मिलिहसु, ६९b पणिगेवा,

७०a दिक्खसिरे, ७१c माय, ७२a दुक्कर, ७३a छलिइ, ७४a किलिकालु,

‘अंबडु’ पभणइ माइ७५ सुणि, परिणिसु संजम लच्छि ।

इक्कुजुए पुहविहि७६ सलह्यइ, जायउ ‘लखमिणि’ कुच्छि७७ ॥१५॥
अभिनव ए चालिय जानउत्र, ‘अंबडु’ तणइ वीवाहि ।

अप्पुणु७८ ए धम्मह चक्कवइ,७९ हूयउ८० जानह माहि ॥१६॥
आवहि आवहि रंगभरि, पंच-महव्वय राय ।

गायहि गायहि महुर सरि८१, अट्टय८२ पवयणमाय ॥१७॥
अटार८३ सहसह८४ रहवरह,८५ जोत्रिय८६ तहि सीलंग ।

चाल्हि चाल्हि खंति सुह,८७ वेगिहिं८८ चंग तुरंग ॥ १८ ॥
कारइ कारइ ‘नेमिचंडु’,८९ ‘भंडारिउ’ उच्छाहु ।

वाधइ वाधइ जान९० देखि, ‘लखमिणि’ हरपु९१ अवाहु ॥ १९ ॥
कुसलिहि९२ खेमिहि९३ जानउत्र, पट्टतिय९४ ‘खेड’ मज्झारि ।

उच्छवु हूयउ९५ अइ ९६पवरो, नाचइ फरफर नारि ॥ २० ॥
‘जिणवइ’ सूरिण मुणि९७ पवरो, देसण अमिय रसेण ।

कारिय जीमणवार९८ तहि, जानह हरिस भरेण९९ ॥ २१ ॥
‘भंति जिणोसर’ वर सुयणि,१०० मांडिउ१०१ नंदि सुवेहि ।

वरिसहि भविय१०२ दाण जलि, जिम गयणंगणि मेह ॥ २२ ॥

७९० माय, ७६a जुपउविहि, ७७b कुक्खि, ७८b अप्पुणि. ० आसुणु,
७९a चक्कवय, ८०a हूयय, ८१a रंगभरि. ८२a अट्ट, ८३a अट्टार. ८४a
सहस, ८९a रहवर, ८६a जोत्रिया, ८७b.c मुह, ८८a वेगहिं ।

९९b नेमिचंद्र, ९०a जाबह, ९१a हर्ष, ९२a कुसलिहि. ९३a खेमहि,
९४a पट्टतो. ९५a हूयउ, ९६a पवर, ९७a पवर, b. पवरि, ९८b जीवण-
वार, ९९b भणो, १००a सुवणि-१०१b.c मंडिय, २b भाविय c. भविया,

तहि अग्यारिय३ नीपजइ,४ झाणानलि पजलंति ।

तउ संवेगहि५ निम्मियउ, हथलेवउ६ सुमहुत्ति७ ॥ २३ ॥

इणि परि 'अं६डु' वर कुयर८. परिणइ९ संजम नारि ।

वाजइ१० नंदीय११ तूर घण१२, गूडिय१३ घर घर बारि ॥२४॥

घातः—कुमरु चलिउ कुमरु चलिउ गरुय विळाडु ।

परिणेवा दिक्खसिरि,१४ 'खेडनयरि' खेमेण पत्तउ१५ ।

सिरि 'जिणवइ' जुगपवरु१६ दिट्टु(हु), तत्थ निय-मणहि१७ तुट्टउ१८ ।

परिणइ संजमसिगि १९ कुमरु,२० वज्जहि नंदिय२१ तूर ।

'नेमिचंदु'२२ अनु 'लखमिणि'-हि, सव्वि२३ मणोहर पूर ॥२५॥

'वीरप्पहु'२४ तसु ठवियउ२५ नामु,२६

जिण वयणु२७ अमिय रसु झरंतो२८ ।

अह सयल नाण समुदु२९ अवगाहए,

'वीरप्रमु'३० गणि [निय+] गुरु पसाए ॥२६॥

क्रमि क्रमि 'जिणवइ सूरहि'३१ पाटु,

उद्धरिओ३२ ['जिणेसरसूरि' नाम ।

त्रिहरए भविय लोयंच पडिबोहए,

अवयरिउ] किरि 'गोयम' गणिदो ॥२७॥

३b.c अगियारोय, ४c नीपजए, ५b.c संवेगिदि, ६c इव लेवउ, ७b.c सुमु-
हुत्ति, ८b कुमरु, c. कुमरो, ९a.c परिणइ, १०a.b वाजहि, ११a नंदी,
१२b.c घणा, १३a गूडो । १४a दिक्खसिरे, १५a पत्तओ, १६bc जुगपवरो,
१७bc मणिहि, १८a तुट्टओ, १९c संजमसिगी, २०c कुमर, २१a नन्दीतूर,
b नन्दिद्यत्तर, २२bc नेमिचंद, २३a b पब्ब, २४a c वीरपहु, २५a ठवियओ,
२६ b नाउ' २७b श्रवण, २८a b झुरंतो, c किरि झरतो, २९c संमुदु,
३०a b वीरप्रम x b प्रति, ३१a वय, ३२a उद्धरिगो, [२x] b c प्रति,

‘अञ्जसुहृत्थि’३३ जिम जिण भवण३४ मंडियं,

महियलं निम्मियं अरिरि जेहिं ।

सिरि ‘वयरसामि’ जिम तित्थ३५ उन्नइ कया३६,

कटरि अच्चरिय सुचरिय पहुँणं ॥२८॥

घातः—जेण जिणवर जेण जिणवर भुवण उत्तुंग ।

किरि भवियण ववहारियह, पुन्न हट्ट संठविय३७ पुरि पुरि ।

जणु दुग्गइ३८ उद्धरिउ, धम्मरयण दाणेण बहुपरि ॥

नाण चरण दंसण जुवइ, केलि विलासु३९ पहाणु४० ।

साहु-राउ४१ सो वन्नियइ४२, ‘जिणेसरसूरि’४३ जगि४४ भाणु ॥२९॥

सिरि ‘जावालपुरमि’ ठिएहिं, जहि४५ निय अंत समयं मुणेवि४६ ।

नियय४७ पट्टंमि सइं हत्थि संठाविओ,

वाणारिउ४८ ‘पव्वोहमुत्ति’४९ गणि ॥३०॥

सिरि ‘जिणपव्वोह सूरि’५० दिन्नु तसु नामु,

तउ भणिउ५१ सयल संघस्स अग्गे ॥

अम्ह जिम एहु नमेवउ५२ संघि,

जुगपवरु ‘जिणपव्वोहसूरि’ ५३ गुरु ॥३१॥

३३a महुत्थि, ३४c भुवण, ३५a उन्नय, ३६b कय, ३७a संठियउ, ३८a दुग्गय उद्धरिय, ३८b दुग्गइउ दूरिउ । ३९b c विलास, ४०b पहाण, ४१a राय, ४२a वन्नियह, ४३c छरि, ४४a जग, ४५ b-c जेहि, ४६c मुयं मुणेवि, ४७b नियइ, ४८ b वाणारी, ४९b प्रवोहमूर्ति, c प्रवोहमूर्ति, ५०a जिण पव्वुइ, b जिणप्रवइ, c जिण प्रवोघ, ५१a भणिउं, ५२b मानेवव c मानेवओ, ५३b जिण प्रवोघइ सूरि, c जिणप्रवोघसूरि,

॥ कवि ज्ञानकलश कृत ॥

श्री जिनोदय सूरि पट्टाभिषेक रास

संति करणु सिरि संतिनाह, पय कमल नमेवी ।

कासमीरह मंडणिय^१ देवि, सरसति सुमरेवीर ॥

जुगवर सिरि 'जिणउदयसूरि', गुरु^३ गुण गाएसू ।

पाट महोच्छव^४ रासु रंगि, तसु हउं पभणेसू ॥ १ ॥

चन्द्र गच्छि सिरि वयर ५साखि, गुणमणि भंडारू ।

'अभयदेव'^६ गुरु गहगहए, गरुयउ^७ गणधारू ॥

सरसइ^८ कंठाभरणु [त(न?)यण], जण नयणाणंदू ।

'जिणवल्लह' सूरि चरण कमल, जसु नमइ सुरिंदू ॥ २ ॥

तासु पाट्टि^९ 'जिणदत्तसूरि', विहि मग्गह मंडणु ।

तउ 'जिणचंद' मुणिंद रूवि, मयणह मय खंडणु ॥

वाइय^{१०} मयगल^{११} कुंभ दलणु, कंठीर समाणु ।

सिरि 'जिणपत्ति' मुणिंदु^{१२} पयडु, महियलि जिम भाणु ॥ ३ ॥

तसु पय कमल मराल सरिसु^{१३}, भवियण जण सुरतरु ।

सूरि 'जिणेसरु' कटरि पुन्न, लच्छी केलीहरु ।

निम्मल सयल कला कलाव, पउमिणि वण दिणमणि ।

सुहगुरु सिरि 'जिणपवोह सूरि', पंडियह सिरोमणि ॥ ४ ॥

१b कसमीरह मंडणीय, २a समरेवी, ३a गुरु, ४a महोच्छव, ५b साख, ६a अभयदेव, x^a प्रति, ७a गरुयउ, ८a सरसति, ९b पाट्टि, १०b वाइय, ११a मंगल, १२b मुणिंद, १३b सुरिंदु ।

चंद धवल निय कित्ति धार१४, धवलियह१५ बंभंडू ।

तयण सुगुरु 'जिणचंदसूरि', भवजलहि तरंडू ॥

सिंधु देसि सुविहिय विहारु जिण धम्म पयासणु ।

सुगुरु राउ 'जिणकुसलसूरि', जगि अखलिय सासणु ॥ ५ ॥

तासु सीसु 'जिणपदमसूरि', सुरगुरु१६ अवतारु ।

न लहइ सरसति देवि, जासु विद्या गुण पारु ॥

तयणंतरु विहि—संध, नीरु-निहि१७ पूनिमचंदू ।

जिण सासणि सिंगारु हारु, 'जिणलवधि' मुणिदू ॥ ६ ॥

तासु पाटि जिणचंदसूरि तव तेय फुरंतउ ।

जलहर जिम घणु नाण नीरु, पुरि पुरि वरिसंतउ१८ ॥

'खंभनयरि' संपत्तु तत्थ, गुरु वयणु सरैई ।

गच्छ सिक्ख नियपट्ट सिक्ख१९, आयरियह देई ॥

॥ घात ॥

गच्छ मंडणु गच्छ मंडणु, साख सिंगारु२० ।

जंगमु किरि कप्पतरु, भविय लोय संपत्ति कारणु२१ ।

तव संजम नाण निहि, सुगुरु रयणु संसार तारणु ।

सुहगुरु सिरि 'जिणलवधिसूरि', पट्ट कमल मायंडु२२ ।

झायहु २३सिरि, जिणचन्दसूरि', जो तव तेय पर्यंडु ॥८॥

१४b वार, १५b धवलिय, १६b छरगुरु, १७b निसमिहि, १८a वरसंतउ,

१९a सिक्ख, २०b सिणगारु, २१a कार । २२b मायंडू, २३a झायहु,

महि मंडलि 'ढीलिय नयरे', २४ कंचण रयणु विसालु २५ ।

तउ 'रूदपाल' २६ 'नीबड' 'सधरो', निवसइ तहि 'श्रीमालु' २७ ॥

तसु नंदणु बहु गुण कलिउ, संघवइ 'रतनउ' साहु ।

त×सयल महोच्छव धुरि धवलो, 'पूनिग' मनि छहाहु ॥१०॥
सुहगुरु २७ वंदण 'खंभपुरे', दीण दुहिय साधारु ।

'रतनसीह' 'पूनिग' सहिउ, आवइ सपरिवार (रु) ॥११॥

वंदवि सुहगुरु विन्नविउ, 'तरुणप्पह' सुरि राउ ।

त×गुरु पय—ठवणह २८ कारणिहि, २९ निणि लाधउ सुपसाउ ॥१२॥

त×पाट ठवणि सुहगुरु ३० तणए, आवइ विहि समुदाउ ।

त नयर लोउ ३१ जोयण मिलए, खरतर विहि जसवाउ ॥१३॥

'आसाढ पनरोतरए, तेरसि पहिलइ पक्खि' ।

तउ ३२ नंदि ठविय 'अजियह भुवणि', सलहीजइ नर लक्खि ॥१४॥

'तरुणप्पह' सुहगुरु रयणु, वाणारिउ सुविचारु ।

त ठविउ ३३ पाटि गणि 'सोमप्पहो', ३४ सयल गच्छ सिंगारु ॥१५॥

त दिन्नु नामु 'जिणउदयसुरि', सवणह अमिय पवाहु ३५ ।

त+जय जयकार समुच्छलिउ, हूउ ३६ संघु सणाहु ॥१६॥

॥ घात ॥

सयल मन्दिर सयल मन्दिर लच्छि गेहंमि ।

'खम्भाइत' ३७ वर नयरि, ३८ अजियनाह मन्दिरौ मणोहरि ।

तहि मिलिउ संघु घणु ३९ पंच, सब्द ४० वज्जंति बहुपरि ॥

२४b ढिलियनयरो, २५b विसालु, २६b त रूदपालु, २७a प्रति,
२७b छहगुर, २८b पयठवणा, २९a कारणहि, ३०b छहगुर, ३१a नयरलोय
३२a त । ३३b ठविय, ३४b सोमपहो, ३५b प्रवाहु a ×प्रति, ३६a हूथउ,
३७a खंभाइत, ३८a नयरो, ३९b यणु, ४०b सब्द,

‘रतनउ’ ‘पूनउ’ संघवइ, सुहगुरु४१ तणइ पसाइ ।

पाट महोच्छवु कारवइ४२, हिइइइ हरषुं न माइ ॥१७॥

इणि४३ परि ए गुरु आएसि, सुहगुरु पाटिहि४४ संठविउ ।

तिहुयणि ए मंगलचारु, जय जयकारु समुच्छळिउ ॥१८॥

वाजए४५ नंदिय तूर, मागण जण कलिरवु करए ।

सीकरि ए तणइ झमालि,४६ नंदि मंडपु जण मणुहरए ॥१९॥

नाचईए नयण विसाल, चंद व्रयणि मन रंग भरे ।

नव रंगिए रासु रमंति, खेला खेलिय४७ सुपरिपरं ॥२०॥

घरि घरिए वन्दरवाल,४८ गीतह झुणि रलियावणिय ।

तहि पुरिए हुयउ४९ जसवाउ, खरतर रीति सुहावणिय ॥२१॥

सलहिसु५० ए विहि समुदाय ‘खम्मनयरि’ बहु गुण कलिउ ।

दीसई ए दाणु दीयंतु, जंगसु सुरतरु करि५१ फलिउ ॥२२॥

संघवई ए ‘रतनउ’५२ साहु, ‘वस्तपाल’५३ ‘पूनिग’ सहिउ ।

घणु जिमए वंछिय धार, धनु वरिसन्तउ५४ गहगहिउ५५ ॥२३॥

अहिणवु ए कियउ विवेकु, रंगिहि५६ जीमणवार हुय ।

गरुईए५७ मनहि आणंदि, चउविह संघह५८ पूय किय ॥२४॥

‘रतनिगु’ ए ‘पूनिगु’ वेवि, दाणु दियंतउ नवि खिसए ।

माणिक ए मोतिय दानि, कणय कापडु५९ लेखइ किसए ॥२५॥

४१b सुहगुर, ४२b कारवइं, ४३b इण, ४४a पाटहि, ४५a वजए,

४६b जमालि, ४७b खेलखिलिय, ४८b वंदुरवाली, ४९a हुउ । ५०b सलाहिसुं,

५१b किरि, ५२a रतन, ५३b वस्तपाल, ५४a वरसंतउ,

५५a गहगहए, ५६a रंगहि, ५७b गरुयइ, ५८b संघहं ५९a कापड,

‘रतनिगु’ ए ‘पूनिगु’ ६० बेवि, बंधव प्रीतिहि ६१ संमिलिय ६२ ।

झालिहि ६३ ए संघह भारु, निय निय ६४ पूरहि मनि रलिय ॥२६॥

॥ घात ॥

तहि ६५ जि उच्छवि तहि जि उच्छवि, रणइ घणतूर ।

वर मंगल धवल ६६ झुणि, कमल नयणि नच्चंति ६७ रस भरि ॥

तहि ‘साल्हिगु’ धुरि धवल ६८, दियइ दाणु ‘गुणराजु’ बहुपरि ।

मागण जण कलिरवु करइ, चमकिय चित्ति सुरिंदु ।

पाट ठवणि सुहगुरु ६९ तणए, ७० संघि सयलि आणंदु ॥२७॥

संघु सयलि आणंदु, दंसण नाण चारित्त धरो ।

सिरि ‘जिणउदय’ मुणिंदु, जउ दीठउ नयणिहि ७१ सुगुरो ॥२८॥

घरि घरि मंगल चारु, भविय कमल पडिबोह करो ।

संजमसिरि उरि हारु, उदयउ ७२ सुहगुरु सहसकरो ॥२९॥

‘माल्हय’ ७३ साख सिंगारु, ‘रुदपाल’ कुल मंडणउ ।

‘धारलदेवि’ मल्हारु, सुहगुरु भव दुह खंडणउ ॥३०॥

जिम जिण बिम्ब विहारि, नंदणवणि ७४ जिम कषपतरो ।

सुरगिरि गिरिहि मझारि, जिम चित्तामणि मणि पवरो ॥३१॥

जिम धणि वसु भंडारु, फलह मांहि जिम धम्म फलो ।

राज माहि गज सारु, कुसुम माहि जिम वर-कमलो ॥३२॥

६०a पूनिग, ६१a प्रीतिहि, ६२a संमिलिय, ६३b झालिहि, ६४a नितु
नितु, ६५a तह, ६६a धवल, ६७b नचंति, ६८a धवल, ६९b सुहगुर,
७०b तणइ, ७१a नयणहि । ७२b उदय, ७३b माल्हय, ७४b विणि,

जिम माणससरि हंस, भाद्रव घणु दाणेसरह७५ ।

जिम गह मंडलि हंसु, चंद७६ जेम तारा—गणह७७ ॥३३॥

जिम अमराउरि इन्दु, भूमंडलि जिम चक्कधरो ।

संधह माहि मुर्णिटु, तिम सोहइ 'जिणउदय' गुरो ॥३४॥

नवरस देसण वाणि, घणु७८ जिम गाजइ गुहिर सरे ।

नाणु७९ नीर वरिसंतु८०, महिमंडलि विहरइ सुपरे ॥३५॥

नंदउ विहि८१ समुद्राउ, नंदउ सिरि 'जिणउदयसूरे' ।

नंदउ 'रतनउ' साहु, सपरिवार 'पूनिग' सहिउ८२ ॥३६॥

सुहगुरु गुण गायंतु, सयल लोय वंछिय ल्हए ।

रमउ रासु इहु रंगि, "ज्ञान-कलस" मुनि इम कइए ॥३७॥

॥ इति श्री जिनोदय सूरि पट्टाभिषेक रास समाप्त ॥



७५b दाणेसरह, ७६b चांडु, ७७b तारागणहु, ७८a घण, ७९a नाण,
८०b वरसंतु, ८१b विह, ८२b सहियउ ।

॥ उपाध्याय मेरुनन्दन गणि कृत ॥

॥ श्री जिनोदयसूरि विवाहलउ ॥

सयल मण वंछियं१ काम कुम्भोवमं,

पास पय-कमलु पणमेवि भत्तिर ।

सुगुरु 'जिणउदयसूरि' करिसु वीवाहलउ,

सहिय उमाहलउ मुज्झ चित्ति ॥१॥

इक्कु३ जगि जुगपवरु अवरु नियदिक्खगुरु,

थुणिसुं हउं तेणनिय ४ मइ बलेण, ।

सुरभि किरि कंचणं दुद्धु५सक्कर घणं,

संखु किरि भरीउ गंगाजलेण ॥२॥

अत्थि 'गूजरधरा' सुंदरी सुंदरे६,

उरवरे रयण हारोवमाणं ।

लच्छि केलिहरं नयरु 'पल्हणपुरं' ७

सुरपुरं जेम सिद्धाभिहाणं ॥३॥

तत्थ मणहारि ववहारि चूडामणि

निवसए साहु वरु 'रुदपालो' ८ ।

'धारला'९ गेहिणी तासु गुण रेहिणी,

रमणि गुणि१० दिप्पए जासु भालो ॥४॥

१a.c.d वंछिये, २b भत्ते, ३b एक्कु, ४b मय, ५d सुट्ट, ६b सुंदरा,
७b पल्हणपरं, c पल्हणपुरं, ८d रुदपालो, ९d धारलादेवी, १०a गणि,

तासु कुच्छी सरे पुन्न जल सुब्भरे, ११

अवयरिउ कुमरवर १२ रायहंसो ।

‘तेर पंचहुत्तरे’ सुमिण संसूईउ,

आयउ १३ पुत्तु निय कुल वयंसो ॥५॥

करिय १४ गुरु उच्छवं सुणिय जय जयरवं,

दिन्नु तसु नामु सोहगग सारं ।

‘समरिगो’ भमर जिम रमइ निय सयण-मणि, १५

कमलवणि दिणि रयणि १६ बहु पयारं ॥६॥

लोय लोयण दले अमिउं वरसंतउ १७

वद्धए शुद्ध १८ जिम बीय चंदो ।

निच्चु १९ नव नव कला धरइ गुणनिम्मला,

ललिय लावन्न सोहगगकंदो ॥७॥

घातः—

अत्थि ‘गुज्जर’ अत्थि गुज्जर, देसु सुविसालु ।

जहि २० ‘पल्हणपुरु’ नयरो, जलहिं जेम नर रयणि मंडिउ ।

तहिं निवसइ साहु—वरो २१, ‘रूदपालु’ गुणगणि २२ अखंडिउ २३ ।

तसु मंदिरि ‘धारल्ल’ उयरे, उपन्नउ सुकुमाह ।

‘समर’ नामि सो समर जिम, वद्धइ रूपि अपाह २४ ॥८॥

११b सोभरे, १२b कुमरवर c. कुमरवर, १३b जाइउ c.d जायउ, १४d

करिउ, १५b सयलगणि d. अंगणि, १६b बोह, १७b.c.d अमिय वरिसंतउ,

१८ छट्टु । १९c.d. नित्तु, २०b तहिं, २१b.c साहवरो, २२b गणह, २३b

अखंडिय, २४.d हवि अमर,

अह अवर वासरे 'पल्हणे-पुर' बरे,

भविय जण कमल वण बोहयंतो ।

पत्तु सिरि 'जिण कुशलसुरि' सूरुवमो

महियले मोह तिमरं हरंतो ॥६॥

चंदए भत्ति रंगेण उक्कंठिउ 'रूदपालो', परिवार जुत्तो ।

धम्म२५ उवएस दाणेण आणंदए, सादरं सूरिराउ विन्नतो२६ ॥१०॥

अह सयल लक्खणं जाणि२७

सुवियक्खणं, सूरि ददूण२८ 'समरं कुमारं' ।

भवय तुह नंदणो नयण आणंदणो,

परिणओ२९ अम्ह दिक्खोकुमारिं ॥११॥

इय भणिय पत्तु गुरु 'भीमपल्लीपुरे'

तं वयणु३० रयण जिम 'रूदपालो' ।

धरिवि ३१ निय चित्ति सयणिहिं आलोचए,

तं सुरुवं३२ सुणय सोजि बालो ॥१२॥

तयणु ३३ निय जणणि उच्छंगि निवडेवि,

मंडए ३४ राहडी विविह परि ३५ ।

भणइ 'जिणकुसलसूरि' पासि जा अच्छए,

माइ परिणावि मूं ३६ सा कुमारिं ३७, ॥१३॥

२५d धज्ज, २६b.c.d वित्तो, २७b.c.d वाणि २८a ददूण, २९b.c.d

परिणउ, ३०b वयण, ३१b.d. धरवि, ३२b.d सरुवं । ३३b तयण,

३४d संवए, ३५b.d परे, ३६। जाणइ (परिणावि)सुं, ३७b कुमारी,

माइ भणइ निसुणि वच्छ भोलिम ३८ धणो,

तउं नवि ३६ जाणए ४० तासु सार ।

रूपि न रीजए मोहि न भीजए,

दोहिली जालवीजइ अपार ॥१४॥

लोभि न राचए मयणि न माचए,

काचए चित्ति४१ सा परिहरए ।

अवर नारी अवलयणि४२ रूसए,

आपणपइं४३ सरियं४४ सत वरए ॥१५॥

हसिय४५ अनेरीय वातं विपरीत, तासु तणी छइं घणी सच्छ ।

सरल४६ सभाव४७ सल्लणडा बाल,४८

कुणपरि रंजिसि४९ कहि न वच्छ ॥१६॥

तेण कल कमल दल कोमल५०हाथ, बाथ५१ म बाउलि देसितउं ।

रूपि अनोपम उत्तमं वंश५२, परणाविसु वर नारि हउं ॥१७॥

नव नव भंगिहिं पंच पयार५३, भोगिवि भोग वल्लह कुमार ।

क्रमि क्रमि अम्ह कुलि कलसु५४ चडावि,

होजि संघाहिवइ५५ कित्तिसार ॥१८॥

इय जणणि वयण सो कुमरु निसुणेवि,

कंठि आलंगिउं५६ भणइ५७ माइ ।

जा ५८सुहगुरि कहि साजि मूं मु (म?) नि रही,

अवर भलेरीय न सुहाइ५९ ॥१९॥

३८b भूलिम, ३९b तं, ४०d. ४१a वित्ति, ४२b अवलयणे, ४३b पय, ४४d रूपि, ४५b इत्थी ४६b सरण ४७b सभाव, ४८। बाला, ४९b रंजिसि, ५०d कोमला, ५१d बाम, ५२d वर, ५३d पयारइ, ५४b कलस, ५५b संघाहिव, ५६b आलंगिय ५७b भणय, ५८c जास, ५९b सुहाए ।

तउ कुमर निच्छयं जणणि जाणेवि,

ढणहण नयणि नीरं झरंती ।

करिन तंद० वच्छ जं तुज्झ मण६१ भावए,

अच्छए६२ गद गद सरि भणंती ॥२०॥

॥ घात ॥

अन्न वासरि अन्न वासरि, तम्मि नयरंमि ।

‘जिण कुसलु’६३ मुणिंद वरो, महियलंमि विहरंतु पत्तउ ।

तहि वंदइ६४ भत्ति भरि, ‘रूदपालु’ परिवार जुत्तउ ॥

गुरु पिक्खवि ‘समरिगु’६५ कुमरो६६ आणंदिउ६७ नियच्चित्ति ।

भणइ अम्ह दिक्खाकुमरि परिणावउ६८ सुमुहत्ति ॥२१॥

तंच सुवयणु तं च सुवयणु, धरिवि नियच्चित्ति ।

निय मंदिरि आवियउ, ‘रूदपालु’, सयणिहि विमासइ ।

तं जाणि कुमर वरो, आगहेण६९ निय जणणि भासइ ॥

मूं परिणावि न दिक्खसिरि७० माइ भणइ वरनारि ।

कुमर भणइ विणु दिक्खसिरि अवरन मनह७१ मझारि ॥२२॥

॥ भास ॥

अह जाणेविणु ‘समरिगु’ निच्छउ,७२

कारावइ७३ वय सामहणी तउ७४ ।

६०c तउ, ६१b मनि d मणि, ६२d अच्छर, ६३b कुसल, ६४b वंदय, ६५b समरग, ६६d कुमर, ६७b आणंदिय, ६८d परिणावहु, ६९b आगहेणि, ७०b दिक्खसिरे, ७१a मनहं । ७२b निच्छओ. ७३c कारविधि. ७४b तओ.

मेलिय७५ साजण७६ चालइ नियपुरे,७७

धवल७८ धुरंधर जोत्रिय रहवरे ॥२३॥

चालु चालु हल सही७९ वेगिहिं८० सामहि,

‘धारल’ नंदण वर८१ परिणय महि ।

इम पभणंतिय सुललिय सुन्दरी,

गायइं८२ महुर सरि गीय८३ हरिस८४ भरि ॥२४॥

क्रमि क्रमि जान पहू तिय,८५ सुहदिणि,

‘भीमपलो पुरे’८६ गुर८७ हरसिउ मणि ।

अह८८ सिरि वीर जिणिंदह मंदरि,

मंडिय वेहलि८९ नंदि सुवासरि९० ॥२५॥

तरल९१ तुरंगमि चडियउ लाडणु,

मागण वंछिय दाण दियइ घणु ।

कील्हूय९२ अण९३ वरिसउं ‘समरिग’ वर,

जिम ‘सरसई’९४ किरि ‘कालिग’ कुमर ॥२६॥

आविउ जिणहरि वरु मणहरवउ,

दीख कुमारिय सउं९५ हथलेवउ९६ ।

‘जिणकुसलसूरि’ गुरो आपुण पइ जोसिउ९७,

होमइ ज्ञाणानलि९८ अविरइ घिउ ॥२७॥

७५c मिलिय. ७६d साजय, ७७d नियपुर, ७८c धवल, ७९c हलि
सिहि. ८०b वेगइ. ८१b वर. ८२b गाइ. c गाइहि d. गायहि,
८३d, श्रीय. ८४b हरसि, ८५d पहूतिय, ८६b भीमपल्लोय, ८७b गुरु. ८८b
अम्हिहि. ८९b वेहिकि. c.d वेहिकि, ९०b सुवासरे. dसवारि ९१c तरल.
९२b कल्हूय. ९३b अण. ९४d सरसय, ९५b सं० ९६b हथिलेवओ. ९७b.c
जोसिय. ९८d कालानलि

वाजइ मंगल तूर गुहिर सरि,

दियइं धत्रल वर नारि विविह परि ।

इण६६ परि 'तेर बियासिय' १०० वच्छरि,

'समरिगु' १०१ लाडणु १०२ परिणइ १०३ वय १०४ सिरि ॥२८॥

॥ घात ॥

तयणु १०५ चळवि तयणु चळवि, 'भीम वरपल्लि',

सामहणी जान सउं 'रूदपालु' आविउ सुवित्थरि १०६ ।

परिणाविउ दिक्खसिरि, 'समरसिंहु' १०७ 'जिणकुसल' सुहगुरि ॥

जय जय रवु घणु उच्छलिउ, ९ उद्धरिउ १० गुरु वंसु ।

'रूदपालु' अनु 'धारलह', नच्चइ जगि जस हंसु ११ ॥२९॥

दिन्नु 'सोमप्पहो' मुणि तसु नामु, सवणं आणंदणं अमिय जेम १२ ।

जिम जिम चरण आचार १३ भरि सोहए,

मोहए दिक्खसिरि तेम तेम ॥३०॥

पढइ जिनागम पमुह विज्जावली,

रलिय १४सेविज्जाए गुण गणेहिं ।

अह ठविउ १५ वाणारिउ १६ 'जेसलपुरे',

'चउद छडुत्तरे' १७ सुहगुरेहिं १८ ॥३१॥

१९d इणि. १००b विहासियइ. १०१d समरिग १०२b लाडण, १०३b परिणय.

१०४b वइ. १०५b तयण d. वयण. १०६b वच्छरि ।

१०७b समरसिंधु d. समरसिंह. c b घण. ९b उच्छलिय. १०d उद्ध-

रियउ. ११b निच्छइ जइ जगि हंसु, १२a जिम d जेण. १३a. d आधार.

१४b सेवजए. १५d ठविय. १६b वाणारिय. १७b छडुत्तरे, १८a गुरंहि.

सुविहियाचारि१६ विहार२० करतंड,

वाणारिउ गणि 'सोमप्पहो'२१ ।

दुविह सिक्खो२२ सुगीयत्थु२३ संजायउ,

गच्छ गुरु भार उद्धरण२४ सीहो२५ ॥३२॥

तयणु२६ 'जिणचंद सूरि' पट्टि, संठाविउ२७,

सिरि२८ 'तरुणप्पह' (आ) यरियराए२९ ।

'चउद पनरोतरे'३० 'खंभतित्थे' पुरे, मास 'असाढ वदि तेरसीए' ॥३३॥

सिरि 'जिणउदयसूरि' गुरुय नामेण, उदयउ भाग सोभाग निधि ।

विहरए 'गूजर' 'सिंधु' 'मेवाडि', ३१पमुह देसेसु रोपइ३२ सुविधि ॥३४॥

॥ घात ॥

नामु३३ निम्मिउ नामु निम्मिउ, तासु अभिरामु ।

'सोमप्पहु' मुणि रयणु३४ सुगुरु, पास सो पढइ अहनिसि ।

वाणारिउ क्रमि (क्रमि३५ हूयउ,

गच्छ भारु३६ धरु३७ जाणि गुण वसि३८ ।

सिरि 'तरुणप्पह' आयरिए३९ सिरि 'जिणचंदह' पाटि ।

थापिउ सिरि 'जिणउदय', गुरु४० विहरइ मुनिवरथाटि४१ ॥३५॥

१९b.d सुविहि आचारि, २०b विहार, २१a.c.d सोमपहो. २२a सिक्ख.
२३b.c सुगीयत्थ, २४b भारु d भारुद्धरण, २५a.c.d सहो, २६b तयण,
२७d संताविउ, २८d सिर, २९b तरुणप्पह आयरिय. d. तरुणप्पहायरिय-
राए, ३०। पनोतरे ३१d सिन्धु मेवाडि गूजर. ३२b रोविधि ।

३३b तासु निम्मिउ (२) नामु अभिरामु. c तासु नियउं (२) नामु
अभिरामु. d भालु निम्मिउ (२) नामु अभिरामु. ३४b रयण, ३५b.d
३६c भार, ३७d धरि, ३८d वंसि, ३९b आयरिय, ४०d सूरि, ४१b थटि

पंच पइइठ्ठर जिणिष्ठ३ सोस तेवीस,

चउद साहुणि घण संघवइ रइय ।

आयरिय उवज्झाय वाणारियष्ठ४ ठविय,

मह महत्तरा पसुह पयिष्ठ५ ॥३६॥

जेण रंजिय मणा भणइं४६ पंडिय जणा,

वलि वलि धूणिविष्ठ७ नियसिरायं४८ ।

कटरि गांभीरिमाष्ठ६ कटरि वय धीरिमा,

कटरि लावन्न सोहग जायं ॥३७॥

कटरि गुण संचियं५० कटरि इंदिय जयं, कटरि संवेग निव्वेय रंगं ।

बापु देसण कला बापु मइ निम्मला, बापु लीला कसायाण भंगं ॥३८॥

तस्स५१ एह५२ गुण गणं जेम तारायणं,

कहिउ किम सक्कउं५३ एक जीह ।

पारु न५४ पामए सारया देवया,

सहस मुहि भणइ जइ रत्ति५५ दीह ॥३९॥

॥ घात ॥

अह अणुक्कमि अह अणुक्कमि, पत्तु विहरंतु ।

सिरि 'पट्टणि' सूरिवरो, पवर सीसु जाणेवि नियमणि ।

'वत्तीसइ भद्वइ५६ पट्टम, पक्खि इकारसी' दिणि ॥

४२a पइइठ्ठ b पइइठा, ४३b.d जिण, ४४b वाणारिय, ४५b पय d पह, ४६b

भणय, ४७d धूणिविमिय, ४८a.cd सिराइं ४९b-cd गम्भीरिमा. ५०a.c

सच्चयं, d सम्भयं, ५१b तास ५२b पह c d पहु ५३b सक्कए ५४a पार

५५a रत्ति b रात्ति ५६b c d भद्वए

सिर 'लोगहियायरि' यर५७ अप्पिय५८ निय पय५६ सिक्खा६० ।

संपत्तउ सुरलोयि६१ पहु, बोहेवा सुर लक्खा६२ ॥४०॥

धन्न६३ सो वासरो पुन्न भर भासुरो,

साजि६४ वेला सही अमिय ६५वेला ।

जत्थ निय सुहगुरु भाव कप्पतरु,

भत्ति गाइज्जए हरिस हेला६६ ॥४१॥

सहलु६७ मणुयत्तणं ताण लोयाण, लहइ ते सुक्ख संपत्ति भूरिं ।

सुद्ध६८ मण संठियं थूभ६६ पडिमट्टियं,

जेय ज्ञायंति 'जिणउदयसूरि' ॥४२॥

एहु सिरि 'जिणउदयसूरि' निय सामिणो,

कहिउ मंइ चरिउ७० अइ मंद७१ बुद्धि ।

अम्ह सो दिक्ख गुरु देउ सुपसन्नउ,

७२दंसण नाण४चारित सुद्धि ॥४३॥

एहु गुरु राय वीवाहलउ जे पढइ,

जे सुणइ७३ जे थुणइ जे दियंति ।

उभय लोगेवि ते लहइ७४ मणवंछियं,

"मेरुनंदन"७५ गणि इम भणंति ॥४४॥

॥ इति श्री जिनोदय सूरि गच्छनायक वीवाहलउ समाप्त ॥

५७b लोगइ आयरिय d लोगहि आयरिय ५८b अप्पिय
५९b नियनिय d नियमय ६०b c b सिक्ख ६१b सुरलोय d सुर-
लोइ ६२b c d लक्ख ६३a d धनु ६४b साज ६५a d वैल ६६a हेल
६७b सहल d सुहल ६८d सुहमणि सठियं ६९d धति ७०d चरिउ ७१b
इय ७२d देसण ७३a जे गुणइ जे सुणंति c d जे गुणइ जे सुणइ जे दि-
यंति (d देयन्ति) ७४b लहय ७५b मेरुनन्दण ।

॥ श्रीजयसागरोपाध्याय प्रशस्तिः ॥



संवत् १५११ वर्षे श्री जिनराजसूरि पट्टालङ्कारे श्रीमज्जिनभद्र
सूरि-पट्टालङ्कार राज्ये ॥

श्री उज्जयन्त शिखरे, लक्ष्मीतिलकाभिधो वर विहारः ।

‘नरपाल’ संघपतिना, यदादि कारयितुमारेभे ॥ १ ॥

दर्शयति तदाचाम्बां, श्रीदेवी देवतां जन समक्षम् ।

अतिशय कल्पतरूणा, ‘जयसागर’ वाचकेन्द्राणाम् ॥ २ ॥

‘सेरीषकाभिधाने’, ग्रामे श्री पार्श्वनाथ जिन भवने ।


श्री शेषः प्रत्यक्षो येषां पद्मावती सहितः ॥ ३ ॥

श्री ‘मेढपाट’ देशे, ‘नागइह’ नामके शुभ निवेशे ।

नवखण्ड पार्श्व चैत्ये, सन्तुष्टा शारदा येषाम् ॥ ४ ॥

तेषां श्री ‘जिन कुशल सूरि’ प्रमुख, सुप्रसन्न देवतानाम् पूर्वं
देशवर्ति ‘राजद्रह’ नगरोद्दण्ड विहारादि । स्थानोत्तर दिग्वर्ति नगर-
कोटादि स्थान पश्चिम दिग्वर्ति वलपाटक ‘नागद्रहा’-दिषु । राज
सभा समक्षं निर्जित पूर्वं भट्टायनेक वादि स्तंभरमाणां । विरचित
‘सन्देह दोलावली वृत्ति’ लघु ‘पृथ्वीचन्द्र चरित्र’ ‘पंच पर्वी’ ग्रन्थ
रत्नावली प्रमुख मेहा वृषभनाथ स्तवः श्री ‘जिन वल्लभ सूरि’ कृत
‘भावारिवारण स्तव वृत्ति’ । संस्कृत प्राकृत बन्ध स्तवन सहस्राणाम्
स्थापितानेक संघपतीनां कवित्व कला निर्जित सुर गुरुणां पाठिता-
नेक शिष्य वर्गाणाम् इत्यादि—

॥ श्री कीर्तिरत्नसूरि फागु ॥



न०—१ (त्रुटक)

खिणि वाजिन्न घुम घुमइ ए, गयणंगण गाजइ ।

छल छल छपल कंसाल ताल, महुरा-रवि वाजइ ॥ २८ ॥

भास—आवइ कामिणी गहगहिय, गावइ मङ्गल चार ।

खेला खेलइ अमिय रसि, हरिषिउ संघ अपार ॥ २९ ॥

अहे क्रमि क्रमि आगम वेइ छन्द, नाटक गण लक्खण ।

पञ्च वरिस विज्जा विचार, भणि हुअ वियक्खण ॥

पण्डिय मुणि तिणि गुरि पसाउ, करि “कीरतिराउ” ।

वाणारी (स) पदि थापिउ, ए सो पयइ पभाउ ॥ ३० ॥

नयर ‘महेवइ’ हेव तेम, जिणमइ” सूरिन्द ।

उवझाया राय थापिउ ए, ‘कीर्तिराय’ मुणिन्द ॥

घरि घरि उच्छव बहुय रंगि, कामिणि जण गावइ ।

‘हरषि’ ‘देवल’ देवि ताम, मनि हरषि (म) न मावइ ॥ ३१ ॥

धारइ अङ्ग इग्यार सार, सुविचार रसाल ।

टालइ दोष कषाय जाय (ल?), उवसम-सिरि माल ॥

जिण शासन जे अवर, बहुय सिद्धन्त प्रसिद्धि ।

ते जाणइ सवि भेय बेय, वपु दे पिग बुद्धि ॥ ३२ ॥

॥ भास ॥

‘सिन्धु’ देश ‘पूरव’ पमुह, बहु विह देस विहार ।

करइ सुगुरु देसण हरस, वरिसइ सुह फल कार ॥ ३३ ॥

अहे क्रमि क्रमि ‘जेसलमेरु’ नयरि, पहुंतउ विहरन्तउ ।

‘कित्तिराय’ उवझाय चन्द, तव तेउ फुरन्तउ ॥

सिरि ‘जिणभद्रसूरि’ मुणिय, पात्र आचारिज कीधउ ।

मोटइ उलटि ‘कित्तिरयणसूरि’, नाम प्रसिद्धउ ॥ ३४ ॥

सो सिरि ‘कीरतिरयण सूरि’ भवियण पडिबोहइ ।

लवधिबन्त महिमानिवास, जिण शासनि सोहइ ॥

खरतर गच्छि सुरतरुह जेम, वंछिय दाणेसर ।

वादिय मयंगल माण तिमिर, भर नाण दिणेसर ॥ ३५ ॥

एरिस सुहगुरु तणउ नाम, नितु मनिहि धरोजइ ।

तिमि तिम नव निहि सयल सिद्धि, बहु बुद्धि लहीजइ ॥

ए फागु उछ रंगि रमइ, जे मास वसन्ते ।

तिहि मणिनाण पहाण कित्ति, महियल पसरन्ते ॥ ३६ ॥

॥ इति श्री कीर्त्तिरत्नसूरि वराणां फागु समाप्तः ॥

॥ छः ॥ शुभं भवतु श्री संघस्य ॥ छः ॥

॥ लिखितं जयध्वज गणिना ॥



॥ श्री कीर्तिरत्नसूरि गीतम् ॥

न०—२

नवनिधि चवद् रयण आवड, तसु मन्दिर सम्पति रिति(द्धि?) पावड ।
 दृञ्जै कामगवी भावै, श्री 'कीर्तिरत्न सूरि' जे ध्यावै ॥ न । आं० ॥
 सुरतरु अंगणि सफल फले, सुर-कुंभ सिरोमणी हेली मिलड ।
 जागती जोति अमृत सघलै, दुख दारिद्र दोहण दूर हलै ॥१ । न० ॥
 अविहड उल्लङ्ग उल्लव घणा, थिण दविण एवत्थण कामुकणा ।
 पसरड महियल विमल गुणा, चंगड गुरु ध्यावो भविक जणा ॥२०॥
 महिम प्रतीति सुधर लगई, डाइण साइण कबहु न लगै ।
 प्रीति सुं नीति बधइ त्रिजगई, नहु नंदि चलइ तसि पूठि अगई ॥३॥
 श्री 'संखवाल्ह' वंस वरड, 'देपा' सुत 'देवल' दे उयरड ।
 दीक्षा'वद्ध'नसूरि'गुरई, संजम वासिरि उ(ध?)रियउ धवल धुरई ॥४॥
 आचारिज करणी वृत्तणा, जिन भुवन पयट्टण पद ठवणा ।
 सीस नांदि मालारुहणा, गुरु पीर न होइ इगरि-सणा ॥ ५ । न० ॥
 मूत(ल?) 'महेवइ' थिर ठाणइ, पगला 'अरबुद-गिरि' 'जोधाणे' ।
 पूज करइ जे इकठाणइ, ते सदा सुखी सहुको जाणे ॥ ६ । न० ॥
 दीप दिवस अतिसइ सोहइ, सुर नाद संगीत भुवण मोहइ ।
 झिग मिग दीप कली बोहइ, गुरु जां मलीउ एरकाब व कोहइ ॥७॥
 प्रगट प्रभात्र प्रताप त(प)इ, नर नारि नमी कर जोड जपइ ।
 अबलाह सा(सव?)वला धार धपइ, श्री'खरतरगच्छ प्रभुता सुमपइ ८॥

दीण हीण दुखिथा सरणै, त्रिपुला कमला सथ वर परणइ ।
 असुभ करम आरति हरणइ, जे लोन चतुर सदगुरु चरणै ॥ ६ न० ॥
 कुंटंब कलत्र सुत मर्यादा, चालइ शुभ कारिज अप्रमादा ।
 भोग संयोग सुजस वादा, करि 'कीर्तिरत्न' सहगुरु दादा ॥ १० न० ॥
 भाग सुभाग सुमति संगइ, सुभ देस सुवास वसे रंगइ ।
 पाप संताप न के अंगइ, न्हावो गुरु ध्यान लहरि गंगइ ॥ ११ न० ॥
 चाट उचाट उदेग अरी, ऊप (भूत?) पलीत आनीत बुरी ।
 चावति कूड कलंक मरी, नासे तत्क्षण गुरु नाम करी ॥ १२ न० ॥
 भास विलास उल्हास सबहु, आनन्द विनोद प्रमोद लहु ।
 भोगवइ सुर समृद्धि सहु, सुप्रसन्न सुदृष्टि सुगुरु पहु ॥ १३ न० ॥
 सुहगुरु थ(स्त?)वणा पढ़इ गुणइ, वाचंता आपण बवण(वयण?)सुणइ ।
 कुशल मंगल तसु फ(पु?)ण्य थुणइ, श्री 'साधुकीरति' पाठक पभणइ ॥ १४ ॥
 ॥ इति श्री कीर्तिरत्न सूरि गीतं ॥

न०—३

'कीर्तिरत्न सूरि' बंदिये, मूल महेवै थांन ।
 संथमिया सिर सेहरो, 'संखवाल' कुलभाण ॥ १ । की० ॥
 संवत् 'चवदे उपरै, उगुणपचासै' जास ।
 जन्म थयो 'दीपा' धरे, 'देवल दे' उल्हास ॥ २ । की० ॥
 'डेलह' कुमर हिव नेम ज्युं, मूंकी निज घर वास ।
 'तेसठै' संयम लियो, श्री 'जिनवर्द्धन' पास ॥ ३ । की० ॥

वाचक पद हिव 'सत्तरे', 'असिये' पाठक सार ।

आचारज सताणवें 'जेसलमेर' मंझार ॥ ४ ॥ की० ॥

सुर नर किन्नर कामिणी, गुण गावे सुविशाल ।

साधु गुणे करी सोहता, हार विचे जिम लाल ॥ ५ ॥ की० ॥

पगला 'अरबुद गिरि' भला, 'जोधपुरे' जयकार ।

'राजनगर' राजे सदा, थुंम सकल सुखकार ॥ ६ ॥ की० ॥

जसु माथे गुरु कर ठवै, ते श्रावक धनवंत ।

सीस सिद्धान्त सिरोमणी, 'राजसागर' गरजन्त ॥ ७ ॥ की० ॥

अणसण लेइ रे भावस्युं, संवत् 'पनर पचीस' ।

अमर विमाने अवतर्या, श्री 'कीर्तिरत्न सूरीस' ॥ ८ ॥ की० ॥

अमीय भरै भल लोचणे, तुं मुझ दे दीदार ।

पाठक 'ललितकीर्ति' कहै, दिन प्रति जय-जयकार ॥ ९ ॥

न०—४

श्री 'कीर्तिरत्न सूरींद' तणी, महिमा वाधइ जग मांहि घणी ।

धरि ध्यानै धावइ भूमि-धणी, महियल मुनिजन सिर मुगट मणि ॥ १ ॥

तेजै कर जिम दीपइ तरणी, सदगुरु सेवा चिन्ता हरणी ।

भंडार सुधन सुभर भरणी, कमला विमला कांमित करिणी ॥ २ ॥

अड बडीया संकट उद्वरणी, वरदायक जसु शोभा वरणी ।

घर पावै नर सुघरि घरणी, प्रेमइ अधिकइ तरिणी परिणी ॥ ३ ॥

सब दोहग दूरइ संहरणी, फोटक न हुवइ धरिणी फिरणी ।

अग(ल?)गी अटवी थांनक डरणी, साचउ तिहां गुरु असरण सरणी ॥ ४ ॥

साहि सरोमणि 'देप' घरै, 'देवल दे' जनम्यो उवरि धरौ ।

संवत 'गुणपंचास तरौ', श्री 'संखवाल' कुल सहसकरौ ॥५॥
 संवत 'चवद्वै त्रयसठि' वरसै, 'आसाढ़ इग्यारीस' बहु हरसै ।
 श्री 'जिनवरधन सूरि' गुरु पासै, संयम लीधो मन उल्लासै ॥६॥
 'सितरइ' वाचक पद गुरु पायउ, 'असीयइ' उवझायक पद आयउ ।
 'सताणूंयइ' वरसै दीयउ, आचारिज श्री 'जिनभद्र' कीयो ॥७॥
 'लखइ' 'केलहइ' तिहां मन लाइ, 'जेसलगिर' पुर तिहां किण जाई ।
 'मा(हो)घ सुकल दसमी' आइ, महोछव करि पदवी दिवराइ ॥८॥
 'पनरइ पचवीसइ' तिण वरसइ, 'आसाढ़ इग्यारस' बहु हरसै ।
 अणसण लीधो मन नै हरसै, सुभगति पांमी सुरवर सरसइ ॥९॥
 'वीरमपुर' बधतें वानै, थाप्यो थिर थूंभ भला थानइ ।
 महीयल सहु को नइ मन मानइ, जस सोभा जग सगलौ जानै ॥१०॥
 सम्रयो सदगुरु सांनिधिकारी, सकलाप सजन जन साधारी ।
 नरवर सुर(वै) वरनै नरनारी, थूंभे आवे जात्रा धारी ॥११॥
 भूत प्रेत डर भय नावइ, जंजाल सबे दूरइं जावइं ।
 गणि 'चन्द्रकीर्ति' गुरु गुण गावै, श्री 'कोरतिरत्नसूरि' ध्यावइ ॥१२॥

॥ इति गुरु गीतं ॥



कवि सुमतिरंग कृत

श्रीकीर्तिरत्न सूरि (उत्पत्ति) छन्द

न०— ५

सुमति करण सारद सुखदाइ, सांनिध कर सेवकां सदाइ ।

‘कीर्तिरत्न सूरिन्द’ कहाइ. उत्पत्ति तास कहण मति आई ।१।

‘जालंधर’ देसैं सवि जाणै, ‘संखवालो’ नगरी सुख माणै ।

‘कोचर’ साह संसार वखाणै, दै दैकार घर खाणें दानें ॥२॥

दोय घर घरणी दौलित दावै, कामणि लघु सुत एक कहावै ।

‘रोलू’ रीति सुजस रहावैं, पिता प्रेम धरि करि परणावें ॥३॥

आधी रातै ‘रोलू’ अङ्गण, डस्यो साप कालै जम डंडण ।

मूवौ जाणि ले चाल्या दङ्गण, सन्मुख मिल्या ‘खरतर गच्छ’ मंडण ।४।

‘जिनेश्वर सूरि’ कहै गुण जाणी, विषधर भरयो लोक सुणि वाणी ।

खरतर करो जिम ए सही जीवै, ‘कोचर’ खरतर हुवो तदीवै ॥५॥

जहर कहर गुणणै करि जावे, सावधान हुआ सहि सुख पावै ।

आप पगे (रोलू) घर आवै, खरै राग खरतरा कहावै ॥ ६ ॥

दूहा—तेरै सै तेरोत्तरे, ‘कोचर’ खरतर किद्ध ।

आदि प्रासाद प्रतिष्ठियो, सूरि जिनेश्वर सिद्ध ॥ ७ ॥

‘कोचर’ साह ‘कोरटैं’ वसियौ, सत्तूकार दीयै जस रसीयो ।

कुलगर (गुरु ?) आय घणै ही कसीयो,

खरतर विरुद्ध थकी नवि खसीयो ॥ ८ ॥

‘रोलू’ सुत दोग कछा रसीला, ‘आपमल्ल’ ‘देपमल्ल’ असीला ।
‘देप’ घरे ‘देवलदे’ बाला, चार सुत जनम्यां चौसाला ॥६॥

॥ छन्द मोतियदाम ॥

‘लखो’ तिम ‘भादो’ ‘केल्हो’ साह, ‘देल्हो’ चोथो गुणे अगाह ।
‘लखा’ नै लिखमी तूठी लेह, परिया तिण सात तणो वर देह ॥१॥
‘वीसलपुर’ वसियो ‘लखो’ वास, ‘जेसाणै’ ‘भादो’ करै विलास ।
‘मेहैवै’ ‘केलो’ मोटी मांम, चोथो तिण चारित लीधो आम ॥२॥
चवदै गुण पचासैँ जम्म, धर्यो तिण बालक वय थो धम्म ।
तेरै वरसै जब हुयो तेह, ‘राडद्रह’ मांग्यो राखण रेह ॥३॥
‘चवदैसे तेसठै’ चाल्या चूप, विवाह करण जग राखण रूप ।
खीमज थल के पासै जान, आवी नै उतरी तिण थान ॥४॥
सरली एक खेजडी देखी सोर, जुवाने जानी मांड्यो जोर ।
इण ऊपर बरली काढै कोथ, परणावुं पुत्री मेरी तोय ॥५॥
रजपूतैँ एकण कहियो आम, ‘केलैँ’ नै सेवक लीधी ताम ।
उलाली बरली नांखी एम, तीर तणी पर काढी तेम ॥६॥
आंतरै तिहां जोर आयो असमान, परलोक गयो ते छूटा प्राण ।
‘दैल्है’ सो देखी मन दिलगीर, नर भव अथिर ज्युं डाभै नीर ॥७॥
‘खेमकीरति’वादै मन (वैठो) खांत,भांगी सहु मन(को)तन की भ्रांत ।
साह सगा सहुनै समझाय, ‘जिनवद्धैनसूरि’ पासे जाय ॥८॥
दीक्षा तब लीधी ‘दैल्है’ आप, पुराणां तोडण पाप सन्ताप ।
मांमां ते पारख मोटे मन्न, धरा सहु आखै धन हो धन्न ॥९॥

इन्द्रारह अंग पढ़्या इण रीत, गोतम स्वामी ज्युं वीर वदीत ।

वणारस कीयो गुरु गुरु वार, 'चवदैसैसत्तरे' चित्त विचार ॥१०॥

'जेसाणें' खेतरपाल को जोर, उथापी मांड्यो बाहिर ठौर ।

आचारज क्षेत्रपाले मेल, भट्टारक काह्या गच्छ थी ठेल ॥११॥

दोहा—'नाल्है' साह निकालनै, थाप्यो 'जिनभद्र सूरि' ।

दोस दियौ को देवता, भावी मिटै न दूर ॥१२॥

'पीपलीयो' गच्छ थापीयो, शुभ बेला सुभ वार ।

'साहण' सा सत करी, वादो वाद विचार ॥१३॥

'जिनवर्द्धन सूरि' जाण के, शिष्य सदा सुविनीत ।

आप दिसा आप्रह कियो, गुरु गच्छ राखण रीत ॥१४॥

आधी राते आवि कै, वोर कही ए बांत ।

आउखो गुरुनो अल्प, मास छ मास कहात ॥१५॥

'महेवे' में सांमठी, च्यार करी चौमास ।

'जिनभद्रसूरि' बोलाविया, आवो हमारे पास ॥१६॥

अनुमानें करि अटकल्यो, उदयवंत गच्छ एह ।

आवि मिल्या आदर सहित, पाठक पदवी देह ॥१७॥

'चवदैसे असी' वरस, पाठक पदवी पाय ।

'जिनभद्रसूरि' 'जेसलनगर', तेडाव्या तिहां जाय ॥१८॥

॥ छन्द सारसी ॥

लखपति 'लखो' साह 'केल्हो', 'महेवे' थौ आविया ।

'जेसलमेरें' करी वीनती, पूज्य नै विधि वंझिया ॥

'जिनभद्र सूरै' मया करकै, 'चवदैसैसताणवें' ।

'कीर्तिरत्नसूरि' आवीय, दीध पदवी तिण हेवे ॥१९॥

बहु खरच कीया दान दीया, विविध लखमी वावरी ।

‘संखवाल’ साचा विरुद खाटै, धर्मराग हीयै धरी ॥

‘सैत्रुंज’ संघ कराय साथै, संघ सहुको ध्रम धवै ॥२॥की०॥

‘संखैसरै’ ‘गिरनार’ ‘गोडी’, देस ‘सोरठ’ संचरी ।

चितलाय चैत्यप्रवाडी कीधी, लाहिणां जिहां तिहां करी ।

घर आय घणा घमंड सेती, संघ पूज करी लवै ॥३॥की०॥

आचारजां सुं अरज करिने, चतुरमासक राखिया ।

गोत्रजा कुलगुरु दूर कीधा, भेद आगम भाखिया ।

समझावीया सिद्धांत सुवचन, वांणि जांगी अमी अरवै ॥४॥की०॥

‘मालवै’ ‘थट्टा’ ‘सिंध’ सनमुख, ‘संखवाल(चा)’मत जावजो ।

पाट भगत हुइज्यो सुगुरु भाख्यो, गच्छ—फाट में नावजो ।

दीक्षा न लेज्यो, संघ पद पिण, हलद्र ओषद(ध?)मत खवै ॥५॥की०॥

‘कोरटै’ ‘जेसलमेर’ देहरा, कराविजो गुरु इम भणै ।

नगर चोहटा थकी जिमणै, पास वसज्यो धन घणै ।

सीख सात मानै साह सहुको, सुखी हुइ इह परभवै ॥६॥की०॥

पंचास एक शिष्य पंडित, ‘कीरतिरतनसूरि’नै ।

गुरु गुणे गौतम जेम गिणियै, जुगति सुमति जगीसनै ।

वासक्षेप जेहने सीस उपरि, करै तसु दालिद गमै ॥७॥की०॥

कलस—आऊखा नै अंतपक्ष, अणसण पाली नै,

संवत ‘पनरपचीस’, मन वैराग वाली नै ।

‘वैसाख सुदी पंचमी’, सुगुरु सुरलोक सिधाहे ।

अण कीधे उद्योत हुवो, जिनभवनन माहे ।

सुखकार सार शृंगार मणि, “सुमतिरंग”सानिध सदा ।

रखवाल वाल गोपाल कूं, वाट घाट यदा तदा ॥८॥

न०—६

सोहे गुरु नगर 'महेवे', परचा पूरै नित मेवे । सो० ।
 'संखवाल' कुले गुरु राजै, 'दीपचन्द' पिता घर छाजै हो ॥ १ सो० ॥
 'देवल दे' जसु वर माता, जनम्या डेलाख्य विख्याता हो । सो० ॥
 'चवद्वैसय तेसठ वरसै,' 'आषाढ वदी' शुभ दिवसै हो । २ । सो० ॥
 'इग्यारसै', दीक्षा लीधी 'जिनवरधन सूरै' दीधी हो । सो० ।
 तप जप कर करम खपाया, नवि राखी कांइ माया हो । ३ । सो० ॥
 नामै जसु नावै रोगा, सुख संपत पामे भोगा हो । सो० ।
 'जिनभद्र सूरि' तेडाया, 'जेसाण नगर' में आव्या हो । ४ । सो० ॥
 'चवदसै सताणवे' वरसै, सूरि पद दीधो मन हरसै हो । सो० ।
 संवत पनरेसे पचीसे, 'वैशाख पंचम' शुभ दिवसै हो । ५ । सो० ॥
 ईसाणै सदगुरु पहुंता, मनमें शुभ ध्यान ज धरता हो । सो० ।
 साइण डाइण वेताला हो, भूत प्रेत न आल जंजाला हो ६ । सो० ॥
 सदगुरु गुण पार न पावै, मुनिजन वर भावना भावै हो । सो० ।
 'जयकीर्ति' सदा गुण बोले, सदगुरु गुण कोइ न तोले हो । ७ । सो० ॥

न०—७

'कीर्तिरतन' सुरीन्दा, वंदै नरनारी ना वृन्दा हो । सदगुरु महिरकरो ॥
 महिर करो गुरु मेरा, हुंतो चरण न छोड़ूँ तेरा हो । स० । १ ।
 नगर 'महेवे' राजे, सेवतां सब दुख भाजै हो । स० । २ ।
 वंछित पूरण दाता, नित करिजो संपत्ति साता हो । ३ । स० ।
 नव नव देसमें सोहे, पूरै परचा जन मोहे हो । ४ । स० ॥

चौरादिक भय वारे, सेवक ना कारिज सारे हो । स० । ५ ।

बंध्या पुत्र समापै, निरधनीयां धन सब आपै हो । ६ स ।
अलगा थी यात्री आवे, देखंतां चरण सुहावै हो । स० । ७ ।

इम अनेक गुणधारी, प्रतिबोध्या नर ने नारी हो । ८ । स० ।
'अढ़ारेसे गुणयासी', 'अषाढ़ दसम' परकासी हो । स० । ९ ।

गाम 'गडालय' थाप्या, सेवक ना संकट काप्या हो । १० स ।
नासु प्रसाद करायो, देसां मै सुजस सवायो हो । स० । ११ ।

'जयकीरति' गुण गावै, मन वंछित पद पावै हो । स० । १२ ।

न०—८

सद्गुरु चरण नमो चितलाय, जिण भेटयां दुख दालिद जाय ।

आज करो रे ऊछाह सदगुरु चरण कमल आगै । आ० ।

नगर 'महेवै' 'दीपमल्ल' साह, 'देवलदे' घरणी जनम्यां सुनाह । आ१ ।
संवत् 'चवदे गुणपचास', 'डेल्ल' नाम दियो शुभ जास । आ० ।

यौवन वय आव्यो तिण वार, कीनी सगाई हर्ष अपार । आ० । २ ।

जान सजाय करी रे तैयार, चलतां आव्या 'राडद्रह' वार । आ० ।

तिहां इक खीमस्थल सुविशाल, जां बिच सोहे समीय रसाल । ३ ।

तिण ही ठामें उतरी जान, रंग रली कीना सन्मान । आ० ।

किणे इक ठाकुर बाह्यो बोल, इण पर बरछीं काढे तोल । आ० । ४ ।

देवुं पुत्री तिणे परणाय, ऐसो वचन सुणयो चितलाय । आ० ।

'केल्है' रो सेवक उठ्यो तांम, काढी वरछी छूटा प्राण । आ० । ५ ।

'डेल्लहै' दीठौ ए विरतंत, सदगुरु वचने भागी भ्रन्त । आ० ।

'तेसठे' शुभ संयम लीद्ध, श्री 'जिनवरधन सूरै' दीध । आ० । ६ ।

नेम तणी परे छोडो रिद्ध, जगमें सुजस हुवो परसिद्ध । आ० ।
 झयारे अंग हुया जाण, तेजै करी प्रतपे जिम भाण । आ० । ७ ।
 गौतम स्वामी ज्युं करय विहार, प्रतिबोधे सहु नर ने नार । आ० ।
 सिंघे तेडाव्या 'जेसलमेर', सदगुरु आया सुर नर घेर । आ० । ८ ।
 'सताणवे' सूरि पदवी जास, श्री 'जिनभद्रे' दीधो वास । आ० ।
 तप जप तीरथ उग्र विहार, करतां आव्या 'महेवे' वार । आ० । ९ ।
 सिंघ सकल पेसारो कीन, गुरै पिण सखरी देशना दीन । आ० ।
 संवत् 'पनरेसे पचवीस', वदी वैशाख पंचमि शुभ दीस । आ० । १० ।
 अणसण कर पहुंतां सुरलोक, नर नारी सब देवे धोक । आ० ।
 गुरु परचा जग सगलै पूर, दुखिया आपे सुख भरपूर । आ० । ११ ।
 विरुद कहंता नावै पार, इण कलि में सुरगुरु अवतार । आ० ।
 नगर 'महेवे' मलगो थान, ठाम ठाम दीपे परधान । आ० । १२ ।
 'कीर्तिरत्नसूरी' गुरुराय, महिर करो ज्युं संपति थाय । आ० ।
 'अठारेंसे गुण्यासीये' वास, 'वदि वैशाख दसमी' परगास । आ० । १३ ।
 रच्यो प्रासाद 'गडालय' मांहि, दोय थान सोहे दोनूं बांंह । आ० ।
 सुगुरु चरण थाप्या घणे प्रेम, सुजस उपायो 'कांतिरत्न' एम । आ० । १४ ।
 भल्ले दिहाडो उरयो आज, भेटया सदगुरु सार्या काज । आ० ।
 'अभौं विलास'री विनती एह, नित प्रति करजो आनंद अडेह । आ० । १५ ।

न०—९

वधारो कुल वेल, महिर मेघमाला मंडै ।

वित्त वादल विस्तार, दुख दांलिद विहंडे ।

दोलत कर दामिनी, सुवाय संचारी ।

गुण गरजारव करे भरे, सरवर नरनारी ।

वाल सुगाल तत्काल कर, संखवाल घर घर सही ।

'कीर्तिरत्नसूरि' कीजीयै, गरथ अरथ गुण गहगही ॥१॥

श्री जिनलाभ सूरि विहारानुक्रम

(सं० १८१५ से सं० १८३३)

॥ दोहा ॥

गच्छ नायक लायक गुणे, सागर जेम गम्भीर ।

निज करणी कर निरमला, जाणै गंगा नीर ॥१॥

तपसी तालावर तणै, गच्छपति किसी गरज ।

आसंगायत आपणा, इण परि करै अरज ॥२॥

पांच बरस रहिया प्रथम, दिन दिन बधतै ढाण ।

गच्छ नायक 'जिनलाभ' गुरु, बड़ बखती 'बीकाण' ॥३॥

'पवाण १चन्द्र ढबसु १शशि' वरस, सरस भलौ श्रीकार ।

शुभ वेला 'बीकाण' सुं, वारु कियौ विहार ॥४॥

सधन घरे समझू सकल, घण आवक जसु वास ।

गुणवंतो 'गारब शहर', तिहां कीधौ चौमास ॥५॥

आठ मास तिहां थी उठे, वंदावी थल देश ।

'जेसाणै' गुरु जाय नै, परगट कियौ प्रवेश ॥६॥

चार वरस लगि चाहसुं, नित नित नवलै नेह ।

बड़ बखती आवक जिके, जतने राखै जेह ॥७॥

तिहां तीरथ छै 'लौद्रवौ', जूनौ जगहि वदीत ।

तिहां प्रभु पारस परसिया, सहसफणा शुभ रीत ॥८॥

सीख करे तिहां थी सुमन, पुलिया पच्छिम देस ।

सुख विहार आया सुगुरु, प्रणमेवा पासेस ॥९॥

त्रिधि सुं गौड़ी—राय नै, बांदी कियौ विहार ।

गच्छपति चलि आया गुढै, चौमासौ चित धार ॥१०॥

रहि चौमासौ रंग सुं, विहलौ करै विहार ।

माती धरा महेवची, बांदावी तिण वार ॥११॥

नगर 'महेवै' आय नै, नमिवा नाकौड़ौ पास ।

जाये कीध 'जलोल' में, चित चोखै चौमास ॥१२॥

मिगसरमें बलि मलपिया, गज ज्युं श्री गुरुराज ।

आवै 'आबू' अरचिया, जगनायक जिनराज ॥१३॥

जस खाटै दाटै पिशुन, उर दुयणां पग दीध ।

'बीलाडै' बहु रंग सुं, चतुर चौमासौ कीध ॥१४॥

'खेजडलै' नै 'खारिये', रहिया बलि 'रोहीठ' ।

पिशुन किया सहु पाधरा, धरमें होता धीठ ॥१५॥

'मंडोवर' महिमा घणी, 'जोधाने' री जोइ ।

मुनिपति आया 'मेड़तै', हित सुं तिमरी होइ ॥१६॥

च्यार महीना चैन सुं, झाझे जतने जार ।

'जैपुर' आया जुगति सुं, सहिर बडै श्रीकार १७॥

सहिर किनां सागे सरग, इलमें वसियौ आय ।

वरस थयौ वासर जितौ, वासर घड़ी विहाय ॥१८॥

हठ कीधौ घण हेत सुं, पिण नवि रहिया पूज ।

मुनि-पति जाय 'मेवाड' में, वरतायौ नामूज ॥१९॥

'उदयापुर' हुंती अलग, कठिन अठारै कोस ।

'रिसहेस' नै रंग सुं, नमन कियौ निरदोष ॥२०॥

बल्ला 'उदयापुर' बले, गहिरा कर गहगाट ।

वीनति घणै विराजिया, 'पालीवालै' पाट ॥२१॥

अटकलता आसी अवस, निरख विचै 'नागौर' ।

पिण मन वसियो पूज रै, सहिर भलो 'साचोर' ॥२२॥

तिण वरसे 'सुरेत' ना, असपति अवसर देख ।

तिड़ावै सहगुरु तुरत, लायक मूकी लेख ॥२३॥

दया लाभ देखी घणौ, ऊपजतो उण देस ।

सुमति गुपति संभालता, पुर तिण कीध प्रवेश ॥२४॥

सरस वर जुग श्रावके, करतां नव नव कोड ।

सुपरै सेवा साचवी, हित सुं होडा होड ॥२५॥

कर राजी श्रावक सकल, जग सगलै जस खाट ।

'राजनगर' आया रहण, वहता पगवट वाट ॥२६॥

तिहां पिण तालेवर तुरत, उच्छव करै अपार ।

दोय वरस लगि राति दिन, सेवा कीधी सार ॥२७॥

मन थिर कर साथे थई, श्रावक सहु परिवार ।

सत्रुंजनी सेवा करे, गुरु चडिया गिरनार ॥२८॥

उतर तिहां थी आविया, 'वेलाउल' वंदाय ।

महिमा मोटी 'मांडवी', पूजण सदगुरु पाय ॥२९॥

कोडी-धज तिण नगर में, लखपति तणा लंगार ।

सहु श्रावक सुखिया जिहां, वारधि सुं विवहार ॥३०॥

वरस लगै तिहां वावर्यो, धन अगिणत धर्म काज ।

चोखे दिन 'भुज' चालिया, राजी हुए गुरुराज ॥३१॥

'भुज' तणै श्रावक मली, सेवा कीध सवाय ।

भाग बली जिहां संचरै, थट सगला तिहां थाय ॥३२॥

इण विधि अट्टारै वरस, दीन (दिन दिन?) नव नव देस ।

परचिया श्रावक प्रघल, वाणी तणै विशेष ॥३३॥

हिव वहिला विनती सुणी, करिउयो पूज प्रयाण ।

'बीकानेर' वंदाविज्यो, सेवक अपणा जाण ॥३४॥

श्री जिनराजसूरि गीतम्

ढालः—कपूर होवइ अति उजलुंए ।

गळपति वंदन मनरली रे, गरुओ गुणह गंभीर ।

‘श्रीजिनराजसूरीसरू’ रे, सवि गळ कइ सिरि हीर रे ।१।

वंदउश्री ‘जिनराजसूरींद’ । आंकणी ।

श्री ‘जिनसिंघसूरि’ पटोधरू रे, ऊन्नतिकार महंत ।

चारित्र चंगई मन रमइ रे, सेवइ भविजन संत रे ।२।वं०

‘जेसलमेर’ जिनंद नी रे, कीधी प्रतिष्ठा चंग ।

‘भणसाली’ ‘थिरू’ तिहां रे, धन खरचइ मन रंग रे ।३।वं०

‘रूपजी’ संघवी ‘सेत्रुंजइ’ रे, आठमउ कीध उद्धार ।

‘मरुदेवीटुंकइ’ भलउ रे, चउमुख आदि विहार ।४।वं०

मोटी मांडी मांडणी रे, देहरा प्रोलि प्राकार ।

सबल महोछव तिहां सजी रे, प्रतिष्ठा विधि विस्तार रे ।५।वं०

चित्त चोखइ सा(ह) ‘चांपसी’ रे, ‘भाणवडइ’ भल भाव ।

सुगुरु प्रतिष्ठा तिहां करी रे, जस बोलइ जन आवि रे ।६।वं०

संघपति ‘आसकरण’ सही रे, ममाणीमइ कीध प्रसाद ।

विंव महोछव मांडीया रे, ‘मेडता’ महा जस-वाद रे ।७।वं०

धन ‘खरतर’ गळि दीपता रे, श्रावक सब गुण जाण ।

आण मानइ गळराज नी रे, तेजइ जाणे भाण रे ।८।वं०

‘धरमसी’ नन्दन दिन दिनइ रे, दीपइ जिम रवि चंद ।

‘हरषवलभ’ वाचक कहइ रे, आपइ परमाणंद रे ।९।वं०

श्री जिनरतनसूरि गीतम्

ढालः—विलसे ऋद्धि समृद्धि मिली ।

श्री 'जिनरतनसूरिंद' तणी, महिमा जागइ जग मांहि घणी ।

जसु सेवा सारइ स्वर्गधणी, मन वंछित पूरण देव मणी ।१।

जसु नामइ न डसइ दुष्टफणी, टलि जायइ अरियण जुड्या अणी ।

अहिनिंसि जे ध्यावइ सुगुरु भणी, तसु क्षीरत वाधइ सहस गुणी ।२।

निरमल व्रत सील सदा धारी, षट काया तणौ रक्षाकारी ।

कलियुग मइ 'गौतम' अवतारो, गुण गावइ सहु को नरनारी ।३।

घसि केसर चंदन सुविचारी, फल ढोवइ नेवज सोपारी ।

विधि जे वंदइ आगारी, ते लच्छि तणा हुवइ भरतारी ।४।

जसु जम्म नगर 'सेरूणाणं', तिहां वसइ 'तिलोकसी' साहाणं ।

गोत्रइ अति निरमल लूणीयाणं, तसु घरिणी 'तारादे' विधि जाणं ।५।

जसु उयर सरोवर हंसणं, तिण जायउ पुत्ररतनाणं ।

सोलह सइ सत्तरि वरसाणं, पुनवंत पुरष दीवाणं ।६।

चउरासीयइ चारित लीधउ, गुरुमुख उपदेस अमीय पीधउ ।

सुभकारिज सतरइसइ कीधउ, सहगुरु सइंह थि निज पट दीधउ ।७।

सतरइसइ इग्यार सही, आरण वदि सातमि सुगति लही ।

पग पूजण आवे जे उमही, गुरु आस्या पूरइ त्यां सबही ।८।

'उप्रसेनपुरइ' सदगुरु राजइ, जसु थूंभ तणी महिमा छाजइ ।

'खरतर' श्री संघ सदा गाजइ, गुरु ध्यानइ दुखदोहग भाजइ ।९।

श्री 'जिनराजसूरीस' तणउ, पाटोधर श्री 'जिनरतन' भणउ ।

महियल मइ सुजस प्रताप घणउ, प्रहसमि ऊठी नित नाम थुणउ ।१०।

एहवा सदगुरु नइ जे ध्यावइ, चित चिंता तास सवे जावइ ।

दिन-दिन चढती दउलति पावइ, 'जिनचंद' सगुरुना गुण गावइ ।११।

इति श्री जिनरतनसूरि गीतं (संग्रहमें, ६३ प्रति नं० १३)

श्री दयातिलक गुरु गीतम्

राग—आसावरी

सरद ससी सम सुहगुरु सोहइ, सयल साधु मन मोहइ ।

देसना वारिद जिम बरसइ, जन मयूर चित हरसइ रे ।१।

भाव स्युं भवीयण जण पणमउ, 'श्री दयातिलक' रिषराया ।

दीपंता तपकरि दिणयर जिम, नरवर प्रणमइ पाया रे ।१।भा०।

नवविध परिग्रह छंडि भली परि, संयम स्युं चितलाया ।

दोष बयाल निरंतर टालइ, मनमथ आण मनाया रे ।२। भा०।

पंच महाव्रत रंगइ पालइ, पंच प्रमाद निवारइ ।

नितु नितु सील रयण संभालइ, भव सायर थी तारइ रे ।३।भा०।

चरण करण गुण सुहगुरु धारइ, आठ करम कुं वारइ ।

क्रोध मान मद तजइ मुनीसर, मुनिवर धर्म संभारइ ।४।भा०।

'श्री क्षेमराज' पाटइ अति दीपइ, वादि विबुध जन जोपइ ।

वाणो श्रवणि सुहाणी छाजइ, खरतर गळि गुरु राजइ रे ।५।भा०।

'वाल्हादे' उरि मानसरोवर, रायहंस अवयरिया ।

'वच्छा' कुल मंडण ए सुहगुरु, गुण गण रयणे भरिया रे ।६।भा०।

पूरव मुनि नी रीति भली पार, आगम करिय विचारइ ।

जाणि करी सूधीपरिए गुरु, गुण गरुआना धारइ रे ।७।भा०।

इति श्री गुरु गीतं । (पत्र १ संग्रहमें)

वा० पदमहेम गीतम्

—*—

ढालः—विलसइ ऋद्धि समृद्धि मिली, ए ढालः ।
 'पदमहेम' बाचक वंदइ, ते भवियण दिन-दिन चिरनंदइ ।
 सुरतरु सम वडि गुरु कहियइ, जसु नामइ मन वंछित लहियइ ।१।प०
 'गोलवछा' वंसइ छाजइ, खरतर गछि सुरमणि जिम राजइ ।
 आगम अरथ तणा जाण, पालइ जिणवर केरी आण ।२।प०
 लघुवय जे संयम लीणउ, उपसम रस मघुकर जिम पीणउ ।
 सुमति गुपति सहजइ पालइ, वलि दोष बयालिस नितु टालइ ।३।प०
 चरण करण सत्तरि सार, वलि धरइ महाव्रत ना भार ।
 ध्यान विनय सिझाय करइ, इम असुभ करम मल दूरि हरइ ।४।प०
 (श्री) जिन वचनइ अनुसारइ, देसन करि भवियण नर तारइ ।
 निरमल शोल रयण पालइ, पूरव मुनि मारग उजवालइ ।५।प०
 युगप्रधान 'जिणचंद, गुरु, विहरइ महियलि महिमा पवरु ।
 धन ते जिण सय-हथि दिख्या, सीखावी वलि संयम सिख्या ।६।प०
 धन 'चोलग' जसु कुलि आयउ, धन धन 'चांगादे' जिण जायउ ।
 'तिलककमल' गुरु धन्न जयउ, जसु पाटइ दिनकर जिम उदयउ ।७।प०
 व्रत सइंतीस बरिस जोगइ, विहरी दिन दिन वधतइ जोगइ ।
 ससि रस काय ससि बरिसइ, आया 'वालसीसर' चित हरिसइ ।८।प०
 अन्त समय जाणि नाणइ, वलि करि आराधन सुह झाणइ ।
 पहर छ अणशण पाली, माया ममता दूरइ टाली ।९।प०

विमल सिद्धि गुरुणी गीतम् ।

गुरुणी गुणवंत नमीजइ रे, जिम सुख सम्पति पामीजइ रे ।
 दुख दोहग दूरि गयीजइ रे, परभवि सुर साथि रमीजइ रे ॥१॥
 जसु जन्म हूओ 'मुलताणइ' रे, प्रतिबूधा पिण तिण ठाणइ रे ।
 महिमा सहु कोइ बखाणइ रे, दुक्कर किरिया सहिनाणइ रे ॥२॥
 काकउ कलिमइ अवतारो रे, 'गोपो'लयुवय ब्रह्मचारी रे ।
 तिणरइ प्रतिबोधइ दिख्या रे, मनमांहि धरो हित सिख्या रे ॥३॥
 'विमल सिद्धि' वड वयरागइ रे, बालक वय ऊपसम जागइ रे ।
 'लावण्य सिद्धि' गुरुणी संगइ रे, चारित लीधउ मन रंगइ रे ॥४॥
 आगम नइ अरथ विचारइ रे, परवीण चरण गुण धारइ रे ।
 मिथ्या मत दूरि निवारइ रे, कुमती जन नइ पिण डारइ रे ॥५॥
 मद मच्छर मुंकी माया रे, जिण कीधी निरमल काया रे ।
 तप जप संजम आराधी रे, नरभव निज कारिज साथो रे ॥६॥
 अणसण करि धरि सुह ज्ञाणइ रे, पहुता परभव 'बीकाणइ' रे ।
 पगला अति सुन्दर सोइइ रे, थाप्या थूंभइ मन मोहइ रे ॥७॥
 श्री 'ललितकीरति' उवझायइं रे, परतिष्ठ्या शुभ वेलाइं रे ।
 सुख साता परता पूरइरे, सेवक ना संकट चूरइ रे ॥८॥
 धन धन्न पिता जसु माया रे, 'जयतसी' 'जुगतादे' जाया रे ।
 'मालहू' वंसय सुविसाला रे, कलिकालइ चन्दनबाला रे ॥९॥
 मन शुद्धइं श्रावक श्रावी रे, वंदइ गुरुणी नइ आवो रे ।
 तसु मन्दिर दय दयकारा रे, नितु होवइ हरष अपारा रे ॥१०॥
 'विमलसिद्धि' गुरुणी महीयइ रे, जसु नामइ वंछित लहीयइ रे ।
 दिन प्रति पूजइ नर नारी रे, 'विवेकसिद्धि' सुखकारी रे ॥११॥
 इति विमलसिद्धि गुरुणी गीतं ॥ समाप्तं ॥

(पत्र १ संग्रहमें)

द्वितीय विभागकी अनुपूर्ति ।

श्री गुणप्रभ सूरि प्रबन्ध

दुहा :—

मन धरि सरस्वती स्वामिनी, प्रणमी 'गोयम' पाय ।

गुण गाइस सहगुरु तणा, चरिय 'प्रबन्ध' उपाय ॥१॥

'वीर' जिनेसर शासने, पंचम गणि 'सोहम्म' ।

'जंबू' अन्तिम केवली, तास पाटे अतिरम्म ॥२॥

तिण अनुक्रमे उद्योतकर, 'श्री उद्योतन सूरि' ।

'वर्धमान' वधते गुणे, वन्दो आणंद पूरि ॥३॥

ढाल फागनी :—

'जिनेश्वर' 'जिनचन्द्र' गुणागर, 'अभय' मुणीन्द ।

'जिनवल्लभ' 'जिनदत्त', युगोत्तम नमे नरीन्द ॥

'श्री जिनचन्द्र' 'जिनपत्ति', 'जिनेसर' संभारि,

'जिनप्रबोध' 'जिनचन्द्र' कुशल गुरु, हिव सुखकार ॥४॥

श्री'जिनपदम' विशारद, सारद करे वखाणि ।

'श्री जिन लब्धि' लब्धि गौतम सम, अमृतवाणि ॥

'श्री जिनचन्द्र' 'जिनेसर', 'जिनशेखर' 'जिनधर्म' ।

'श्री जिनचन्द्र' गणाधिप, प्रगटित व्यागम मर्म ॥५॥

'श्री जिनमेरु' सूरीश्वर, सागर जेम गंभीर ।

संवत पनर बिहृतरे, देवगति हुआ धीर ॥६॥

ढालः—अढियानी :—

तव आचारिज इंद, 'श्रीजेसिंह मुणींद' हिवे विमासियो ए ।

भट्टारक पद ठामि, 'छाजेडां' कुलि काम,

बालक आपिसे ए, गुरुपद थापिस्यांए ॥ ७ ॥

श्रावक जन सुविचार, मिलिया मन्त्री उदार,

बालक जोइये ए, परिजण मोहि (ये)ए ।

'ओशवंश' शृङ्गार, 'जूठिल' साख मझार,

मन्त्री 'भोदेवरू' ऐ, तसु देदागरू ॥ ८ ॥

तसु सुत बुद्धि निधान, मन्त्री 'नगराज' प्रधान,

सावय जिनवरू ए, धर्मधुरन्धरू ए ।

'नगराज' घरिणी नाम, 'नागलदे' अभिराम

'गणपति' साह तणी ए, पुत्रीसहु भणीए ॥ ९ ॥

तसु उरि जिस्या रतन्न, मन्त्री 'वच्छागर' धन्न,

कुमर 'भोजागरू' ए, चतुर हां सायरू ए ।

मन आणी उछाह, जाणी धरमह लाह,

संघ आगल रहे ए, 'वछराज' इम कहेए ॥१०॥

ढालः—उलालानी :—

महाजन सहित खमासमण, 'वछराज' करीय विमासण,

उत्तम महरत आणी, बतीस लक्षणो जांणी ॥११॥

'जयसिंहसूरि' उत्संगे, आप्या आपणे रंगे,

'भोज' भाई तिणवार, हरण्या स्वजन अपार ॥१२॥

ढालः—धवल एक गाहीनीः—

संवत पनर पइसठे जाण, शाके चवदे इकत्रीस सम,
मिगसर सुदि चउथी गुरुवार, रात्री गत घटीय इग्यार जनम ॥१३॥
पल इग्यारह ऊपरे तास उतराषाढ ऋष्य योग वृद्धि ।
कर्क लने गण वर्ग ग्रह योनि, जन्मपत्री तणी इसी सिद्धि ॥१४॥

ढालः—उलालानी :—

पनर पंचुहतिरिवर्षे, विहर्या मन तणे हर्षे ।
शुभदिन दीधीय दीख, सीख्या गुरु नी सीख ॥१५॥
दिनदिन बाधए ताम, बीज कलानिधि जाम ।
क्रमे क्रमे विद्या अभ्यास, करेतसु सुहगुरु पास ॥१६॥
सूयो संजम पाले, मयण सुहड मद टाले ।
रायहंस गति हाले, वयणे अमृत रसाले ॥१७॥

ढालः—भमरआलीनी :—

‘योधनगर’ रलियामणो, तओ भ० राज करे ‘गंगेव’ ।
‘राठोड’ वंशे सिरि तिलो, तओ भ०, रिद्धि जिसो सुरदेव ॥१८॥
छाजेड गोत्रे वखाणिये, तओभ०, गांगाओत्र ‘राजसिंघ’ ।
‘सता’, ‘पता’ नोता गुरु तओ भ०, चोथनी आणि अलंघ ॥१९॥
चाचा‘देवसूर’नं इनु तओ भमराली०, ‘सना’ पुत्र ‘दुलहण’ ‘सहजपाल’ ।
(‘सहजपाल’ सुत गुणनिलो—तो ‘मानसिंघ’ पृथिवीराज’ ।
‘सुरताण’ ‘कसतूर दे’ तणा तो भ० सारे उत्तम काज ।
‘सुरताण’ सुत तीन भला, तो भ० ‘जेत’ ‘प्रताप’ ‘चांपसीह’ ।
मात ‘लीलादेवी’ तणा, तीने सींह अभीह *)
मिली सकुटुम्ब विमासियो तो भमराली०, वीनव्यो ‘गंग महिपाल ॥२०॥

* किनारेकी नोट ।

निपुण 'नेतागर' इम कहे तो भ०, सुणज्यो श्री नरनाह ।
 गुरुपद मह मंडिस्यां आ रे ! तो भ०, मांगाइ तुम बोलवाह ॥२१॥
 पामी तसु आएस लो, तो भ०, चिहिदिशि मोकली लेख ।
 संघ लोक सहु आवीया तो भ०, याचक वलीय विशेष ॥२२॥
 सप्तक्षेत्र वित वावर्यो तो भ०, आरिम कारिम रीत ।
 कीधी विगति सोहामणी तो भ०, सुहव गावे गीत ॥२३॥
 लगन दिवस जब आवियो तो भ०, 'बडगळि' 'पुण्यप्रभसूरि' ।
 सूरि मन्त्र गुरु आपियो भ०, वाजे मंगल तूर ॥ २४ ॥
 'जिनमेरु सूरि' पाटे जयो तो भ०, 'जिनगुणप्रभसूरि' नाम ।
 गच्छ नायक पद थापियो तो भ०, दिन-दिन अधिकी मांम ॥२५॥
 संवत् (१५८२) पनरबियासीए तो भ०, फागुण मास सुचंग ।
 धवल चोथ गुरु वासरे तो भ०, थाप्या मन तणे रंग ॥२६॥
 संघ पूज करि हर्ष सुं तो भ०, मागणां दीधा दान ।
 'गंगराय' भेटण करे तो भ०, आपे ते बहुमान ॥२७॥

ढालः—वाहणरी :—

संवत् पनर पंच्यासिये ए संघसाथे शत्रुंजे सुरयात्रा करी ए ।
 'जोध नयरे' आपूज भवियण बूझवेरे ॥२८॥
 चउमासा बारह क्रमें ए हुआ अतिशय गणनाथ आकारण ऊमह्याए ।
 बात करे मिली एम, 'जेसलमेरु' मन्त्री घणा ए ॥२९॥
 धन धन वत्सर मास, धन धन ते दिनुं ए ।
 चरण कमल गुरुराय तणा, जिण दिन भेटसुं ए ।
 नामे हुए नव निद्धि, भय सब मेटीसुं ए ॥३०॥
 थासे जनम सुकयत्थ, सुगुरुनी देसणा ए ।
 सुणतां सूत्र विचार, नहीं कीजे मनां ए ॥३१॥

‘देवपाल’ ‘सदारंग’, ‘जीया’ ‘वस्ता’ वरू ए ।

‘रायमल्ल’ ‘श्रीरंग’, ‘छुटा’ ‘भोजा’ परू ए ।

इण परे लघु समवाय, साखे लेख आवियो ए ।

पठवायां ‘जण पंच’, सुजस तिहां व्यापियो ए ॥३२॥

विधि सुं वंदी पाय, सुगुरु ने वीनती ए ।

करि आपी कर लेख, वदति उलसी छती ए ॥३३॥

मानसरे जिम हंस, पपीहा जलधरू ए ।

तिम समरे तुम्ह नाम, दंसण सावय हरू ए ॥३४॥

हालः—गीता छंदनी :—

हिवे शुभ दिन रे, गच्छपति गजपति चालता,

पुर ग्रामो रे वादी गय मद गालता ।

मरुदेसे रे ‘जेसलमेरू’ महि मालता,

गुरु आया रे, पंच सुमति प्रतिपालता ॥३५॥

पालता पंचाचार अनुपम, धर्म सूधो भासीए ।

आषाढ वदि तेरसी गुरु दिनि, संवत् पनर सत्यासीए ।

परमट्टि विजय सुवेल वाजिन्न, गीत गायति श्राविया

नर नारि सुं मोटे मंडाणे, पोषहशाले आविया ॥३६॥

नित नव नव रे, सरस सधा देसण श्रवे,

सेवय जण रे वंछिय आशा पूरवे ।

राय रांगा रे, तप जप चारित्र गुण स्तवे,

गुरु इण परी रे चन्द्र गळ कुं सोभवे ॥३७॥

सोभवे पूनिमचन्द परगट, वदन नाशा सुर गिरू ।

नवखंड नाम प्रसिद्ध सुणिये, तेज दीपे दिणयरू ।

कलिकाल लब्धि निधान गोयम, जेम महिमा मंदिरू ।

मोतीयां थाल भरी वधावे, सूहव रंभा अणु सुंदरू ॥३८॥

ढाल :—संवत् पनरे चउराणुंइ, 'लूणकर्ण' भूपाला रे ।

जल अभावे जन सीदता, देखी कराला रे ।३६।

संवत् पनर चउराणु ए, (भाग्यवंत भूमंडले) गच्छनायक बोलाया रे ।

कर जोडी ने वीनवे वांदी पूजजीराय (?पाया) रे । सं० ॥४०॥

श्री खरतरगच्छ राजिया, तेरो सुजस अपारू रे ।

कृपा करो सहु जीव नी, वरसावो जलधारू रे । सं० ॥४१॥

मोटी वात मने मनीं, धर्मलाभ आशीसे रे ।

उपाश्रये गुरु आवीने, श्रावक तणी जगीसे रे । सं० ॥४२॥

अट्टम तप मंत्र साधना, आसन तणे प्रकंपे रे ।

मेघमालि सुर आवीयो, करूं काज इम जंपे रे ॥४३॥

करि घट अंबर छाइयो, वरषि वरिष घन गाजे रे ।

तामे चमके बीजलो, जगि जस पडहो बाजे रे । सं० ॥४४॥

सर तलाव द्रह पूरीया, नीर निवाण न माई रे ।

धर्मवृक्ष वधता हुआ, पापज घास सुकाई रे । सं० ॥४५॥

भाद्रव सित पडिवा तिथे, प्रथम पडुर सर पूर्यो रे ।

सुहगुरु इण तप जप करी, काल निशाचर चूर्यो रे । सं० ॥४६॥

दया धर्म दीपाववां, राय पास मुकाये रे ।

बंदी वाणिक गुन्हें पड्यो, निगड बंध भंजावे रे । सं० ॥४७॥

भेरी नफेरी झलरी, ढोल दमामा बाजे रे ।

पंच शब्द जिन परवर्या, गयणि पटोला राजे रे । सं० ॥४८॥

रूपवती सूहव नारी, धवल मंगल मिली गावे रे ।

संखनाद दिशि पूरिने, उपासरे गुरु आवे रे । सं० ॥४९॥

ढालः—अंग दुवालस जाण, आण माने सवे, सुनिवर मोटा गळपती ए ।
 गुरुगुण धरे छत्रीस, खरो क्षमा गुणे, वदन कमल वसे सरसती ए । ५० ।
 चारित चंगो देह, मोह महाभड, जे जग गंजण वस कीयओ ए ।
 चो कषाय मद अट्ट, अंतर अरि दल, खंडी सुजस सदा लीयो ए । ५१ ।
 'जंबू' जेम सुशील, 'वयर स्वामी' वली, तिण ओपमे कवियण तुले ए ।
 आठ प्रभावक सूरि, जिनशासन क(ह)या, महिमा तसु समजण कलीए । ५२ ।
 सायण डायण वीर वावन, ऋषिपति, सूरि मंत्र बले साधिया ए ।
 प्रगट्यो सदगति पंथ, रुंधिओ दुर्गति राहू साहू, संघ वाधिया ए । ५३ ।

ढालः—कोडी जाप एकासण तप सदा रे, करि इंद्रो वश पंच ।

सारणारे २ सीस समापी गण मुदा रे ॥५४॥

काल ज्ञान अने आगम बले रे, जाणी जीविय अंत ।

खांमे रे २ चोरासी लाख प्राणिया रे ॥५५॥

संवत सोलसे पंचावने रे, राध अट्टमि वदी (सु)र ।

वारे रे २ आहार त्रय अणसण निय मने रे ॥५६॥

संघ साखि पचखाण झयारसे रे, आरुही डभ्रा संथारे ।

भावे रे २ भरत तणी परिभावना रे ॥५७॥

पूजक निन्दक बिहुंपरि सम मने रे, अरिहंत सिद्ध सुसाध ।

ध्याइरे २ पनर दिवश, जिनधर्म संलेखने रे ॥५८॥

सूत्र अरथ चिंतन चितलाईओ रे, आलोइय पडिकंत ।

सुहगुरु रे २ कालमास, इम पंचतु (त्व) पाइयो रे ॥५९॥

वस्तुः—वरस नेऊ २ मास बलि पंच, पण दिन ऊपरि तिहां गणिय ।

सुदि नऊमी वैशाह मासे प्रहवि, हसीय? अमृत घटिय सोमवार।
सुरलोक वासे जय २ कार करंति जण, गुण गावे सुर नारि ।

‘श्रीजिनगुणप्रभुसूरि’ गुरु, सयल संघ सुहकार ॥६०॥

इम गच्छ नायक कला गुणगण रयण रोहण भूधरो ।

संथार चारों तंगवारण, खंधवास स चौवरो ।

‘श्रीजिनमेरु सूरिंद्र’ पाटे, ‘जिनगुणप्रभु सूरि’ गुरो ।

तसु धवल ‘जिनेसर सूरि’ जंपे, ऋद्धि-वृद्धि शुभंकरो ॥६१॥

श्री जिनचन्द्रसूरि गीतम्

हालः—सकल भविक जिन सांभलो रे ।

‘मरुधर’ देशे मंडणो रे, श्रीपुर ‘बोकानेर’ ।

‘रूपजी शाह’वसे तिहां रे, धनकर जेम कुबेर
धनकर जेम कुबेर रे साचो, ‘रूपा दे’ तसु घरणी वाचो ।

जायो पुत्र रतन्न जिन (जा)चो, भवियण लुळ लुळ चरणे राचो ।
जी हो ‘जिनचंद्र’ जी जी हो, तूं जिन सासण सिणगारके ।
गिरुओ गच्छपती हो तूंतो संवेगी सिरदारके । सेवे सुरपतीजी ।१।
कल्पवृक्ष जिम वाधतो रे, सरव कला परवीण ।

बालक वये धर्मनी दिसा, समता रस लवलीण रे ।

समता रस लवलीण रे जाणो, मात पिता मन उल्लट आणी ।

गुरुने विहरावे शुभ वाणी, बात एह ओसंघ घणी सुहाणी ।२।

मत्तिसागर विहरी करी रे, ‘श्री जेसलमेर’ गिरि आया ।

‘वीरजी’ ने देखी करी, श्रीपूज्य घणुं सुहाया ।

श्री पूज्य घणुं सुहाया रे भाइ, सेंहथ चारित्र दे सुखदाइ ।

‘वीरविजय’ ओ नाम सवाइ, आपणी विद्या सयल भणाइ । ४ ।

अवसर जांणी आपियो रे, सहर्ष आपणो पाट ।

श्रीसंघ 'जेसलमेरु' में रे, क्रीधो अति गहगाट ।
क्रीधो अति गहगाटो रे वंदो, 'श्रीजिनचन्द्रसूरि' गच्छ चंदो ।

कुमति ना मत दूरे निकन्दो, मेरु तणी परे निंदो । ५ ।
सोभागी जंबू जिसो रे, रूपे 'वयरकुमार' ।

शोले थूलभद्र सारिखो रे, लब्धे गोयम अवतारो ।
लब्धे 'गोयम' अवतारो रे ऐसो, दूणकी हे केसौ..... ।

सूरके आगे खजुओ जेसौ, इण आगे सभ कुमती तैसो । ६ ।
'श्रीजिनेश्वर सूरि' ने रे, पाट प्रगट भाण ।

'वाफणा' गोत्र कला निलो, गच्छ 'वेगड़' सुलताण ।
गच्छ 'वेगड़' सुलताण रे साचो, ओर कुमति कहावे काचो ।

'महिमसमुद्र' गुरु चरणे राचो, कवियण इम गुरुना गुण वांचो । ७ ।

नं० २ राग गौडी भावननी

परम संवेगी परगडो रे, चावो जस चिहुं खंडो रे ।

चीतारे वडा छत्रपती रे, नाम जपे नवखंडो रे ।
कहो किम वीसरे, ते गुरु जुगपरधानो रे ।

'जिनचन्द्र सूरिजी' साधु सिरोमणि जाणो रे । १ ।
पंच महाव्रत पालता रे, करता उग्र विहार ।

भविक जीव प्रतिबोधता रे, कूड न कपट लिगारो रे । २ ।
सूधो धरम सुणावता रे, अविरल वाण वखाण ।

मेघतणी परे गाजतो रे, साचा चतुर सुजाणो रे । ३ ।
सुधा संशय भांजता रे, प्रवचन वचन प्रमाण ।

कुमति मति कुं खंडता रे, धरता नित धर्मध्यानो रे । ४ ।
शुद्ध प्ररूपक साधुजी रे, हुंता धरम जिहाज ।

गुणियोंने आश्रय हुंता रे, लेखवता सहु लाजो रे । क । ५ ।

पंडित ना पालक बडा रे, दीनो तणा आधार ।

तेहने तुरत तेडाविया रे, कीधो सुं किरतारो रे । क।६१
हंस तणी पर हालता रे, पंच सुमति प्रतिपाल ।

ते गुरु सां सइया नहीं रे, बालतणी परिकालो रे । क।७१
चन्द्रगच्छ ना चन्द्रमा रे, गच्छ 'खरतर' सिणगार ।

वेगड विरुद धरण बडा रे, जिनशासन जयकारो रे । क।८१
गच्छनायक दोसे घणा रे, पिण कुण तारा सरोख ।

तारागण सहु ए मिली रे, कहो किम सूरि सरीखो रे । क। ६ ।
धन 'रूपा दे' मावडी रे, धन 'वाफणानो 'रे' वंश ।

धन कुल 'भरत' नरोन्दनो रे, जिहां उपना गुरुराय हंसो रे । क।१०।
सुगुरु 'जिनेश्वर सूरिजी' रे, थाप्या जिण निज पाट ।

ठाम ठाम धर्म दीपव्यो रे, वरताव्या गह गाटो रे । क।११।
संवत् सतर तिरोतरे रे, भृगु तेरस पोष मास ।

करि अणशण स्वर्गे गया रे, धर जिन ध्यान उल्हासो रे । क।१२।
'श्री जिनचंद्र सूरिन्द्र' ना रे, गुण गावे नर नार ।

तिण घरि रंग वधामणा रे 'महिमसमुद्र' जयकारो रे । क।१३।

श्री जिनसमुद्रसूरि गीतम्

रागः—तोडीः—

आज सफल अवतार । सखीरो ।


श्री 'जिनसमुद्र' सूरिेश्वरं भेद्यो 'वेगड' गच्छ सिणगार । स० । १ ।

श्री 'ओश वंश' 'श्रीमाल' प्रमुख सहु आवकां सिरदार ।

आदर सहित सुगुरु आप्या, तिण श्री 'सांस 'नगर' मझार । २।
'श्री श्रीमाल' 'हरराज' को नंदन * जिनचन्द्रसूरि पटधार ।

'महिमा हर्ष' कहे चिर प्रतपो, जिन शासन जयकार । ३ ।

* अन्य गीतमें माताका नाम लखमादे लिखा है ।



भरतयोगी ज्ञानसारजी व वाचक जयकीर्तिजी
(मूल चित्र—श्रीजिन कृपाचन्द्रसूरि ज्ञान भंडार-बीकानेर)

॥ श्रीमद् ज्ञानसार अबदात दोहा ॥



उदैचन्द्र सुत ऊपज्यौ, लीयो विधाता लोच ।
देवनरायण दाखवुं, को अजव गति आलोच ॥ १ ॥
अढारै इकडोतरै, छाक मैल री छांड ।
मात जीवण दे जनमीया, सांड जात नर सांड ॥ २ ॥
वास जेगलै वैत सुं, दीवां जनम उदार ।
वरस बार बौली गया, बारौतरै री वार ॥ ३ ॥
श्री जिनलाभ सूरिसरू, भट्टारक भूपाल ।
वीकानेरज वंदोयै, चढ़ती गति चौसाल ॥ ४ ॥
सीस वडाला वडमती, वडभागो वडरीत ।
रायचन्द्र राजा ऋषि, प्रगट्यो पुण्य प्रवीत ॥ ५ ॥
तिण पाटै इण कलि तपै, जाण्यो थो निरहेज ।
वायै डम्बर वोखरै, तरुण पसारै तेज ॥ ६ ॥
प्रणमें सूरतसिंह पय, मिल्यो जनम रो मीत ।
ज्ञानसार संसारमें, आखै लोक अदीत ॥ ७ ॥
सीस सदासुख साहरै, चलि आवै चौराज ।
अवणे तौ में सांभल्यो, आंणर दीठौ आज ॥ ८ ॥
बाबाजी वायक अखै, अखै राठोडौ राज ।
खरतर गुर सगला अखै, रतन अखै महाराज ॥ ९ ॥



काठिन शब्द-कोष

—*—

अ

अकथ	९९	अकृतार्थ, निष्फल
अख्यात	२५८	चिरस्थायी
अखीणमहाणसि	३०	वह शक्ति जिससे भिक्षान्न सैकड़ों लोगोंको खिलाने पर भी कम न हो जब तक कि लानेवाला स्वयं भोजन न करे ।
अखोड	११५	अखरोट
अगडी	३३०	नहीं किया हुआ, कठोर अभिग्रह ।
अगंजित	३४	अपराजित ।
अघोरा	९१	जो घोर (विकट) नहीं है ।
अज्जवि	१	आज भी ।
अजुआली	३३१	उज्ज्वल ।
अड	३३	आठ ।
अडगनिया	१५७	कानका आभूषण विशेष ।
अडोल	३५९	अटल ।
अढलक दान	३०१	प्रचुर दान ।
अणगार	६२, १६६	घर रहित, मुनि

अणभिडिउ	३४	सामने नहीं हुआ, भिड़ा नहीं ।
अणुक्कमि	३९८	अनुक्रम ।
अणुसरहु	३६७	अनुसरण करो ।
अणुसरीए	३३९	अनुसरण ।
अत्थथ	३६८	अर्थ-अर्थ ।
अत्थि	३७८	अस्ति, है ।
अनडाँ	२५८	अनम्र ।
अन्नलि(गाडिउ)	३६६	अन्नल राजा- का गढ़ ।
अनिमिप	५५	बराबर, एकटक, देव ।
अनेरिय	३९३	दूसरी ।
अप्पियउ	१६	अर्पित किया, दिया ।
अबलिय	१८	बलहीन ।
अबुदहु	३६५	अबोध ।
अबंझ	५	अबन्ध्य, सफल ।
अभ्याख्यान	२७९	मिथ्या कलङ्क ।
अभिग्रह	३४९	प्रतिज्ञा ।
अभिधा	२७२	नाम ।
अभिनवेरउ	९५	नया, अभिनव ।
अभिहाण	१७९	नाम ।
अमग्गउ	३७१	कुमार्ग, मिथ्यात्व
अमलीमान	८९	निर्मल मानवाला

अमारि	१०२ अहिंसा ।	असराल	९० वक्र, जहरीला
अमी	४१० अमृत ।	असिणि	१८० अश्विन
अमीझरड	१७० अमृत झरनेवाले	असिय	३२ अशित, भक्षित
अमूलिक	३३७ अनमोल ।	असिव	९६ अमङ्गल
अयरावड्	३२ ऐरावत, हाथी	अहिनाण	३४९ अभिज्ञान, पहचान, निशानी ।
अयाण	४० अज्ञान, मूर्ख	अहियासने	३२९ वेदते, अनुभवते
अरगचा	८४ अरगजा	अहिठाण	अधिष्ठाण
अरचा	१९८ पूजा	अंग	१८३ जैन शास्त्र
अररि	३२ अरेरे	अंगोल	७ पुत्र
अर्मक	२७१ बालक	अंबाड़ी	३४७ हाथीकी अंबारी (हौदा)
अलजयो	२९४ मनोरथ	अंबाएवि	३० अम्बा देवी
अलजो	८७ विरहस्मरण, ओलूआना		आ
अलिअ	८६ अलीक,अप्रिय, बुरा ।	आउखड	३० आयुष्य
अलीय	१०० अलीक,मिथ्या	आउखो	२९६, ४०९ आयुष्य
अवगाहए	६ अवगाहनकरना	आएसि	३८७ आदेश
अवडा	१७ अयोध्या	आकरा	१४८ अत्यन्त कठिन
अवदात	१७०, २६९ गुण, चरित्र, निर्मल ।	आखडी	३१६ निषेधात्मक प्रतिज्ञा, व्रत
अवधारो	२९९ स्वीकार करो	आखातीजइ	३९७ अक्षयतृतीया
अवयरिड	२२ अवतार लिया	आगर	८१ घर, निवास
अवरोह	३० अन्तःपुर, घेरा प्रतिबन्ध, रोकना ।	आण,आणा	३७०, ३७१ आज्ञा
अवल	३३ अबला, नारी	आणदिणि	१ आनन्ददायक(में)
अवहरइ	१ दूर करता है	आदेशकार	१०६ आज्ञाकारी
अविहड्	१७८ अटल, अविहत	आनुपूरवी	१९६ कर्मका एक भेद, अनुक्रम
असमानो	८४ असमान		

आपै	९७ देता है	इलि	२५३, ३७३ पृथ्वीपर
आम	४०८ इस प्रकार	इसडे	१९० ऐसे
आम्नाय	२७३, २८४ परम्परा, सम्प्र- दाय ।	इंटाल	३२९ ईंटोंसे
आम्बिल	११५ तपस्या, (६विगर्यों का त्यागविशेष)	इंदा	२८५ इंद्र
आयरिय	२६ आचार्य	ई	ई
आरखे	१९० प्रकार	ईति	३२७ धान्यादिको हानि पहुंचाने वाले चूहादि प्राणी ।
आरा	२८२ चक्र	ईयाँ (सुमति)	२६२ विवेकपूर्वक चलना
आराहण	५५ आराधन	उ	
आरिज	१६०, ३७६ आर्य	उइखहु	३६५ उपेक्षा करना
आरुहड	१६६ चड़ा	उकेश	३०७ उपकेश, ओस- वाल
आलंगिउ	३९३ आलिङ्गन	उक्कंठिउ	३९२ उत्कण्ठितहुआ
आलि	२४ व्यर्थ	उखेवे	३३१ खेना
आलीजा	१०८ प्रेमी	उगमणे	२८ उदय होनेपर
आलोयण	३४८ आलोचन	उच्छंगि	६८, ३१५, ३४४ गोद
आवतिया	१०४ आ रहे हैं	उच्छरंग	उत्साह, उत्सव
आवर्त्त	३०० दोनों हाथ गुरु के पैरोंपर लगा कर अपने मस्तक पर लगानेकी वन्दन क्रिया ।	उजवालग	२९३ उज्ज्वल करना
आसन्नसिद्धि	२९० निकट मोक्षगामी	उज्जोइउ	१, ३६६ प्रकाशित क्रिया
आसंगायत	४१४ आश्रयवर्त्ती, आधीन	उणइ	४९ उसने
इक्कह	३३ एक-एक	उत्तंग	३३५ ऊंचा
		उत्थपिय	२९ उखाड़ा
		उत्सूत्राविधि	२६ उत्सूत्रऔरअविधि
		उथपिय	४५ उखाड़ा

उदेग	४०४ उद्वेग
उद्दगता	२९२ उदय हुए
उद्घोषणा	२८८ घोषणा, ढंढोरा
उपदिसि	९४ उपदेशकर, कहकर
उपधान	८७ तप विशेष
उपनले	११ उत्पन्न हुए
उपशम	६२, १३०, ३२०, ३२३ शान्ति
उपसमण	३६७ उपशमन
उप्पलु	२७ उत्पल कमल
उबरन	३२ उदुम्बर
उभगाउ	१६२ उद्विग्न हुआ,
उम्मूलिय	३५ उन्मूलित क्रिया
उयरइ३३३, ४०३, ३२२	उदरमें
उलट	१४५ हर्षोत्साह
उल्लास	३५२, ४०६ प्रसन्नता
उवज्झाय	२८, ५६, ५७ १३४, १३५, २३१, ३५५, ३४०, ४०२ उपाध्याय
उवसग	२० उपसर्ग
उसभ	२ ऋषभ
उत्सासहि	४० आनन्दित, उत्साहित
उं'बरा	८७ उमराव
	ऊ
ऊगाहउ	५६ ढोकना, चढ़ाना
ऊनघां (थां)	२५८ उहं'ड

ऊनविउ	१४ उमड़ना
ऊभविथ	१८ ऊं'चा किया जाना
ऊमाहो	२२५ उमंग उत्साह ए
एकरस्यु	३०२ एक बार
एरिस	३७ ऐसे
एषणासमति	२६२ एषणा समिति, निर्दोष आहार का ग्रहण ।

ऐ

ऐरावण	२६४ हाथी
-------	----------

ओ

ओठीडा	३०२ ऊंट सवार
ओलगइ	८४ सेवा करता है
ओसउ	१५४ औषध

क

कइ	१ कृत, किया
कइयइ	१५७ कब
कए	१ करनेपर
कचकडउ	११४ वस्तु विशेष
कचोल	३५१ कटोरा
कजारंभ	५ कार्यारंभ
कटरि	३९८ आश्चर्य और प्रशंसा बोधक अव्यय
कटारिआ	१८८ गोत्रका नाम
कट्ठु	३६५ कष्ट
कडयड	३६६ कडकडी आवाज

कणय	३८७	कनक, सोना, गेहूँ	काप्या	४१२	काटे
कणयाचल	३९	कनकाचल, मेरु	कामगवी	१२३, २९७	कामधेनु
कथीपानइ	९३	बस्त्रविशेष, गुरुके चलनेके समय पैर धरनेके लिये वस्त्र बिछाया जाता है	कामकुंभोपम	८	कामकुंभके समान
कदाग्रही	३१६	दुराग्रही	कामित	९९, १२३	इच्छित
कप्पड	३९३	कपड़ा	कारवइ	३८७	कराता है
कप्पयस्	४०	कल्पतरु, कल्पवृक्ष	कार्तस्वर	२६४	स्वर्ण !
कप्पतरो	१७	" "	कित्ति	३८९	कीर्त्ति
कप्पम्	१	कल्प, कथा	किन्न	१७	कृष्ण
कमला	३९४	लक्ष्मी	किवाणि	३२	कृपाण
कय	२१९	कृतः क्रिया	किसण	१	कृष्ण पक्ष
कम्मपयडी	२६६, २७३	कर्म प्रकृति	किंपि	३६७, ३७९	किमपि, कुछ
करट	३८	हाथीका गंडस्थल	किलिट्टु	३४०	क्लिष्ट
करटि	३८	हाथी	कीलइ	११३	कीली
करंतउ	३९७	करता हुआ	कुगह	१६	कुग्रह, दुष्ट ग्रह
कल्याणु	३७१	कल्याण	कुच्छि	३९१	कुक्षि
कवराव	३१०	कविराज	कुडि	२८४	मिथ्या
कव्व	१	काव्य	कुणंति	१	कहना
कव्वट्ट	३	कवित्त, काव्य	कुंकउती	१७	कुंकुम पत्रिका
कषाय	३९३	क्रोध, मान, माया लोभ (४ संसार वृद्धि हेतु)	कुंट	३११	कोने
कसबोकी	१९७	जड़ाऊ, चित्रित	केदारा	१०४	राग विशेष
कहर	४०७	मौत	केरउ	१०४	का
कंख	६४	चिन्ता, दुविधा	केसूडा	३९१	केसूके फूल
काउसग्ग	३२९	कायोत्सर्ग	कोटीर	३६१	श्रेष्ठ, अग्रणी
कागल	१३३	कागज	कोड	३११	कौतुक
			कोडि	८७, ९९	कोटि
			कोडीधज	४१६	करोड़पतिः
			कोतिल	२९३	कोतल तेज घोड़े
			कंचूअउ	१९७	कंचकी

कंठीर(व)	३८४	सिंह
कंपिनइ	१२	कांपकर
कंमिण	३६७	कर्म, कृत्य
कंसाल	३,१६४	कांसीका वाद्य विशेष
क्रमि	३६९	चलकर, क्रमसे
क्रिया उधार	२७७	शुद्ध मार्गका उद्धार

ख

खड्डां	१६३	खड्ड
खग्ग	३९२	”
खटण	३११	प्राप्त करना
खपाया	४११	पूरे किए, नाशकिए
खमाया	२०९	क्षमा करवाया
खमाविनइ	३३०	क्षमा करवाकर
खरड	३७९	सचा, खरा
खरहरय	३६७	खरतर
खंति	३८०	ध्यान
खंति कखर	३४	क्षांति, तेज
खम्यो	२९१	सहन करना
खाटीजइ	१६२	संचय करना, प्राप्त करना
खाटै	४१०, ४१९	स्थापित करना
खांत	४०८	ध्यान, क्षांति
खान	९३	मुसलमान सरदार
खाभो	२८४	कमी, त्रुटि
खिजमति	२८२	खिदमत, सेवा

खित्तवाल	४	क्षेत्रपाल
खिसए	३८७	इटना
खिहाला	१९४	खाद्य वस्तु विशेष
खोरइ	३०	क्षीर, दुग्ध
खेतरपाल	४०९	क्षेत्रपाल
खोणि	३६	क्षोणी, पृथ्वी

ग

गउड	१०६	गौडी रागणो
गउ (ड) यडइ	३७	गिडगिडाना
गउरी	१०४	गौरी
गच्छ	२८६	समुदाय
गजगाह	१६९	हाथियोंकी घटा
गजगति गेलि	१६९	हाथीकी चालके समान चलना
गजथाट	१६८	हाथियोंका समूह
गणहरु	२	गणधर
गय	३३	गज
गयणु	२	गगन
गरट्टिउ	३३	गरिष्ठ, बड़ा
गरढो	३४३	वृद्धा स्त्री
गरीओ	२७०	बड़ा
गहयड	१७९	बड़ाभारी
गलिय	३३	गल गया
गहगहइ	३४०	प्रसन्न होना
गहगहिय	४०१	” होकर
गहगाट	१६९, १६८, ३०१, ३१९	प्रसन्नता सूचक शोर

गहिर	३	गहरा
गहूँली	३३७, ३३८	गेहूँकी ढगली गुरुगीत
गंजणू	४९	गंजनकरनेवाला
गाप्सू	३८४	गाऊंगा
गायसिए	३४०	”
गाल्यउ	८०	गलाया बिताया
गिडगिडी	१६४	वाद्यविशेष
गिरुआ	३००	बड़ा
गुजरी	१०९	रागका नाम
गुणनिलो	९७, १४७	गुणोंका आवास
गुणनिहाण	३१	गुणनिधान
गुदराणी	१४२	अरज की
गुपति	११६, १७९, २९७	संयमित करना
	४१६	
गुरुपसाये	२९७	गुरुके प्रसादसे
गुली	१९७	नजर नहीं लगानेके लिये बांधा जाता है
गू डिय	३८१	पताका
गूडी	१८, ३१६	”
गोइक	३४	गाय औरआक

घ

घट्टि (थट्टि)	२९	ठाठ
घणतूर	३८८	बहुतसे बाजे
घरणि	१७	ग्रहिणी

घातण	३०१	डालना
घुराया	३०३	बजाये
घुरे	३३८	बजे
घोल	१९६	कपड़ेसे छाना हुआ दही

च

चउपर्वी	१४३	४ पर्व तिथी
चउसठि	१८०	चौसठ
चउसाल	१००	चौसाल, चतुः शाला चारोंओर
चकरडी	१९८	चकरी
चक्रधरो	३८९	चक्रधर, चक्र- वती राजा
चमक्रिय	३८८	चमका
चंग	३७७	अच्छा
चारण	१६९	जाति
चारित	१६३	चारित्र
चियवास	४९	चैत्यवास
चूका	१६३	भ्रष्ट होना विंचलित होना
चूडावयंसु	२१	चूडावतंस
चूनडी	३३३	वस्त्र विशेष
चो	२९८	का
चोल	१९८, १८०	मजीठ
चोवा	८४	मुगंधित पदार्थ विशेष

छ

छछेद	१८३	आगम छछेद सूत्र
------	-----	-------------------

छडा	३७७	छटा, छांटा	जालवइए	११३	जलाना
छपदा	३५२	षट्पद, छप्पय	जालवीजइ	३९३	सुरक्षित
छयल	१९०, ३९०	रसिक			रखना संभा-
छलियइ	३७९	छलना			लना
छविह	२४	छ प्रकार	जाह	३७०	जिसके
छातिया	१०४	छाती, वक्षस्थल	जिगवरु	३६५	जिनवर
		ज	जिगवय	२५	जिनपति
जइणा	२४	यतना	जिणिंदु	३६६	जिनेश्वर देव
जईसर	३१२	यतीश्वर	जीपइ	३५२	जीतता है
जईसू	१६	यतीश	जीह	२५८	जिह्वा
जउख	८२	आनंद, विश्राम	जुग पवरु	३	युग प्रवर
जगत्र	३१८	जगत	जुग पहाणु	२२	युगप्रधान
जगीश	८२, १०७, ४१०	इच्छा	जुगवर	२४	युगमेंश्रेष्ठउत्तम
जल्थ	२४	जहां	जेत्र	९७	जय सूचक
जमाडि	२८९	जिमाकर	जोइणि	२	योगिनी
जम्पइ	१६३, ३३९	कहता है	जोडली	३६२	युगल, जोड़ी
जम्बुय	३४	गीदड़			झ
जम्मक्खणि	३४	जन्मक्षण	ज्ञानावरणी	३२३	कर्मका नाम,
जम्मु	२३	जन्म			ज्ञानको आ-
जयतसिरो	१०५	रागका नाम			वरण करनेवाल-
जयपत्तु	२	जयपत्र	झइहइ	३६५	गिरना झडना
जसु	३६९	जिसका	झाहों	३३०	झांकी, आभास
जाइगा	३७६	जगह	झाशेरड़ा	१२०, ३२६	अधिक, विशेष
जागरि	१५३	जागरण	झाडाया (ला)	१००	छुड़ाया
जान	४१२	बरात	झाण	१	ध्यान
जानउत्र	३८०	बरात	झायहु	३८५	ध्यावो
जानह	३८०	बरातकी	झालर	३११	झालर, वस्त्र
जामणहि	३१	यामिनी			विशेष
		(रात्रि) में	झाला	३०२	जाति विशेष

झालिहि	३८८	संभलता
झीलता	६२	अवगाहन क- रना, नहाना, गरकाब होना
झुणि	३८७	ध्वनि
झोलउ	११३	झोली, झोला
ट		
ट्टियउ	२	स्थित
ठ		
ठरे	२७२	ठण्डा होना
ठवणादिक	२८०	स्थापनादि ४ निक्षेपा
(पय) ठवणुछवर	१,२२	पदस्थापनोत्सव
ठविउ	२	स्थापित किया
ठविज्जय	३५	स्थापितकिया जाता है
ठविय	२७	स्थापित करके
ठवीया	२७७	स्थापित किया
ठिकरि	१५४	ठीकरा
ड		
डमडोलइरे	१६०	चंचल होना
डमर	५,१०४	उपद्रव
डाक डमाल	२६२	आडम्बर (झाकझमाल)
डांण	२६०,४१४	तेज
डोकरपणि	१६३	वृद्धावस्थामें
डोहइ	१५७	गिराना
डोहला	१५४,१८०	दोहद

ढ		
ढक,बुक	१७	वाद्य विशेष
ढकारविण	३६६	ढक्का (वाद्य) के रच शब्दसे
ढणहण	३९४	झरझर
ढलकती	३३३	धीरे धीरे चलती हुई
ढाल	६०	रागकी रीति विशेष
ढीक	३४५	गरीब
ढूकडा	३००	पहुंचे, पास
ढेल	३३३	ढेलनी, मयूरी
त		
तक्क	१	तर्क
तत्तचंतु	३६८	तत्त्ववान
तत्थ	३९०	वहां, तत्र
तपला	१४१	तपा गच्छीय
तयणु	३९५, ३९६	तब
तयणंतरु	१६	तदनंतर
तरणि	३६६	सूर्य
तरतउ	१५७	तैरता हुआ
तरंडय	३६७	नौका
तलीया	३१६	विस्तृत
तव	३८५	तप
तसपटे	२९२	उसके पाटपर
तह	३७१	तथा
तहति	१५३	तथेति, ठीक है ऐसा

तहु	३७१	उसके	थ	
ताणज्यो	२८९	पसारना	थलवट	२९९ थली प्रदेश, मरुस्थल
तिडावे	४१६	बुलाना, आमंत्रित करना	थयउ	१३३ हुआ
तित्थु	३६९	तीर्थ	थाकणे	३९३ ठहराव
तिय	३९	त्रिया, स्त्री	थाप्या	३३२ स्थापित किया
तियस	२९	त्रिदश, देव	थानकि	३९३ स्थानमें
तिलउ	१२,२४,२७	तिलक	थापण	१६९ स्थापण, धरोहर
तिलो	१९२	”	थापना	८९ स्थापना
तिब्धु (त्यु)	३६६	तीव्र, तीर्थ,	थाल	१७९ बड़ी थाली
तिसंझ	९	त्रिसंध्या	थिवर	२२० स्थिवर
तिहुअण	२,६	त्रिभुवन	थुइ	३७१ स्तुति करता है
तिहुयणि	३८७	त्रिभुवनमें	थुणइ	३९९,४०० ” ”
तुंगत्तणि	३३	ऊंचाई	थुणवि	१ स्तुति करके
तुंगी	३१	रात्रि	थुणस्सामि	२४ स्तुति करूंगा
तूठी	४०८	प्रसन्न हुई	थुणहि	१,३७१ स्तुति करते हैं
तूंगीया	२३९	पर्वतका नाम	थुणि	३३ ”
तूर	३०१	बाजा	थुंभ	९७,२०७ स्तूप
तेगदार	१९९	तलवार वाला	थुंभ	३२०,४०६ ”
तेय	३८९	तेज	थोक	२९७ काम, बात
तेरणवार	३१६	द्वार	द	
त्रटकी	२७६	तडककर	दट्ठुण	३९१ देखकर
त्राडूकइ	२६२	दडूकता है, दहाड़ता है	दमणा	१९२ फूल विशेष
त्रिकरण	९९,२९४	तीन करण (करना कराना अनुमोदन)	दरसणियां	८१ दर्शनी (दर्शन शास्त्री)
त्रिवली	१६४	तीन वलय वाद्य विशेष	(कमल) दलावल	९ कमल दलकीपंक्ति
			दव्व	२४ द्रव्य
			दसूट्टण	१९६ दसोटण

दंगणु	४०७	जलाना
दंसण	३८८	दर्शन
दाखवुं	३२१	कहूँ
दादइ	३४९	दादेने
दिक्खा	३९	दीक्षा
दिणि	१	दिन
दिवाजउ	६७	शोभा
दिवांने	१४७	दरबार
दिवायर	७	दिवाकर, सूर्य
दिवायरु	२०	”
दीठेली	१२	देखी हुई
दीदार	३०३, ३४८	आंख, दर्शन
दीवंमि	१	दीपक
दुकरु	३७९	दुष्कर
दीस	४१३	दिन
दुकरकार	१६३, १६४	दुष्कर कारक
दुगय	४०	दुर्गति
दुट्टदल	४	दुष्टदल
दुडवडी	१५५	जल्दी
दुत्तारि	३६७	दुस्तर
दुतारो	१६४	दुस्तार
दुरंग	१६७	किला, दुर्ग
दुल्लह	१५	दुर्लभ
दुविस्सह	३६७	दुर्विषय
दुसम	२६१	कठिन, बुरा
दुहेलउ	३७९	दुष्कर
देवाणुप्रिय	२६५, ३२३	देवानांप्रिय
देशना	११६	व्याख्यान
देसण	४९, ८९	”

दोंकार	१६४	तबलेकीआवाज
दोगंदक	१५१	देवताकी जाति
दोहगु	३७१	दौभाग्य
दोहिला	१६३, ३२३, ३९३	दुष्कर
द्रंग	२६८	दुर्ग
द्रू(रू)यमणि	३३	रुक्मिणी

ध

धखावे	२७९	सलगावे, जलावे,
धनदाण	५१	धन देनेवाला
धणुहरु	३६५, ३६६	धनुर्धर
धम्ममई	३३५	धर्ममति
धय	२२	ध्वजा
यवड	३६६	ध्वजपट ध्वजा
धवरावह	१५७	लडाना, प्यार करना
धवल मंगल	३६२, ३८८	मंगल गायन
धाडि	३७७	डाका
धींगड	३१४	मोटे, जबरदस्त मजबूत, पुष्ट
धींगा	१९३	”
धुयरय	३१	धुतरजः ?
धुरहि	३५	प्रथम आदिमें
धूतारी	३४८	धूर्त स्त्री
धोक	४१३	साष्टांग प्रणाम

न

नगीनो	३५४	जवाहिरात
नन्दी	१८३	सूत्र
नमेवी	३८४	नमस्कार करके

नयनिमल	३२	नीतिमें निर्मल	निद्धड्ड	३६	परास्त करना
नयारि	१	नगर	निभंत	३३	निभ्रान्त
नरभव	२४	मनुष्यभव	निय	१६	निज
नरवय	२	नरपति	नियुमणि	३६७	अपने मनमें
नवगीय	२९	नव प्रवैयक	नियमन	६२	निज मन
नव्याणु	३२६	निनानवे ९९	नियरू	१	निकर, समूह
नही	१०	नहीं	निरीहो	१३	अनाशक्त
नाइसक्या	२९४	नहाँ आ सके	निरुत्तउ	३९	निश्चित
नाडय	१	नाटक	निलउ	६, १७९	निलय, घर
नाण	१, ६, ३८९	ज्ञान	निलो	३१४, ३१६	"
नाणवंत	३६६	ज्ञानी	निलवट	१८१, २९९	ललाट
नाणिहि	४९	ज्ञान रूपी	निवड	१९९	घनिष्ट
नाथणा	२९८	नाथ डालना, वशमें करना	निवेश	१७९	स्थान
नादौ	८०	आवाज	निष्पन्न	२७१	सम्पन्न
नान्हडियउ	१६३	छोटा	निसम्ये	२७६	सुनकर
नामउ	१६६	नाम	निसाले	३२२	पाठशाला
नारिग	३२	नारिग, मीठा नीबू	निसियरू	३३	निशावर, राक्षस
निकाचिय	३९६	निविड रूपसे बन्धन	निखणवि	२१	सुनकर
निगोद	३२९	अनन्त जीवोंका एक साधारण शरीर विशेष	निखणेवि	३९३	"
निग्रंथ	२७०	परिग्रह रहित	निहतरइ	१९६	नोतरना, आमं त्रित करना
निचुवु	३०१	नित्य	नीकउ	११८	अच्छा, भला
निज्जणवि	३९, ३९	जीता	नीगमउ	२४	गमादो
निज्जिणउ	३१, ४९	जीता	नीझामता	३३०	पार पहुँचाता
निटोल	९१, १२०	व्यर्थ	नीलवण	३३०	लीलोती, हरियाली
			जीवाणो	१३०	नीचा स्थान
			नेजा	३९३	भाले
			न्यात	३११	ज्ञाति, जाति

न्हवरावइ	१५७ नहलाता है	पच्चक्खु	१५ प्रत्यक्ष
	प	पट्टंतरु	३६७ उपमा
पउम	३६७ पद्म	पटोघरु	१७६ पट्ट (पद)
पउमएवि	१५ पद्मादेवी		को धारण
पउमप्पह	३२ पद्मप्रभ		करनेवाले
पइसरइ	२ प्रवेशके समय	पटोला	५३ रेशमी वस्त्र
पखरिय	३२ पाखरना	पडखीजई	३४९ प्रतीक्षा करना
	(प्रक्षरितः)	पडह	३,३१८ पट्ट वाजा
पगला २५७,३३२,४०५	पादुका	पडाग	२२ पताका
पचखाण ११३,३२६,		पडिकमणउ १८२,१३३	प्रतिक्रमण
	३५७ प्रत्याख्यान	पडिकार	३६६ प्रतिकार
पचख्या	३३० प्रत्याख्यान-	पडिपुन्न	८९ प्रतिपन्न, पूर्ण
	क्रिया	पडिबिम्ब	४ प्रतिबिम्ब
पजूसण	३५१ पर्यूसण पर्व	पडिबोह २,१९,२७,	
पंचभाचार	४९ ज्ञानाचार,	३८८,४०२	प्रतिबोध
	दर्शनाचार,	पडिरवण	१८ प्रतिरवसे,
	चरित्राचार,		प्रतिध्वनिसे
	तपाचार,	पडीमा	२८० प्रतिमा
	वीर्याचार ।	पडूर ६८,७७,२५९	प्रचुर !
पच्चंगि	३४० पांच अंग	पणासइ	२०,३६२ नाश करता है
पच्च विषय	४९ पांच इन्द्रियों-	पणासणु	१६ प्रनाश करने-
	के ५ विषय		वाला
पञ्चाणु	३३ पंचानन, सिंह	पत्त	४ प्राप्त
पञ्चासम	३६३ पचासवां	पतीठी	१४१ प्रतिष्ठि
पच्चुत्तर	२९ पांचअनुतर	पतीनउ	१४१ प्रतीति हुइ
	विमान विजय,	पत्ति	३३ बुद्धके पते
	वैजयंत, जयंत,	पत्तु	३६९,३१२ पट्टुचा, प्राप्त
	अपराजित, ५		क्रिया
	सर्वार्थसिद्ध	पदम	१५७ पदम कमल

पधरावद्	३५१	स्थापित क- रता है	परणालियां	१३०	प्रणाली, पर- नाले
पभणई	४०४	कहता है	परत	३७६	पड़ती हुई
पभणसो	३१२	कहूंगा	परत्थी	२४	परस्त्री
पमुह	१,११८,४०२	प्रमुख, आदि	परत्र	३६७	परलोकमें
पमुहाणं	१	पमुखानां	पखाली	८१	पखाली, पानी भरनेवाला
पमोड	२२	प्रमोद	परषद	७	परिषद
पयड	१,२,१५,३१, ५१,२१५,३६५, ४०१,	प्रकट	परि,पर	४१४,४०८	भांति, तरह
पयडिय	३१२	प्रकृति	परिकर	३३८	परिवार
पयंडिहि	३५	पांडित्यसे	परिक्खिवि	३६६	परिषदि
पयतलि	३७,६३	पदतल, पग- तली	पि ग्रह	२७७	घन, वस्तु रुद्धय
पयन्ना (दस)	१८३	प्रकरण १०	परिघल	३४७	खूब
पयार	३९१,३९३	प्रकार	परिणिति	३३०	प्रवृत्ति
पयावि	३६५	प्रतापी, प्रजा- पति	परिवर्या	२९९,३३६	परिवेष्टित, परिवार सहित
पयासइ	६,३६	प्रकाशित करता है	परिहरवि	१	छोड़कर
पयासणु	३८५	प्रकाशन करनेवाला	परुप्परु	३६७	परस्पर, अ- न्योन्य
पयासिउ	२	प्रकाशित किया	परे	४१३	भांति
पयंडु	३८५	प्रचण्ड	पल्योपम	२९१ ३५६	कालका प्रमाण विशेष
परगडा९७,२९६,३६१		प्रधान, चतुर, कुशल	पलहभ(?)णु	३६८	पलहकवि कहता है
परगच्छी	१४१	अन्यगच्छीय	पवजंति	१६४	प्रवर्त्त होते हैं
परघल	१००	खूब	पव(य) ट्ठरत्ति	३१	रात्रिको प्रतिष्ठा
			पवतणि	३३९	प्रवर्त्तिनी (पदविशेष)
			पवर	३६९	पवर

पवरपुरि	१ प्रवर नगरी
पवरो	२२,३८८ प्रवर
पव्वय	२७ पर्वत
पवित्तिण	१ पवित्र ढोकर
पसंसिज्ज	१ प्रशंसा की जाती है
पसाउ (य)	४,१७७ प्रसाद, कृपा
पसायल्ल	३३९ प्रसादसे
पासद्ध	१ प्रसिद्ध
प्पहु	२७ प्रभु
पहाण	२४,४०२ प्रधान
पहिल्लु	२७८ पहला
पहु	१ प्रभु
पहुत्तउ	४० प्रभूत, पहुंचा हुआ
पहुत्तणी	२१४ प्रवर्त्तिनी, पद-विशेष
पहुवइ	४ प्रभवति, समर्थ होता है
पहुविप्पयउ	२ पृथिवी प्रतिद्ध
पहूतिय	३९९ पहुंचा
पाखर	११३ पलान, हौदा
पाखर्यउ	१७६ सज्ज किया
पांगरउ	६४,८६,९८, १८८,३००,३१४ विहार करना
पाटू	१९८ पट्ट, सुन्दर वस्त्र
पाटोघर	१६६,२९४ पदधारक, पदका उद्धारक
पाडइ	३४७ गिराता है

पाडल	१९२ पाटल
पाथरइ	९३ विछाता है
पाथू	३९३ पथिक
पाधरा	४१९ सीधा
पांभरी	१९९,१९८,३९९ बस्त्रविशेष
पारका	३११ पराया
पाव	६ पाप
पावरोर	२० भयानक पाप
पासु	३६९ पार्श्वनाथ
पासेस	४१४ पार्श्वनाथ
पिक्खहु	३६९ देखो !
पिक्खहि	३६९ देखे
पिक्खिवि	३६७ देखकर
पिखणय	२२ प्रेक्षक, दृश्य
पिखेवि	३३ देखना
पिण	४१९ भी, पर
पिम्म	३६९,३६६ प्रेम
पिम्मु	३६९ ,,
पिसुन	४१९ दुष्ट
पीलीया	३२९ पीले (कोल्हूमें पील दिये)
पुणति	१ पवित्र करताहै
पुद्गल	२८८ षट्द्रव्योंमेंसेएक
पुरउ	१०६ पूर्ण करो
पुरंधिय	१९ बहुपरिवार या पुत्र, पति-वाली स्त्रियें
पुरीसादाणी	२६४ पुरुषोंमें प्रधान, प्रसिद्ध

पुलिया	४१४	चले
पुत्रुकिऊड	३६५	पूर्वकृत
पुडवां	१७७	पुडन
पुहवि	१	पृथ्वी
पुठो	१४८	पीछे
पूय	३८७	पूजा
पैसारी	४१३	प्रवेश
पैशुन	२७९	निन्दा
पैसारे	३०४	प्रवेश कराया
पोसड	१५४, १८२	पौषध
पोरहा	११४	प.षध
पोहोती	२९०	पहुंचो
पौषत्रशाळा	३०४	उराश्रय
पंथीडा	३०३	पथिक, यात्री
पंकय	४९	पंकज
पंडिय	१	प.ण्डित
प्रघळ	४१६	खूब
प्रजालियो	३२९	जलाया
प्रतई	१५६	तर्फ
प्रतिशोधीयो	१४८	समझाया, ज्ञान दिया
प्रभावना	३३८	जिस कार्यके द्वारा प्रभाव पड़े
प्ररूपणा	२६५	कथन, वक्तव्य
प्रवर	२५७	प्रवर
प्रसव्यो	३२२, २७१	पंदा हुआ
प्रह	३२०	पौ, प्रभात

प्रहफाटी	१३३	पौ फटी
प्रहसमि	९७	प्रभात समय
प्ररूपीयो	१४८	प्ररूपा, कहा
प्रार्हि	३४३	प्रायः
प्रोल	३३५	प्रतोली, दरवाजा
		फ
फरहर	२९३	फहरानेवाली पताकायें
फासूय	३१	फासू, प्राशुक
फडवि	३६	स्पष्ट, व्यक्त, विशद।
फेड्या	३५२	नष्ट किये।
फोक	१४३, २७७	व्यर्थ
फोकल	६७	नारियल
		ब
बईड	३४६	बैठा
बजडाव्या	१४६	बजवाये
बड आरू	३२	बड़का फल
बडवखती	१४६, ४१४	बड़भागी
बत्रीस	१५७	बत्तीस
बन्न उला	३५१	बनोला
बरास	११४	कपूर निर्मित सुगन्धित द्रव्य
बरीस	३३८	वर्ष
बहरजा	३५२	बाहूका गहना सुजबन्ध
बंध	३६५	ब्रह्मा, ब्राह्मण
बाकुला	१२०	बाकले

बाजू बंधन	३५२ गइना विशेष
बाटडो	३०३ बाट, प्रतीक्षा, राह, मार्ग
बागीयडा	१३० पगोहा
बात्रोहा	२१३ पगोहा
बालागड	३९ बालयावस्थामें
बालूडा	१६५ (प्यारे) बालक
बाल्हंसर	८६ प्याग
बीकाग	४१४ बीकानेर
बीक्ष्या	१६३ दुगाना, हवा डालना
बीटानी	३७३ वेष्टि हो गया
बुक ६	१७ वाद्य विशेष
बुल्लति	१६७ बालते हैं
बूजा	३३७ वर्षा हुई
बेकर २९४,	३३४ दोनां हाथ
बेलाडु	२७२ बिजाडा ग्राम- का नाम
बेवि	३८७ दां, दोनो
बोहड	२ बांधना, शिक्षादेना
बोहयंतो	३९२ बांध (ज्ञान) देते हुए
बोहिय	७ बांध देकर
ब्हो	३१० बहु, बहुत
भ	
भगडारउ	८५ भंडारा
भक्तित्रंतु	३६८ भक्तिवन्त
भमिरुग	३० भ्रनग करके
भरात्र्यो	२७४ भराया

भरुके	३०३ चमके
भरुहलीयो	३०३ चमका
भवणिद्विय	१ भवनमें स्थित
भविद्यग १, ६७, ११६, २६८, ४०२	भविकजन, भव्य व्यक्ति
भविद्यगडु	२४, ३१ " "
भठेरीय	३९३ भडा
भज्जा	३७८ भायो
भंभी	१०५ वाद्य विशेष
भालसो	८१ कैद, अंधेरी काठरी
भाट	१६५ जाति विशेष
भाण	२९८ भातु, सूर्य
भांभल	३०४ पागल, भोली
भा ठि	१५९ कष्ट, दुख
भाउरह	३६७ चमकना
भिछ	१ भिक्षा
भुंगल २९३, ३३१, ३४४	३५२ वाद्यविशेष
भूवलर	३७ पृथिवामें
भृंगली	७५ वाद्य विशेष
भइरवी	१०५ भैरवी रागका नाम
भंक	२८९ मंदक
भंय	४०१ मंद
भाजोग	१६५, ३५२ भ.जरु जाति
भोयग	३४८ भ.जन
भालिम	३५३ भोलापन, अज्ञानता
म	
मइडी	३४७ कमरा

मउड	३५२ मौड़, मुकुट	महन्वय	५ महाव्रत
म	३६५ मत	महंमद	११ मुहम्मद
मंख	३५२ चित्रपट दिखा- कर जीवन-निर्वाह करने वाला एक भिक्षुक जाति	महाणसि	३० महानस रसाई
मच्चु	३६७ मृत्यु	महियलि	२८ महीतल पर
मढपति	३१९ मठाधीश	महिर	४११ मेहेर, कृपा
मणछिउ	२ मन वाञ्छित	महिराण	१६७ समुद्र
मणयतु	३६९ मनुष्यत्व	महीयले	९ पृथ्वी तलपर
मणमभा	१५८ बालककी भाषा	महुर	३९५ मधुर
मणिमथ	९५ शिरोमणि	महूअर	४९ मधुकर
मणु	२ मन	महूय	३२ मधूक, महुवा
मणुथ	२३ मनुज	मंडए	३९२ मांडना, रचना करना
मदान्ति	३६ वेदान्ती, वेदान्तज्ञाता	माकंद	१५७ इन्द्र !
महल	१४४ तबला, वाद्य विशेष	मागण	३८७ याचक
मधुमाधवइ	१०५ रागिणी	माणिण	३६६ गर्वसे
मनभितरि	२७ मनके भीतर	मांडवइ	३५१ मंडपमें
मनरली	३४६ मनकी उंग आनन्दित मनसे	मांडी	१५७ बनाकर
मयगल	३७ मदगल, हाथी	मादल	१६४, ३४४ वाद्य विशेष
मयण	३४ मदन	मायंडू	२३ मार्तण्ड, सूर्य
मयरहरो	१६४ समुद्र	मारुणि	१०५ रागका नाम, मरु-थलकी
मलपिया	४१५ चले	मालिया	३४५ महल
मलदपतउ	१५० चलता हुआ	मालोवम	१५ मालोपम
मलहार	१७७ राग विशेष	मिछत	११, ३७ मिथ्यात्व
मलहार	१७ ,,	मितुवि	३७० मित्र भी
महलावइए	३४० व्यय करना	मिथ्यात्वशल्य	२८० मिथ्यात्व रूपी शल्य
		मिसरु	३५५ वस्त्र विशेष

मिटुं	२७८	मीठा
मिस	३६६	मिश्र, युक्त
मुकीयो	२५९	छोड़ा
मुक्कवहलि	२९	मोक्ष स्थल
मुक्या	२८९	छोड़े
मुणइ	३७०	कहता है
मुणिंद	२, ३८५	मुनींद्र
मुणिवि	३६७	कहकर
मुनियपय	७	मुनिका पद
मुरंगी	९१	मृदुअंगी-छी
मुरमंडले	८	मरु मंडल
मुंडपत्ति	३३७	मुख वस्त्रिका
मुंछाला	३४२	मूँछोंवाला वीर
मुं	३९२	मुझे
मूँकी	४१६	छोड़कर
मेरउ	१०४	मेरा
मेलिय	३९५	मिलकर
मेवड़ा	३२१, ६३	दूत
मोकळूँ	३२२	भंजुँ
मोटिम, मो.टिम्म	८५, १८९	गौरव,
मोरउ	९८	मेरा
मोस	२६१	मृषा
मोहणवेलि	१०८	माहनेवालो बेल, मनोहर बेल
मोहरेयाजी	३२२	मोह रहे हैं।
यशनामिक	२६४	यशम्बी
युगवर	१७९	युगमें प्रधान

र	
रज	३५ राज्य
रंजवियउ	३६६ प्रसन्न किया
रं जया	३६२ ”
रच्चंति	३७७ राग करते हैं
रणई	३८८ बजता है
रणकार	३३१ आवाज विशेष
रतनागर	२८ रत्नाकर, शाह का नाम
रत्नावली	१८० रत्नोंकीअवली (समूह)
रमझोल	१५५ हर्षोल्लास
रमिजजइ	२४ रमण करना
रम्म	२४ रम्य
रयणागरा	३२४ रत्नाकर
रयणायर	९ रत्नाकर
रयणाह	२३ रत्न
रलिआतो	१४७ आनन्द
रलिय	३३, ३८८ उमंग
रली	११६, ४१२ उमंग, हृच्छा, हर्ष
रलियावणिय	३०७ छन्दर, मनोहर
रलियामणउ	३, ३३२, ३३६ छन्दर, रमणीय
रह	६७, ३९५ रथ
रांक	२७१ गरीब
रांधइ	३४३ रांधना, पकाना

रायस्व	३१	राजाके	लंख	३५२	बड़े बांसपर खेल	
रिक्षा	१६६	रक्षा			करनेवाली	
रुडी	२६३, २८४	अच्छी			नटजाति	
रुणकगद्		४९	मंडराते हैं	लाइक	३०४	लायक
रुद्धि	२८६	ऋद्धि, धन		लाखपसाव	३०३	एकदान विशेष
रुलिय	३७	रुला, पड़ गया		लाडकडो	२७०	प्यारा
(रु) अ	३६६	रूप		लाडो	३०४	स्वामी
रुडउ	३७९	सुन्दर, अच्छा		लाहिण	६३, ६८, ११५, ४१०	लंभ निका
रुडा	१६५	"		लिगार	२५९	थाड़ा, किञ्चित
रुडी	३४३	"	अच्छी	लिद्र	१४०	लिया
रुट्टु	२६३	अच्छा		लुलुलुल	३०२, ३६५	झुक झुककर
रुव	९, ३६६	रूप		लुंछणा	३६३	न्यौछावर ?
रुवय	३६६	रूपक		लेखइ	३८७	हिसाब
रुविण	३६५	रुसे		लोइ	२	लोग
रुसण	१५७	रोसकर		लोकणरओ	१०४	लोकोंका
रुषिमती	१४१	तपोंका उप-		लोह न	९२	लोभ नहीं
		नाम				व
रेलो	१३१	प्रवाह		व(च)क्कु	२	चक्र, मंडल
रेहिणी	३९०	रोहिणी		वखतवन्त	१९०	भागवान
रोलू	४०७	नाम		वछ	३२३	पुत्र
		ल		वछरि	२१, २५, ३९६	वत्पर, वर्ष
लखखणिण	३६८	लक्षणोंके ज्ञान		बडउ	३५९	बड़ा
लखग	१५७	लक्षण		वत्थु	३५	वस्तु
लखगवन्तो	१५९	लक्षणवन्त		वदत	९८, ४४	प्रसिद्ध
लछि	२९, ३६१	लक्ष्मी		वद्धए	३९१	वृद्धि पाता है
लद्धिवर	३०	उत्तम लद्धि		वत्रारो	३५८	वृद्ध करो
लवधिवन्त	४०२	लद्धि (शक्ति विशेष) सम्पन्न		वनभृङ्ग	९४	वनका भ्रमर
लवणउ	१५४	लेवड़े, देवालीको पपड़ी		वनियां	१५७	आभूषण विशेष
				वन्नज्जइ	३५	वर्णन किया जाता है।

चरतइ	१६८	वर्तमान, चल रही हो	वाणारिम	१७	बनारिस, वाचक
चरनोलइ	१६९	बनोला	वाणारी(स)	४-१	वाचनाचार्य
चरीय	६	चरकर, अङ्गी-कार, स्वीकार	वांदवा	२६९	वंदना करनेको
चलगिग	२९	अवलम्बनकर, पकड़कर	वांदन्यां	३००	वंदना करेंगे
चलतु	३४९	प्रत्युत्तरमें, लौटता हुआ	वादी	३७	वाद करनेवाला
चलि	१७६, ४१९	फिर, लौटकर	वादोजीत	२६६	वादियों को जीतनेवाला
चली	२५७	फिर	वान	९२, १६६, ३५८, ४०६,	शोभा
चले	३०३	फिर	वांदवा	२६९	वंदना करनेको
चशाखि (बि) का	३६	वैशेषिक दर्शन	वांदन्यां	३००	वंदना करेंगे
चसहि	४५	वसती	वारउपंग	१८३	१२ उपांग (आगमसूत्र)
चसीट्टी	१४१	दूर !	वालीनै	४१०	लाकर,
चहिरमाण	३१९	विचरने वाले महादिदेह क्षेत्र के तीर्थङ्कर	वावइ	१३०	बोना
चहिरउ	१८	बहुरा हो गया	वावरइ	३४०	व्यय करना, उपयोग करना
चहिला	४१६	जल्दी	वावरियउ	३६७, ४१६	व्यय किया
चहुराव्यो	२७२	चहराया, प्रदान किया	वाविय	३३	वापी
चहुरिवा	११४	लेनेको, लानेको	वाचुं	१५४	व्यय करूं
चहन्ति	३७१	चलता है ?	वास	१	आवा र, घर।
चाइ	१६	वादी	विगुआणा	२७९	ब्रिगोये गये
चाइक	३१०	कथन योग्य ! (प्रशंसात्मक काव्य)	विगवत्	१	विद्वोंको
चाइमल्ल	१४२	नाम, वादियों में मल्ल	विचंरवउ	१६३	विहार करना, चलना
			वित्रावलीय	९	विद्याका समूह
			विज्जा	१, ४०१	विद्या
			विट	३८	भांड
			वित्तिकरु	१९	वृत्तिकर्ता
			वित्थरि	२७	विस्तारसे


सखरी	४१३ अच्छी
सखाइ	१६० मित्रपना, मित्रता, सहा- यक
सग्लौ	४०६ सारा
सगगाहि, सगिग	४, २६, ३३ स्वर्गमें
संखेवि	५१ संक्षेपसे
संघवह	१३, १८ संघपति
संघातइ	१४२ साथमें
सर्चाण	३०१ बाज ?
संजम	६ संयम
संजुत्तु	३६८ संयुक्त, सहित
संज्ञ	३७१ सन्ध्या
संठाविउ	३८७ संस्थापित क्रिया
संठाविउ	३९५ ,,
संठिउ	१ संस्थित
संठियउ	१ ,,
संतुट्ट	१ संतुष्ट
सट्टु वि	३७१ छुष्टु, श्रेष्ठ
सतर	१५४, १५६ सतरह
सतरभेदी	२७५ ,, प्रकारकी
सत्तु	३७० सत्व
सत्थ	३६८ सार्थ, संघ
सदीव	३२९ हमेशा, सदैव
सद्दहणा	११४ श्रद्धा
सद्दे	२६८ श्रद्धाको
सहि	२ शब्दसे
सनूर, सनूरी	६८, ८९ दीप्तमान, छरूप, छन्दर

संथारउ	२०४, ३१५ संस्तारक
संथुणिउ	५ संस्तव क्रिया
सन्नाणह	२८ सद्ज्ञानसे
समकित	४९, १३०, २२५, २८०
	सम्यकृत्व
समगग	२१ समग्र
समणह	३१ श्रमण
समरणी	१५९ माला
समर्यउ	५६ याद क्रिया
समवाडि	९४, १३४ समान
समवाय	५६ समूह
समापै	४१२ देता है
समिद्धह	३६७ समृद्ध
समोभ्रम	२५९ संभ्रम
समोसरे	३३८ समवसरे, पधारे
सम्मुखइ	२०४ सामने
संपत्तु	३८५ पहुँचा
संपय	२५ संप्रति
संवेग	११६ संसारसे उदा- सीनता, वैराग्य
	मोक्षामिलाषा,
संवेगी	१७७, ३२५ संवेगवाले
सयल	६, १३४, ३३२, ३५८ सकल
सरणा	२५९ शरण
सरणाइ	३३१, ३५२ वाद्य विशेष
सरभरि	१४३ बराबरी
सर्ि	३९४ स्वर
सरे	३८९ स्वर्गसे
सलहिउ	१३ प्रशंसित

सलहियइ ३५, ९६, ३६८, ३८६ प्रशंसा की जाती है	साम्हेले ३३८	सामेला नामक कृत्य, सामनें
सचट्टसिद्धि २९ सर्वार्थसिद्ध (अनुत्तरविनानो)	सावय ४, २२०	श्रावक
सल्लण्डा ३९३ सलाने	सासण ८९	शासन
सवि २७७ सब	साहमीनी १५३	स्वर्गी बन्धुकी
सव्व ३० सर्व	साहम्मिय २३	स्वत्रामिक
सव्वरिय ३१ रातमें	साहिय ४	साधन किया
ससहर ३५ शशधर, चंद्र	साहुणि ३०	साध्वो
सहलउ २३, ३७० छगम	सिजवाला ६८	पालखो, वाहण विशेष
सहसकूट २७४ हजार शिखर- वाला मन्दिर	सिज्झइ ३०	सिद्ध होजाना
सहसककर १५ सूर्य, १००० किरणवाला	सिद्धंत ३५	सिद्धांत, सिद्ध होना
सहिए ९८ ठीक, निश्चय, हे सखी	सिज्जाय ११३	वाध्याय
सहियर २९३ सखो	सिरतिलौ ५८	सिग्मौर
सहुनडिया ४४ सब नष्ट हुए	सिरि ३२	सिरमें
साचवउ १३३ सम्हालो	सिरीय ६	श्रीको (सं- जम रूपो लक्ष्मीको)
साचवी ४१६ सम्हाली	सिय १	शित, शुद्ध
साता ४११ कुशल	सिधुया १०५	सिन्धुगग
साते ११७ सातों	सीखविय १३४	सिखाया
सानित्र ३४० सान्निध्य	सोझइ १७९	सिद्ध होता है
सावू ३४८ साबुन	सीलि ३४	शील
सामाइक १६१ १८२, सामायिक	सीस, सीसि १२, १४५	शिष्य
सामि ३६९ स्वामी	सीद, सीहो १७६, ३९७	पिंह
	छइ ३६५	श्रुति
	छकड ३३१	छगन्धित द्रव्य विशेष

सुकुडि	११४ घिसा चन्दन सूखनेपर	सरंगो	३३३ अच्छे रंगवाली
सुकप्रत्य	३७१ सरुड	सरहम	५१ सरहम-कल्पवृक्ष
सुकलीणी	६७ कुलीन, कोमल गात्रवाली	सरवर	२९ उत्तम देव, इन्द्र
सुकिय	३३ सुहृत	सरसाल	२६२ उत्तम
सुजगीश	१-६ सुन्दर, इच्छा	सुहृत्	३९२ स्वरूप
सुणय	३९२ नीतिमान्, सदाचारी	सुलतान	८९ सुलतान
सुनिष्ठ	१ सुनिश्चित !	सुविद्विय	२४, २८, ४९, २६ सु-विद्वित
सुपन	१८९ स्वप्न	सुहृम	२ सुधर्मा-स्वामी
सुपनाध्याय	२७० स्वप्नाध्याय	सुहिणइ	३५७ स्वप्न
सुपरपरि	१ अच्छो तरह	सुहु	३७२ सब
सुपवित्तिण	२ सुपवित्र	सुखड़ी	१८१ मीठाई
सुपसंखिय	३१२ सु-प्रशंसित	सुरयोपभ	२९२ सूर्यके समान
सुपज्ञाउ	२५७, ८९ सु-प्रसाद, सदनुग्रह	सूरिमंतु	३ सूरिमन्त्र
सुप्रस ह (द)	३१० शोभन कृपासे	सूहवि	३४१ सधवा
सुमति	११६ इर्यासमिती आदि	सूहव	६७, ३१६, १३४ सुभग, सौभा- ग्यवती
सुमरिज्जंत	१ स्मरण किये जानेपर	सोगत	३६ सुगत, बौद्ध
सुमरेवि	३८४ याद करके	सोस	२६१, २६६ अरुसोस, खेद
सुमिगउ	३७८ स्वप्न	सोहम्मगाइवडंद	३० सौधर्म देव लोकका इन्द्र
सुयेःवि	४ श्रुतदेवी	सोहामणो	१३० सुहावता
सुरगवि	१४५ कामधेनु	सौध	३६ महल, प्रासाद
सुरगुरवि	१ वृहस्पतिके समान	स्तुप	२९० स्तूप, धूम
		स्युं	१६५ से

	हृ	हीला	८१ अवहेला ?
द्वदमयण	३६६ हत मदन	हिलियइ	३७० निन्दा करताहै
दथलेवउ	३९९ पाणिग्रहण संस्कार	हुइगउ	३७९ होगा
दयांछ, दयाछ	३७० हताश	हुंसि	९९ हौंस, अभिलाषा
दरि	९८ सूर्य	हुसेनी	१११ रागका भेद विशेष
दरिस	३९९ दष	हुंडा अवसप्पणि	३७० हुंडावसर्पिणी, वर्तमान हीन समय
दवालइ	१४२ सुपुर्द		
दारिय	३३ हार जाना	हुंति	३७० से, क्री अपेक्षा
दिव	३७२ अब	हेला	३९९ उच्च स्वर
दीचइ	१९७ हींढे (पर)		



विशेष नामांकी सूची

**

अ		
अहमत्ता	१८१	१८४, १९२, १९९, २१६, २२२, २२५
अकबर	६१, ६२, ६३, ६४, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ८०, ८१, ९१, ९२, ९४, ९५, ९७, ९९, १००, १०२, १०७, १०८, १०९, १२१, १२२, १२३, १२५, १२६, १२८, १२९, १३१, १३२, १३७, १३८, १३९, १४४, १४६, १४७, १५९, १७२, १७९, १८९, २३०	२३५, २४१, २४२, २६३, २७४, २७५ ३१४, ३५१, ३५४, ३७४, ३९८
अख्यराज	३५८, ३६०	अनिरुद्ध १४२
अजमेर	४, ९, ३१९, ३४३, ३६५, ३६६,	अनेकान्त (स्यादुवाद) जयपताका ३११
अजाहबदे	१८८	अनुयोगद्वार (सूत्र) १८३
अजिननाहथ	२७, ३४१, ३८६	अभयकुमार ६१
अजितसिंह	३२२	अभयतिलक ३०, ३१
अजीमगंज	२९७	अभयदेवसूरि ११, २०, २४, ३१, ४१, ४५, ५९, ११९, १७२, १७८, २१६, २२२, २२६, २२७, २२९, ३१२, ३१९, ३६६, ३८४
अज्जसोहस	२२०	अभयविलास ४१३
अज्जहिल्लपुर (पाटण)	१५, १६, १७, १८, १९, २६, २७, २९, ४४, ४७, ५८, ५९, ६०, ६४, ६८, १०१, १०३, ११८, ११९, १२०, १३८,	अमरमाणिक्य १४४, १४५ अमरसर १८२, १८९ अमरसिंह (विजय) २४८ अमरसी १४३, १९४ अम्बिका (अम्बा) ३०, ४६, १६७, १७०, १७४, २०१, २१६, ४००
		अम्बेर ३०२
		अमाइजी २७३

अमीड (भंड.री)	११	अ णंदत्रिमल	३६३
अमीचन्द्र	३६०	आदीनाथ (आदिम)	१८,२२,४४,
अमीझगो	१७०		१०९
अमीपाल	१८५,१८८	आदीश्वर (ऋषभदेव)	११०,२६४,
अमृतधर्म	३०७	२८१,३००,३४१,३४६,३५५,३५६,	
अयोध्या (अत्रडा) नगरि	१७,५५		३५८,३६४,४००
अरजन	३११	आद्यपक्षीय	३३३
अवंती सुकमाल	३४७	आनंद	१७७
अष्टकटीका	२८७	आपमल्ल	५१,४०८
अष्टसदस्त्री	३२१	आबू (अबुद्दगिरि)	४४,१०१,
अक्षरकलान	१७४	१०३,१५४,२१५,३२६,३४३,३६२,	
अहमदपुर (अहमदनगर)	३६०,३६१		३६३,४०३,४०५
अहमदाबाद	५९,६०,६४,७८,१४९,	आर्यगुप्त	२२०
१८४,१९२,१९५,१९६,२३५,२४६,		आर्यधर्म	४१
२७७,२८१,२८२,२८३,२८७,३२०,		आर्यनागहस्ति	४१,२२१
३२६,३५४		आर्यनंदि	४१,२२१
		आर्यमहागिरी	४१,२१९
		आर्यमंगू	४१,२२०
		आर्यरक्षित	४१,२२०
		आर्यसमुद्र	४१,२२०
		आर्य सुहस्ति	४१,२१९,२२८,
			३८२
		आर्यसंभूति (संभूतिविजय)	
			२०,४१,२१९,२२८
आगमसार	२७३		
आगरा	५३,८१,९८,१३७,१३८,		
१४०,१७४,१९३,१९५,२३६,२४४,			
	४१८		
आज्ञाराङ्ग	१६६		
आणंदगाम	२८२		
आणंदविजय	२०९		

आरामण	१०१
आलम	३३८
आवश्यकवृद्धवृत्ति	२७३
आसकरण	१७४, १८४, १८५, १८६, १९२, ४१७
आसथान	३७३
इडर	३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२
इलानंद	१४०
ईद	३३
इन्द्रजी	३६०
इन्द्रदत्ता	२२८
उ	
उग्रमेन	१९३
उग्रमेनपुर	देखो आगरा
उखनगर	८८, ९७, १९३, १९९
उज्जित	३०, ४००
उज्जयन्त—	देखो गिरनार
उज्जैन	२, ३०, ३१, ३७६
उत्तमदे	५७
उत्तराध्ययन	१६६, २८९
उदयकरण	१९४
उदयचन्द्र	४३३

उदयतिरुक्	२४८
उदयपुर	१८८, ३०२, ३२४, ४१५
उदयसिंह	५७
उद्यातनसूरि	२४, ४१, ४४, १७८, २१५, २२१, २२५, २२७, २२९, ३१२, ३१९, ३६६, ४२३
उमास्वाति (वाचक)	४१, २२१
क	
कृष्णदास	१८५, १९४
कृष्णमंदव	देखो आदिनाथ
कृष्णमत्त	८०, ११९, १३७, १४१, १४३

ओ

ओइस (ओशिया)	१८६
ओमवाल (ओसवंश, उकेश)	१६, ५१, ५५, ६०, ८७, ८९, ९३, १३३, १०९, १११, ११२, १९३, २०५, २३४, २६८, २९७, २९८, ३०७, ३२२, ३४१, ३४५, ३५३, ४२३

अं

अंगदेश	९४
अंजार	३३२
अंबड	४

अंबडु (त्रिनेश्वरचूरि (२)का बाल्या- वस्थाका नाम) ३७८, ३७९, ३८०, ३८१	कमलसोद ३६०
आंबड २२	कमलहर्ष २४०
क	कमीपुर ३६८
कचरमल १९४	कयवन्ना ३४७
कचराशाह २८६	करण (दानी) ६०
कच्छ २९४, ३०७	करण (उदयपुरके नरेश) १७७, १८८
कटारिया (गोत्र) ८२, १८८, १९३	कग्णादे ३०१
कनक १३०	करमचन्द्र (भणशाली) ६६
कनकधर्म २९९	करमचन्द्र (वडावत) ६०, ६१, ६६, ६७, ७२, ७४, ७५, ७६, ८०, ९४, १००, १०७, १०९, १२५, १२६, १२७, १२८, १५०, १५१, १७९
कनकविजय ३५३, ३५४, ३५५, ३५७, ३५९, ३६१	कामचन्द्र (साउं सुखा) २१४
कनकसिंह २४३	करमचन्द्र (कोठारी) ३०१
कनकपोम ७०, ९०, १४०, १४९	करमचन्द्र (चोरवेडीया) ३४५, ३४७, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३
कन्नाणा (कन्यानयन) पुर १४	करमसिंह ५३
कपूर ३२७	कगमसी १९३, २४०, २४७
कपूरचन्द्र १८५, १९४, ३४६, ३५४	कगमसी (सुनि) २०४, २०५,
कपूरदे १९३	कर्माशाह २८१
कर्मग्रंथ कम्मपयडी २६६, २७३	करुणभइ १८६
कमठ (तापस) ३४१	करुणामती ३३२
कमलग्ग २३३	कल्याण (जिसलमेरके राउल) १८६
कमलविजय ३४१, ३४८, ३४९, ३५१, ३६४	कल्याण (ईडरके राजा) ३५८, ३६२

कल्याणकमल	१००	कीलहूय	३९६
कल्याणचन्द्र	५१,५२	कुतुबुद्दीन	१२,१६
कल्याणधीर	२०७	कुंथुनाथ	३२७
कल्याणलाभ	२०७	कुमुदचन्द्र	२२८
कल्याणहर्ष	२४७	कुमारपाल	२,७१,२८४,३७६
कलिङ्गदेश	९४	कुरुदेश	२६४
कविरास	१७४	कुलतिलक	१३६
कवियण	२६३,२८२,२८४,२९०	कुवरा	५२
	२९१	कुशलकीर्त्ति (जिनकुशलसूरि)	१७
कस्तूरां	२४६	कुशलधीर	२०७
कस्तूरदे	४२५	कुशललाभ	११७
कसूर	६९	कुशलविजय	३६१
काकंदी	२७७	कुशला	३२५
कालिकाचार्य (कालककुमर)	३०, २९५	कुशला (शाह)	१८६
	२९५	कुंवरविजय	३५४
कालीदास (कवि)	२६४	कुंभलमेह	१८८
काशी	८०	केलहड	५१,५२,४०६,४०८,४१२
कास्मीर	७४,१२६,१२८,३८४	केसरदे	९७,२९८
कान्तिरत्न	४१३	केसो	३४६,३५४
किरणावली	३११	कोचरशाह	५१,४०७
किरहोर	२०८,२०९,२४३	कोटडा	२३६,३४३
कौकी	२२	कोटीवाल	१४३
कीर्त्तिचर्द्धन	३३३	कोठारी	३०१,३६०
कीर्त्ति विजय	३५४,३६२	कोडा	१३६
कीर्त्तिविमल	१४०	कोडिमदे	१३६
कीर्त्तिरत्नसूरि (कीर्त्तिराज)	५१, ५२,२०६,४०१,४०२,४०३,४०४, ४०६,४०७,४०९,४१०,४११,४१३	कोणिक (राजा)	६५
	३२०	कोरटा	४०७,४१०
कील्लाइ		कोशा (वेश्या)	२१९,२२८
		कौमुदी महोत्सव	२७३

कौरव	३२९
क्षमाकल्याण	२९६, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९
क्षेमकीर्त्ति	४०८
क्षेमशाखा	३३२
क्षेत्रपाल	४

ख

खड्गपति	१३८
खजानवी	३०१
खरतरगच्छ	२, ७, ९, १३, २४, ३६, ४३, ४५, ४८, ४९, ५२, ५३, ५४, ५६, ५८, ५९, ६१, ६२, ६४, ६८, ८२, ८९, ९३, ९६, ९९, १०१, १०४, १०७, १०८, ११०, ११२, ११३, ११८, ११९, १२०, १२१, १२४, १२९, १३२, १३४, १३७, १३८, १४०, १४२, १४३, १४४, १४५, १४८, १७०, १७१, १७९, २१५, २२२, २२५, २२७, २२९, २३१, २९२, ३०२, ३१९, ३३२, ३६६, ३६८, ३७४, ३८६, ४४०३, ४०७, ४१७, ४१८, ४२०, ४२८, ४३२

खारीया	४१५
खांडप	१८४
खीमड (कुल)	२२
खुस्यालचंद्र	३०६
खेजड़ले	४१५
खेडनगर	३८०, ३८१
खेतसर	८९

खेतसी	२६०
खेतसी (जिनराजसूरि)	१५६, १६० १६१, १६५
खेतसींह	५२
खेम (वंश)	१७१
खेमलदे	१३९, १४५
खेमराज	१३४, ४१९

देखो:—क्षेमराज

खेमहर्ष	२४२,
खेमहंस	२१७
खंडिल्ल	४१, २२१
खंधग	३२९
खंभात (खंभायत, खंभापुरि)	२६, ५९, ६०, ६३, ७६, ७८, ९३, ९५, ९९, १००, १०२, १०६, १०७, ११०, ११३, १७८, १८४, १९२, १९४, १९९, २३०, २५३, २८१, ३२६, ३२८, ३५६, ३७५, ३८६, ३८७, ३९७

ग

गजसिंह	१७४
गजसुकुमाल	३२९, १८१
गडालय	४१२, ४१३
गढमल	१४३
गणपति	४२४
गणधर(चोपड़ा)गोत्रे	३५५, २४६, २४७ (देखो चोपड़ा)
गर्दभिल्ल (गद्रभिल्ल)	३०
गवरा	२०८

गारब (देसर) शहर	४१४
गांगाओत्र	४२५
गांधी (गोत्र)	३६०
गिरधर	३३५
गिरनार (उज्जयंत) १०१, १०३, १५४, ३२६, ३२७, ३५६, ४१०	
गुजरदे	२१०
गुणराजु	३८८
गुणविजय	३४३, ३५६, ३५९, ३६३, ३६४
गुणाविनय	७०, ७५, ९३, ९९, १००, १२५, १७२, २३०
गुणसेन	१३६
गुलालचंद	१९४
गुजरात (गुज्जर देश)	१६, १८, २९, ४४, ५८, ६२, ८०, ८१, ९२, ९४, ११८, १९९, २७३, २८३, २८५, २८६, ३२५, ३२७, ३५३, ३५५, ३९०, ३९१, ३९७
गुडा (नगर)	२९६, २९८, ४१४
गेहा	३३९
गोडी (पार्श्वनाथ)	४१०
गौतम स्वामी (गोइम, गोयम)	१५, १६, ३०, ३५, ४०, ४८, ६७, ९६, १००, १०९, ११०, ११९, १२५, १६०, २१८, २२८, ३१९, ३२१, ३६९, ३८१, ४०९, ४१८, ४२३
गोप	२३६
गोप्यो	४२२
गोम्मटसार	२८७

गोल (ब) छा	१८८, १९३, २५६, ४२०
गोविन्द	४१, २२१
गंगदासि	१३७, १४३
गंगराय	४२५, ४२६
गंधहस्ति	२६५
ज्ञानसार	४३३

घ

घोघा (बन्दरगाह)	३२८
घोरवाड (गोत्र)	९७
वंवाणी १६७, १७४, १७७, १८४, १८६	

च

चतुर्भुज	३६०
चाइमल्ल	१३८, १४२, १४३, १४४
चाणाइक (नीतिशास्त्र)	१२८
चामुण्डा (देवी)	१५, ३६, ४५, २१६, २२९
चारण	१६५
चारित्रनंदन	२९८
चारित्रविजय	३६१
चितौड (चित्तकोट)	१, १५, २५, ४६, २१६, ३७४
चुडा (ग्राम)	२८५
चैत्यवासी	२९, ४५, २२२
चोथिया	३६०
चोपडा (कुकड-गणधर)	७६, ८६ १२८, १३२, १८९, १९२, २०४
चौरवेडिया (गोत्र)	३४६

चोलउ (जिनसागर सूरि)	१८१
चोलग	४२०
चौरासी गच्छ	४३, ८१, ९२, १०१, १२७
चंद्रकीर्ति	४०६, ४२१
चंद्रगच्छ (कुल)	१, १६, १८, २१, २७, ३९, ४३, ४३२
चंदनबाला	४२२
चंद्रवेलि	९६
चंद्रभाण	१९४
चंद्रसूरि	२२८
चंपापुरी	३२७
चांगादे	४२०
चांपा (चांपसी) (चोपड़ा)	७६, १२६, १२७, १२८, १२९, १३२
चांपशी (संखवाळ)	५२
चांपशी	१४४, ४१७
चांपसी (छाजेड)	४२५
चांपसिंह (साबलीके)	३६०, ३६१
चांपलदे	७६, १२६, १२७, १२८, १२९, १३२
चांपानेर	६०
छ	
छतराज	३१७
छाजमल	१४३
छाजहड	३१४, ३२८, १३४, ४२४
छुटा	४२६

छोटास्याला (लघूपाश्रय !)	
(कोठारीखण)	२९४

ज

जगच्चंद्र सूरि	३६३
जगी (श्राविका)	२५०
जयकीर्ति	३३४, ४११, ४१२
जयचन्द्रजी भं०	२४८, ३६४
जयचन्द्र (धोलकावासी)	२८४, २८५
जयतश्री	१७
जयतसी	४२२
जयतारण	६७, १९३
जयतिहुअण	१४५
जयदेवसूरि	२, ७, ९, २२९
जयध्वजगणि	४०२
जयमल	२३५, २४६
जयमाणिक्य (घमडाजी)	३१०
जयवल्लभ	१६
जयसागर	४३, ४००
जयसिंह	७, ९, ३१, ३६८
जयसिंहसूरि	४२४
जयसोम	७०, ७५, ११८, २३०
जयानंद	२२९
जलह	१३८
जलोल !	४१५
जशोदा	३३८
जसू	३६०
जहांगीर बादशाह—देखो सलेम	
जागा	३६०

जालयसर	१८७
जालहण	१७
जालंधरा (देवी)	७,९,४०७
जालोर (जावालपुर, जालउर)	३, २६, ६६, १४५, १८४, १५३, १९९, ३४३, ३५१, ३८२
जाबडशाह	११५
जिनकीर्तिसूरि (खरतर)	३२०
जिनकीर्तिसूरि (तपा)	३३९
जिनकुशल सूरि	१५, १७, १९, २१, २३, २५, २६, २७, २९, ३४, ४७, ५९, ६२, ८६, ९७, १२१, १४४, १७२, १७३, १७८, २०१, २१७, २२३, २२६, २२७, २३०, २४७, २९२, ३१२, ३१९, ३२१, ३८५, ३९२, ३९५, ३९६, ४००, ४२३,
जिनकृपाचन्द्र सूरि भं०	४८, २६०
जिनगुणप्रभसूरि	४२६
जिनचन्द्रसूरि (१)	१५, २०, २४, ३१, ४१, ४५, १७८, २१६, २२२, २२६, २२७, २२९, ३१२, ३१९, ३६६, ४२३
जिनचन्द्रसूरि (२)	२, ३, ५, ६, ७, ९, ११, १६, २०, २५, २६, ३१, ३२, ४१, ४६, १७८, २१६, २२३, २२६, २२७, २३०, ३१२, ३१९, ३७१, ३८४, ४२३,
जिनचन्द्रसूरि (३)	१५, १६, १७, १९, २०, २१, २५, २६, ३४, ४७, १७८, २१६, २२३, २२६, २२७, २३०, ३१२, ३१९, ३८५, ४२३

जिनचन्द्रसूरि (४)	२५, २६, २८, ४७, १७८, २१७, २२३, २२६, २२७, २३०, ३१२, ३१९, ३२०, ३८५, ३९७
जिनचन्द्रसूरि (५)	४८, १३४, १७८, २०७, २१७, २२३, २२६, २२७, २३०
जिनचन्द्रसूरि (६)	५२, ५८, ६०, ५९, ६२, ६४, ६७, ७२, ७४, ७५, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९६, ९७, ९९, १००, १०१, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९, ११३, ११५, ११८, ११९, १२१, १२२, १२३, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३८, १४४, १४५, १४६, १४७, १४८, १५१, १६६, १६७, १७२, १७८, १८३, १८९, १९१, २०१, २११, २२३, २२५, २२६, २२७, २३०, २९३, ३३४, ४२०
जिनचन्द्रसूरि (७)	२४५, २४७, २४८, २४९, २५०, २५१, २५९, २७०, २७२, ४१८ (रत्नपट्टे)
जिनचन्द्रसूरि (८)	२९७, २९८ (लाभपट्टे)
जिनचन्द्र सूरि (वेगड शेखरसूरिपट्टे)	३१३, ३१६, ४२३
जिनचन्द्रसूरि (वर्द्धनपट्टे)	३२० (पीपलक)
जिनचन्द्रसूरि (हर्षपट्टे)	३२०
जिनचन्द्रसूरि (सिद्धसूरिपट्टे)	३२०
जिनचन्द्रसूरि (आद्यपक्षीय)	३३३

२३५, २४१, २४२, २४३, २५९, ४१७,
४१८
जिनलब्धिसूरी २५, २६, ३२, ३५
४७, १७८, २१७, २२३, २२६, २२७,
२३०, ३१२, ३२०, ३८५, ४२३
जिनलाभसूरी २६३, २९४, २९५,
२९६, २९७, २९८, ३०७, ४१४
जिनबद्धिसूरी १, ३, ४, ११, १५, २०,
२५, ३१, ४१, ४६, १०२, १७५, १७८,
२१६, २२२, २२६, २२७, २२९, ३१२,
३१९, ३६६, ३६९, ३७०, ३७१,
३८४, ४००, ४२३
जिनवर्द्धनसूरी ५१, ३२०, ४०३,
४०४, ४०६, ४०८, ४०९, ४११, ४१२
जिनशीलसूरी ३२०
जिनशेखरसूरी ३१३, ४२३
जिनसमुद्रसूरी (१) १७८, २०७,
२१७, २२३, २२६, २२७, २३०
(जिनचन्द्रपट्टे)
जिनसमुद्रसूरी (वेगड़) ३१५,
३१६, ३१७, ३१८, ४३२
जिनसागरसूरी (जिनराजपट्टे) १३३,
१६९, १७८, १७९, १८५, १८६, १८७,
१८८, १८९, १९०, १९२, १९३, १९४,
१९५, १९७, १९९, २००, २०१, २०२,
२०३, ३३४, ३३६
जिनसागरसूरी (पीपलक) ३२०
जिनसिद्धसूरी (१) ३२०
जिनसिद्धसूरी (लघुखरतर) ११, १४, ४२

जिनसिद्धसूरी (जिनचन्द्र पट्टे) ७५,
७६, ८४, ८६, १०६, १०९, १२५,
१२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१,
१३२, १३३, १४८, १५९, १५९, १६१,
१६६, १६८, १७०, १७२, १७३, १७४,
१७६, १७९, १८१, १८३, १८२, १८४,
१८९, १९१, १९२, २१४, ४१७
जिनछन्दरसूरी ३२०
जिनछलसूरी २५०, २५१, २५२
जिनसौभाग्यसूरी ३०१
जिनहर्षसूरी ३००, ३०१, ३०३, ३०४
जिनहर्षसूरी (पिपलक) ३२०
जिनहर्षसूरी (आद्यपक्षीय) ३३३
जिनहर्ष (कवि) २६१, २६२, २६३,
जिनहंससूरी ५३, ५४, ५७, १७८, २०७,
२१७, २२३, २२६, २२७, २३०
जिनहितसूरी ४२
जिनेश्वरसूरी (१) ११, १५, २०, २४,
२९, ३१, ४१, ४५, ११९, १३८, १७८,
२१६, २२२, २२५, २२९, २२७, ३१२,
३१९, ३६६, ४२३
जिनेश्वरसूरी (२) २, ११, १६, २०,
२५, २६, २७, ३१, ४१, ४७, १७८,
२१६, २२३, २२६, २२७, २३०, ३१२,
३१९, ३७७, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४,
४०७
जिनेश्वरसूरी (वेगड़) ३१३, ३१४, ४२३
जिनेश्वरसूरी (वेगड़ नं २) ४३०,
४३१, ४३२

जिनोदयसूरि	२५, २७, २८, ३५, ३८, ४०, ४७, १७८, २१७, २२३, २२६, २२७, २३०, ३२०, ३८६, ३८८, ३८९, ३९०, ३९७, ३९९	६६, १९९, ३०२, ३४३, ३१५, ४०३, ४०४, ४१५, ४२५, ४२६	
जीया	४२७	जोध्या	३६२
जीवणजी (यति)	३१०, ३११	जंगलदेस	१७५
जीवणदे	४३३	जंबूद्वीप	२६८, १७९
जीवन	२९४	जंबूस्वामी	१०, २०, ४१, ४८, १७९, २१५, २१८, २२८, २९२, ३२१, ३६३, ४२३, ४२८
जुगतादे	४२२		
जुनागढ़	३२६	झ	
जुठिल	४२४	झंझण	३१३, ३१५
जेठाशाह	२१२, २८५, ३६०	झाबक	१८६
जेठमल	१९४		
जेत	४२५	ठ	
जेल्हा	१७	ठाकुरसी (मेहता)	२८५
जेसलमेर	१९३, १९५, २०५, २३१, २३६, २४५, २९४, ३४३, ३७६, ३९६, २३०, ३०२, ३०७, ४०२, ४०४, ४०६, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१३, ४१४, ४१७, ४२६, ४२७, ४३०, ४३१	ठाणांग	१७०
जेसिंगजी	३४२, ३५०, ३५१, ३५३, ३५४, ३६१, ३६४, (विजयसेनसूरि)	ड	
जेसो	३४६, ३५३	डाकिणी	४
जेगलावास	४३३	डीडवाणउ	१८७
जैपुर	४१५	डुंगरसी	५३
जैतशाह	११५	डोसो (बोहरो)	२८५
जीराबलिपादर्ब	३४१		
जोगीनाथ	५९, ८०	ढ	
जोधपुर (शक्तिपुर, योधनगर)	२५७,	ढिल्ली—देखो ढिल्ली	
		ढुंढक	२८०, २८४, २८५, २८६
		त	
		तत्वार्थ (सूत्र)	२७३
		तपागच्छ	१३७, २८२, ३४९, ३५१, ३५५, ३५९, ३६३ महातपाः—३५५
		तर्करहस्यदीपिका	३११

तहणप्रभसूरि	२१,२२,३८६,३९७
तारा	३४०
तारादे	२३४,२४१,२४२,२४३,२४४
(तेजलदे)	३००,४१८
तारंग	१०१,१०२
तिमरी	१८६
तिलककमल	४२०
तिलोकचन्द	३००
तिलोकसी	३१५,२३४,२४१,२४२, २४३,२४४,४१८
तिलंग	९४
तिहुअणगिरि	२
तुलसीदास	२६८
तेजपाल	१६,१७,१८,१९,३५८,३६०, ३६१,३६२,३६३
तेजा	१८८
तेजसी (दोसीजी)	२७४,२७६
तेजसो	१४१,२३५,२४६
तोला	३६०
त्रंबावती—देखो:—खंभात	
थ	
थटा	१९३,१९९,४१०, नगर
थलवट (देश)	२९४
थानसिंह	१८२,३६०
थाहरू	१
थिरह (शाह)	६६
थूलग (गोत्र)	३१५
थोभणदे	३२०

दमयंत	३२९
दयाकलश	१३८,१३९
दयाकुशल	१९६
दयातिलक	४१९
दरगह	१४३
दरडा	१८८
दशरथ	३४६
दशवैकालिक	२८९
दशारणभद्र (दसणभह)	३२,३३
द्वारिका	३७३
दानराज	२५५,२५७
दारासको	२३२
दिली (डिली)	११,१३,१४,१५, २२४,३१९,३२७
अवशेष देखो योगिनीपुर	
दीपचंद्र (वा०)	२८२,२९२
दीपचन्द्र (यति)	३११
दीघ	३२८
दुप्पसहसूरि	३२१
दुर्षलिकापक्ष (पुष्य)	२२१
दुर्लभ	११८,१३८,२१५,२२२,२२५, २२९ (दुल्लह)
	३१९,१५,२९,३६,४४,४५
द्रणाडइ	६६,१८४
दुलहण	४२५
द्रपदी	३४०
दूष्यसूरि	४१,२२१

देउलपुरी	३३९	देवछन्दर	३६३
देदो	५५	देवसूरि	२२८, ४१, ४४, २२१, २२९,
देपा	५१, ४०३, ४०४, ४०५, ४०८,		३६६, ४२५
	४११, ४१२	देवानन्द	२२९
देल्हड (डिल्हड)	५१, ४०४, ४०८,	देवेन्द्रसूरि	२२८
	४११, ४१२,	देशनासार	२८७
देल्हणदे	५	दोसी	३२४, ३३३, ३६२
देराउर	२१, २२, २६, ४७, ९७	दोसीवाढा	२८७
देवकमल	१३९, १४०	द्यावड	३६१
देवकरण (पारिख)	३६०, १९४		
देवकी	३३६	ध	
देवकीर्ति	१४०	धणराज	१४३
देवकुलपाटक	३२०	धनजी	३६०
देवचन्द्र	२६५, २६७, २६८, २७१,	धनबाई	२६८, २६९, २७०
	२७२, २७३, २७४, २७५, २७६, २७७,	धनविजय	३५८
	२८०, २८१, २८२, २८३, २८४, २८५,	धन्ना	५२, ३४७
	२८६, २८७, २८९, २९०	धनादे	१९३
देवचन्द्र (२)	२९४, ३३२, (१९ वीं)	धन्नो	२७७
देवजी	११५, ३६०, ३६२	धरणीधर	१५२
देवतिलकोपाध्याय	५५, ५६	धरणेन्द्र	४, १५, १८, ४४, ४५, २१५,
देवीदास	१४७		३१४, (श्रीशेष) ४००
देवपाल	४२७	धर्मकलश	१५, १९
देवभद्रसूरि	१	धर्मकोर्ति	१७९, १८८
देवरतन	१३६	धर्मनिधान	१८९
देवराज	१७	धर्ममन्दिर	१९६
देवलदे	५१, ४०१, ४०३, ४०४, ४०५,	धर्मविजय	३५८
	४०८, ४११, ४१२	धर्मसी	३६०, १५१, १५२, १५४,
देवबिलास (रास)	२६५, २९०		१५५, १५६, १६५, १७०, १७६,
	२९१, २९२		१७७, ४१७

धर्मसी (धर्मवर्द्धन)	२५०, २५२
धारागंगा	२८५
धारलदे	१५१, १५२, १५३, १५५, १५६, १५७, १७०, १७६, १७७
धारलदेवी	३८८, ३९०, ३९५
धारसी	२८५
धारनगर	३६
धारानगरी	३६८
धारां (श्राविका)	१७१
धोघू	१३७, १४३
धोलका	२८४
न	
नगरकोट	४००
नगराज	४२४
नथमल	२३६
नथमल (नाथू)	३४५, ३४८, ३४९, ३५०, ३५३
नयचक्र	२८७, ३११
नयरहस्य	३११
नयरंग	२२६
न्याय कुसुमांजली	३११
नरपति	६, ८, ९
नरपाल	४००
नरपाल (नाहर)	२१२
नरवर्म (राजा—नरवर्म)	३६
नरसिंहसुरि	२२९
नवइनगर	३५६
नवअंगवृत्ति	१५

नवखण्डापार्श्व	४००
नवहर (पार्श्व)	९७
नव्वा	५२
नवानगर (उत्तननग्र)	२८४
नाकर	३६१
नाकोडा (पार्श्व)	४१५
नागजी	११५
नागदेव	३०, २१६
नागलदे	४२४
नागदह	४००
नागार्जुनसुरि	४१, २२१
नागोर	६८, १९९, ४१५
नागोरी सराय	२७७
नानिंग	९७
नायकदे	३४५, ३४६, ३४८, ३४९, ३५१, ३५२
नायसागर	३३०
नारायण (कृष्ण)	१८
नाल्हा शाह	४०९
नाहटा	२४६
नाहर (गोत्र)	२१२
निलयसुन्दर	२५५, २५७
नींबड	३८६
नेतसी	१३८, १४३
नेतसोह	१८८
नेमविजय	३५३
नेमि (सु) चन्द (भंडारी)	७, ३७२, ३७७, ३७८, ३८०, ३८१

पुरसोत्तम (जोगी)	२८४
पुष्कर	३४३
पुण्यप्रधान	८३, १९२, २९२
पुण्यप्रभसूरि	४२६
पुण्यसागर	५, ५७
पूर्णमागळ	२७४
पूतमागळ	३७६
पूनिग	३८६, ३८७, ३८८, ३८९
पृथ्वीचन्द्र चरित्र	४००
पृथ्वीराज	७, ९
पृथ्वीराज (छाजेड)	४२५
पोकरण	१९३
पोरवाड	१४६, १४७
पञ्चनदी	८०, १२२, १२३, ९३, १०२, १०३, १४६, १७०, १७९, २३०, ३७४
पंचाङ्गण	२९३, २९५, २९६,
पञ्चायण	२३३, ३४६, ३५३
पंडव	१५९
प्रताप	४२५
प्रद्योतनसूरि	२२८
प्रबोधमूर्ति	३८२
प्रभवसूरि	२, ४१, २१५, २१९, २२८, ३२१, ३६३
प्रमेय कौल मार्तण्ड	३११
प्राग (वाट) बंश	३५८, ३३९
प्रीतिसागर	३०७
फ	
फडिआ	३६०

फलवधी	६८, ३४३, १८६, १९३
फुला	३४५
ब	
बडगळि	४२६
बडवाण	२८६
बवेर (बवेरइ) पुर	२, ७, ९, २६
	२१६
बहली देश	३४२
बहरा	२४९, २५०
बहिरामपुर	३३२
बाफणा	४३१, ४३२
ब्रह्मचन्द्र	३६८
ब्रह्मदोपि (शाखा)	२२१
बाहडगिरि	५५
बाहड देवी	४
बाहडमेर	३४२
बाहुबलि	१०७, ३४२, ३५६
बीकानेर (बिक्रमपुर)	६०, ६६, ६८
	९६, १४३, १५९, १६०, १६७,
	१७९, १८१, १८३, १८४, १८६,
	१८९, १९३, १९९, २११, २३५,
	२४६, २४७, २६८, २८७, २९३,
	२९४, २९६, २९७, ३००, ३०१,
	३०२, ३०९, ३३५, ४१४, ४२२,
	४३०, ४३२
बीबीपुर	३५७
बीलाडा (बिनातट)	८२, ८३, ६७,

१८८, १०३, १९३, २७२, ३३८, ४१५, ४२१	भरही (श्रविका)	१३८
बुद्धिसागर १३७, १४०, १४२, १४३	भागवन्द	३३८
वेगम २३६	भाग्यचन्द्र	६७, १६८
बोद्धिथरा (बोथरा) १५१, १५२, १६३, १६५, १७६, १७७, १८०, १८९, १९१, २००, २०२, २१२, २९३, २९५, २९६	भाट	१६५
बङ्गदेश (पूर्व) ९४, ११८	भाणजी	११५, ३६०, ३६१
बंभ (ब्राह्मण) ३७४	भाणवट	१७०, ४७१
बंभणवाड ३४१, ३६३	भाणुसङ्घिनगर	२७
भगतादे ३३३	भाद्राजी	५१, ३३३, ४०८
भटनेर १९९	भामा	३६०
भणशाली ५५, १८८, १८५, १९४, १९५, २०७, ३२७, ३३६, ४१७	भारहू	१४३
भण्डारी ७, ३७२, ३७७, ३७८ ३८०, २८४	भावनगर	३२८, २८५
भगवती (सूत्र) २८०, ३२७	भावप्रमसूरि (खर०)	४९, ५०
भगवंतदास (मंत्री) १८७	भावप्रमसूरि (पूनमीयागळी)	२७४
भक्तिलाभ ५३, ५४	भावप्रमोद	२५८
भक्तामर २२८	भावारिवारणवृत्ति	४००
भक्तड ८, ९	भावविजय	२५९
भद्रगुप्त ४१, २२०	भावहर्ष	१३५, १३६
भद्रबाहु २०, ४१, २१९	भिनमाल	३२२
भमराणी ६६	भीम (राडल)	९८, १०९, १४६, १६७ १७५, २०१, ३१३
भयहर २२८	भीमजी	३६०
भरत १८, ३४२, ४३२	भीमपल्लीपुर	६, ९, ३४२, ३९५, ३९६
भरतक्षेत्र १७९, २६८	भिक्षु	३२४
भरम ३१५	भुजनगर	३३२, १९३, २०६, ४१६
	भूतदिन्न	४१, २२१
	भृगुकच्छ (भरोंच)	१९९
	भोज	३५२, १४३
	भोजा	३६०, ४२७
	भोजग	१६५

भोजागरू	४२४
भोदेवरू	४२४

म

मकुरबखान	१३२, १३३, २०२
मखनूम	१५६, १४७
मण्डोवर	६०, ३०५, ४१५, ८२, १४६
मणुहारदास	१८६
मतिभद्र	२२४
मदांति	१३६
मनजी	१९४, ३६०
मनरूप (मुनि)	२७६, २८७, २८९, २८८, २९१, २९२
मनुअर	११५
मनोरमा (ग्रन्थ)	२७३
मल्लवादी	२६४
मरहट्टदेश	३०
मरूकोट (मरोट)	७, १९३, १९९ ३७७, ३७८
मरुदेव (भरतपुत्र)	३४२
मरुदेवी	३४१, ३४२, ३६३
मरूमण्डल (मारवाड़ मरुधर)	६, ८ ९४, ११८, १७९, १९२, २३४, २७३ २७६, २८६, २९७, २९८, ३२२, ३२६, ३४२, ३४४, ३५३, ३७३, ३७४, ३७७ ४३१
मरोट	देखो महकोट
महाजन	६६, १९९
महादे (मिश्र)	१४२

महतिआण	१६, १८
महमद	११, १३, १४, १४८
महादेव (शाह)	३३९, ३४०
महावीर देखो—वीर	
महिम	६९, १४३
महिमराज (मानसिंह-जिनसिंहसूरि)	६३, ७०, ७४, ७५, १२६, १६७,
महिमावती	५२
महिमासमुद्र	८८, ४३१, ४३२,
महिमाहर्ष	४३२
महिमाहंस	३००
महुर	६५
महेवचा	१४३
महेवा	५१, ४०१, ४०२, ४०४, ४०८, ४०९, ४११, ४१२, ४१३, ४१५,
महेसाणा	६४
माइजी	२७३
माइदास	३१८
मांडण	२०६, ३४५, ३५०, ३५३
मांडण (भंडारी)	११५
मांडवगढ़	३५५
मांडवी	४१६
माणक	२९४
माणभट्ट (पक्ष)	९७, १०२, ३१९, ३७४
माणिकमाला	१९१
माणिकलाल (जालिमी)	२८०
माधव	३३६
मानजी	२४०

रतनस्त्री	३५७	राजविजय	२४१
रतनादे (मरुपदे)	२४९,२५०	राजविमल	२७२
रतनेश (रतनसिंहजी)	३०१	राजसमुद्र	१३२,१६६,१६७,१६८, १६९,१७९,२६८,२७१,२७२
रत्नाकरावतारिका	३११		२७६,२९२
रत्नभण्डारी	२८२,२८३,२८४	राजसार	१९६
रत्ननिधान	७०,७९,१०३,१२३	राजसिंह (सिरोहीनरेश)	१८४
रत्नशेखर	३४०	राजसिंह	१८५
रत्नसिद्धि	२१०	राजसीह	१८८
रत्नहर्ष	१७१	राजसिंह (छाजेड)	४२५
रमणशाह	६,७	राजसी	२६२
रविप्रभ	२२९	राजसुन्दर	३२०
रहीआसा	३६३	राजसोम	१४९,१९६,३०५
रहीकपासी	२८५	राजहर्ष	२५५
राकाशाह	११५	राजहंस	२३१
रांका (गोत्र)	३२२	राजेन्द्रचन्द्र सूरि	१७
राजकरण	३०३,३०४	राठौड	१५०
राजगृ (ह) ह	४००	राउद्रह	३१५,४०८,४१२
राजनगर	६२,१०३,१८३,१९४, १९९,३१४,३२७,३३२,३३४,३५७, ३५८,३६०,४०४,४१६	राणपुर	१०१,१८६,१८८,३५१
राजपाल		राणावाव	२८४
राजुल	२६४	राणनगर (सिन्ध)	२१
राजलछि	३३९,३४०	राधणपुर	१९९
राजलदे	५०	रायचन्द	३०६,१९४
राजलदेसर	६८	रायचंद (मुनी)	२८७,२८८,२९१
रामजी (मुनि)	२५५		२९२
राम	१७,१८०,३४६	रायमल	४२७
रामचन्द्र	१८८	रायसिंह (राजा)	६०,१५०,१५१, १७९
राजलाम	२५५,२५७	रायसिंह (शाह)	२०६,३६०

रासल	६	लखमसीह	३१५
रीणीपुर	६८, १९९, २५१, २५२	लखू	३६०
रीहड (वंश)	७७, ७९, ९२, ९३, ९५, १०१, १०२, १०७, ११९, १७८, १८८, २२६, ३३८, २१	लब्धिक्लोल	७८, १२३
रुवनाथ	१८८, ३०४	लब्धिमुनि	३३२
रुदपाल	१६, १८, ३८६, ३८८, ३९० ३९१, ३९२, ३९४, ३९६	लब्धिशेखर	९८, १२१, १२२, १२३, २०६
रूपचन्द्र	२४९, २५०, २८८, २९७, २९८	ललितकीर्ति	२०७, ४०५, ४२२
रूपजी	४१७, ४३०	लालू	१९४
रूपसी	३१६, १४६, १४७, ३३०, ३३२	लकेरइ	१४८
रूपहर्ष	२४१, २४६	लक्ष्मीचन्द्र	६७, १८८
रूपादे	४३०, ४३२	लक्ष्मीतिलक (बिहार)	४००
रुस्तक	२२४	लक्ष्मीधर	२२
रेखां	४२१	लक्ष्मीप्रमोद	७८
रेखाउत	१८८	लक्ष्मीलाम	२९६
रेडडं	१४३	लाडण	२०६
रेवंत	४१, २२०	लाडिमदे	२०६
रेवतीमित्र	२२१	लाघोशाह	३३२
रोलू	४०७	लालचन्द्र	१९३, २८६, ३०१
रोहीठ	६६, ४१९	लावण्यविजय	३६१, ३६२
रङ्गकुशल	१४०	लावण्यसिद्धि	२१०, २११, २१२, ४२२
रङ्गविजय	१७७	लाहोर (लामपुर)	६१, ६३, ६६, ७३, ७४, ७६, ८०, ९२, ९६, १००, १२५, १२६, १२८, १४६, १४८, १५१, १७२, १९३, १९९, ३५०
ल		लांबिया	६७
लखउ	५१, ४०६, ४०८	लींबडी	२८५, २८६
लखमण	३४६	लीला (दे)	१३४, ३५४, १४७
लखमादे	४३२	लीला दे	४२५
लखमिणी	३७७, ३७८, ३८०, ३८१		

लूणकर्ण	४२८	४१,४४,१७८,२१५,२२१,२२५,२२९
लूणिग (कुल)	५०	२२७, ३१२,३१८,३६६,४२३
लूणिया (गोत्र)	२४१,२४२,२४३, २६८,४१८	वधू (भणशाली) १९४,१९५
लोकहित्वाचार्य	२७,३९९	वरकाणा १०१, १८६, ३५१
लोहक्चिय (हित)	४१,२२२	वरसिंघा १२
लोद्रवा	४१४,१८६	वस्तपाल ३११,३८७
लंका	३४५,	वस्तिग १३९,१४५
		वस्तुपाल ३५२
		वस्तो (मुनि) २९५
		वाछिग (मंत्री) ४
		वागडदेश ४६
		वाघमल १८४
		वाछडा १९४
		वाराणपुर १९९
		बालसोसर ४२०
		वाल्हादे ४१९
		वाहड १७
		वाहडमेर २३६
		विक्रम (वीको) १८२,१९१
		विक्रमपुर (वीकमपुर) २,५,६,८ २६,३७६
		विक्रमसूरि २२९
		विक्रमादित्य १५९
		विजयचन्द (मुनि) २८८,२९२
		विजयदान सूरि ३६३
		विजयदेव सूरि ३४२,३५४,३५५, ३५८,३६२,३६३,३६४
		विजय सिंह ९,१६,१७,१८
वकतुजी (मुनि)	२८७	
वखतावर	२५५	
वछराज	४८,३६०	
वछराज (छाजेड)	४२४	
बछा	११५,१८०,१८१,१८९,१९१ २००,२०२,४१९	
वछावत	६०,१००,१७९,२९७,२९८	
वज्जयाणंद	३०,३१	
वज्र (वहर-वयर) (कुमार, स्वामी)		
	४१,४३,४८,९४,१०२,१७२,१७७, १७९,२०५,२२०,२२८,३८२,४२८	
वज्रसेन	२२८	
वध (छ?) राज	१४०	
वडनगर (वृद्धनगर)	१९९	
वडली	१८४	
वणारसी	३२६,३४५	
वद्धमाण—देखो—बीर		
वर्द्धमान शाह	११५	
वर्द्धमानसूरि	११,२०,२४,२९,३१,	

विजयसिंह सूरि	३४२, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४	वीर (वर्द्धमान स्वामी)	१८, २०, २४, ३२, ४२, ५८, ९५, १०९, ११०, २१५, २१८, २२७, २६४, २६५, २७७, २७८, २९२, ३१२, ३२१, ३४१, ३६३, ३६९,
विजयसिंह सूरि	देखा—जैसिंग	वीरजी (भण्डारी)	११५,
विजयाणन्द	३१	वीरजी	१९४, ३६०,
विजयाणन्द आचार्य	३५८	वीरजी (वीर विजय)	४३०,
विठलदास	१५२	वीरदास	१८८,
विश्वे	३५४	वीरदेव	१८,
विद्याविजय (खर०)	८८	वीरपाल	८८,
विद्याविजय (तपा)	३६४	वीरमपुर	४०६, २३६, ५२, १९९,
विद्याविलास	२४५	वीरप्रभ	३८,
विद्यासिद्धि	२१४, २४०	वीरसूरि	२२८,
विधिसङ्घ (वसतिमार्ग)	३	वीसलपुरि	४०८,
विनयकल्याण	१९१	वृद्धिविजय	२६३,
विबुधप्रभ सूरि	२२९	वेगड़गच्छ	३१६, ४३१, ४३२,
विमल (मन्त्रो)	४४, २२९	वेगड़ (गोत्र ?)	३१४, ३१५,
विमल कीर्ति	२०८,	वेगड़	२३६,
विमल गिरिन्द	६०, ४१६, देखो शत्रुञ्जय	वेलजी	२५१,
विमलदास	२७३,	वेला	३६०,
विमलादे	३३६, १९५,	वेलाउल	४१६,
विमलरत्न	२०८, २४४,	वैशेषिक	३६,
विमलरङ्ग	७८, २०६,	वैभारगिरि	३२७,
विमलसिद्धि	४२२,	बोहरा	३००, ३३०, ३३२, ३३७,
विलहणदे	३३९,	श	
विवेकविजय	२८२,	शय्यम्भव	२८, ४१, २१५, २१९, २२८ ३६३,
विवेकसमुद्र (विवेकसमुद्र)	१७,	शत्रुञ्जय (विमलगिरि-देखो—सोरठ- गिरि)	४२, ५९, ६०, १०१, १०३,
विवेकसिद्धि	४२२,		
विसो	३५४,		
वीकराज	२१०,		

१०४, १६४, १७०, १८४, २१३, २८१,
२८५, २८६, ३०७, ३२६, ३२७, ३२८,
३५५, ३५६, ३५८, ३६३, ४१६, ४१७,
शाकंभरी ४६,
शालिभद्र २७७, १८१, ३४६, ३४७,
शालिवाहन ३०,
शान्तिनाथ २७, ३१, ७८, ८५, ८६,
९७, ११०, १४५, १९८, २६४, २८०,
३२७, ३४१, ३८०, ३८१,

शान्तिदास १९४,
शान्तिस्तव २२८,
शान्तिसूरि (अज्ञशान्ति) ४१, २२०,
शासनदेवता ११०, ३३९,
शाहजहाँ १७३, १७४,
शाहपुर ३४०,
शिवा ८०,
शीतपुर १४७, (सिद्धपुर) १४८,

श्र

श्रावकाराधना ८८,
श्रियादे ७७, ८९, ९३, ९५, ९८, १०२,
११२, २२६,
श्रीचन्द्र १४३, २०८,
श्रीघर १५१,
श्रीपूज्यजी सं० ५२,
श्रीमल १८६,
श्रीमाल ५३, ८७, १३३, १८२, १९८,
२०६, २३३, २७४, ४३२,
श्रीवच्छ १४३,
श्रीवन्त ७७, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३,

९४, ९५, ९८, १०२, १०४, १०७, ११२
१२१, १२२, १२६,
श्रीसार १७१,
श्रीछन्दर ९१, ९४,
श्रीपुर ७४, १२६,
श्रेणिक १८, ६१, ३२२,
श्रीमंथर (विहरमाण) ४५, ११०,
२१६, ३१९,
श्रीरङ्ग ४२६,
श्रीश्रीमाल ४३२,

स

सकलचन्द्र १०६, १४६, १४७,
सचिन्ती (गोत्र) १३९, १४५,
सता ४२५,
सतीदास १४०,
सत्यपुर १९९, देखो, साचोर
स्तम्भनपाश्वर् २०, ४५, ५९, १०६,
११०, १२०, १७८, २५३,
स्थूलिभद्र २०, ४०, ४१, ४८, ४९, ९८
२१९, २२८, ४३१,
सदारङ्ग ४२७,
सधगो ३८६,
सन्देहदोलावली ४००,
सभाचन्द्र २८९,
सम्मति (सूत्र) ३११,
सम्मेत सिखर १५४, २९७, ३२६,
समरथ ३६०,
समुद्रसूरि २२९
समयकलश १३६,

समयनिधान	१९६,	सहजू	३६०, ३६१, ३६२,
समयप्रमोद	८६, ९६	सहसकूट	२७५, २७६,
समयसिद्धि	२४०,	सहसफणा पार्श्व	१६९, २८०,
समयसुन्दर ७०, ७५, ८८, १०६, १०७,		सहसमल (करण)	३६०, २४५, २४७
१०८, १०९, १२६, १२७, १२८, १२९,		सांउख्खा (गोत्र)	२१४
१३१, १४६, १४७, १४८, १९२ २००,		साकरशाह	२३१, २३३,
२२७,		सांख्य (मत)	३६,
समयहर्ष	२५४,	सागरचन्द्राचार्य	२७, ५०,
समरिग ३९१, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६,		सांगानेर	१९९,
स्याणि	४८,	साचोर ३१५, ३१६, ४१५, १४६, १४७,	
स्यादवादमञ्जरी	३११		१४८,
स्यामाचार्य	२१९,	सादड़ी	३५१,
स्याहानोपोल	२७५,	साईल	३६०,
सर (लूणकरणसर)	१८७, १९३,	साधुकीर्ति	४०३,
सर्वदेवसूरि सव्वएवसुरि	३,	साधुकीर्ति ९२, ९७, १३७, १३८, १३९,	
सव्वड	५०,	१४०, १४१, १४२, १४४, १४५,	
सरस्वती (साध्वी)	३०, ३९५,	साधुरंग	२९२,
सरसा	६९,	साधुसुन्दर	२०८, २०९,
सरसती	३४०, ४२३,	सामल	१८१, १८५, १९१,
सराणउ	६६,	सामल (वंश)	१८,
सरुपचन्द (सेवग)	३११,	सामीदास	१४३, २५०,
सलेम (जहांगीर) ८१, ८७, ९८, १०३,		सामन्तभद्रसूरि	२२८,
१०९, १२३, १३२, १६७, १७९, ३५५		सारमूर्ति	२०, २३,
सव्वडशाह	५०,	साहिहगु	३८८,
सहजकीर्ति	१७५, १७६,	सांवल	३३७,
सहजपाल	४२५,	सावक्ति	३५७, ३६१,
सहजलदे	१९५,	सांसनगर	४३२,
सहजसिंह	१४३,	साहणशाह	४०९,
सहजीया	११५,	साहिबदे	३३७,

साहिबी	१३९,	खुन्दरदास (यति)	३११
साहु (शाखा)	४८,	खुन्दरादेवी	३०४
सिकन्दरशाह	५४,	खमतिकल्लोल	९०, (८१)
सिंघादे	२१२,	खमतिजी	१९६
सिन्दूरदे २३१, २३३, २४५-२४६, २४७ (छदीथारदे राजलदे)		खमतिरङ्ग	४१०, ४२१
सिद्धपुर	६४, १९९	खमतिवल्लभ	१९६, १९७
सिद्धसेन	१६९, १७९, १८३	खमतिविजय	१७७
सिन्ध १०९, ११८, १४६, १४८, २१, ९४, २९९, ३७५, ३९७, ४०२, ४१०		खमतिविमल	२५०
सिघड (वंश)	२३१, २३३	खमतिसमुद्र	१९८
सिवचूला	३३९, ३४०	खमतिसागर	२९२
सिवचंदसूरि ३२१, ३२२, ३२४, ३२५, ३२७, ३२८, ३३०, ३३१		खमङ्गला	३५९
सिवपुरी	६५, ३४१	खयदेवि (श्रुतदेवी)	४, २०, ५१, ५८, १०१, ३८४, ४००, शारदा, सरस्वती
सिंहगिरी	२२८, २२०	खरताण (छाजेड)	४२५
सीता	३४०, १८०, ५१	खरताण (खलतान)	५२, ६५, ७९, ८९, ९०, १०१, ३४९, ३५२, ३५३
सीरोही ६५, १८४, ३४१, ३५१, ३५८, ३६२, ३६३, ३६४		खरदास	२५०
सींह (राजा)	३७३	खरपुर	१८७
छकोसल	३२९	सूयगडांग (वीरस्तव)	१११
छखरल	१४९	छस्थित	२२८
छखसागर	२५३, ३४०	सूरजी	३६०, ३६१, १९४
छखानन्द	२८५	सूरत	६०, १९३, २४९, २५०, २८२, ३१७, ४१५
छदर्शन	५०	सूरविजय	३५३
छधर्मा, छहंम (स्वामी) २, ४, ८, २०, २४, ४१, ५८, २१५, २१८, २२८, २९२, ३२१, ३६३, ३६९, ४२३		सूरसिंह	१०९, १७४
खुन्दर	३६०	सुहवदेवी	६, ८
		सेठीया (गोत्र)	२५२
		सेरीसा	४००
		सेरूणा	२३४, ४१८

विशेष नामोंको सूची

४८६

हिमवंत	४१,२२१,
हीरकीर्ति	२५५,२५६,२५७
हीरजी	११५
हीररंग	१४०
हीरदे	३४०
हीरविजय सूरि	३४१,३४२,३५०,
	३५१,३५६,३६१,३६३
हीरसागर	३२५,३३०,३३२
हुंबड	२०८, १३६,
हुंमाऊ	१००, १२१,
हेमकीर्ति	१७१,
हेमचन्द्राचार्य	२७३,२७४,३७६;

हेमसिद्धि	२११,२१३,
हेमसूरि	१८०,
हंसकीर्ति	१३९,१४०,
श	
ज्ञानकलश	३८९,
ज्ञानकुशल	२३२,१४०,
ज्ञानधर्म	१९६,२७३,२९२,
ज्ञानविमलसूरि	२७४,२७५,२७६,
ज्ञानहर्ष	३३५,३३६,३७३,३७४,
	३७५, ३७६,



शुद्धाशुद्धि-पत्रक

—**—

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१०	आवि	अविहि	१२	१४	ढाल	ढोल
२	२	मणच्छिउ	मणिच्छिउ	१३	३	जिणप्रभु	जिणप्रभ
२	३	दिनु	दिन्नु	१३	४	जिणनासण	जिणशासण
२	७	वक्कु	चक्कु	१६	११	निहि	नहि
३	१०	दिणण	दिणणु	१६	११	निहि	नहि
५	५	सद्धमि	भद्धमि	१७	१७	किन्नग	किन्न
६	९	वैशाखाह	वैशाखह	१८	१३	वार	चार
५	१६	अवंझ	अवंझ	१८	१७	जइसइ	अइसइ
५	१९	संथिणिउ	संथुणिउ	१९	१४	बिंबिवि	बिंबि
६	१२	बधाविउ	वधाविउ	१९	१८	ज्ञा	जा
६	१४	बाधइ	वाधइ	२०	६	सवणंजल	सवणंजलि
७	२२	अन्नं	अन्न	२०	८	जिण	जण
८	१७	बधावीउ	वधावीउ	२०	११	अनुकमि	क्रमि
१०	११	०नो जन्दा	०नौ जिनंवा	२०	१७	कण्ठीर	कण्ठीरव
१०	१२	क्षीरे नीरे	क्षीरैनीरैः	२१	१	संघयण	संथवण
१०	१२	स्नपयत्ततरां	स्नपयत्तुतरां	२१	८	घत्ता	घत्ता
१०	१४	गौतमःश्रीसुधर्मा—	गौतमश्रीसुधर्म	२१	१३	तिहुपति	तिहुयणि
१०	१७	कलशराध्या	कलशराज्या	२१	१९	चन्दि	चंदि
११	९	०बोहुणु	०बोहुणु	२१	२२	पाट ठवण	पाठवण
११	१३	मनइ	नमइ	२१	२२	कुंकुवन्निय	कुंकुमपन्निय
१२	११	सासउ	सीसउ	२१	२३	वच्छरि	वित्थरि
१२	१२	कंपि	किंपि	२२	१३	घत्ता	घत्ता

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२३	१२	सहलउ किउ इत्थु	कलि तिह	३०	६	पख	पक्खी
			सहलउ तिहि किउ	३०	९	वद्वियं	विद्वियं
			इत्थु कलि	३०	९	पंचमि(घाउ) पंचमियाओ	पंचमियाओ
२३	१४	सूर	सूरि	३०	८	उज्जेण	उज्जेणी
२४	९	विसम	विस	३०	१३	जिणदत्त	जिणदत्त सूरि
२४	१३	परकरिय	पक्खरिय	३०	१३	सुपहु	सुपहू
२९	१०	गच्छाहिवइ	गच्छाहिवइ	३०	१४	विन्नाउ	विन्नाओ
२९	१७	जेता०	जिता०	३०	१८	सय	सोय
२९	१७	इग्यारह	इग्यारहसय	३०	१८	जवाईय	जु वाईय
२६	१	वइसाख्यइ	वइसाख्यइ	३०	२१	फुगण	फगुण
२६	७	आसोज	आसोजवदि	३०	२२	वजयाणंदो	विजयाणंदो
२६	८	अनुतर	अनुतेर	३०	२२	निज्जणिय	निज्जणिय
२७	१	वत्थरि	वित्थरि	३१	९	ता(?)उन्हउं	ताउन्हउं
२७	७	लोपआयरिय	लोगह	३१	६	ति(लि) हि	लिहि
			आयरिय	३१	७	रमनरमणि	नरमणि
२७	१६	सूरि	सूर	३१	८	जिणेसर(७वीं पंक्तिमेंपढ़ो)	
२८	८	झदाउत खसंसि—	रूदाउत सुपसंसि	३१	८	नं दिन	नंदिन
			रूदाउत सुपसंसि	३१	९	पवठ	पयठ
२८	९	पनरेतिरइ	पनरोतिरइ	३१	११	अवहि	अविहि
२८	१०	रतनागरवरसि—	रतना पुन्निग उच्छव रसि	३१	२२	स	स हंस
			रतना पुन्निग उच्छव रसि	३२	३	पट्टु	पहु
२९	६	सूरहि		३२	९	एने	एन
२८	१८	अठारहवी पंक्तिको		३२	८	बडआरुय	बडयारुअ
		सोलहवीं पंक्ति पढ़ो		३२	१०	वंच	वंच
२९	१४	सुविह तह	सुविहि तह	३२	११	नसि	निसि
३०	३	तिलउ	निलउ	३२	२०	वडवि	चडवि
३०	३	लठ्ठिवर	लब्धिवर	३२	२०	धितिहि	वितिहि
				३३	१	गुडिर	गुडिय

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३३	४	न(?)नाविष	ठाविष्य	४२	६	०विजय०	०विजिय०
३३	५	घड	पयड	४२	६	सूर०	सुर०
३३	५	बत्तास	बत्तीस	४२	७	पहोदय	पहोदय
३३	११	मुणिहु उहारिय	मुणिहुउ हारिय	४२	१०	कुम०	कुंभ०
३३	१२	आणग थुणि	अणेगे पुणि	४२	११	परंपरा०	परंपर०
३४	१	सऊर्हि	मक्षिर्हि	४२	१२	०मिण जो	०मिणं जो
३४	१	वंदु	चंदु	४४	२	०जतो	०जपो
३४	६	वरण	चरण	४७	७	हंड	हउं
३४	९	एररिसउ	एरिसउ	४७	७	देरउरि	देराउरि
३४	१५	सघोस	सुघोस	४७	१८	नदेन	नवीन
३५	३	निज्जणवि	निज्जिणि व	४८	३	गुरि	गुरो
३५	५	पटटुद्धरणु	पट्टुद्धरणु	४८	१४	गुरुगा	गुरूणां
३५	१८	जिम	तिम	५०	१२	सुवर०	सु वर०
३५	२१	अगाइ	अगगइ	५१	६	सुरहुम	सुरहुम
३६	१२	ब्रजा	ब्रज	५१	९	रुपइ	रूपइ
३७	१३	नरनाह	नरनाहा	५३	७	वेची	खरची
३९	६	दुग्ग	दुग्गम	५३	९	पामदत्त	पासदत्त
३९	७	वितु	वित्त	५३	२०	सव नारी	सवइ नारी
३९	१०	विन्नउ	विन्नविउं	५४	५	जणियइ	जाणियइ
३९	२०	निवारइ	निवारउ	५९	२१	भेटता	भेटता
४०	४	तूय	तुय	६३	९	अविया	आविया
४०	५	दिज्जय	दिज्जइ	६३	१२	हर्ष	हर्ष
४०	६	०चित्ति	०चित्ति	६४	१७	घणी	धणी
४१	५	नंदि	नंदि	७०	१	गौड़ा	गौड़ी
४१	१२	लोहच्चिय	लोहिच्चिय	७३	१४	ऐकज	रोकज
४१	१४	वंदेहिं	वंदेहं	७६	११	विधि	निधि
४२	३	तिहऊय०	तिहुय०	७७	१९	रि	सूरि
				७७	१९	लगइ	लगइ ए

पृष्ठ पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
९३	६ चिणचन्द	जिणचंद	१३१	१७ साचा	साची
९४	१७ कलाल	कलोल	१३२	८ (झा ?)	(जा !)
९६	१ समय माद	समयप्रमाद	१३४	१० सोलेतरइ	सोलोत्तरइ
९६	१ समुलसा	समुलसी	१३६	२१ इथ	स्थ
९६	१८ पुष्प	पुष्य	१३८	१४ आ० यउ	आव्यउ
१०४	२ गर्भित्	गर्भित	१४२	४ वाइमल्ल	वाइमल्ल
१०६	१२ १२(२)	(४२)	१४३	९ वावइ	वाजइ
१०८	२१ जनचन्द	जिनचन्द	१४६	२ ०छदर	सुन्दर
११०	८ जिणिद	दिणिद	१४७	१८ ०मुंदरों	सुंदरों०
१११	८ विने	विते	१४८	७ पूठो	पूठी
११२	९ विहु	चिहु	१४९	६ जिर्	चिर्
"	२० आझा	आज्ञा	१५४	१५ खिहाला	लिहाला
११२	२२ वारह	वारह	१५६	१२ सहू	साजन सहू
११३	१ करुणा	करुणा	१५९	१५ लखत०	लखण०
११५	१३ प्रभु	प्रभु	"	" ०गति	०गति
११५	१९ जाबड	जाबड	१६१	२ सदा	सदाजी
११९	८ रिगमता	रिगमती	१६२	६ तो	ते
११९	१० गुणघा	गुणधी	१६३	९ भोज	भोग
१३०	८ छीतर	छीलर	१६४	५ तुंगो	तुंगो
"	१३ उग्घाडा	उग्घाडा	"	६ कज्जगई	कज्जगई
१२१	९ दली	टाली	१७०	१० पंच	पंच
१२३	७ प्रधान	प्रधान	१७१	१२ ०निछय	निःछय
१२६	१६ चापडां	चोपडां	"	" सूरिश्चरा	०सूरिश्चरा०
१२७	१५ जिन	जिम	"	१३ प्रबन्ध	प्रबन्धः
१२८	६ पेच	पञ्च	१७२	२० शृङ्गार	शृङ्गार
"	१५ अछश	जसु जश	१७५	२१ उवणउ	उवणउ
१३०	१४ आसू आस	आ मास	१८०	२ वित	वित्त
		आसा	१८१	२१ काले	काल

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२६६	१६	प्रसाद	प्रमाद	३००	१४	ओलख्या	ओलख्या
२६७	३	आजान	आजानु	३०२	८	रजण	रंजण
२७२	६	चोधडीए	चोधडीए	३०३	१९	पथीडा	पंथीडा
२७३	२१	कह्यो	कह्यो	३०४	९	गच्छवति	गच्छवति
२७४	३	स्याद्वाद	स्याद्वाद	३०५	८	दशा०	दशा०
२७५	१३	शठ	शेठ	३०५	९	विनिर्मितं	विनिर्मिति
२७६	११	सूलक्ष	सुलक्ष	"	१३	०द्वि०	०द्वि०
२७८	२०	नडीयुं	नडीयुं	"	१४	गर्भिभतं	गर्भितं
२८१	३	ओगणीस	ओगणीसी	३०६	९	०बन्ध	बन्धः
२८४	४	आज्यो	आवज्यो	३०७	३	संज्ञाः	संज्ञा
२८४	१०	पायो	पाये	"	५	उकेश	उकेश
२८८	१	व्याधि	व्याधि	"	"	कच्छ	कच्छ
"	१३	उपर	उपर हो	"	१६	गुरुवः	गुरुवः
२८९	९	हाथ	बे हाथ	३०८	९	महोक्कला	महोत्कलां
२८९	२२	धम्	धर्म	"	१४	दृष्टेः	दृष्टेः
२९०	२	भवे	भवे हो	"	"	भवत्परं	भवत्परं
२९०	२२	गुरुतणी	गुरुतणो	"	१८	गांगेयं	गाङ्गेय०
२९१	१४	संज्ञेश	संज्ञेश	३०९	८	साधूनां	साधूनां
"	१४	बाग्ववाद	वाग्ववाद	"	९	जस्रं	जस्रं
"	१७	टले	टलेरे	"	१२	०स्तपस्विनः	०स्तपस्विनः
"	२२	कीधो	कीधोरे	"	१८	लुनोहि	लुनीहि
२९५	८	रद्या	रह्या	३११	३	जेती	जती
२९६	१२	पाम्यो पाम्यो	पाम्यो	३१५	१	वहु	सहु
२९७	४	वंदिय	वंदियै	३१५	१२	जोसा (धा?)ण	जेसाण
२९७	१३	आचरज	आचारज	३१६	६	पू०	प०
२९८	७	सद्गुरु	सद्गुरु	३१६	११	खरतरजू	खरतर ज०।प०
२९८	१५	श्वंगार	श्रृङ्गार	३२४	७	जाणो	जाणी
३००	१३	व्यांचो	थंभ्यो	३२४	२२	रे हरे	एह रे

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३२६	६	जिणंद	जिणंद । म० ।	३६३	१५	थाण्युं	थाण्युं
३२८	२३	'जिनचंद	'शिवचंद	३६३	१५	आघाटिं	आघाटिञ्जी
३२९	११	रह्या	रह्या	३६५	१५	धणुहर	धणुहर
३२९	२१	आप्या (थप्पा)	अप्पा	३६५	१६	पङ्खहि	पिङ्खहि
३३२	६	थाप्या	थाप्या	३६६	१५	घणुहर	धणुहर
३३५	१४	विधि	विधि	३६७	६	पावक-रदि	पाव-करदि
३३५	१६	वृठा	वृठा	३६७	१३	को यलिय	कोवलिय
३३७	१५	अमूलिक	अमूलिक	"	१५	वेवि	वेवि
३३८	१५	निधान	निधान	३६८	१२	पद्ये	पक्षे
३३८	१८	चंद	चंद	३६९	५	तित्थुरणुद्ध	तित्थुद्धरणु
३३८	२४	हो पूज	पूज	"	१६	पतरइ	पनरइ
३३९	२०	लिलग्रन	लिओ लग्र	३७७	९	नयभेरि	जयभेरि०
३३९	२२	आवरा	आवए	३८४	९	[त (न)यण]	तयणु
३४०	४	शिवचूला	शिवचूला	३८८	१५	कप्पतरा	कप्पतरा
३४०	३	ना दि	नांदि	३९२	९	भवय	भविय !
३४०	२१	द्रपदि	द्रपदि	३९४	३	०न तं	तउ
३४१	८	ब्रे थाप्यो	जे थाप्यो	४००	२	पट्टालंकारे	पट्टालङ्कार०
३४१	१३	भुजिङ्गिद	भुजगिन्द	"	७	०तरुण	०तरुणां
३४३	३	झूठा	जूठा	"	१०	'नागइह'	'नागद्रह'
३४३	४	चिढतां	चिढतां	"	१३	'राजह'	'राजगृह'
३४४	८	निधा(श्रा?)व०	निधाव०	"	१७	स्तवः	०स्तव०
३४४	१७	घणी	धणी	४०३	५	हले	टले
३५१	६	'बीझो'वा	०'बीझोवा'	४०३	९	नहु	बहु
३५२	१०	खग्र	खिग	४०४	१८	धरं	धर
३५३	१७	पालइ	बालइ	४०५	५	थुम	थुभ
३५६	१८	पधारइ	पधारइ	४०५	२०	फोटक	फोकट
३६१	९	बोल०	बोला०	४०५	८	राजसागर	राजसभा
३६२	१८	सी र (ही)	सिरोही	४१५	६	'जलोल'	'जसोल'
३६२	२३	जाडि	जोडी	४१७	१७	त्रिब	त्रिंब
				४७३	२०	दुर्बलिकापक्ष	दुर्बलिकापक्ष

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४७३	२४	द्रुगाडह	द्रुगाडह	११	१७	प्रतिबोध	प्रतिबोध
४७६	२९	नमचन्द	पुनचन्द			कर	प्रासकर
४७९	२९	महकोट	मरुकोट	१७	१	मेरुसदन	मेरुनन्दन
४८१	१७	राजगृ(ह)ह, राजगृ(द्र)ह		१८	१	विद्याधयन	विद्याध्ययन
४८२	८	लकेरह	लवेरह	१८	९	प्राप्त	प्राप्ति
४८९	२२	श्रीघर	श्रीघर	१९	२	प०	पृ०
४८६	२९	सावक्ति	सावलि	१९	१६	लोकहिता-	लोकहिता-
४८८	९	दृषकुल	दृषकुल			चार्य	चार्य
		प्राक्कथन-प्रस्तावना		२२	२२	सातड	सातड
III	११	विषय	विषय	२४	१०	* * फुटनोट	पृ० २९
IV	६	अपभ्रंश	अपभ्रंश	२९	८	*	×
XVII	१	खिलजी	खिलजी	२९	१३	क	को
XVII	७	जिनदत्तसूरि	जिनहंससूरि	२९	१९	असकरण	आसकरण
XVII	१७	१६२८	१६९८	२६	१४	बोसी	बाला०
XVIII	१४	अविसत्त-	अविसयत्त-	२७	११	तेजसी	तेजसी ×
XXIII	११	मुद्रित	मुद्रित	२७	१९	शुद्धा ९	शुद्धा ९ ×
		सूची-अनुक्रमणिका		२७	१९	धाइर	थाइर
II	७	राजसोमा	राजसोम	२७	२२	×	*
II	२३	सरि	सूरि	२७	२२	तेजस	तेजसी
V	१३	सरि	सूरि	२७	२२	नी	नं०
V	१९	अभयतिलक-	अभयतिलक	२७	२२	सदामी	ससमी
VIII	१९	राजसमुद्र	राजसमुद्र	२८	२२	क्षमणा	क्षामणा
		राससार		३०	१९	सूर	सूरि
२	२२	शान्तिस्तव	शान्तिस्तव	३१	१९	गुड़	गुढा
८	१९	देल्लणदे	देल्लणदे	३२	२२	आव	आबू
९	१४	जिनचन्द्र	जिनचन्द्र	३३	१	द्रव्य	द्रव्य व्यय
१०	६	कल्याण	कल्याण	४०	९, ७...		७ औषधि

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
			निमित्त हल्दी	७१	१९	विरुद्ध	विरुद्ध
			न लेवं	७३	१०	मट्रोत्सव	पट्रोत्सव
४१	३	शिक्षा	दीक्षा	७६	२२	घर्ष	घर्ष
४९	१	लधि	लब्धि	७७	१९	हरिसागर	हीरसागर
५३	११	मेताराज	मेनारज	७९	१८	इवदन्त	दवदन्त
५३	१३	सम्यक्त्व	सम्यक्त्व	७९	२२	सरिजी	सूरिजी
५४	१	लक्ष्मोचंद्र	लक्ष्माचंद्र	८५	२१	जपकीर्ति	जयकीर्ति
५४	११	कुशललाभ	कुशलधीर	९०	६	चका	चूका
६४	६	संवेगेरग	संवेग रग	९१	२२	छोटा	छोटे
६६	१६	श्याम	साम	९२	१७	मुन्दर	सुन्दर
६८	४	शय्यभद्र	शय्यभद्र	१०४	६	चारित्र	चरित्र
७१	४	पट्टा	पट्ट	१०७	५	लाघशाह	लाघाशाह

हाल ही में “श्रीजिनरत्नसूरि निर्वाणरास” की एक प्रति उपलब्ध हुई है—जो हमारे संग्रह (नं० ३६१०) में है। उस प्रतिके पाठान्तर यहां लिखे जाते हैं :—

२३४	९	जुगति	जगत	२३६	गाथा ४ के बाद अतिरिक्त गाथा:-
२३४	११	शोभामें	शोभागइ		“पालता पांचे सुमति, भावना
२३४	१५	वान	भाग		मन भाव रे।
२३५	१६	तेथी	तिहांथी		जोधपुर नौ संघ सगलौ, देव-
२३५	२१	सीठ	सेठ		झर वंदावरे ॥”
२३६	१	वांदिवि	वंदावि	२३९	गाथा ११ वींका चतुर्थपाद:-
२३६	४	वेणइउच्छव	उच्छवसखर		“किण हा घावी घात”
२३६	१०	साह	लाह	२३८	७ बड़
२३६	१४	साबाश	जशवास	२३९	२ भूल तिका- मूल न कां-
२३७	२१	याचक	श्रावक		करी करो
२३७	२२	मुनि	मुखि	२३९	६ अनवइ अनवइ
२३८	६	श्रीपूज्य श्री	सु वध श्री	२४०	१८ विगत वीतग
			पूज्यजो	२४०	१० बखान विचार
				२४०	११ आदिस्यउ उपदिस्यउ

सम्पादकोंकी साहित्य प्रगति

(प्रकाशित लेखकोंकी सूची)

स्वतन्त्र ग्रन्थ	प्रकाशन स्थान	लेखक
विधवा कर्तव्य	अभय जैन ग्रन्थमाला पुष्प ४	अ०
सती मृगावती	” ” ” ३	भ०
युग प्रधान जिनचन्द्र सूरि	” ” ” ७	अ० भ०
ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह	” ” ” ८	अ० भ०
अन्य ग्रन्थोंमें		
मूर्तिपूजा विचार	जिनराज भक्ति आदर्श ” ६	अ०
पल्लोवालगाच्छ पट्टाचली	श्रीभात्मानन्द शताब्दी स्मारक ग्रंथ	अ०
जिन कृपाचन्द्र सूरि गहूली २२ गहूली संग्रह		अ०
जिन कृपाचंद्र सूरि	” ३ ” ”	भ०
स्तवन ७	पूजा संग्रह अ० जै० प्र०-सु-२	अ०
स्तवन ४	” ” ”	भ०
प्रश्नोत्तर १८-९-३१	सादा अने सरल प्रश्नोत्तर भाग २	अ०
सामयिक पत्रोंमें		
बीकानेरके जैन मन्दिर, आत्मानंद (गुजरांवाला)	वर्ष ३ अंक ११, १२ अ० भ०	
” ” ”	वर्ष ४ अंक १, २ ”	
श्रीनगरकोटतीर्थ वीनति	” ” वर्ष ४ अंक १	भ०
बीकानेरके ज्ञान मन्दिर, ओसवाल नवयुवक सं०	१९९० पो-मा० फा०, अ० भ०	
महत्तियाण जाति	” ” वर्ष ७ अंक ६	अ० भ०
ओसवाल जाति भूषण भैरूसाह	” ” वर्ष ७ अंक ७	अ०
ओसवाल वस्ती पत्रक	” ” वर्ष ७ अंक ११	अ०
जैन समाजके सामयिक वर्तमान पत्र, ओसवाल नवयुवक	वर्ष ८ अंक १ अ०	
मन्त्रीश्वर कर्मचन्द्र (यु० जिनचन्द्रसूरिसं उद्धृत)	” ” वर्ष ८ अं० २ अ० भ०	
कलकत्तेके जैन पुस्तकालय	ओसवाल नवयुवक वर्ष ८ अं० ३	अ०
सती प्रथा और ओसवाल समाज	” ” वर्ष ८ अं० ५ अ० भ०	
पूर्वकालीन ओसवाल ग्रन्थकार	” ” (प्रेषित) अ० भ०	
जैन साहित्यका प्रकाशन	ओसवाल सुधारक वर्ष २ अं० ३	अ०

लेखोंको इङ्गप जानेकी गजब करामात, ओस० सुधारक वर्ष २ अं० १९ अ०			
महावीर जयन्तीकी सार्थकता	„	वर्ष २ अं० २१ अ०	
भ्रमात्मक इतिहास		जैन सन् १९३०	भ०
कविवर समयसुन्दर साहित्य	जैन, पुस्तक ३३ अंक २३, २५ अ, भ०		
पट्टावलियोंमें संशोधनकी आवश्यकता	जैन पु० ३३ अंक २८		अ०
अलभ्य ग्रन्थोंकी खोज (अपूर्ण प्र०)	जैन पु० ३३ अंक ४०		अ०
सती वाव सम्बन्धी एक गम्भीर भूल, जैन पु० ३५ अंक			अ० भ०
वा० मो० शाहकी महत्त्वपूर्ण भूल	जैन १९।१२।३७		अ० भ०
भानुचन्द्र चरित्र परिचय	जैनजागृति (मासिक)		अ०
कविवर विनयचन्द्र जैनज्योति (मासिक)	सं० १९८८ अंक ९		अ० भ०
पुंजा ऋषिरास जैन ज्योति सं० १९८८ अंक ११			अ० भ०
जैन कवियोंका हीयाली साहित्य	„ सं० १९८९ अंक ३		अ० भ०
महाराष्ट्रीऔर पारसी भाषामें दोस्तवन, जैनज्योति सं० १९८९ अंक ७			भ०
बाल्यकाल और धार्मिक शिक्षा, जैनज्योति (साप्ताहिक) सं० १९९०			भ०
विचार प्रकाश	„ वर्ष १ अंक २८		अ०
स्थानक वासी इतिहास परिचय जैनध्वज	वर्ष २ अंक ८		अ०
सती चन्दनबाला—आलोचना	„ वर्ष २ अंक १४		भ०
सिन्धु प्रान्त और खरतरगच्छ	जैनध्वज		अ० भ०
प्रश्नोत्तर ३०	जैनधर्मप्रकाश पुस्तक ४७ अंक ११		अ०
प्रश्नोत्तर ११, १४, १४, २६	जैनधर्म प्रकाश पुस्तक ४८ अंक ४, ५, ८		अ०
प्रश्नोत्तर २०, २१, २५	„ „ ४९ अंक १, ४, ६		अ०
प्रश्नोत्तर २७, २२, ११, १५, १५, २०, ८	„ „ ५० अं० १, २, ५ से ९		अ०
प्रश्नोत्तर १९	„ „ ५१ अंक ६		अ०
प्रश्नोत्तर ३१	„ „ ५३ अंक ८, ९		अ०
देवचन्द्रजी कृत अप्रकाशित स्तवनपद	„ „ ४९ अंक ४, ८		अ०
„ „ „ „	„ „ ५० अंक ४, ८		अ०
„ „ „ „	„ „ ५१ अंक ६, ७		अ०
मस्तयोगी ज्ञानसारजी कृत ४ पद	„ „ ४८		अ०
साधु मथुर्यादा पट्टक	जैन सत्य प्रकाश वर्ष २ अंक ३		अ०
श्री महावीर स्तव (कविता)	„ वर्ष २ अंक ४-५		अ०

लुसप्राय जैनग्रन्थोंकी सूची	जैनसत्यप्रकाश	वर्ष २ अंक १०, ११ अ०
दो ऐतिहासिक रासोंका सार	„	वर्ष २ अंक १२ अ०
(सौभाग्यविजय और तपा देवचन्द्र रासका)		
युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि और सम्राट अकबर	„	वर्ष ३ अंक २-३ अ० भ०
दो खरतरगच्छोय ऐ० रासोंका सार	„	वर्ष ३ अंक ४, ५ अ० भ०
(जिनसिद्धसूरि, जिनराजसूरि रासका)		
कोचरशाहका समय निर्णय	„ प्रेषित	अ० भ०
दून काव्य सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातें, जैन सिद्धान्तभास्कर भा०	३ कि० १ अ०	
जैन पादपूति काव्य साहित्य	„ भाग ३ किरण २, ३ अ०	
लौका शाड और दिगम्बर साहित्य,	„ भाग ४ किरण १ अ०	
जैन ज्योतिष और वैद्यक ग्रन्थ	„ वर्ष ४ कि० २, ३ अ०	
क्या दिगम्बर सम्प्रदायमें खरतरगच्छ तपागच्छ थे ?	„ (प्रेषित)	
राजस्थानी भाषा और जैन कवि धर्मवर्द्धन, राजस्थान	वर्ष २ अंक २ अ०	
कविवर लक्ष्मीवल्लभ	„	अ०
अलवरके शिलालेखपर विशेष प्रकाश बीर सन्देश	वर्ष १ अ०	
जिनदत्तसूरि जयन्ती और हमारा कर्तव्य	„ वर्ष „ अ०	
तीर्थ गिरिराजोंके रास्ते	„ वर्ष २ अंक १ अ०	
द्विद्वि वर्द्धक प्रश्न	शिक्षण सन्देश	वर्ष ३ अंक २, ३, ४ अ०
बाल्यकाल और धार्मिक शिक्षा श्वेताम्बर जैन	भाग ४ अंक ३१ अ०	
कविवर विनयचन्द्र (कृत राजुल रहनेमि गीत)	„ भाग ४ अंक २५ अ०	
भ्रमात्मक इतिहास (जैनमें भी)	„ „ भाग ५ संख्या ३० अ०	
जैन साहित्यकी वर्तमान दशा	„ „ भाग ६ अंक १९ अ०	
सिन्धी भाषामें जैन साहित्य (अपूर्णा प्र०)	„ „ भाग ६ अंक २१ अ०	
फलौधी पार्श्व जिन स्तवधन (विनयसोमकृत)	„ „ भाग ६ संख्या ३० अ०	
श्वेताम्बरी मिथ्यात्वो और अपान्न हैं ?	„ „ भाग ८ अंक ३१ अ०	
साम्प्रदायिकताका उग्र विष	„ „ भाग १० अंक ११ अ०	
दादाजीकी वीनती (कविता)	„ „	अ०
जैन साहित्यका महत्व (अपूर्णा प्र०)	„ „	अ०

और भी कई लेख जैन, जैन ज्योति, बीर, जैन धर्म प्रकाश आदिके सम्पादकोंको भेजे हुए हैं पर वे अब तक प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

अप्रकाशित विशिष्ट निबन्धादि

सांकेतिक शब्दाङ्क कोष
 जैनेतरग्रन्थोंपर जैन टीकाएं
 सिन्धु प्रान्त और खरतरगच्छ (विस्तृत इतिवृत्त)
 कविवर जटमल नाहर और उनके ग्रन्थ
 लोंकामत और उसकी मान्यताएँ
 बीकानेर नरेश और जैनाचार्य
 श्रीजिनदत्तसूरि चरित्र
 बीकानेर जैन लेख संग्रह
 प्राचीन तीर्थमाला संग्रह
 अभय जैन पुस्तकालयका प्रशस्ति संग्रह
 खरतर विहद प्राप्ति
 खरतरगच्छ साहित्य सूची
 खरतरगच्छाचार्यादि प्रतिष्ठित लेख सूची
 खरतरगच्छकी ८४ नन्दियों
 भूतकालीन जैन सामयिक पत्रोंका इतिहास
 जैन पूजा साहित्य, कल्पसूत्र साहित्य
 सम्प्रक् दर्शन, मनुष्यभवकी दुर्लभता
 कविवर लक्ष्मीवल्लभ और उनका साहित्य
 मस्तयोगी ज्ञानसारजी और उनका साहित्य
 कविवर समयसुन्दर और उनका साहित्य
 उपाध्याय क्षमाकल्याणजी
 कविवर धर्मवर्द्धन (साहित्य)
 कविवर जिनहर्ष (साहित्य)
 कविवर रघुपति (साहित्य)
 छत्तीसीयें ४, स्तवन, पद, चन्द्रदूत काव्य आदि

श्रीकीर्तिरत्न सूरि, सागरचन्द्रसूरि आदि शाखाओंका इतिहास,
 अनेक भण्डारोंके सूचोपत्र और अनेकों ग्रन्थोंकी प्रेस कॉपियां इत्यादि ।

अवश्य पढ़िये !

शीघ्र खरीदिये !!

श्रीअभय जैनग्रन्थमालाकी

सस्ती, सुन्दर और उपयोगी पुस्तकें

१ अभयरत्नसार

अलभ्य

२ पूजा संग्रह—पृष्ठ ४६४ सजिल्दका मूल्य १) मात्र ।

भिन्न-भिन्न विद्वान कवियोंके रचित १७ पूजाओंके साथ कविवर समयसुन्दर कृत चौबीसी एवं स्तवनोंका संग्रह । अभी मूल्य घटाकर ॥) कर दिया है । मंगानेकी शीघ्रता करें ।

३ सती मृगावती—ले० भंवरलाल नाहटा ।

प्रातः स्मरणीय सती मृगावतीका सरल और रोचक भाषामें मनोहर चरित्र इस पुस्तकमें बड़ी ही खूबीके साथ अङ्कित है । पृ० ४० मूल्य =)

४ विधवा कर्तव्य—ले० अगरचन्द नाहटा ।

ताड़पत्रीय “विधवा कुलक” का सरल विस्तृत विवेचनात्मक भाषान्तरके साथ विधवा बहिनोंके सभी उपयोगी विषयों और कर्तव्योंपर प्रकाश डाला गया है । विधवाओंके मार्गदर्शक ६८ पृष्ठके ग्रन्थरत्नका मूल्य =)

५ स्नात्रपूजादिसंग्रह

अलभ्य

६ जिनराज भक्ति आदर्श

अलभ्य

७ युगप्रधान श्रीजिनचन्द्रसूरि—सजिल्द पृ० ४९० सचित्र मूल्य १)

यह ग्रन्थ हिन्दो जैन-साहित्यमें अद्वितीय है । किसी भी जैनाचार्यका जीवन चरित्र अब तक इस शैलीसे हिन्दोमें प्रकट नहीं हुआ है । इस ग्रन्थकी प्रशंसा बड़े-बड़े विद्वानोंने मुक्तकण्ठसे की है । सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ रायबहादुर महामहोपाध्याय गौरीशंकर हीराचन्द ओझाने इसपर सम्मति

और वकील मोहनलाल दलीचंद देसाइ बी० ए०, एलएल० बी० ने विद्वत्ता-पूर्ण विस्तृत प्रस्तावना लिखी है। इसकी उपयोगिताके विषयमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अल्पकालमें ही १००० प्रतियोंमें केवल ६० प्रतियां रहो हैं और इसका संस्कृत काव्य निर्माण होनेके साथ साथ इसके आधारसे बम्बईसे ९००० गुजराती ट्रेक्ट भी प्रकाशित हो गये हैं। अनेक विद्वानों और पत्र-सम्पादकोंकी संख्याबद्ध सम्मतियोंमेंसे केवल “जैन ज्योति” के विद्वान सम्पादक शतावधानी श्रीधीरजलाल टोकरसी शाहको सम्मतिका कुछ अंश उद्धृत करते हैं—


“सम्पूर्ण ग्रन्थ प्रमाण, उक्तिने आधार ग्रन्थो ना अवतरणो थो भरेलो. छे। ऐतिहासिक ग्रन्थो केवी रीते रचावा जोइए तेनो आ एक नमूनो छे। एम कही सकाय। अने आ नमूनो जोतां ऐतिहासिक ग्रन्थो केटलो परिश्रम मांगे छे ते स्पष्ट तरी आवे छे x x आवा ग्रन्थ नी. कीमत एक रुपियो जरूर सस्ती लेखाय।”

८ ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह—आपके कर-कमलोंमें विद्यमान है।

९ संघपति सोमजी शाह—लेखक तेजमल बोथरा।

इसमें अहमदाबादके सेठ शिवा, सोमजीके आदर्श साहमीवच्छल व धर्म कार्याका वर्णन बहुत ही रोचक और सुन्दर शैलीसे अंकित है।

निकट भविष्यमें ही खरतरगुच्छ गुर्वावली अनुवाद एवं श्रीजिनदत्तसुरि चरित्र आदि अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे।



The University Library.

ALLAHABAD.

142880

Accession No.....

Call No.... H. Hindi 810 - H
105

(Form No. 28 L 50,000-51)